



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 425] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 28, 2019/अग्रहायण 7, 1941
No. 425] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 28, 2019/AGRAHAYANA 7, 1941

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2019

फा. सं. 10-7/2019 वी सी आई.—भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 23 की उपधारा (1) के अनुसरण में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् से भारतीय पशु-चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर बनाए रखने की अपेक्षा की गई है जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम अतर्विष्ट होंगे जो मान्यता प्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हता धारण करते हैं और जो उस राज्य/संघ की पशु-चिकित्सा के पास तत्समय नामावलीगत है जिस पर अधिनियम का विस्तार है ।

सचिव, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद्, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 (1984 का 52) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देते हैं कि भारतीय पशु-चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर 2016 का अनुपूरक साधारण जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए ।

डॉ. बासुदेव सुनानी, सचिव (अतिरिक्त प्रभार)

[विज्ञापन III/4/असा./313/2019]

भारतीय पशु चिकित्सक रजिस्टर, अनुपूरक 2016

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1	वडथला वेंकटेश्वर आर/ श्री वडथला आनंद रेड्डी	पीएसवीसी/6051 / 15	काठीवडियापल्ली, गुन्नीकुंतला (ग्रा.), साम्बेपल्ली (मं.), वाईएस आर कडपा, आंध्रप्रदेश-516269	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2014	15.07.1990
2	नरेश पुथुरु/श्री पुथुरु प्रभाकर	पीएसवीसी/6052 / 15	बासवराजूपलेम (डाक), आत्माकुर (मं.), एस. पी.एस.आर. नेल्लोर जिला-524307, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	25.06.1989
3	मारीपुडी मधु/श्री मलयाद्री	पीएसवीसी/6053 / 15	म.न.:2-60, चाकलाकॉडा (ग्राम), (डाक) विंजनूर (मं.), एस.पी.एस.आर. नेल्लोर जिला -524221, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2014	08.06.1990
4	मौहम्मद निजाम हुसैन/श्री मौहम्मद नजीर हुसैन	पीएसवीसी/6054 / 15	म.न.:4-149/1, ज़फ़र नगर, मंचेरियल, आदिलाबाद, आंध्र प्रदेश-504208	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2014	01.01.1991

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
5	आई.ए. शांथा लथा / श्री आई.ए.एस. बाबू	पीएसवीसी / 6055 / 15	म.न.:6-2-312, ए.सी. गार्ड्स, हैदराबाद-500004, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	03.01.1992
6	दीपा पी. / श्री वेंकटरमन चौधरी	पीएसवीसी / 6056 / 15	15-49 / 1डी, दूसरा क्रॉस, पदमावती नगर,तिरुपति, चित्तूर जिला-517502, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2013	16.06.1989
7	सुरसुरा नागा सुवामा / श्री सुरसुरा नागन्ना	पीएसवीसी / 6057 / 15	डी.न.:26 / 922-1-1, नागेंद्र नगर, प्रोड्डाटूर, कडपा जिला-516360, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	01.11.1990
8	शाकिरा फातिमा / श्री मौह. महमूद अली	पीएसवीसी / 6058 / 15	म.न.:एस-2-64 / 3,जलालबाग कॉलोनी, संगी रेड्डी, मेडक जिला-502001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	17.03.1990
9	वुदुकुरा रामया / श्री वुदुकुरा रामना रेड्डी	पीएसवीसी / 6059 / 15	म.न.: 26 / 196-12, नेथाजी नगर रोड न. -2, बंगारइयाह कोटालु, रामेश्वरम, प्रोड्डाटूर, जिला कडपा-516360, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	18.07.1992
10	जंगा प्रकाश बाबू / श्री जंगा सूर्य नारायण	पीएसवीसी / 6060 / 15	डी.न.:2-33 / 1, प्रसांथी नगर, नरसीपटनम, विशाखापटणम- 531116, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	18.06.1989
11	अनकली वामसी कृष्णा / श्री ए.सी.नागेश्वर राव	पीएसवीसी / 6061 / 15	म.न.:22 / 52(बी)1, पानी की टंकी के निकट, पगीडयाला रोड, नंदीकोटकुर (डाक) एवं (मं.), कुर्नूल जिला-518401, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	04.05.1990
12	वुयाला रामू / श्री वुयाला अजनेयुलु	पीएसवीसी / 6062 / 15	डोर न.:3-157, ए.सी.कॉलोनी, अलूरीवारीपलेम, इक्कुरु डाक, नरसारावपेट, गुंटूर जिला- 522601, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	13.07.1991
13	डी. सूर्य नारायण रेड्डी / श्री डी. रामना रेड्डी	पीएसवीसी / 6063 / 15	32-455-1, धर्मावरम (मं.), अनंथपुरम जिला, पिन- 515671, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	02.06.1990
14	पी. सत्यनारायण नायक / श्री पी. बालू नायक	पीएसवीसी / 6064 / 15	म.न.: एस-7 / 636, एस.ए.पी. कैम्प नगर, बेल्लारी, चौरास्ता, कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश- 518003	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	01.06.1990
15	शेक ताहा अंसारी / श्री शेक अंसारी	पीएसवीसी / 6065 / 15	डी.न.:19-3-17, छोटी मस्जिद के निकट, संगीदिगुंटला, गुंटूर-522003, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	02.08.1991
16	प्रवीन कुमार कुरेला / श्री रामा राव	पीएसवीसी / 6066 / 15	कुरेला नीलायम, पुरितीपेटा, न्यू कॉलोनी, गजपतिनगरम (मं.), विजियानगरम जिला-535270, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2013	05.08.1990
17	बर्डरेड्डी श्रीकांथ रेड्डी / श्री थुलसी रेड्डी	पीएसवीसी / 6067 / 15	डी.न.: 1 / 56, पेड्डयामनूर (ग्रा.), वयालावाड़ा (मं.), कुर्नूल जिला-5155155, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	02.06.1990
18	गुम्माडी विनय कुमार / श्री गुम्माडी रामनाइयाह	पीएसवीसी / 6068 / 15	वेलीचरले (डाक), अलूर (मं.), एसपीएसआर, नेल्लोर जिला- 524315, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	15.06.1989
19	गली आर.अच्युता सिवा श्रीनिवास / श्री गली नागेश्वर राव	पीएसवीसी / 6069 / 15	डोर न. 67-4-4, पार्थवी श्री नीलायम, अशोक नगर, काकीनाडा- 533003, पूर्वी गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2013	05.03.1991
20	मोहना राव / श्री सत्यमु	पीएसवीसी / 6070 / 15	मेन रोड, मेराकामुडीडेम (ग्राम एवं मंडल), विजियानगरम जिला-535102, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2013	18.05.1989
21	लावेती प्रदीप कुमार / श्री लावेती कालीदासु	पीएसवीसी / 6071 / 15	भद्राचलम ग्राम, दोमता (डाक व मंडल), विजियानगरम जिला-535102, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	28.05.1990
22	बी. विजया लक्ष्मी / श्री बी. रामुलु	पीएसवीसी / 6072 / 15	म.न.:1-107, शांति नगर कॉलोनी, कोडंगलमंडल, महबूब नगर, जिला-तेलंगाना-509339	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	03.07.1991
23	गडम उदय कुमार / श्री जी. बालगंगन्ना	पीएसवीसी / 6073 / 15	डी.न.:1-48, इनुमाइलावारीपल्ली (ग्रा.), मुदीगुब्बा (मं.), अनंतपुर जिला-515511, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	27.04.1990

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
24	सिद्दुला निश्चला / श्री सिद्दुला पवन कुमार	पीएसवीसी / 6074 / 15	प्लॉट न. 116, म.न.:12-18, फेज-111, वेंकटाद्री टाउनशिप, चौदरीगुडा, हैदराबाद-500088, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	22.10.1990
25	मौह. अब्दुल बसीथ / श्री मौह. महमूद अली	पीएसवीसी / 6075 / 15	5-2-64 / 4, जलाल बाग कॉलोनी, संगार रेड्डी, मेडक जिला-502001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2013	22.08.1990
26	पाका पवनी / श्री पाका सारंगपानी	पीएसवीसी / 6076 / 15	म.न.:1-280, श्री रामनीलायम, इंद्रानगर, अंगडी रोड, नरसम पेट, वारंगल-506132, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	06.01.1991
27	मददीबोनिया सुब्बारायडु / श्री एम. सुब्बारायडु	पीएसवीसी / 6077 / 15	दड्डीरेड्डीपल्ली (डाक व ग्राम), कमलापुरम (मं.), कडपा जिला-516289, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2013	20.06.1989
28	सिद्दी रवीन्द्र रेड्डी / श्री एस. चिन्ना गोविंदा रेड्डी	पीएसवीसी / 6078 / 15	अराकटावेमुला (ग्राम एवं डाक), राजूपलम (मं.), कडपा जिला-516359, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2013	10.07.1988
29	बंडेला बाला सम्पथ कुमार / श्री बंडेला अर्जुनुडु	पीएसवीसी / 6079 / 15	डी.न.:3-20, अप्पना रामुनिलंका, ए.वी.पलेम डाक, सखीनेतीपल्ली -533252, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	04.08.1991
30	भूमा दीपा कुमारी / श्री भूमा प्रथपा रेड्डी	पीएसवीसी / 6080 / 15	डी.न.: 2-400, चाकाराजूवेंमुलु (ग्रा.), डोरनीपडु (मं.), कुर्नुल जिला-518135, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	01.03.1991
31	संतोषिनी चिंता / श्री सत्यनारायण	पीएसवीसी / 6081 / 15	म.न.: 5-1-300, द्वारा सत्य श्री स्क्रीन्स, टीचर्स क्लब रोड के पास, कोरुतला, करीमनगर, तेलंगाना जिला- 505326	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	05.07.1990
32	थल्लापल्ली सुकन्या / श्री थल्लापल्ली प्रभाकर	पीएसवीसी / 6082 / 15	मानिक्यपुर (ग्रा.), भीमादेवरा पल्ली (मं.), करीमनगर जिला- 505497, तेलंगाना	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	14.04.1992
33	गड्डम राधिका / श्री गड्डम यथागिरि	पीएसवीसी / 6083 / 15	म.न.: 2-78 / 2, धर्मसागर ग्राम एवं मंडल, वारंगल जिला-506142, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	22.12.1990
34	मुल्ला हुसैन बाशा / श्री मुल्ला मीरान साहेब	पीएसवीसी / 6084 / 15	म.न.: 5-198, कोटापेटा स्ट्रीट, बेटमाचेरला, कुर्नुल जिला- 518599, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	09.08.1990
35	इर्सावडला राजा रवि तेजा / श्री इर्सावडला नारायण	पीएसवीसी / 6085 / 15	म.न.:3-9-676, द्वारा सम्मा रेड्डी, यादव नगर, न्यू रेड्डी कॉलोनी, हनमकोंडा, वारंगल जिला-506011, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	10.01.1990
36	गंजी विश्वेश्वर कुमार / श्री गंजी शम्भुलिंगम	पीएसवीसी / 6086 / 15	प्लॉट न. 64, वीराभद्र नगर, हयाथ नगर, रंगा रेड्डी, जिला- तेलंगाना-501501	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	11.11.1992
37	बोगा पृथ्वीराज / श्री बोगा विष्णु	पीएसवीसी / 6087 / 15	म.न.: 7-3 / 1, एम.जी. रोड, बी. पोचमपल्ली, नालगोंडा जिला, तेलंगाना-508284	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	03.07.1990
38	गौउरु राजू / श्री गौउरु लक्ष्मा रेड्डी	पीएसवीसी / 6088 / 15	म.न.:1-97, अंकुशापुर (ग्रा.), मादीपल्ली (डाक), जामीकुंटा (मं.), करीमनगर जिला-505122, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	15.06.1991
39	पोट्टाबाथुला मल्लेश / श्री पोट्टाबाथुला रामुलु	पीएसवीसी / 6089 / 15	म.न.:19-166 / 1, पन्नालागुडेम (ग्राम व मंडल), नलेरेकल, नालगोंडा जिला-508211, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	24.05.1991
40	कौंधम सम्पथ / श्री कौंधम राजइयाह	पीएसवीसी / 6090 / 15	म.न.:2-19, ग्राम एवं डाक- पोन्नरम, मंडामारी (मंडल), आदिलाबाद जिला-504216, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	12.04.1989
41	मुदुरु महेश बाबू / श्री मुदुरु नरसिम्हा स्वामी	पीएसवीसी / 6091 / 15	म.न.: 3-169, कोनापुरम (ग्राम), कोटागुडा (मं.), वारंगल जिला-506135, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	19.08.1991
42	कोटकूरी युगेंधर रेड्डी / श्री कटकूरी रथ्नाकर रेड्डी	पीएसवीसी / 6092 / 15	म.न.:7-27 / 1, ग्राम- येल्ला रेड्डीपल्ली, धर्मरावपेट, मंडल- घानपुर, वारंगल जिला-506 345, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	11.02.1992

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
43	पूर्णिमा नारा/श्री वेंकट सुब्रह्मण्य एन.	पीएसवीसी/6093 / 15	विद्या नगर कॉलोनी, प्रेम नगर, पेड्डा मंडयम (मंडल व डाक), चित्तूर जिला-517297, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2013	20.07.1990
44	रंगा स्वामी के./श्री मेड्डीलेटी के.पी.	पीएसवीसी/6094 / 15	यादादिन्ने (ग्राम एवं डाक), आइजा (मं.), महबूबनगर जिला-509135, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2013	11.08.1987
45	के. सिरिषा/श्री के. सांथी सेखर	पीएसवीसी/6095 / 15	म.न.: 3-13, वडापल्ली, धामराचेरला मंडल, नालगोंडा जिला- 508355, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2013	19.02.1988
46	पोलुसानी श्रीप्रिया /श्री पोलुसानी श्रीनिवास राव	पीएसवीसी/6096 / 15	म.न.:2-121,हनुमंथुनीपेट (ग्रा), पेड्डापल्ली (मंडल), कशीमनगर जिला-505174, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2014	03.06.1992
47	दशरथी मधु/श्री डी. दिवाकर	पीएसवीसी/6097 / 15	म.न.: 11-151, विनायक नगर कॉलोनी,आचमपेट, महबूबनगर, जिला-509315, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2013	08.06.1988
48	रामीरेड्डी भुवनेश्वरी/श्रीआर. मल्लिकार्जुन रेड्डी	पीएसवीसी/6098 / 15	डी.न.: 1 / 15, राघव राजू पुरम, रेलवे कोडुर, कडपा- 516101, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2013	06.04.1991
49	वालुरु स्वैथा/श्री वी. कृष्णा रेड्डी	पीएसवीसी/6099 / 15	डी.न.: 1 / 106, शांति नगर, अक्काया पल्ली, कडपा जिला -516003, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2013	20.03.1990
50	सी. गंगा भवानी/ श्री चिट्ठीबोयिना कुडालइयाह	पीएसवीसी/6100 / 15	म.न.:4-7-99, एसबीआई कॉलोनी,प्रथम लेन, पुलीवेंडुला, कडपा जिला-516390, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2013	07.08.1989
51	सोप्पा सुप्रिया/श्री एस. श्रीनिवासुलु	पीएसवीसी/6101 / 15	डी.न.: 27 / 38, वसंथापेटा, रामेश्वरम रोड, प्रोडाटूर, कडपा जिला-516360, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2013	28.09.1989
52	मादीनेनी सिवा ज्योथि/श्री एम. संकरइयाह	पीएसवीसी/6102 / 15	डी.न.: 7-1-718, एनजीओ कॉलोनी, सिदावजम रोड, कोर्ट के पीछे, बडवेल, कडपा जिला-516227, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2013	14.08.1988
53	पी. सिवानंद रेड्डी /श्री पी. वेंकट रामी रेड्डी	पीएसवीसी/6103 / 15	38 / 6332, आचरी कॉलोनी, चिन्ना चौक, कडपा- 516002, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2013	06.04.1989
54	शोटा मल्ला संकीट /श्री टी. वेंकटी	पीएसवीसी/6104 / 15	म.न.:5-3-535, प्लॉट न. 188, विजयपुरी कॉलोनी, फेज- II, वनस्थलीपुरम, हैदराबाद- 500070, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2014	09.06.1991
55	नल्लाबोथुला लक्ष्मी /श्री एन. थिरुपालु	पीएसवीसी/6105 / 15	80-132, डी-4-ए, वेंकटाद्री नगर, बी-कैम्प डाक कुर्नूल- 518002, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2013	12.03.1989
56	वामशी कृष्णा रेड्डी एन/श्री राघव रेड्डी एन.	पीएसवीसी/6106 / 15	नागीरेड्डीपल्ली (ग्राम), नागल कडमूर (डाक), नलवा (मंडल), महबूबनगर-509130,आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2014	15.08.1990
57	पसुपुला भास्कर/ श्री पसुपुला बालना	पीएसवीसी/6107 / 15	म.न.:5-3/ए.कोटापल्ली(ग्रा.) (मं.),आत्माकुर (तालुक), कुर्नूल जिला-518502, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2013	09.06.1990
58	मुट्टे नवीन/श्री एम. नरसन्ना	पीएसवीसी/6108 / 15	म.न.:28 / 1245 / बी3, श्री निवृथिपुरम, नूनेपल्ली, नंडयाल (मं.), कुर्नूल जिला-518002, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2013	28.06.1990
59	अन्नपु रेड्डी बलावनकाटा /श्री ए. सामन्ना	पीएसवीसी/6109 / 15	म.न.: 4-1, मेन रोड, भीमावरम ग्राम, नधया (मं.), कुर्नूल जिला-518523, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2013	06.07.1987
60	कीलू अशोक कुमार /श्री के. प्रभाकर	पीएसवीसी/6110 / 15	म.न.: 4-4-3, नसीर मस्जिद के पास, बालाजी नगर, कुर्नूल जिला-518006, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2013	10.07.1989
61	शमशाद बेगम एस./श्री मौहम्मद रफी एस.	पीएसवीसी/6111 / 15	म.न.:50 / 827, देवा नगर, कुर्नूल- 518002, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2013	15.08.1990

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
62	पी. संध्या रानी / श्री पी. थिमप्पा	पीएसवीसी / 6112 / 15	म.न.:9 / 2232-1, टीचर्स कॉलोनी, येमियानूर, कुर्नूल जिला-518360, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2013	07.06.1989
63	स्वर्णलथा बोल्ली / श्री कृष्णुडु बी.	पीएसवीसी / 6113 / 15	म.न.: 2-56, ब्राह्मणकोटकूर (ग्रा.), नंधीकोटकूर (मं.), कुर्नूल जिला-518432, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2013	01.07.1989
64	पी. राधिका / श्री पी. कामेश्वर राव	पीएसवीसी / 6114 / 15	डोर न. ए / 575, बीडीएल भनूर, मेडक जिला-502305, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	10.09.1991
65	महेश पिंगुला / श्री मरिया दास पिंगुला	पीएसवीसी / 6115 / 15	टी.च.आर.पलेम (डाक), लिंगापलेम(मं.), पश्चिम गोदावरी, जिला-534462, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2013	08.06.1990
66	रामया नरमेटा / श्री मनोहर नरमेटा	पीएसवीसी / 6116 / 15	म.न.: 1-9-856, पोस्टल कॉलोनी, हनमकोंडा, वारंगल जिला, तेलंगाना-506001	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	28.02.1990
67	श्रीराम दिव्या / श्री श्रीराम श्रीनिवास	पीएसवीसी / 6117 / 15	म.न.:2-33, ग्राम अनाजीपुर, मंडल-भोंगीर, वाया-टेकुला सोमारम, नालगोंडा जिला-508285, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	04.09.1992
68	प्रवीन कुमार नूली / श्री नीलझ्याह एन.	पीएसवीसी / 6118 / 15	म.न.:18-90 / 1ए, एल.एम. कम्पाउंड, कोइलकुंतला (मंडल), कुर्नूल जिला-518134, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	15.07.1990
69	के. अरुणाचला सिवा कुमार रेड्डी / श्री कुटागुला चंद्र सेखर रेड्डी	पीएसवीसी / 6119 / 15	17-1-43, मनिकांता अपार्टमेंट, साई बाबा मंदिर के निकट, वेनुगोपाल नगर, अनंतपुर- 515005, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	12.09.1991
70	रासामल्ला सुरेश / श्री रासामल्ला ओडेलु	पीएसवीसी / 6120 / 15	म.न.:2-52, ग्राम- लिंगला, मंडल- रेगोंगा, जिला- वारंगल- 506348	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	24.08.1991
71	शेक असीफा / श्री याकूब अली	पीएसवीसी / 6121 / 15	म.न.: 8-73 / 1, जानी मेडिकल शॉप, नूथंकल (ग्रा. व मं.), नालगोंडा जिला, तेलंगाना राज्य- 505221	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2013	25.08.1990
72	बेल्लमकोंडा महेंद्र बाबू / श्री तिरुपथझ्याह	पीएसवीसी / 6122 / 15	नेदुरुपल्ली ग्राम एवं डाक, पोडालकूर (मंडल), नेल्लोर जिला-524309, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	16.04.1987
73	शेक जहांगीर पीरा / श्री शेक खासिम पीरा	पीएसवीसी / 6123 / 15	पामुला पल्ली गेट के निकट, तेल मिल कॉलोनी, म.न.:8-17 -110 / 15, 4बी, गिड्डालूर, प्रकासम जिला-523357, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	27.08.1991
74	अब्दुल मुजीर शेक / श्री गौस एस.एम.	पीएसवीसी / 6124 / 15	डी.न.:15-7-58, इस्लामपेट, एसपीपी रोड, पोन्नूर (मंडल), गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	18.08.1992
75	मोलुगु शैलजा / श्री मोलुगु मैसीहा	पीएसवीसी / 6125 / 15	एम. शैलजा, ग्राम-इलाबोरिम, मंडल-सैधापुर, जिला-करीम नगर-505468, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	28.03.1991
76	एन. नेथाजी / श्री एन. नरसिमुलु	पीएसवीसी / 6126 / 15	4-63, नज़र लिंगमझ्याह के पास, नीलीकुला वीडि, शंकरम पेट, मेडक जिला-5022271	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2013	15.07.1989
77	के. वेंकट साई राघवम्मा / श्री कोटीपल्ली कामेश्वर राव	पीएसवीसी / 6127 / 15	द्वारा हर्ष एक्लेव, जी-2, डोर न. 7-10-12 / बी, कावारी स्ट्रीट, अनकापल्ली, विशाखापटणम -531001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2013	30.06.1989
78	नंदाग्री स्वैथा / श्री नंदाग्री संकरझ्याह	पीएसवीसी / 6128 / 15	म.न.:27-774ए2, एनजीओ कॉलोनी, नंदयाल, कुर्नूल जिला-518501, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	15.05.1991
79	कट्टा ज्योत्सना / श्री कट्टा यादझ्याह	पीएसवीसी / 6129 / 15	म.न.: 5-28 / 4, मोटकूर (डाक मंडल एवं ग्राम), नालगोंडा जिला, तेलंगाना राज्य 508277	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2013	10.09.1989
80	सुवारी आई. सूर्य श्रवन / श्री वरहा नरसिम्बम	पीएसवीसी / 6130 / 15	डी.न.: 39-18-77, माधवधारा, विशाखापटणम- 530007, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	05.08.1989

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
81	कोटटे शिवा प्रसाद / श्री कोटटे शंकरइयाह	पीएसवीसी / 6131 / 15	क्वा.न.: 2467, नागार्जुन कॉलोनी, नसपुर, मंचेरला (मं.), आदिलाबाद जिला-504302, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2013	10.12.1988
82	पोन्नम रामाकृष्णा / श्री पोन्नम भूमइयाह	पीएसवीसी / 6132 / 15	डी-120, रामनगर, ए-जोन, रामा कृष्णापुर, मंडामारी, आदिलाबाद जिला-504301, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2013	14.03.1990
83	गोल्ला पवन कुमार / श्री जी. शिवराज	पीएसवीसी / 6133 / 15	प्लॉट न. 271, आदर्श नगर कॉलोनी, जहरीराबाद, मेडक जिला, तेलंगाना-502318	बीवीएससीएंडएएच / केवीएएंड एफएसयू, बिदर / 2014	22.08.1990
84	बालाजी नवीन कुमार के. / श्री कामन्ना कनिकरन	पीएसवीसी / 6134 / 15	डी.न.: 9 / 578 / 2, बाईपास रोड, कादिरी, अनंतपुर- 515591, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	23.08.1988
85	यू. शिवा कृष्णा / श्री शिवाराजइयाह	पीएसवीसी / 6135 / 15	म.न.: 4-5-146, बरकतपुरा, कामारेडडी-503111, निजामाबाद, तेलंगाना	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	29.01.1986
86	विपार्थी पी. नागा लक्ष्मी / श्री विपार्थी सत्य नारायण	पीएसवीसी / 6136 / 15	डी.न.: 5-20 / 1, वरमसेट्टी वारीपलेम, भीममनपल्ली, उपलागुप्तम मंडलम, जिला-पू.गोदावरी-533222, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2013	30.04.1989
87	बनवथ वेंकटेश्वर राव नाइक / श्री बनवथ कृष्णानाइक	पीएसवीसी / 6137 / 15	1-116, एल.बी.पलेम (ग्राम), थुमुलुरु (डाक), कोल्लीपारा (मं.), तेनाली तालुक, गुंटूर जिला-522304, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	10.08.1990
88	सागर श्रीगडी / श्री सथीश	पीएसवीसी / 6138 / 15	म.न.: 28-187, पानी की टंकी के पास, गोपालवाड़ा, मंडलम पूर्वी गोदावरी जिला-533222, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2013	19.03.1990
89	रवि किरन रेड्डी तविसला / श्री सिवा रेड्डी टी.	पीएसवीसी / 6139 / 15	द्वारा: पी.सत्य नारायण नाइक, म.न. : 57-636, एस.ए.पी.कैम्प, बेलारी चौरस्ता, कुर्नूल जिला- 518001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2014	12.06.1990
90	येमचे महेश कुमार / श्री वाई. शंकर राव	पीएसवीसी / 6140 / 15	म.न.: 1-55, ग्राम-हुंसा, मंडल-बोधन, जिला- निजामा बाद-503185, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एमएएंडए फएस यू, नागपुर / 2014	05.08.1989
91	स्वामी जगदीश नागनाथ / श्री स्वामी नागनाथ	पीएसवीसी / 6141 / 15	2-87, टाकली, मं.-मुधोल, जिला- आदिलाबाद- 504101, तेलंगाना	बीवीएससीएंडएएच / एमएएंडए फएस यू, नागपुर / 2009	28.03.1985
92	पार्थसारथी बी.सी. / श्री बी. चंद्रसेखर	पीएसवीसी / 6142 / 15	डोर न. 28-934 / 4, धर्मराज मंदिर स्ट्रीट, तेनाबांदा रोड, चित्तूर-517004, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2013	06.06.1988
93	गुज्जा पवन कुमार / श्री लिंगइयाह	पीएसवीसी / 6143 / 15	म.न.: 2-200, लाइन गड्डा, चेन्नूर (ग्राम व मंडल), जिला- आदिलाबाद-504201, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2013	04.10.1989
94	एस. गौसिया बेगम / श्री एस. मौह. युसुफ	पीएसवीसी / 6144 / 15	डी.न.: 12 / 400, घावीमट्ट, ताडीपाथरी रोड, बुक्काराया समुद्रम, अनंतपुर-515701, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2013	23.11.1989
95	काथम सुनीथा / श्री के. बाबू	पीएसवीसी / 6145 / 15	डी.न.: 14 / 460-डी, मुर्थिपल्ली रोड, कादिरी, अनंतपुरमु जिला -515591, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2013	11.07.1989
96	जी. जयश्री / श्री जी. वेंकट चलपति	पीएसवीसी / 6146 / 15	डोर न. 14 / 210 डी, करनम स्ट्रीट, मदकासिरा (डाक व मं.) अनंतपुर जिला- 515301, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2013	06.06.1989
97	नागा सिरिषा वाई / श्री सिवियाह वाई	पीएसवीसी / 6147 / 15	वेलेगाची (डाक), पेनागलूर (मंडल), वाई. एस.आर. कडपा जिला, आंध्र प्रदेश- 516127, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2013	23.07.1990
98	पालेम किशोर / श्री पी. श्रीनिवासलु	पीएसवीसी / 6148 / 15	डी.न.: 2-21, मारथडु ग्राम, मुडीगुब्बा (मंडल), अनंतपुरम जिला, आंध्र प्रदेश- 515511	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2013	05.06.1989
99	पी. मल्लिकार्जुन / श्री पी. नागेश्वर मूर्ति	पीएसवीसी / 6149 / 15	डी.न.: 14 / 114, सईदापुरम, कादिरी (मंडल), अनंतपुरम जिला- 515591	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2013	01.06.1988

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
100	पल्ला महेश/श्री पी. सिवा नारायण	पीएसवीसी/6150 / 15	डी.न.: 6-63, पोस्ट ऑफिस के निकट, नरसापुरम (ग्राम एवं डाक), वाया यादिका, अनंतपुरम जिला- 515408, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2013	20.06.1989
101	श्रीनाथ पारिकी/श्री इलिया	पीएसवीसी/6151 / 15	म.न.: 3-114, ग्राम- मोंडराई, मंडलम- संगेम, वारंगल जिला- 506331, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2013	13.05.1988
102	कांडरपल्ले अनिल वैजनाथराव/श्री कांडरपल्ल वैजनाथ	पीएसवीसी/6152 / 15	म.न.: 1-108, हनुमान वाड़ा मोघा मंडल, मदनोई, जिला- निजामाबाद- 503309, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/एमएएंडए फएसयू, नागपुर/2015	04.05.1988
103	अशोक पेरुमंडला/श्री श्री अनंत राव	पीएसवीसी/6153 / 15	म.न.: 1-105, महमूदपटणम ग्राम, केसामुदरम (मंडल), वारंगल जिला- 506112, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2013	21.07.1989
104	पोलापल्ली विजय सारथी/श्री पोलापल्ली वेंकटेश्वरलु	पीएसवीसी/6154 / 15	म.न.:6-65, पद्मशाली वीदी, इंगुरथी, केसामुदरम, वारंगल जिला-506112, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2013	14.11.1988
105	पटनाला ज्योत्सना प्रिया/श्री रामना प्रसाद	पीएसवीसी/6155 / 15	डी.न.: 9-125, गोपी कृष्ण कॉलोनी, तूरंगी, काकीनाडा (ग्रामीण), पूर्वी गोदावरी जिला-533106, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/पॉण्डी विवि / 2015	13.03.1991
106	बुरेला नागाबाऊ/श्री बी. सी. गोविंदप्पा	पीएसवीसी/6156 / 15	म.न.: 10ए/315, सब्जी बाजार के निकट, कल्याण दुर्ग, अनंतपुर जिला- 515761, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/पॉण्डी विवि / 2015	15.07.1992
107	वारीपल्ली नरेश/श्री वारीपल्ली उप्पलइयाह	पीएसवीसी/6157 / 15	म.न.: 1-160, नेल्लीकुडुरु (ग्राम एवं मंडल), वारंगल जिला- 506368, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	15.07.1991
108	वीवीएन सुरेखा गायथी देवी/श्री नागा सत्यनारायण चाक्का	पीएसवीसी/6158 / 15	7-4-51/8, अमनचिवारी स्ट्रीट, बाश्यम पब्लिक स्कूल के सामने, अनाकापल्ली, विसाखा जिला-531001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/पॉण्डी विवि / 2015	20.06.1990
109	धुलीपुडी कल्याण सैलजा/श्री धुलीपुडी वी. वी. सत्य सूर्य प्रसाद	पीएसवीसी/6159 / 15	डी.न.: 1-10, मेन रोड, डाक मल्लावरम, ताल्लेरेवु मंडल, ईस्ट गोदावरी जिला- 533464, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/पॉण्डी विवि / 2015	08.12.1990
110	कुंचम सिवा नागा प्रसाद/श्री कुंचम वीरा राघवलु	पीएसवीसी/6160 / 15	1-179, नीलापल्ली, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश -533464	बीवीएससीएंडएच/पॉण्डी विवि / 2015	02.07.1991
111	सत्ती बुली वेंकटरमना मूर्थि/श्री सत्ती सत्यनारायणा मूर्थि	पीएसवीसी/6161 / 15	डी.न.:2-20, अम्भेडकर बोम्मा वाडा, येदुरलंका, पोलावरम मंडल, पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश- 533464	बीवीएससीएंडएच/पॉण्डी विवि / 2015	21.08.1991
112	सयीब बिन अली मस्काटी/श्री अली बिन इब्राहिम मस्काटी	पीएसवीसी/6162 / 15	22-24-470, अलीजाह कोटला, चारमीनार, हैदराबाद - 500002, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	27.06.1989
113	जोरुगे नागार्जुन दीपक/श्री माणिक्य राव	पीएसवीसी/6163 / 15	डोर न. 3-160/10, 24वां वार्ड, बपतला, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश- 522101	बीवीएससीएंडएच/पॉण्डी विवि / 2015	16.04.1990
114	थोटा नवीन/श्री रगा राव	पीएसवीसी/6164 / 15	3-84/13, थोटावारी स्ट्रीट, पी. वेमावरम, समारलाकोटा (मंडल), पूर्वी गोदावरी- 533464, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	20.04.1990
115	कारुकोला किशोर/श्री रामचंद्र राव	पीएसवीसी/6165 / 15	तेल्लावरीपेटा (ग्राम), प्रिया ग्रहरम (डाक), पोलाकी (मंडल), श्रीकाकुलम जिला- 532430, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	17.06.1990
116	वूडीकला नरसिंगा राव/श्री वूडीकला रामबाबू	पीएसवीसी/6166 / 15	डी.न.: 3-11-33/1, चिन्ना वेधी रेचारले पेटा, काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला-533003, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2014	07.06.1991
117	मातली कृष्णकांत/श्री मातली आनंद रेड्डी	पीएसवीसी/6167 / 15	17-2, बालिजपाली वेस्ट, भाकरापेट, चित्तूर जिला- आंध्र प्रदेश- 517194	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	04.07.1993

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
118	पानुगंडी कृष्णावैनी / श्री पी. मुरलीधर	पीएसवीसी / 6168 / 15	म.न.: 3-48, कोसल्ला स्ट्रीट, चगलामम, अल्लागडा, कुर्नूल जिला- 518553, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	05.06.1991
119	नसपुरी श्रीकांत / श्री नसपुरी सथइयाह	पीएसवीसी / 6169 / 15	म.न.: 1-15, 1925, 1, बालाजी नगर, कागज नगर, आदिला बाद- 504296, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	17.11.1989
120	तलारी गंगाधर / श्री तलारी आनंद	पीएसवीसी / 6170 / 15	म.न.: 1-29, न्यू पोचमपड (ग्राम), निरमा (मंडल), आदिलाबाद- 504106, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	20.08.1990
121	वेमुरी स्पर्धि / श्री वेमुरी अब्राहम राजू	पीएसवीसी / 6171 / 15	कोडुरुपडु, बाडुलुपडु मंडलम, कृष्णा जिला- 521110, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	24.05.1991
122	वेंकट पृथ्वी रेड्डी सुक्का / श्री एस.वी.एस. धर्मेन्द्र राव	पीएसवीसी / 6172 / 15	58-16-52, शांति नगर, म्युनिसिपल पार्क के निकट, एन.ए.डी.कोटा रोड, विशाखा पटनम-530009, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	09.08.1990
123	नंदी वेंकट रामना गणेश / श्री नंदी श्रीनिवास राव	पीएसवीसी / 6173 / 15	डी.न.: 8-12-77 / ए, नागोजीपेटा, एस.पी. बंगले के निकट, विजियानगरम- 535003, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	08.01.1992
124	प्रियादर्शिनी मांडंगी / श्री लक्कइयाह	पीएसवीसी / 6174 / 15	डी.न.: 2-307 / 3, बालाजी नगर, तीसरे बीएन एपीएसपी क्वा. के सामने, काकीनाडा- 533005, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	21.12.1989
125	कोयाना उदय शंकर / श्री कोयाना नागेश्वर राव	पीएसवीसी / 6175 / 15	डी.न.: 43-106-52ए, यूएसआर रोड, नंदामुर नगर, अजीत सिंह नगर, विजयवाड़ा, कृष्णा जिला- 520015, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	12.06.1992
126	गुंडा रविकांथ / श्री गुंडा मुरली कृष्णा	पीएसवीसी / 6176 / 15	डी.न.: 3-136, पी.पी.रोड, राम मंदिर के निकट, वीरावसरम (ग्राम व मंडल), पश्चिमी गोदावरी जिला- 534245, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	16.04.1991
127	कुम्मा सिवा कुमारी / श्री कुम्मा कृष्णा	पीएसवीसी / 6177 / 15	एस.टी. कॉलोनी, तल्लाचेरु (ग्राम), अचेमपेटा (मंडल), गुंटूर जिला- 522409, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	05.01.1992
128	मदादा ललिथा / श्री मदादा नागेश्वर राव	पीएसवीसी / 6178 / 15	द्वारा: गोसारा अप्पाराव, थटिया कुलापलेम, ओटीममिडी (डाक), थोंडगी (मंडल), पूर्वी गोदावरी -533408, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	16.08.1990
129	बी. मौनिका यादव / श्री बी. वेंकटेश	पीएसवीसी / 6179 / 15	डी.न.: 2-157, प्लॉट न.: 34, टी.टी.डी. प्लॉट्स, एम.आर.पाली, तिरुपति-517502, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	04.04.1993
130	अविरेड्डी अनिल कुमार / श्री अविरेड्डी आधिनारायण	पीएसवीसी / 6180 / 15	द्वारा ए.एस. चंद्र राव, डी.न.: 45-46-91 / 1, श्रीनिवास नगर, 80 फीट रोड, अक्काया पलेम, विशाखापटनम-530016, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	03.01.1992
131	दुप्पाला बाला मुरलीधर राजू / श्री दुप्पाला राजा राव	पीएसवीसी / 6181 / 15	गोकर्णापल्ली (ग्राम एवं डाक), पोंडुरु (मंडल), श्रीकाकुलम जिला- 532168, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	14.07.1991
132	गुरुगुबेली अवा राजू / श्री गुरुगुबेली डाली नाथ	पीएसवीसी / 6182 / 15	गोकर्णापल्ली (ग्राम एवं डाक), पोंडुरु (मंडल), श्रीकाकुलम जिला- 532168, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	04.08.1990
133	वेंकट राव ए.एन. गोपासिना / श्री बाबूराव गोपासिना	पीएसवीसी / 6183 / 15	म.न.: 6-86 / बी.एटी.एपी पलेम, मेदीवाड़ा डाक, रविकांतम मंडल, विशाखापटनम जिला- 531025, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	13.05.1988
134	तांतेपुडी दीपक डैनियल / श्री तांते पुडी निरीक्षण राव	पीएसवीसी / 6184 / 15	डी.न.: 44-10-7, पुल्लाराव स्ट्रीट, गुनडला, विजयवाड़ा कृष्णा जिला-520004, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	28.01.1991
135	शेख अब्दुल करीम / श्री शेख खासिम साहेब	पीएसवीसी / 6185 / 15	डी.वी. पलेम (ग्राम), पामूर (मंडल), (डाक) प्रकासम जिला-523108, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	25.07.1992
136	कौंडिन्या यू / श्री यू मलयाद्री	पीएसवीसी / 6187 / 15	म.न.: 49-440 / 2 / ए, बापूनगर, चिंतल, हैदराबाद- 500054, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	08.05.1992

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
137	कमलापुरम अशोक कुमार/श्री कमला पुरम रंगास्वामी	पीएसवीसी/6188 / 15	म.न.:1 / 1556, गांधी नगर, येम्मिगनूर, कुर्नूल जिला- 518360, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	07.07.1991
138	हर्षवर्द्धन देवांडला /श्री नरसइयाह	पीएसवीसी/6189 / 15	9-13/ए, नेहरु नगर, छठी लाइन, कल्कि मंदिर के पास, कंडुलापुरम, कुम्बम, प्रकासम जिला-5233333, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	02.08.1989
139	कोराडा बालासंदीप /श्री कोराया पेंटइया	पीएसवीसी/6190 / 15	म.न.:1-311, एससी एंड एसटी कॉलोनी, के.एल.पुरम ग्राम, विजियानगरम (मंडल) जिला- 535333, गोकर्णपल्ली (ग्राम एवं डाक), पोंडुरु (मंडल), श्रीकाकुलम जिला-532168, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	15.07.1992
140	मौहम्मद अब्दुल रहीम/श्री शेख महबूब	पीएसवीसी/6191 / 15	म.न.: 3-47, तडकल ग्राम, कांगटी (मंडल), मेदक जिला- 502287, तेलंगाना	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	24.07.1991
141	बोरा वेंकट बालेश्वर राजू/श्री बोरा अवजइयाह	पीएसवीसी/6192 / 15	5-102, गवर्न कालेज के सामने, मेन रोड, कोमारोल (ग्राम, डाक व मंडलम), पोंडुरु (मंडल) श्रीकाकुलम जिला- 532168, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	10.07.1991
142	कनुकुलु राजू/श्री कनुकुलु येलइयाह	पीएसवीसी/6193 / 15	म.न.: 3-14-252, यादवनगर, हनमकोंडा, वारंगल-506001, गोकर्णपल्ली ग्राम एवं डाक, पोंडुरु मंडल, श्रीकाकुलम जिला-532168, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	05.04.1992
143	बुलुसु सुभाष चंद्रा/श्री बुलुसु वी. भास्कर राव	पीएसवीसी/6194 / 15	डोर न. 26-134, रेलवे स्टेशन, उमा भारती आईटीआई कॉलेज के पास, सुगनावरपु कोटा, विजियानगरम जिला- 535145, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	08.08.1992
144	दिरीसिला वेंकट शिवाजी/श्री दिरीसिला वेंकटेश्वरलु	पीएसवीसी/6195 / 15	4-42, पाटा नागी रेडडी पल्ले, चितला, चेरुवु डाक, गुंटूर जिला-522659, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	30.08.1993
145	बड्डुला श्रीनिवास /श्री बड्डुला राजाकोमुरइयाह	पीएसवीसी/6196 / 15	म.न.: 3-46, यादवनगर, हुजुराबाद (ग्राम एवं मंडल), करीमनगर- 505468, टी.एस.	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	19.03.1990
146	बाथुला राम चंद्र रेडडी/श्री बाथुला चंद्र मौली रेडडी	पीएसवीसी/6197 / 15	4-81, रेंतला (ग्रा), रेंताचितला (मंडल), गुंटूर जिला-522421, गोकर्णपल्ली (ग्राम एवं डाक), पोंडुरु (मंडल), श्रीकाकुलम जिला-532168, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	20.05.1992
147	गुगुलोथ रमेश/श्री जी. समल	पीएसवीसी/6198 / 15	कटरम (ग्राम), कटरम (मंडल), करीमनगर जिला- 505503, टी.एस.	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	10.06.1991
148	मेदिधा रेणुका/श्री मेदिधा राजी रेडडी	पीएसवीसी/6199 / 15	म.न.: 2-234, गोपालपुरम (ग्राम), दुरशेड (डाक), करीमनगर (मंडल) एवं जिला- 505001, टी.एस.	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	10.02.1992
149	जी. जीविथा/श्री जी. वेंकटेश्वरलु	पीएसवीसी/6200 / 15	माधवनी पल्ली, अमराबाद, महबूबनगर, जिला- 509204, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	15.04.1991
150	बोड्डु यामिनी/श्री बोड्डु थिरुपथइयाह	पीएसवीसी/6201 / 15	म.न.: 6-8-244/1, कामेश्वर राव कॉलोनी, शिवाजी नगर, नालगोंडा- 508001, टी.एस.	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	15.08.1992
151	येलमेती रवीना/श्री येलमेती राजन्ना	पीएसवीसी/6202 / 15	म.न.: 14728, टाउन चर्च के सामने, एसबीएच कॉलोनी, जहीराबाद, मेडक जिला- 502220, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	04.08.1991
152	आर. स्वाथि/श्री आर. गंगया	पीएसवीसी/6203 / 15	माल (ग्रा.), नल्लावीली एक्स रोड, यचारम (मं.), रंगा रेडडी जिला-501509, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	05.04.1991
153	वंगला दिव्या भारथी/श्री वंगला चेन्नाकिट्टइयाह चारी	पीएसवीसी/6204 / 15	म.न.:5-4-85/एफ/15/6, तैयम नगर, वन टाउन पुलिस स्टेशन के निकट, महबूबनगर- 509001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	06.02.1991
154	सृजना वाडलाकुंटा /श्री जीवरथनम वाडलाकुंटा	पीएसवीसी/6205 / 15	म.न.:7-1-227, द्वारका नगर, गटइयाह सेंटर, खम्मम जिला-507002, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	27.08.1989

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
155	मसु सुजाथा / श्री मसु लक्ष्मइयाह	पीएसवीसी / 6206 / 15	म.न.:17-56, 26वां वार्ड, पुराना मंचेरियल, मंचेरियल (मं.), आदिलाबाद जिला-504208, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	26.08.1991
156	सपोगु प्रनिथा / श्री एस. जयप्रभु	पीएसवीसी / 6207 / 15	1 / 1819-1ए, गांधीनगर, येमनीगनूर, कुर्नूल जिला- 518360, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	15.04.1990
157	पूजारी प्रमिला / श्री पूजारी सत्यनारायण चारी	पीएसवीसी / 6208 / 15	म.न.: 5-1-87, वल्लीनगर कॉलोनी, वन टाउन पुलिय स्टेशन, महबूबनगर, महबूबनगर जिला-509001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	30.05.1992
158	थाउटी स्वाधि / श्री थाउटी वेंकटइयाह	पीएसवीसी / 6209 / 15	म.न.:1-96, गंगपुर (ग्राम), गुरालगोंडी (डाक), चिन्नाकोडूर (मंडल), मेडक 502276, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	16.03.1992
159	एन. वेनुमाधव / श्री पन्. सत्यनारायण	पीएसवीसी / 6210 / 15	म.न.:11-59, गुंटूरपल्ली (डाक), करीमनगर (मंडल), (मंडल) एवं जिला- 505001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	22.02.1989
160	कतरावथ रवि / श्री कतरावथ नानू	पीएसवीसी / 6211 / 15	म.न.: 3-72, के.के.कुंटा, चम्पापेट सरूर नगर (मंडल), हैदराबाद-500079, आर.आर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	16.05.1989
161	गुंटी श्रीषा / श्री गुंटी ज्ञानसुंदर राव	पीएसवीसी / 6212 / 15	बी / 806, हिल कॉलोनी, नागार्जुन सागर, पेडावूरा (मं), नालगोंडा जिला-508202, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	18.01.1991
162	पेड्डागोनी स्वप्ना / श्री पेड्डागोनी अंजइयाह	पीएसवीसी / 6213 / 15	म.न.:6-3-265, गीता विज्ञान हार्ड स्कूल के पास, रामागिरि, नालगोंडा-508001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	12.06.1992
163	वाई. भुवनेश्वरी / श्री वार्ड स्वामी दास	पीएसवीसी / 6214 / 15	एमपीडीओ कार्यालय, मनोपड (ग्राम व मं.), आलमपुर (ता.), महबूबनगर जिला-509128, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	10.07.1992
164	मौहम्मद नौशीन / श्री मौहम्मद अरुण रशीद	पीएसवीसी / 6215 / 15	म.न.:9-69 / 1, एपीजीवीबी बैंक लेन, माइबेली बाजार, थोरूर (मं.), वारंगल जिला- 506163, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	24.03.1993
165	दिगुमारथी सूसन केसी / श्री डी. लिविंग स्टोन	पीएसवीसी / 6216 / 15	म.न.:8-2-684 / 132 / 5 / डी, एन.बी.टी. नगर, बंजारा हिल्स रोड न.-12, हैदराबाद- 500034, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	04.06.1992
166	केथावथ हाथीराम / श्री केथावथ रामज्या	पीएसवीसी / 6217 / 15	म.न.:1-89 / 3, मोक्था वेंकटापुर (ग्राम), चौदापुर(डाक), कुल्का चेरला (मं.), रंगारेड्डी- 509340, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	06.06.1990
167	राथलावथ रमेश / श्री राथलावथ मोहन	पीएसवीसी / 6218 / 15	म.न.:5-10, यचारम (ग्रा.), गांधारी (मंडल), येल्लारेड्डी ता., निजामाबाद-503145, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	13.06.1990
168	कोल्ली यमुरा गांधी / श्री के. रामजासेखर	पीएसवीसी / 6219 / 15	12-89121, एसवीआईटीसी के पीछे, चितलपेटला, गन्नावरम कृष्णा जि. -521101, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	18.05.1992
169	जी. थेजस्विनी / श्री जी. भास्कर रेड्डी	पीएसवीसी / 6220 / 15	प्लॉट न. 198, गोपाल नगर, हैदर नगर (ग्रा.), बालनगर (एम), हैदराबाद-500049, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	17.10.1992
170	मनुपडु अंनेयुलु / श्री मनुपडु येलइयाह	पीएसवीसी / 6221 / 15	म.न.: 35-25, वल्लभनगर, 14वीं स्ट्रीट, वनापथी (ग्रा. व मं.), महबूबनगर जिला-509103, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	24.08.1992
171	आदिरेंडिया श्रवण कुमार / श्री आदिरेंडिया लिंगइयाह	पीएसवीसी / 6222 / 15	म.न.: 5-99, चेरकुपल्ली ग्राम, केठेपल्ली (मंडल), नालगोंडा जिला-508211, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	11.03.1992
172	एस. श्रीनिवास / श्री नारायण नाइक	पीएसवीसी / 6224 / 15	म.न.: 1-5-33 / 6, टीचर्स कॉलोनी, नारायणापेट (ग्राम व मंडल), महबूबनगर जिला- 509210, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	07.02.1991
173	परका वसंत कुमार / श्री परका सारइयाह	पीएसवीसी / 6225 / 15	म.न.:2-69, कन्नूर (ग्रा. व मं.), कमलापुर (मंडल), कशीमनगर जिला-505101, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	15.06.1991

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
174	गोल्ले अशोक / श्री गोल्ले किश्टइयाह	पीएसवीसी / 6226 / 15	म.न.: 4-76 / 1, मल्लनापल्ली (ग्रा.), कटनापल्ली डाक, चोप्पाडंडी (मं.), करीमनगर जिला-505531, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	16.05.1989
175	शिव कुमार / श्री लोकेन्द्र	पीएसवीसी / 6227 / 15	म.न.: 11-1, हनुमान स्ट्रीट, बोआथ (ग्रा. व मं.), आदिलाबाद -504304, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	02.12.1989
176	पित्ताला अनिल / श्री पित्ताला इलइयाह	पीएसवीसी / 6228 / 15	म.न.: 1-15, मूटापल्ली (ग्रा.), रायकल (मंडल), करीमनगर जिला-505460, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	18.06.1989
177	कलाकोटला विश्वास / श्री कलाकोटला याकूब	पीएसवीसी / 6229 / 15	म.न.: 19-9-372 / बी, आंध्रा बैंक के पीछे, शम्पुनी पेट, वारंगल-506002, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	07.08.1991
178	डी. रवीन्द्र / श्री डी. नरसइयाह	पीएसवीसी / 6230 / 15	म.न.: 1-113, मोथकुरावपेट (ग्रा.), गोविंदरम (डा.), मेडीपल्ली (मं.), करीमनगर जिला-505306, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	15.05.1990
179	गंडले सुजन कुमार / श्री गंडला नरसइयाह	पीएसवीसी / 6231 / 15	म.न.: 10-64, सोअन (ग्रा.), निरमा (मं.) आदिलाबाद जिला-504105, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	07.09.1991
180	अराबती शिवाजी / श्री अराबती सम्बइयाह	पीएसवीसी / 6232 / 15	म.न.: 1-9, गणेशपल्ली (ग्रा.), पेड्डाकोमाटीपल्ली डाक, मोगल्लापल्ली (मं.), वारंगल जिला-506366, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	14.05.1991
181	जुपाका शशांक / श्री जुपाका इलइयाह	पीएसवीसी / 6233 / 15	म.ए 4-105, दांडेपल्ली (ग्रा.), इल्काथुर्टी (मंडल), करीमनगर जिला-505101, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	25.08.1991
182	नैनी मुथयमरेड्डी / श्री नैनी किष्टारेड्डी	पीएसवीसी / 6234 / 15	म.न.: 1-97 / 1, संगमेश्वर (ग्रा.), डोमाकोंडा (मंडल), निजामाबाद जिला-503123, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	14.08.1991
183	जनागम रमेश / श्री जनागम लिंगइयाह	पीएसवीसी / 6235 / 15	म.न.: 1-62 / ए, नेताकनी वाड़ा, एल्काथुर्टी (ग्रा. व मं.), करीमनगर जिला-505476, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	20.03.1990
184	बोम्मू वेंकटेश / श्री यादइयाह	पीएसवीसी / 6236 / 15	म.न.: 2-3, अमलूर (ग्रा.), गुर्रमपोडे (मंडल), नालगोंडा- 508256, टी.एस.	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	07.07.1990
185	पूलापल्ली श्रीनिवास / श्री पोल्लापल्ली सत्य नारायण	पीएसवीसी / 6237 / 15	कामरम ग्राम, शंकरमपेट आर. (मं.), मेडक जिला- 502248, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	06.07.1992
186	रत्नावथ नागेंद्रबाबू / श्री रत्नावथ श्रीनिवास	पीएसवीसी / 6238 / 15	एम.जी.नगर, थांडा (ग्रा.), कुडा कुडा (डा.), चिवेमला (मं.), नालगोंडा जिला-508213, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	15.06.1991
187	अप्पानी शिरीषा / श्री अप्पानी नागेश्वर	पीएसवीसी / 6239 / 15	म.न.: 3-33, कोठापल्ली (ग्रा.), भीमदेवरापल्ली (मं.), करीम नगर जिला-505497, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	29.06.1992
188	शिवारचकम पवन कल्याण / श्री शिवारचकम वीरइयाह	पीएसवीसी / 6240 / 15	वेंकशेवरम (ग्रा.), आमराबाद (मं.), महबूबनगर जिला- 509201, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	02.02.1990
189	बेल्लमकोंडा मोनिका रेड्डी / श्री बेल्लाकोंडा रवीन्द्र रेड्डी	पीएसवीसी / 6241 / 15	म.न.: 10-3 / 4, श्रीपुरम कॉलोनी, करीमनगर-505001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	28.11.1991
190	गुडुरु राम्या / श्री गुडुरु उमा महेश्वर	पीएसवीसी / 6242 / 15	म.न.: 7-8-147, हजार स्तम्भ मंदिर के निकट, मछली बाजार, हनमकोंडा, वारंगल जिला- 506011, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	25.07.1991
191	मेदी दीथी / श्री मेदी सुरेश	पीएसवीसी / 6243 / 15	2-8-109, इंदिरा नगर, भोंगीर, नालगोंडा जिला- 508116, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	20.07.1992
192	वेंगला श्रावंध / श्री कर्रा जोहर रेड्डी	पीएसवीसी / 6244 / 15	म.न.: 1-11-63, वीवर्स कॉलोनी, जनगांव, वारंगल जिला-506167, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	04.05.1991
193	कर्रा यशस्विनी / श्री कर्रा जोहर रेड्डी	पीएसवीसी / 6245 / 15	म.न.: 1-7-1203, बी-2, मनितेजा टावर्स, एडवोकेट्स कॉलोनी, हनमकोंडा, वारंगल जिला-506002, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	22.02.1992

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
194	एन. स्वप्ना/श्री एन. प्रदीप	पीएसवीसी/6246 / 15	म.न.: 7-5-48/1, वेंकटेश्वर कॉलोनी, महबूब नगर- 509001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	12.08.1992
195	मंडा अभिलाष/श्री मंडा रवीन्द्र	पीएसवीसी/6247 / 15	म.न.:3-86/2, कोप्पूर (ग्रा.)ख भीमदेवरापल्ली (मं.), करीमनगर जिला-505497, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	23.07.1992
196	नैनी अनिल रेड्डी/श्री नैनी राम रेड्डी	पीएसवीसी/6248 / 15	म.न.:1-98/3,संगमेश्वर (ग्रा.), दोमाकोंडा (मं.), निजामाबाद -503123, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	02.07.1991
197	रासमल्ला श्रवन कुमार/श्री रासमल्ला याकइयाह	पीएसवीसी/6249 / 15	म.न.: 18-65, गुडूर (ग्रा.), गुडूर (मं.), वारंगल जिला- 506104, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	15.05.1991
198	गनाडेपल्ली प्रियंका त्रिनाथ मूर्थि	पीएसवीसी/6250 / 15	डी.न.: 27-260, अपन्नापलेम, पंचायत कॉलोनी, पेंडुर्थी (मं.), वेपागुंटा, विशाखापटणम जिला-530047, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	04.05.1993
199	बंडारु कीर्ति/श्री बंडारु वेंकट सम्यनारायण	पीएसवीसी/6251 / 15	म.न.:306,चिलीज मेंशन, रेड्डी कॉलेज के सामने, नल्लापडु रोड, मिर्ची यार्ड, गुंटूर जिला-522005, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	01.05.1992
200	हनुमंथु रमेश/श्री हनुमंथु रामा मूर्थि राव	पीएसवीसी/6252 / 15	डी.न.: 3-17-6, आदर्श नगर पार्क, बालाजीपेटा, राजामुंदरी, पूर्वी गोदावरी जिला-533101, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	02.05.1992
201	वीरापनेनी भावना/श्री वी. वेंकट सुब्बाराव	पीएसवीसी/6253 / 15	जे.डी.टावर्स,ब्लॉक-11,प्लैट न. 242,ऑटोनगर गेट के सामने, पतामाता, विजयवाड़ा, कृष्णा जिला-520010, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	31.01.1992
202	टाटा अनामिका/श्री आटा रमेश बाबू	पीएसवीसी/6254 / 15	डी.न.: 14/161-2, स्टेशन रोड, गुडीवाडा-521301, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	25.08.1993
203	रामाकुर्थी हिमजा/श्री रामाकुर्थी त्रिमुर्थुलु	पीएसवीसी/6255 / 15	डी.न.:2-159-5, अंजनेया नगर, 3एपीएसपी रोड न.-3, काकीनाडा-533005, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	18.10.1991
204	वारीकुटी दीपिका/श्री वारीकुटी एस.आर.के. वाराप्रसाद	पीएसवीसी/6256 / 15	डी.न.:4-13, हॉस्पिटल स्ट्रीट, वानापल्ली, कोठापेटा (मं.), पूर्वी गोदावरी जिला-533225, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	12.05.1992
205	ईस्लावथ श्री हरि नायक/श्री ई. थिरुपल नायक	पीएसवीसी/6257 / 15	गोपालपुरम(ग्रा.), वेलीचलमाला (डाक), एन. पी.कुंटा (मं.), कादिरी, अनंतपुर जिला-515581, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	17.08.1991
206	वी. अशोक कुमार /श्री वी. वेंकट रमन	पीएसवीसी/6258 / 15	थुडुमलाडिन्ने (ग्राम एवं डाक), खाजीपेट (मं.), कडपा जिला- 516203, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	05.04.1991
207	अंडेला भद्रइयाह/श्री अंडेला नागराजा	पीएसवीसी/6259 / 15	डी.न.: 3/9, पाठाजंगमपल्ली, पोलीमेरपल्ली(डाक), चिनागोला पल्ली (ग्रा.), टी.सुंदुपल्ली (मं.), कडपा जिला-516130, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	05.06.1990
208	बुसी बरमइयाह/श्री बुसी पूरणचंद्र राव	पीएसवीसी/6260 / 15	पेंडुडागरला पडु (ग्रा.), ब्राह्मण पल्ली (डाक), दाचेपल्ली (मं.), जिला-522414, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	10.07.1992
209	मल्लेना तारकेश्वर राव/श्री मल्लेना अब्बायी	पीएसवीसी/6261 / 15	मल्लेनावारीपेट (ग्रा.), हरिपुरम (डाक), श्रीकाकुलम जिला- 532243, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	02.02.1991
210	नेमला गोपी/श्री नेमला पम्पाराजू	पीएसवीसी/6262 / 15	जी.मुसलयापेट,कृष्णापुरम (डा), थोंडांगी (मं.), पूर्वी गोदावरी जिला-533408, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	03.01.1991
211	केल्ला भार्गवी सथ्या/श्री केल्ला रवि कुमार	पीएसवीसी/6263 / 15	म.न.:9-72, मार्केट के निकट, कोंडरोथूपेटा, उंडी, प.गोदावरी जिला-534199, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	09.08.1992
212	इलुरी अशोक/श्री इलुरी अंजइयाह	पीएसवीसी/6264 / 15	गांधी नगर, 5वीं लाइन, मेदरामेटला (डाक), कोरिसापडु (मं.), प्रकासम जिला-523212	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	28.05.1989

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
213	पम. निरोशा / श्री एम. पुरुषोत्तम	पीएसवीसी / 6265 / 15	डी.न.: 7-77, पदमावथी पुरम, तिचन्नूर रोड, तिरुपति- 517 507, चित्तूर जिला-आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	25.02.1992
214	शेख मौहम्मद यूनुस / श्री शेख महबूब बाशा	पीएसवीसी / 6266 / 15	डी.न.: 10 / 517-1, डी.सी.एस.आर.कॉलोनी, प्रोड्डाटूर, कडपा जिला-516360, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	16.06.1991
215	गुरु वारालक्ष्मी / श्री गोरु नरसिंगा राव	पीएसवीसी / 6267 / 15	डोर न. 16-7-62, देवांगुला वीथी, फजुलबेग पेटा (डाक), श्रीकाकुलम-532001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	30.07.1993
216	दसारी साई भवानी / श्री देसारी श्रीनिवास	पीएसवीसी / 6268 / 15	डोर न.: 12-66-4, लकमसनी वारी स्ट्रीट, पुराना शहर, वार्ड न.-2, तानुका-534211, जिला पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	19.06.1993
217	मुदादा दीप्थी / श्री मुदादा जनार्दन राव	पीएसवीसी / 6269 / 15	-डी.न.: 7-114, साई नगर, सौभाग्य लक्ष्मी कल्याण मंडपम के पास, नरसन्नापेट, श्रीकाकुलम जिला-532421, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	21.06.1992
218	सारीकौंडा साई सतीश राजू / श्री श्रीकौंडा साईदाम राजू	पीएसवीसी / 6270 / 15	डी.न.: 21-24-11 / 1, राजुला कॉलोनी, रामालिंगेश्वर पेट, तेनाली गुंटूर जिला-522201, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	02.06.1993
219	अरीसेट्टी भव्या सांथि / श्री अरीसेट्टी श्रीनिवास राव	पीएसवीसी / 6271 / 15	डी.न.: 24-19-62, नलियाचेरु, वर्कर्स कॉलोनी, 9वीं लेन, गुंटूर- 521003, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	05.08.1992
220	जाजुला चिंतइयाह / श्री जाजुला अंजनेयुलु	पीएसवीसी / 6272 / 15	11 / 98-ए, वराला स्ट्रीट, गुडीवाडा, कृष्णा जिला- 521301, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	31.12.1990
221	बिल्ला पूर्णा चरन / श्री बी.वी. रवीन्द्र नाथ	पीएसवीसी / 6273 / 15	क्वा.नं.: पी-224 / 3, टाइप III, नाद कॉलोनी, नाद(डा.), विशाखापटणम-530009, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	16.04.1992
222	मेट्टा अभिषेक / श्री मेट्टा कृष्ण चंद्र राव	पीएसवीसी / 6274 / 15	46-13-12-6, मंडावरी स्ट्रीट, डोंडापारथी, विशाखापटणम- 530016, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	23.08.1991
223	कंचराना श्रीगंधा / श्री कंचराना चिन्ना बाबू	पीएसवीसी / 6275 / 15	डी.न.: 23-3-227 / ए, रोटरी नगर, पलासा (मं.), श्रीकाकुलम जिला-532222, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	05.07.1991
224	तेलीदेवरा सत्या वेंकट अनिल / श्री तेलीदेवरा एस.वी. कामेश्वर राव	पीएसवीसी / 6276 / 15	फ्लैट न. 102, शिरदी साई अपार्टमेंट्स, वुयुरु.तोतलावलुरु रोड, कृष्णा जिला-521165, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	10.07.1993
225	गंटा राधिका / श्री गंटा सत्यनारायण	पीएसवीसी / 6277 / 15	डी.न.: 43-110, अग्राहरम स्ट्रीट, बोबिली, विज़ियानगरम जिला-535558, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	01.07.1993
226	कोयाना दीपिका / श्री कोयाना सूर्यनारायण राव	पीएसवीसी / 6278 / 15	गुरवम (ग्रा.), राजम (मं.), श्रीकाकुलम जिला- 532127, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	12.06.1991
227	ईडी सुमथी रानी / श्री ईडी वेंकट राव	पीएसवीसी / 6279 / 15	डी.न.: 60 / 27 / 89, इंडस्ट्रियल कॉलोनी, मलकापुरम, विशाखा पटणम- 530011, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	15.04.1992
228	लोकावरपु फणि कुमार / श्री लोकावरपु अप्पलानायडु	पीएसवीसी / 6280 / 15	डी.न.: 20-1-122, सारधा नगर, (चौथी लाइन), पानी की टंकी के निकट, बालीघाटम (ग्रा.), नरसीपटनम(मं.), विशाखापटणम जिला- 531116, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	20.05.1991
229	जामी जगदेश / श्री जामी टाटा राव	पीएसवीसी / 6281 / 15	पडनरसापुरम (ग्रा.), रामबिली (मं.), विशाखापटणम- 531061, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	14.08.1990
230	पोलीनायडु पोटनुरु / श्री पाकिरु पी.	पीएसवीसी / 6282 / 15	डोर न. 6-13, रामायलम के सामने, चीरा स्ट्रीट, कोट्टुरु (ग्रा. व मं.), श्रीकाकुलम-532455, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	10.07.1990
231	टी. उषा / श्री टी.के. अंजनेयुलु	पीएसवीसी / 6283 / 15	प्लॉट न. 183, प्लैट न. 202, वेंकटरमन निवास, न्यू मारुथि नगर, मल्कजगिरि, हैदराबाद- 500040, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	07.05.1990

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
232	पुलीजला स्वप्ना / श्री पुलीजला रामलिंगइयाह	पीएसवीसी / 6284 / 15	खिल्लापुरम (ग्रा.), थुग्नापहाड़ (डाक), मिरयलगुडा (मं.), नालगोंडा जिला-508207, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	10.06.1991
233	बूरेला भारथ / श्री बूरेला सत्यनंदा राव	पीएसवीसी / 6285 / 15	टी-3, 3-16सी-65 / 1, टांगीरला रेजिडेंसी, शांतिनगर, काकीनाडा-533003, पू.गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	01.06.1991
234	नल्ला प्रियंका / श्री नल्ला आनंद राव	पीएसवीसी / 6286 / 15	म.न.: 8-24-30, सुब्बाराव स्ट्रीट, गांधीनगर, काकीनाडा -4, पू.गो.जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	14.07.1991
235	बिज्जम पुष्पलथा / श्री बिज्जम नागेश्वर रेड्डी	पीएसवीसी / 6287 / 15	अंजनेयाकोट्टालु (ग्राम एवं डाक), खाजीपेट (मं.), करीम नगर-505153, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	04.06.1993
236	बुक्या पुष्पलथा / श्री बिज्जम नागेश्वर रेड्डी	पीएसवीसी / 6288 / 15	कोट्टुवारी पल्ली (ग्रा.), अमाडगूर (मं.), अनंतपुरम जिला- 515556, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	10.12.1991
237	बंधरापू क्राधि / श्री बंधरापू शंकर	पीएसवीसी / 6289 / 15	मिर्जमपेट, कलवाश्रीपुर (मं.), करीमनगर-505153, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	02.07.1992
238	अजमीरा स्वाधि / श्री अजमीरा राजू	पीएसवीसी / 6290 / 15	गंगीरेनीगुडेम (ग्रा.), श्यामपेट (मं.), वारंगल जिला- 506640, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	16.06.1993
239	पेडाडा पदमावथी / श्री पेडाडा सत्यनारायण	पीएसवीसी / 6291 / 15	गोकमापल्ली (ग्राम एवं डाक), पोंडुरु (मंडल), श्रीकाकुलम जिला-532168, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	24.07.1991
240	कोट्टाकुना अनीता / श्री कोट्टाकुना सूर्य राव	पीएसवीसी / 6292 / 15	डोर न. 1-97, जारजंगी (ग्रा. व डाक), कोटाबोम्मली (मं.), श्रीकाकुलम जिला-532195, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	16.08.1991
241	गुडिया प्रियंका / श्रीगुडिया टाटानंदा रेड्डी	पीएसवीसी / 6293 / 15	डोर न.:53-18-33 / 1, मादिला पलेम, समाजिका भवन के पास, सिवालयम स्ट्रीट, पीएंडटी कॉलोनी डाक, विशाखापट्टणम -530013, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	01.08.1991
242	अन्नेपु राजेश्वरी / श्री अन्नेपु रामू	पीएसवीसी / 6294 / 15	धर्मापुरम (ग्राम एवं डाक), एस.एम.पुरम (वाया), पोंडुरु (मं.), श्रीकाकुलम जिला-532402, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	06.08.1992
243	उगरीपल्ली विनोद / श्री उगरीपल्ली सोमनाथम	पीएसवीसी / 6295 / 15	पेढावीधी (एस), हरिपुरम (ग्रा. व डा.), मंडासा (मं.), श्रीकाकुलम जिला-532243, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	20.12.1991
244	हन्ना कुमारी मडिला / श्री मडिला संजीव राजू	पीएसवीसी / 6296 / 15	डी.न.: 20-5-38, अम्बेडकर नगर, गवारापलेम, अनाकापल्ली, विशाखापट्टणम जिला-531002, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	08.11.1990
245	पलुचुरी वेंकटरमन / श्री पलुचुरी संजीवा	पीएसवीसी / 6297 / 15	द्वारा:पी. वेंकट चलपथि, डोर न.: 10-258, टीचर्स कॉलोनी, प्रोड्डाटूर, वाई.एस.आर. कडपा जिला-516360, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	10.06.1989
246	आवुला श्रीजा / श्री आवुला सुधाकर गौड़	पीएसवीसी / 6298 / 15	म.न.: 8-6-77, पदमावथी कॉलोनी, महबूबनगर- 509002, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	09.04.1992
247	ससि वर्मा गोदावर्थी / श्री जी. मोहन राव	पीएसवीसी / 6299 / 15	डोर न.: 39 / 329-3, नंदीगाम कृष्णा जिला- 521366, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	01.12.1991
248	एम. नवीन कुमार रेड्डी / श्री एम. सिवा रेड्डी	पीएसवीसी / 6300 / 15	म.न.: 4-11 / ए, मंडलम (ग्रा.), जुपाडु बंगला (मं.), नंदीकोट्टूर (ता.), कुनूल जिला-518401, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	10.06.1990
249	नल्ला बोथुला सिवानंद / श्री नल्ला बोथुला वेंकट नायडु	पीएसवीसी / 6301 / 15	म.न.: 1-210, चबोलु (ग्राम), नंदयाल (मं.), कुनूल जिला- 518502, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	16.04.1992
250	पी. विनोद कुमार / श्री पी. चेन्ना कृष्णइयाह	पीएसवीसी / 6302 / 15	6-64, पदमावथीपुरम, तिरुचन्नूर रोड, तिरुपति, चित्तूर जिला- 517503, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	14.03.1989

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
251	मंगा अनिल / श्री मंगा बीरइयाह	पीएसवीसी / 6302 / 15	म.न.:20-25, गोलागुडेम, गुडुर (ग्राम व मंडल), वारंगल जिला -506134, म.न. :1-210, चाबोलु ग्राम, नंदयाल (मं.), कुर्नूल जिला-518502, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	05.08.1991
252	तुलाबंदुला नव्या / श्री तुलाबंदुला श्रीनिवास राव	पीएसवीसी / 6304 / 15	म.न.: 3-36, गुडीवाडा (डाक), तेनाली (मं.), गुंटूर जिला- 522307, म.न.:1-210, चाबोलु ग्राम, नंदयाल (मं.), कुर्नूल जिला-518502, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	11.02.1991
253	कारी सुनेल गांधी / श्री कारी गांधी	पीएसवीसी / 6305 / 15	40-15-2, साई कृष्णा, चिवीरी वीधी, मंगलवारपु पेटा, राजामुंदरी, पूर्वी गोदावरी जिला- 533101, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	23.10.1990
254	तेल्लापति सुदर्शन / श्री तेल्लापति चेंचइयाह	पीएसवीसी / 6306 / 15	डी.न.: 8 / 5, नवभारती स्कूल स्ट्रीट, कालूवोया (ग्रा., डाक व मं.), एसपीएसआर नेल्लोर जिला- 524343, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	28.07.1991
255	कुंता प्रशांथ कुमार / श्री कुंता सेमइयाह	पीएसवीसी / 6307 / 15	म.न.:4-69 / 55 / 6, विद्यारनाया पुरी-2, अपोलो रीच अस्पताल के सामने, करीमनगर एम, जिला -505001, म.न.:1-210, चाबोलु ग्राम, नंदयाल (मं.), कुर्नूल जिला-518502, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	12.07.1991
256	प्रणय कुमार / श्री आलम प्रभु	पीएसवीसी / 6308 / 15	म.न.:1-66 / 5 / बी, एनटीआर कॉलोनी, धारपल्ली ग्राम, धारपल्ली (डा.व मं.), निजामाबाद जिला- 503135, टीएस	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	30.11.1991
257	पेंडा गनेश कुमार / श्री पी. अंजइयाह	पीएसवीसी / 6309 / 15	1-75 / 1, नागीरेड्डीपल्ली, पोथारेड्डीपल्ली, कोहिर (मं.), मंडक जिला-502210, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	10.07.1990
258	मचरला मनोहर कुमार / श्री मचरला वेंकटेशम	पीएसवीसी / 6310 / 15	म.न.: 1-1-1455, वेंकटाद्री नगर, काजीपेट, वारंगल- 506003, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	06.09.1990
259	कटकम राजावर्दन / श्री कटकम शंकर	पीएसवीसी / 6311 / 15	म.न.: 5-1-371, एलआईसी लेन, रटाला पम्प स्ट्रीट, कोरुतला, करीमनगर जिला- 505326, टी.एस.	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	11.04.1991
260	मोदलावालसा तरुण / श्री मोदलावालसा चंद्र मोहन राव	पीएसवीसी / 6312 / 15	डी.न.: 3-32, केसवरावपेट (ग्रा), एस.एम. पुरम (डाक), इचरला (मं.), श्रीकाकुलम जिला-532402, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	01.08.1992
261	मनेरी स्वर्णलथा / श्री एम.बी. कैलासपथि	पीएसवीसी / 6313 / 15	डी.न.:1-90, बोया वीधी, बुकराया समुद्रम (ग्राम व मं.), अनंतपुर जिला-515701, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	05.06.1991
262	दुदाला श्रीनिवास / श्री डी. वेंकट सूर्यनारायण	पीएसवीसी / 6314 / 15	डी.न.:11-2, वनम रोड, कासी नाधमपुरम, तुरंगी, काकीनाडा (रूरल), पूर्वी गोदावरी जिला- 533016, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	22.04.1993
263	मोहन वामसी दुवु / श्री प्रभाकर राव	पीएसवीसी / 6315 / 15	पी.एन.कॉलोनी, फर्स्ट लेन, एमआईजी-68 के सामने, श्रीकाकुलम-532016, म.न. :1-210, चबोलु ग्राम, नंदयाल (मं.), कुर्नूल जिला-518502, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	19.02.1992
264	बुडीरेडला गिरीषा / श्री बुडीरेडला रामा लिंगेश्वर राव	पीएसवीसी / 6316 / 15	मरलावा, पेडापुरम (मं.), पूर्वी गोदावरी जिला- 533437, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	23.04.1992
265	चिंता किरनमई / श्री चिंता रवि कुमार	पीएसवीसी / 6317 / 15	डी.न.:1-391 / 2, एसआरएमटी कॉलोनी, सीटीसी चर्च के पास, रायडुपलेम, काकीनाडा पूर्वी गोदावरी जिला-533005, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	04.08.1992
266	देवरापल्ली श्रीकला / श्री देवरापल्ली वेंकट रामी रेड्डी	पीएसवीसी / 6318 / 15	डोर न.: 1-100, रामाचंद्रपुरम (ग्राम व डाक), कोइलाकुटला (ता.), डारेनीपडु (मं.), कुर्नूल जिला-518135, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	19.08.1992
267	शबीना सुल्ताना शेख / श्री गौस बाशा शेख	पीएसवीसी / 6319 / 15	डोर न.: 19-38 / ए, डब्बा सेंटर, वीनुकोंडा, गुंटूर जिला- 522647, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	19.04.1993

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
268	वाई. प्रदीप कुमार रेड्डी / श्री वाई. नरसिम्हा रेड्डी	पीएसवीसी / 6320 / 15	मलकटीपल्ली (ग्रा.), वोंटीमिट्टा (मं.), कडपा जिला - 516216, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	25.08.1990
269	पुलिमी विष्णुवर्धन रेड्डी / श्री पुलिमी लक्ष्मन रेड्डी	पीएसवीसी / 6321 / 15	जारुगुमल्ली (ग्राम, डाक व मं), प्रकासम जिला-523274, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	17.08.1991
270	लंकीपल्ली रेड्डी भव्या / श्री लंकी पल्ली सुब्रमन्यम	पीएसवीसी / 6322 / 15	18-1-469 / 2, भवानी नगर, सिल्वर ओक स्कूल के निकट, तिरुपति 517501, चित्तूर जिला	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	31.05.1991
271	अकुथोटा लक्ष्मीपार्वथी / श्री ए. गंगी रेड्डी	पीएसवीसी / 6323 / 15	2-10, सूर्यपकासम ग्राम, गजुलामंडयम डाक, रेनीगुटा (मं.), चित्तूर जिला-517520, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	20.08.1993
272	आर. शिवकुमार / श्री आर. सुदर्शन	पीएसवीसी / 6324 / 15	म.न.:11-128 / 1, मार्केट रोड, गांधीनगर, कलवाकुथी, महबूब नगर जिला-509324, टी.एस.	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	10.08.1990
273	कुरुवा वेंकटेश / श्री के. श्रीनिवासुलु	पीएसवीसी / 6325 / 15	म.न.: 2-23, बोडेपडूर (ग्राम), थिप्पानूर (डाक), गोनेगाडिया (मं.), कुर्नूल जिला-518463, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	13.05.1990
274	मुल्ला महम्मद अली / श्री एम. अकबर वली	पीएसवीसी / 6326 / 15	म.न.: 2-34, लड्डागिरि (ग्रा.), कोडुमूर (मं.), कुर्नूल जिला- 518468, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	10.06.1990
275	गोपालइयाह वेंकटेश सन नगागौथमी / श्री गोपालइयाह वेंकटेश	पीएसवीसी / 6327 / 15	10 / 47, के.वी.कॉलोनी, बराथी नगर, चंद्रगिरि, चित्तूर जिला- 517101, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	28.05.1991
276	पलावलासा सूर्य राव / श्री पलावलासा लक्ष्मु	पीएसवीसी / 6328 / 15	गोकमपल्ली (ग्राम एवं डाक), पोंडुरु (मं.), श्रीकाकुलम जिला-532168, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	05.05.1990
277	उचुलुरी चंद्रा सेखर / श्री उचुलुरी नरसिम्हा राव	पीएसवीसी / 6329 / 15	डी.न.:8-104, आरएंडबी बंगले से पहले,सिंगरायाकोंडा,प्रकासम जिला-523101, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	10.08.1991
278	मुनुकुतला साई भासकर / श्री मुनुकुतला सिवा रामा कृष्णा	पीएसवीसी / 6330 / 15	पेडारायावरम, रंगमपेट (मं.), पूर्वी गोदावरी जिला-533291, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	29.03.1992
279	बडुकोंडा सुरेश कुमार / श्री बडुकोंडा अप्पला नायडु	पीएसवीसी / 6331 / 15	गुनुपुरेपेटा (ग्रा.), डेंकडा (मं.), विजियानगरम जिला- 535006	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	18.05.1991
280	भूपथि गौथम / श्री भूपथि सत्यनारायण	पीएसवीसी / 6332 / 15	द्वारा ब्रांच लाइब्रेरी, बुवीरेड्डी पलेम, एसपीएसआर नेल्लोर जिला-524006, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	14.08.1993
281	सिखा हरम्या / श्री सिखा सुबइयाह	पीएसवीसी / 6333 / 15	35-3-68 (36), हिल टावर्स, सीथारामपुरम,ओंगोल, प्रकासम जिला-523001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	14.04.1992
282	यगती उमा महेश्वरी / श्री यगती मुखालिंगम	पीएसवीसी / 6334 / 15	डी.न.: 40-13-69, धर्मा नगर, कांचरापलेम के निकट, विशाखापटणम-530008	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	31.05.1991
283	मोथुकुरी प्रशांथ / श्री मोथुकुरी शंकर	पीएसवीसी / 6335 / 15	म.न.: 68 / 487, दूसरा जोन, मंडामारी, असदिलाबाद जिला- 504231, टी.एस.	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	11.08.1992
284	दावलुरी तुलसी / श्री दावलुरी वेंकट नरसिम्हा बुची बाबू	पीएसवीसी / 6336 / 15	म.न.:6-28, वेल्बडम, माइलावरम (मं.), कृष्णा जिला- 521230	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	03.08.1993
285	गेड्डम विजया दुर्गा / श्री गेड्डम रामाचंद्र मूर्थि	पीएसवीसी / 6337 / 15	डी.न.: 5-2, वैदयानगर-3, एपीएसपी के पीछे, वकलापुडी, काकीनाडा-533005, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	24.05.1993
286	धन प्रियंका / श्री धन बहादुर	पीएसवीसी / 6338 / 15	डोर न.: 3-24 / 27 / 14, पेड्डा चेरुवु, 9वीं लाइन, नरसारावपेट, गुंटूर जिला-522601, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	26.08.1991
287	मुनिगोंडा वेंकट साहित्य / श्री मुनिगोंडा श्रीनिवासुलु	पीएसवीसी / 6339 / 15	फ्लैट न. 303, श्रीनिवास पैराडाइज़, श्रीनगर, 7 / 7 लाइन, गुंटूर-522003, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	19.10.1991

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
288	अदापला थिरुमला प्रियादर्शिनी/श्री अदापला थिरुमला वेंकटरमन	पीएसवीसी/6340 / 15	म.न.: 6/861, संकरापुरम, कडपा-516002, वाईएसआर कडपा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	26.05.1992
289	बोया सुनील कुमार/श्री बोया श्रीनिवासुलु	पीएसवीसी/6341 / 15	म.न.:211, पल्लेपडु (ग्रा.), मानवीपडु (मं.), महबूबनगर जिला-509128, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	12.06.1992
290	अमुदम अभिलाश/श्री अमुदम रामुलु	पीएसवीसी/6342 / 15	म.न.: 2-6-135, संजीवइया नगर, सिरसिला, करीमनगर जिला-505301, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	21.05.1991
291	पीनुपोथुला सोनी/श्री पीनुपोथुला नागार्जुन राव	पीएसवीसी/6343 / 15	डी.न.:70-17-27/2, एनएफ सीएल रोड, थ्यागराया नगर, काकीनाडा-533003, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	29.01.1993
292	कैगाला रामा माहना राव/श्री के. मुरली कृष्ण	पीएसवीसी/6344 / 15	द्वारा आर.एस.आर. कृष्णा राव (रिटा. जेवीओ), डोर न.: 16बी-11-7, थंगेलामुडी, रामलायम के निकट, इलुरु, पश्चिम गोदावरी जिला- 534005, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	21.07.1992
293	पलापार्थी गनेश कुमार/श्री पला पार्थी कोटेश्वर राव	पीएसवीसी/6345 / 15	डोर न.:3-23-13/3, पेड्डाचेरु, 12वीं लाइन, नरसारावपेट-522601, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	25.08.1990
294	नक्का ऐश्वर्या/श्री नक्का जयप्रकाशम	पीएसवीसी/6346 / 15	डोर न. 10-76/9, गुररेड्डी कॉम्प्लेक्स, बंगनापल्ली, कुनूल जिला-518124, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	08.07.1992
295	पल्ली सागरिका/च. एस.पी. वेंकट रामना	पीएसवीसी/6347 / 15	यूडी/एलडी-626, न्यू बी कॉलोनी, वीटीपीएस, इब्राहीम पटनम, कृष्णा जिला-521 456, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	06.02.1992
296	चकाली इरेशा/श्री चकाली वेंकटेश	पीएसवीसी/6348 / 150	म.न.:7/105, चकाली वीडी, नंदावरम (ग्रा. डाक व मं.) यूम्मीगनूर (ता.), कुनूल जिला-518124, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	06.04.1991
297	मांडला सुमन/श्री मांडला देवादन	पीएसवीसी/6349 / 15	म.न.: 4-44, बी, थंडरापडु (ग्राम एवं डाक), कुनूल मंडल एवं डाक)- 518007	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	23.03.1991
298	वेमुरी संथोष/श्री वेमुरी बुचइयाह	पीएसवीसी/6350 / 15	म.न.:10-48-ए, गिरि प्रसाद कॉलोनी, लक्ष्मीदेवी पल्ली, कोठागुडेम (मं.), खम्मम जिला -207101, टी.एस.	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	29.11.1989
299	माधवम स्वाथि कृष्णा/श्री एम. रामाकृष्णा	पीएसवीसी/6351 / 15	पलैट न. 103, श्री सत्य साई एंवलेव, आरटीसी बस स्टैंड के सामने, कडपा-516001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	26.08.1990
300	भुक्का मधु/श्री भुक्का वैस्या	पीएसवीसी/6352 / 15	चेन्ईपलेम (ग्रा.), वर्धापुरम (डाक), मट्टपल्ली (मं.), जिला नालगोंडा-508204, टी.एस.	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	10.01.1991
301	वांगीपुरापु साई पूर्णिमा/श्री वांगीपुरापु वीरा ब्रह्मचारी	पीएसवीसी/6353 / 15	डी.न.: 61-23-2/8ए, के.पी. राव स्ट्रीट, आर.एल. नगर, चिजयवाडा 520013, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	15.04.1993
302	कुनरेड्डी महेंदर रेड्डी/श्री कुन रेड्डी लिंगा रेड्डी	पीएसवीसी/6354 / 15	वाडीरेड्डी गुडेम (ग्रा.), गुरमपोडे (मं.), नालगोंडा जिला -508243, टी.एस.	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	15.08.1991
303	पित्तेला चंद्र बाबू/श्री पित्तेला जीदइयाह	पीएसवीसी/6355 / 15	म.न.: 88, पोथी रेड्डी पल्ली (ग्राम), पी.ए. पल्ली (डाक एवं मंडल), नालगोंडा जिला-508243, टी.एस.	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	01.04.1990
304	केथवथ सुभाश चंदर/श्री के. बाबू नाइक	पीएसवीसी/6356 / 15	म.न.: 20-60/1, गांधी नगर, देवराकोडा, नालगोंडा जिला- 508248, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	23.08.1990
305	सबावथ जयपाल सिंह/श्री सबावथ पीरया	पीएसवीसी/6357 / 15	म.न.: 3-60, मकदूमपुर, निजामसागर (मं.), निजामाबाद जिला-503187, टी.एस.	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	24.04.1990
306	जाधव विजय/श्री जाधव परशुराम	पीएसवीसी/6358 / 15	रानापूर(ग्रा.),चिंचोली-बी(डाक), सांरगापूर (मं.), आदिलाबाद जिला- 504110, टी.एस.	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	14.08.1991

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
307	प्रवालिका बच्चू/ श्री बी. रामचंद्रइयाह	पीएसवीसी/ 6359 / 15	11-06-221/1, पोचमबाग, एल.बी.नगर के साथ, एमसीएच सरूर नगर, हैदराबाद-500035, टी.एस.	बीवीएससीएंडएएच/ श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./ 2015	04.03.1991
308	डी. राजेश कुमार/ डी. वेंकटइयाह	पीएसवीसी/ 6360 / 15	मासीगुमडलापल्ली (ग्रा.), मिडजिल (मं.), महबूब नगर, जिला- 509357	बीवीएससीएंडएएच/ श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./ 2015	10.06.1989
309	बंडेला राजू/ श्री बंडेला शंकर रेड्डी	पीएसवीसी/ 6361 / 15	म.न.: 3-36/5, केशीरेड्डी पल्ली (ग्रा.), बच्चनापेट (मं.), वारंगल जिला-506221, टी. एस.	बीवीएससीएंडएएच/ श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./ 2015	12.07.1991
310	जाकुला श्रीनिवास / श्री जाकुला राजामौली	पीएसवीसी/ 6362 / 15	म.न.:7-46/1, मुल्कानूर (ग्रा.), भीमदेवरापल्ली (मं.), करीमनगर जिला-505471, करीमनगर	बीवीएससीएंडएएच/ श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./ 2015	12.01.1992
311	अनंथुला वेंकन्ना/ श्री अनंथुला सत्थइयाह	पीएसवीसी/ 6363 / 15	वर्धमानुकोटा (ग्रा.), जाजीरेड्डी गुडूम, (मं.), नालगोंडा जिला- 508279, टी.एस.	बीवीएससीएंडएएच/ श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./ 2015	11.12.1990
312	हर्षा एम./ श्री ज्ञान प्रकाश एम.	पीएसवीसी/ 6364 / 15	3-3-76/80, चैतन्या विलास कॉलोनी, हैदरगुडा, अदटापुर -500048, हैदराबाद	बीवीएससीएंडएएच/ श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./ 2015	09.02.1991
313	प्रसांथी सुलागुटी/ श्री मुरगइयाह	पीएसवीसी/ 6365 / 15	डी.न.: 4-102, ब्राहिमन स्ट्रीट, कारवेंटी नगरम-517582, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच/ श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./ 2015	09.09.1989
314	मुनिगडपा अजय कुमार/ श्री मुनिगडपा वीरइयाह	पीएसवीसी/ 6366 / 15	म.न.: 1-3-731/डी, गोलापेटा, निर्मल, आदिलाबाद जिला-504106, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच/ श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./ 2013	24.04.1989
315	ए. दिव्या/ श्री ए. वेंकट स्वामी	पीएसवीसी/ 6367 / 15	के. पटनम (ग्राम एवं डाक), थवनम पल्ले (मं.), चित्तूर जिला-517131, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच/ श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./ 2015	12.03.1991
316	बोड्डू शिरीषा/ श्री बूडू नूका राजू	पीएसवीसी/ 6368 / 15	बेंगापुडी, अन्नावरम के निकट, थोंडंगी (मं.), पूर्वी गोदावरी जिला-533406, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच/ श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./ 2015	26.07.1992
317	चलांगी चालिनी / श्री चलांगी कृष्णा राव	पीएसवीसी/ 6369 / 15	जीसीसी ऑफिस के पीछे, साई नगर, चिंतापल्ली (डाक व म.) विशाखापटणम जिला- 531111, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच/ श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./ 2015	23.03.1990
318	कसपाराजू ममथा/ श्री कसपाराजू लक्ष्मइयाह	पीएसवीसी/ 6370 / 15	म.न.: 1-137, गांधीनगर (ग्राम), सूर्यापेट (मं.), नालगोंडा जिला- 508248, टी.एस.	बीवीएससीएंडएएच/ श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./ 2015	15.06.1992
319	गोरिकापुडी प्रभु किशोर/ श्री गोरिकापुडी राजा राव	पीएसवीसी/ 6371 / 15	डी.न.: 8/6/10, बालाजी राव पेट, तेनाली-522201, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच/ श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./ 2015	06.08.1990
320	पोरांडला दिव्यश्री/ श्री पोरांडला प्रबाकर	पीएसवीसी/ 6372 / 15	म.न.: 3-7-265/4, श्री वेंकटेश्वर नगर, गुडीबंडल, हनमकोंडा, वारंगल जिला-506011, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच/ श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./ 2015	04.06.1993
321	डुब्बा नागराजू/ श्री डुबुमइयाह	पीएसवीसी/ 6373 / 15	गट्टू इप्पालोआ (ग्राम), तालाकोंडा पल्ली (मं.), महबूब नगर, जिला-509320, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच/ श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./ 2015	20.07.1988
322	कोथिंटी बुसा अशोक कुमार रेड्डी/ श्री कोथिंटी बुसा रघुनाथ रेड्डी	पीएसवीसी/ 6374 / 15	नक्कालापल्ली (ग्रा), इतिकयल (मं.), आलमपूर (ता.), महबूब नगर, जिला-509320, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच/ श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./ 2015	06.06.1991
323	वसम साई कार्थिक / श्री वसम कोट्टइयाह	पीएसवीसी/ 6375 / 15	2-124/2, बयारम (ग्राम एवं मंडल), खम्मम जिला- 507211, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच/ श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./ 2015	19.06.1990
324	बी. वेंकटेश/ श्री बी. चिनइयाह	पीएसवीसी/ 6376 / 15	एसआरटी क्या.न.7, सी.ई.आर. क्लब के निकट, मंडामेरी (ग्राम एवं मंडल), आदिलाबाद जिला- 504231, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच/ श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./ 2015	21.02.1989
325	श्रीपथि गावर्धन/ श्री श्रीपथि गुरावइयाह	पीएसवीसी/ 6377 / 15	डी.न.: 25-2-1405, 11वीं स्ट्रीट, 'ए' ब्लॉक, प्रगथि नगर, पोडालकूर रोड, नेल्लोर- 524004, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच/ श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./ 2015	04.08.1991
326	पी. यशवंथ/ श्री पी. सदा सिवइयाह	पीएसवीसी/ 6378 / 15	एस-40 -12/ए, श्री कृष्ण नगर, एम.आर. पल्ली, तिरुपति -517502, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच/ श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./ 2015	23.10.1991
327	मुलाकला भरथ कुमार/ श्री मुलाकला नागभूषणम	पीएसवीसी/ 6379 / 15	डी.न.: 6-2-388, कोवुर नगर, अनंथपुर-515001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच/ श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./ 2015	01.06.1992

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
328	पोटला मंजुनाथ/श्री पोटला शिवशंकर	पीएसवीसी/6380 / 15	यंकल (ग्रा), जीथाकल (डाक), बी.जी.पल्ली (एसओ), ब्रह्मसमुद्रम (मं.), अनंतपुर जिला-515763, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	22.11.1989
329	गुजंति शिवा राम कृष्णा/श्री गुजंति वीरेशम	पीएसवीसी/6381 / 15	म.न.:8-2-85, कट्टारामपुर, करीमनगर जिला- 505001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	06.09.1990
330	बाटना वासुदेवराव/श्री बाटना सत्य नारायण	पीएसवीसी/6382 / 16	एस.एस. वलाया (ग्राम), अलीकैम (डाक), श्रीकाकुलम (मं.), श्रीकाकुलम जिला- 532185, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	29.08.1992
331	डी. नव्यासरी/श्री ईश्वरइयाह	पीएसवीसी/6383 / 16	डोर न.:5-100, बालाजी नगर, सी.टी.एम. रोड, मदनापल्लै, चित्तूर जिला-517325, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	19.04.1992
332	पोन्नेकांति करुण्य सिंधु/श्री पोन्नेकांति अंकम्मा राव	पीएसवीसी/6384 / 16	डी.न.: 18-88/1, कलाकलूर ग्राम, तेनाली (मं.), गुंटूर जिला-522307, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	01.06.1992
333	इनानी केसवुलु नायडू/श्री इनेनी रेडेप्पा नायडू	पीएसवीसी/6385 / 16	बट्टावंडला पल्ली, गुट्टापल्ली, सम्बेपल्ली, कडपा जिला-516215, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	15.06.1990
334	गोलकोंडा महिथा तेज/श्री जी. उमा शंकर	पीएसवीसी/6386 / 16	11-1-192/बी, सांथिनगर, प्रथम लाइन, कोयूर-524137, एसपीएसआर नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	15.06.1990
335	दारा प्रसांथि/श्री दारा जय राजू	पीएसवीसी/6387 / 16	राजुपोथेपल्ली (ग्रा), थेडलेम (डाक), टी. नरसापुरम (मं.), पश्चिम गोदावरर जिला- 534467, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	25.12.1989
336	आकुला नरेश/री आकुला वेंकटइयाह	पीएसवीसी/6388 / 16	वर्धामनुकोटा(ग्राम), जाजीरेड्डी (मं.), नालगोंडा जिला- 508279, टी.एस.	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	06.05.1992
337	बनावथ रवि/श्री बनावथ सीत्या नायक	पीएसवीसी/6389 / 16	म.न.:85, चेरवुथांडा (ग्रा), डाक जनपहाड नरेदचेरला (मं.), नालगोंडा जिला-508, टी. एस.	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	06.05.1991
338	वदादा ममथ राव/श्री वदादा रामन्ना	पीएसवीसी/6390 / 16	डोर न. 2-12, बानाला (स्ट्रीट) पातुनिवालसा (ग्रा), श्रीकाकुलम (मं.), एवं जिला- 532401, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	10.10.1992
339	दुदेकुला मौलाली बाशा/श्री दुदेकुला बाशा	पीएसवीसी/6391 / 16	म.न.:3-321,मेन रोड,इनुगुमारी (ग्रा), पीपुल्ली (मं.), कुर्नूल जिला-518211, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	21.06.1990
340	शोक सलीम शाबाज /श्री शोक मौहम्मद हुसैन	पीएसवीसी/6392 / 16	डोर न.: 10/89, एल.आर. स्ट्रीट, वयालपड-517299, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	05.07.1990
341	मरथला भारथी/श्री मरथला भैरवा कोंडा रेड्डी	पीएसवीसी/6393 / 16	डी.न.: 5/18, पोतलाडुर्थी (ग्रा), येरागुटला (मं.), कडपा जिला-516360, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	07.05.1991
342	डुडेकुला चेन्नुरु हुसैनी/श्री डुडेकुला पीडा हुसैनी	पीएसवीसी/6394 / 16	म.न.: 1-1,एम, थिम्मापुरम (ग्रा./डा.), महानंदी (मं.), कुर्नूल जिला-518512, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	16.05.1992
343	बालागोंडला साई लीला/श्री बी. कोंडइयाह	पीएसवीसी/6395 / 16	म.न.:3/99, यपाडिन्ने (ग्रा. व डा.), लीजा (मं.), महबूबनगर जिला-509135, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	01.06.1990
344	सोमापल्ली राहिका /श्री सोमापाली रेड्डेपा नायडू	पीएसवीसी/6396 / 16	डी.न.:38-105/4, तिरुपति नायडू कॉलोनी, गवर्न. डिग्री कॉलेज के सामने, रायाचोटी, कडपा जिला-516269, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि./2015	11.06.1991
345	गेडम सुरेश बाबू/श्री गीडम वेंकट रामना	पीएसवीसी/6397 / 16	डी.न.:1-75, नीलांद्रपेटा, नीला पल्लै (डाक), थल्लारेवु (मं.), पूर्वी गोदावरी जिला-533464, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/पॉण्डी विवि/2015	12.11.1990
346	कृष्णा चैतन्या वी./श्री राघव वी.वी.	पीएसवीसी/6398 / 16	18-1-710 एफ, भवानी नगर, मिरुपथि- 517501, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/केवीएएफ एसयू, बिदर/2014	31.05.1988

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
347	मेल्लम वेंकट रामना / श्री एम. पेडा बालयोगी	पीएसवीसी / 6399 / 16	डी.नं.4-40, नीलापल्ली, मोकावरीपेटा, तल्लारेवु (मं.), पूर्वी गोदावरी जिला-533464, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2015	15.12.1990
348	पी. रामू / श्री चिन्मयाह	पीएसवीसी / 6400 / 16	म.नं.1-10-262 / 9, प्रियदर्शिनी कॉलोनी, मेटपल्ली (ग्राम), मेटपल्ली (मं.), करीम नगर जिला-505325, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2015	22.12.1988
349	दप्पावर महेश्वर रेड्डी कृष्णारेड्डी / श्री कृष्णा रेड्डी	पीएसवीसी / 6401 / 16	म.नं. 1-15, बासवापुर (डाक), जुककाल (मं.), निजामाबाद जिला- 503305, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि. / 2011	09.05.1987
350	मनोज राम, पुत्र श्री विष्णु देव राम	बिहारएसवीसी / 372 6 / 15	ग्राम-कजक्की बीघा, डाक- डालमिया नगर, थाना- देहरी, सब.डि. - देहरी, जिला-रोहतास, पिनकोड-821305, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बिरसा कृविवि / 2014	11.03.1980
351	रजनी कांत कुमरा, पुत्र श्री खेला नंद राउत	बिहारएसवीसी / 372 7 / 15	ग्राम-नरुरार, डाक- नरुरार, थाना- भैरवस्थान, सब.डि. - झांझरपुर, जिला- मधुबनी -847407, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बिरसा कृविवि / 2014	01.05.1987
352	समपूर्ण नंद यादव, पुत्र श्री बिदेश्वर यादव	बिहारएसवीसी / 372 8 / 15	ग्राम-जारिसो, डाक- जारिसो, थाना-बहेरा, सब.डि. - बेनीपुर, जिला-दरभंगा-847201, बिहार	बीवीएससीएंडएच / असम कृ. विवि / 2013	29.12.1988
353	कुमारी चंद्रकला, पुत्री श्री राजेंद्र प्रसाद	बिहारएसवीसी / 372 9 / 15	ग्राम-झौर, डाक-कोचगांव, थाना- वारिस अलीगंज, सब.डि. - नवादा-805130, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बिरसा कृविवि / 2012	15.05.1982
354	बागीश मिश्रा, पुत्र श्री कुंज बिहार मिश्रा	बिहारएसवीसी / 373 0 / 15	ग्राम-रहमगंज, डाक-लहरिया सराय, सब. डि. - दरभंगा सदर, जिला- दरभंगा, बिहार	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर विवि, तिरुपति / 2015	01.01.1982
355	ज्ञानदेव सिंह, पुत्र श्री कमल प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी / 373 1 / 15	सहायक प्रोफेसर एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक, बिहार पशु चिकित्सा कॉलेज, बीवीसी कैम्पस, पटना -800014, बिहार	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2004	15.09.1977
356	सोना लाल, पुत्र श्री युगल किशोर	बिहारएसवीसी / 373 2 / 15	ग्राम-जजियापार, वार्ड नं.-10, डाक-गोपालगंज, थाना-गोपाल गंज, सब. डि. - गोपालगंज, जिला-गोपालगंज, 841428, बिहार	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	16.08.1989
357	नवनीत कुमार पांडे, पुत्र श्री त्रियुगी नाथ पांडे	बिहारएसवीसी / 373 3 / 15	टूरिंग वेट अधिकारी, क्लास-1, वेट.डिस्पेंसरी व निवास, ग्राम+ डाक+थाना+ब्लॉक- मेरवा, सब. डि. - सीवन, जिला- सीवन, बिहार	बीवीएससीएंडएच / यूएस, बंगलौर / 2004	30.04.1981
358	रौशन कुमार सिंह, पुत्र श्री ओम प्रकाश सिंह	बिहारएसवीसी / 373 4 / 15	ग्राम-मुडवा खाश, डाक- गमरिया, थाना- इशुआपुर, सब.डि. / जिला- सारन- 841421, बिहार	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए सयू, जबलपुर / 2013	10.08.1987
359	अंजनी कुमार सिंह, पुत्र श्री सुधांशु कुमार सिंह	बिहारएसवीसी / 373 5 / 15	ग्राम-खरिया, डाक-खरिया, थाना- बरियारपुर, सब.डि. - मुंगेर सदर, जिला- मुंगेर- 811211, बिहार	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी, भुबनेश्वर / 2015	07.01.1987
360	रवि कुमार, पुत्र श्री जगदीश पंजियारा	बिहारएसवीसी / 373 6 / 15	ग्राम-असारगंज, डाक व थाना- असारगंज, सब.डि. - तारापुर, जिला-मुंगेर- 813201, बिहार	बीवीएससीएंडएच / ओयूएंड टी, भुबनेश्वर / 2015	01.12.1987
361	अभिनव कुमार, पुत्र श्री उमेश कुमार झा	बिहारएसवीसी / 373 7 / 15	ग्राम- हरिद्वार, डाक-पाली, थाना-घनश्यामपुर, सब.डि. - विरौल, जिला-दरभंगा -847427, बिहार	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू ऑफएंडएफसी / 2015	04.04.1989
362	मनीश कुमार, पुत्र स्व. श्री सुरेश कुमार	बिहारएसवीसी / 373 8 / 15	ग्राम- कुरजी बालूपार, दिघा, शिवाजीनगर, डाक व थाना- दिघा, सब.डि. - पटना सदर, जिला-पटना-800011, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बिरसा कृविवि / 2015	04.10.1987
363	दिवाकर प्रसाद, पुत्र श्री भरत साह	बिहारएसवीसी / 373 9 / 15	ग्राम- चमथा नुमबार, डाक- बरखुट चमथा, थाना-बछवाड़ा, सब.डि. - तेघरा, जिला- बेगुसराय- 851111, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बिरसा कृविवि / 2015	01.03.1979
364	कुसुम लता, पुत्री श्री चतुरभुज ठाकुर	बिहारएसवीसी / 374 0 / 15	ग्राम- अंदौली, डाक- अवारी, थाना-सहरघाट, सब.डि. - बेनीपट्टी, जिला-मधुबनी- 847308, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बिरसा कृविवि / 2015	05.03.1991

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
365	नीतू कुमारी, पुत्री श्री बीर बहादुर सिंह	बिहारएसवीसी / 374 1 / 15	ग्राम-नौलखा, डाक-सफियाबादथाना-कासिम बाजार, जिला- मुंगेर-811214, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बिरसा कृषिवि / 2014	29.05.1987
366	अंकुश भारती, पुत्र श्री धीरेंद्र कुमार	बिहारएसवीसी / 374 2 / 15	ग्राम व डाक-खैरा, थाना- हवेली खरगपुर, सब.डिवी.- हवेली खरगपुर, जिला- मुंगेर-811213, बिहार	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू ऑफएंडएफसी / 2015	27.02.1991
367	प्रभाकर झा, पुत्र स्व. श्री नित्या नंद झा	बिहारएसवीसी / 374 3 / 15	ग्राम- गोरगामा, डाक व थाना तारापुर, सब.डिवी.- तारापुर, जिला-मुंगेर-813221, बिहार	बीवीएससीएंडएच / एमएएफ एसयू नागपुर / 2014	28.09.1991
368	विजय कुमार यादव, पुत्र श्री चंद्र यादव	बिहारएसवीसी / 374 4 / 15	ग्राम-चक्का, डाक-गारौल, थाना-मनिगाछी, सब.डिवी.- दरभंगा	बीवीएससीएंडएच / एलएलअरयूऑफवीएएस, हिसार / 2015	23.06.1987
369	सुमित कुमार सुमन, पुत्र श्री चंदेश्वरी प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी / 374 5 / 15	ग्राम-लक्ष्मीपुर गिरधर, डाक- लक्ष्मीपुर गिरधर, थाना-रुपौली, सब.डिवी.-धमदहा, जिला- पुटमोस- 853204, बिहार	बीवीएससीएंडएच / एमएएफ एसयू नागपुर / 2015	30.11.1981
370	सुमंत कुमार, पुत्र श्री सुरेश कुमार	बिहारएसवीसी / 374 6 / 15	ग्राम एवं डाक-बैजनाथपुर, थाना-सौरबाजार, सब.डिवी.- सहरसा सदर, जिला-सहरसा -852201, बिहार	बीवीएससीएंडएच / एमएएफ एसयू नागपुर / 2015	11.10.1986
371	नवीन कुमार, पुत्र श्री धर्म लाल मंडल	बिहारएसवीसी / 374 7 / 15	ग्राम- कटैया राही, डाक- कटैया माहे, थाना-पीपरा, सब.डिवी.-सुपौल, जिला-सुपौल- 852131, बिहार	बीवीएससीएंडएच / एमएएफ एसयू नागपुर / 2015	27.06.1985
372	राहुल कुमार, पुत्र श्री मानिक लाल साह	बिहारएसवीसी / 374 8 / 15	ग्राम एवं डाक-सोहा, थाना- सोनबरशा राज, सब.डिवी.- सहरसा, जिला-सहरसा-852129, बिहार	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू ऑफएंडएफसी / 2015	02.02.1989
373	अशोक कुमार, पुत्र श्री युगेश्वर प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी / 374 9 / 15	ग्राम-चांदकुरा, थाना-दाहाबीघा, थाना-खानपुरा खिरिमौर, सब.डिवी.-पालीगंज, जिला-पटना - 804426, बिहार	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी, भुबनेश्वर / 2015	04.03.1986
374	प्रभात शंकर, पुत्र श्री सत्येंद्र शर्मा	बिहारएसवीसी / 375 0 / 15	ग्राम एवं डाक- मौरी, थाना- खनपुरा खिरिमौर, सब.डिवी.- पालीगंज, जिला-पटना- 804426, बिहार	बीवीएससीएंडएच / आरएजेव िएएसयू / 2015	08.07.1989
375	रवि रंजन रे, पुत्र श्री भैरव राय	बिहारएसवीसी / 375 1 / 15	ग्राम-सिरिसिया, डाक-बेलवा, थाना-साथी, सब.डिवी.- नरकटियागंज, जिला-प. चम्पारन-845449, बिहार	बीवीएससीएंडएच / एलएलअरयूऑफवीएएस, हिसार2015	12.07.1987
376	कुमार गौरव, पुत्र श्री संतोष कुमार	बिहारएसवीसी / 375 2 / 15	ग्राम-वैजीपुर, डाक-अकोठी, थाना-मैरवा, सब.डिवी.-सीवन, जिला-सीवन- 841239, बिहार	बीवीएससीएंडएच / टीएनवीएंडएएसयू, चेन्नई / 2015	02.01.1990
377	राकेश कुमार रौशन, पुत्र श्री रामानंद रेड्डी	बिहारएसवीसी / 375 3 / 15	ग्राम एवं डाक-भीमपुर, थाना- भीमपुर, सब.डिवी.-त्रिवेनीगंज, जिला-सुपौल-854339, बिहार	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर विवि, तिरुपति / 2015	06.08.1988
378	विजय कुमार, पुत्र श्री बिंदेश्वरी प्रसाद पूर्वे	बिहारएसवीसी / 375 4 / 16	शिक्षक कॉलोनी, ग्राम-रानीगंज, डाक व थाना-रानी गंज, सब. डिवी.-फरबीसगंज, जिला- अरेरिया-854334, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बिरसा कृषिवि / 2005	22.01.1980
379	स्नेहलता कुमारी, पुत्री श्री भानेश्वर राम	बिहारएसवीसी / 375 5 / 16	टूरिंग वेट. ऑफिसर, ग्राम- मरवागुलनी, डाक+ब्लॉक+सब डिवी.-पाकरीबरानवा, जिला- नावादा, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बिरसा कृषिवि / 2003	30.06.1979
380	प्रवीन, पुत्र श्री कौशलेंद्र प्रताप सिंह	बिहारएसवीसी / 375 6 / 16	ग्राम-इंद्रपुरी, म.न.-25, रोड न.-10, डाक-केशरी नगर, थाना-पाटलीपुत्र, सब. डिवी.- पटना सदर, जिला-पटना-800024, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बिरसा कृषिवि / 2005	23.11.1978
381	तजेश कुमार, पुत्र श्री ए. के. यादव	बिहारएसवीसी / 375 7 / 16	ग्राम-खैरा कोस्कापुर, डाक- खैरा कोस्कापुर, थाना-नरपत गंज, सब.डिवी.-फरबीसगंज, जिला-अरारिया-854318, बिहार	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर विवि, तिरुपति / 2015	12.12.1987
382	विनोद कुमार कुशवाहा, पुत्र स्व. श्री रामलखन प्रसाद	बिहारएसवीसी / 375 8 / 16	ग्राम-कन्हाई नगर, डाक- नवादा, थाना-नवादा, सब.डिवी.-नवादा, जिला-नवादा - 805110, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बिरसा कृषिवि / 1981	12.09.1955

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
383	अर्चिता सिंह, पुत्री श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी / 375 9 / 16	ग्राम-चौधरी बसंतपुर, डाक एवं थाना-पीरपैती, सब.डिवी.- केहलगांव, जिला-भागलपुर -813209, बिहार	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर विवि, तिरुपति / 2015	01.01.1993
384	अरविंद कुमार, पुत्र श्री बृजमोहन प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी / 3760 / 16	ग्राम-वाजिदपुर टोल दया बीघा, डाक एवं थाना- बंलागंज, सब.डिवी.- गया, जिला-गया-804403, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बिहार कृ विवि भारतपुर / 2016	05.01.1981
385	सुरेंद्र कुमार पासवान, पुत्र श्री नंद लाल पासवान	बिहारएसवीसी / 376 1 / 16	ग्राम-मेहसे, डाक-लौकाहा, थाना-लौकाहा, सब.डिवी.- फुलपरास, जिला- मधुबनी-847421, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बिहार कृ विवि भारतपुर / 2016	20.08.1988
386	अवधेश कुमार, पुत्र श्री छेदी चौधरी	बिहारएसवीसी / 376 2 / 16	ग्राम-पहाड़पुरा, डाक एवं थाना-बिहारशरीफ, सब.डिवी.- बिहारशरीफ, जिला- नालंदा-803101, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बिहार कृ विवि भारतपुर / 2016	01.03.1983
387	आशीष कुमार, पुत्र श्री अवधेश कुमार शर्मा	बिहारएसवीसी / 376 3 / 16	ग्राम-अनुपम नगर, पोलसन के पीछे, डाक-दीघा घाट, थाना-दीघा, सब.डिवी.-पटना सदर, जिला-पटना-800011	बीवीएससीएंडएच / बिहार कृ विवि भारतपुर / 2016	03.09.1986
388	किसलय कुमार, पुत्र श्री सोनेलाल सिंह	बिहारएसवीसी / 376 4 / 16	ग्राम-रुपौली, डाक-कोइली थाना-बटनाहा, सब.डिवी.- सीतामढ़ी सदर, जिला- सीतामढ़ी 843302, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बिहार कृ विवि भारतपुर / 2016	03.08.1988
389	बाबुल कुमार, पुत्र श्री योगेन्द्र प्रसाद	बिहारएसवीसी / 376 5 / 16	ग्राम-छोटी चैतन्य, डाक- एकचारी दियारा, थाना- इकचारी, सब.डिवी.-हिलसा, जिला-नालंदा 801301, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बिहार कृ विवि भारतपुर / 2016	07.09.1990
390	रवि रंजन कुमार, पुत्र श्री अरुण प्रसाद	बिहारएसवीसी / 376 6 / 16	ग्राम-मखदूमपुर, डाक- पारथु, थाना-एकगरसराय, सब.डिवी.-हिलसा, जिला-नालंदा-801301, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बिहार कृ विवि भारतपुर / 2016	11.11.1982
391	शशि शेखर, पुत्र श्री बाल्मीकि सिंह	बिहारएसवीसी / 376 7 / 16	ग्राम-लाखे, डाक-लाखो, थाना-मफस्सिल, सब.डिवी.- बेगुसराय, जिला-बेगुसराय -851129, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बिहार कृ विवि भारतपुर / 2016	05.02.1988
392	शम्भू शरन, पुत्र श्री धीरेंद्र यादव	बिहारएसवीसी / 376 8 / 16	ग्राम-चनमाना, डाक-लालपुर शिवराम, थाना- बहेरी, सब.डिवी.-दरभंगा सदर, जिला- दरभंगा- 847101, बिहार	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर विवि, तिरुपति / 2015	02.06.1988
393	चंद्र किरन गायकवाड़ / श्री नारायण प्रसाद गायकवाड़	छत्तीसएसवीसी / 75 4 / 2015	ग्राम-कसाही, डाक-गुजर, थाना-पटना, दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / छत्तीसगढ़ कामधेनु विवि / 2015	23.01.1991
394	ममता साहू / श्री बी.पी. साहू	छत्तीसएसवीसी / 75 5 / 2015	रंगमंच के पास, बाबा कुटी, शेरगढ़, जिला- रायगढ़, छत्तीसगढ़- 496445	बीवीएससीएंडएच / छत्तीसगढ़ कामधेनु विवि / 2015	08.01.1991
395	झरना चंद्रशेखर / श्री रामकृष्ण भारद्वाज	छत्तीसएसवीसी / 75 6 / 2015	पंचरतन भवन, वार्ड न.-54, न्यू आदर्श नगर, दुर्ग, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़- 491001	बीवीएससीएंडएच / छत्तीसगढ़ कामधेनु विवि / 2015	19.04.1992
396	एकता राना / श्री रणजीत कुमार राना	छत्तीसएसवीसी / 75 7 / 2015	म.न.: 491, मॉडल टाउन, गायत्री मंदिर के पीछे, जिला - दुर्ग, छत्तीसगढ़- 490020	बीवीएससीएंडएच / छत्तीसगढ़ कामधेनु विवि / 2015	16.12.1989
397	आरती मार्सकोले / श्री वीरेंद्र मार्सकोले	छत्तीसएसवीसी / 75 8 / 2015	एकता नगर, देलखावार्ड, कांगेरा, जिला- कांगेरा, छत्तीसगढ़- 494445	बीवीएससीएंडएच / छत्तीसगढ़ कामधेनु विवि / 2015	08.08.1991
398	कोमल चंद्राकर / श्री दिलीप कुमार चंद्राकर	छत्तीसएसवीसी / 75 9 / 2015	एमले भाटा, वार्ड न. 10, शिव मंदिर के निकट, महासमुन्द्र, छत्तीसगढ़- 493445	बीवीएससीएंडएच / छत्तीसगढ़ कामधेनु विवि / 2015	08.08.1991
399	नीटू रानी जांगड़े / श्री राजकुमार जांगड़े	छत्तीसएसवीसी / 76 0 / 2015	ग्राम एवं डाक- पामगढ़, जिला- जहागीर, चम्पा, छत्तीसगढ़-495554	बीवीएससीएंडएच / छत्तीसगढ़ कामधेनु विवि / 2015	15.10.1990
400	सविता कुमारी पटेल / श्री संतराम पटेल	छत्तीसएसवीसी / 76 1 / 2015	ग्राम- सारदामल, डाक- नंदेली, जिला- रायगढ़, छत्तीसगढ़-496001	बीवीएससीएंडएच / छत्तीसगढ़ कामधेनु विवि / 2015	08.04.1991
401	गंगधालाल बंजारे / श्री चेतन राम बंजारे	छत्तीसएसवीसी / 76 2 / 2015	ग्राम-गनयारी, डाक-पहडोर विकास खंड, तह.- पटना, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़- 491007	बीवीएससीएंडएच / छत्तीसगढ़ कामधेनु विवि / 2015	29.04.1974
402	शैलेंद्र कुमार ठाकुर / श्री विशेष लाल ठाकुर	छत्तीसएसवीसी / 76 3 / 2015	म.न.: 425, कैलाश विहार, जामनी पल्ली, कोरबा, छत्तीसगढ़- 495684	बीवीएससीएंडएच / छत्तीसगढ़ कामधेनु विवि / 2015	10.01.1991

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
403	भुबनेश्वर पाल सिंह कंवर / श्री पाथर सिंह कुंवर	छत्तीसएसवीसी / 76 4 / 2015	ग्राम- राघवाहरी, डाक- बालको, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़-495684	बीवीएससीएंडएच / छत्तीसगढ़ कामधेनु विवि / 2015	17.04.1985
404	डिम्पल पाकरा / श्री एस. पी.एस. पाकरा	छत्तीसएसवीसी / 76 5 / 2015	132 / 33, वी. पावर हाउस के निकट, कुंवर पारा, विष्णु पुर, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़-497001	बीवीएससीएंडएच / छत्तीसगढ़ कामधेनु विवि / 2015	14.03.1990
405	डी. सूर्यम डोरा / श्री मिलन डोरा	छत्तीसएसवीसी / 76 6 / 2015	ग्राम व डाक- टीकर पारा, तह.-देवभोग, जिला- गरियाबंद, छत्तीसगढ़- 493890	बीवीएससीएंडएच / छत्तीसगढ़ कामधेनु विवि / 2015	07.12.1989
406	शिव कुमार / श्री जे.पी. चौहान	छत्तीसएसवीसी / 76 7 / 2015	एमआईजी-2 / 46, आर.पी. नगर, फेज़-2, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़-495677	बीवीएससीएंडएच / जेएलएन केवीवी / 1997-98	12.06.1972
407	राजेंद्र प्रसाद तिवारी / स्व. श्री सुदर्शन प्रसाद तिवारी	छत्तीसएसवीसी / 76 8 / 2015	एचआईजी 1 / 123, मेन रोड, बोरेई कॉलोनी, दुर्ग-491001	बीवीएससीएंडएच / जेएलएन केवीवी / 1982-83	01.07.1960
408	विवेक पटेल / श्री घनश्याम पटेल	छत्तीसएसवीसी / 76 9 / 2015	ग्राम-पचारा, डाक-तारापुर, तह.-पुशोरा, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़- 496001	बीवीएससीएंडएच / आरवीयूएंडएच / 2013	25.12.1987
409	आई.पी. सिंह / श्री दादंड सिंह	छत्तीसएसवीसी / 77 0 / 2015	अवधपुरी कॉलोनी, पारिशर, जाशपुर जिला, जाशपुर, छत्तीसगढ़- 496331	बीवीएससीएंडएच / जेएलएन केवीवी / 1987	05.10.1962
410	संजीव कुमार रॉय, पुत्र श्री रामाधर रॉय	छत्तीसएसवीसी / 77 1 / 2015	पशु चिकित्सालय परिसर, जाशपुर, जिला, जाशपुर, छत्तीसगढ़- 496331	बीवीएससीएंडएच / आईजीके वीवी / 1991-92	25.02.1968
411	रिनीता रॉय, पुत्र श्री महेंद्र पाल सिंह	छत्तीसएसवीसी / 77 2 / 2015	पशु चिकित्सालय परिसर, जाशपुर, जिला, जाशपुर, छत्तीसगढ़- 496331	बीवीएससीएंडएच / टीएनवीएंडएच / 1995	20.03.1972
412	अनिता जैन, पुत्र श्री रूपचंद जैन	छत्तीसएसवीसी / 77 3 / 2015	द्वारा पदम जैन, 369 / 5, अवती विहार, रायपुर, छत्तीसगढ़-492006	बीवीएससीएंडएच / आईजीके वीवी / 1997	21.05.1966
413	सरिता सिंह, पुत्री श्री सदन सिंह	छत्तीसएसवीसी / 77 4 / 2015	ग्राम-सकोला, डाक- कोट मिकाला, पेंडरा रोड, विलाश पुर, छत्तीसगढ़- 495224	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू / 2014	17.3.1987
414	अंशुक शर्मा, पुत्र श्री प्रेम कुमार शर्मा	छत्तीसएसवीसी / 77 5 / 2015	वार्ड न. 4, आजाद नगर, विला, विलाशपुर, छत्तीसगढ़ -495224	बीवीएससीएंडएच / छत्तीसगढ़ कामधेनु विवि / 2014	15.11.1990
415	प्रतीक्षा मिश्रा, पुत्र श्री रामजी मिश्रा	छत्तीसएसवीसी / 77 6 / 2015	मिश्रा कॉलोनी, सराना टोली, जाशपुर नगर, छत्तीसगढ़- 496331	बीवीएससीएंडएच / आरवीयूएंडएच / 2014	13.09.1990
416	महेंद्र कुमार पांडे, पुत्र स्व. श्री विद्याधर पांडे	छत्तीसएसवीसी / 77 7 / 2016	शिकारी रोड, बोरी पारा, अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा, छत्तीसगढ़- 497001	बीवीएससीएंडएच / जेएलएन केवीवी / 1985-86	21.06.1963
417	अमंद सिंह मारवी, पुत्र श्री तनुराम मारवी	छत्तीसएसवीसी / 77 8 / 2016	मधुबन पारा, रायगढ़, जिला- रायगढ़, छत्तीसगढ़ -496001	बीवीएससीएंडएच / जेएलएन केवीवी / 1995-96	15.05.1968
418	लक्ष्मी नारायण पटेल / स्व. श्री जीवन लाल पटेल	छत्तीसएसवीसी / 77 9 / 2016	ग्राम एवं डाक- कुनकुरी, जिला- जाशपुर, छत्तीसगढ़ -496225	बीवीएससीएंडएच / जेएलएन केवीवी / 1991-92	04.07.1969
419	धनीराम प्रधान / श्री लाला राम प्रधान	छत्तीसएसवीसी / 78 0 / 2016	एचआईजी-516, दीन दयाल पुरम, फेज़-1, टीवी टावर के निकट, रायगढ़, छत्तीसगढ़- 496001	बीवीएससीएंडएच / जेएलएन केवीवी / 1991-92	15.06.1964
420	मीनू दूबे / श्री एस.जे. कश्यप	छत्तीसएसवीसी / 78 1 / 2016	पंचशील ए स्ट्रीट- 13, प्लॉट न. बी / 2, बोरसाई दुर्ग, छत्तीसगढ़- 491001	बीवीएससीएंडएच / जेएलएन केवीवी / 1994-95	06.01.1972
421	विनोद कुमार अग्रवाल / स्व. श्री रामानंद अग्रवाल	छत्तीसएसवीसी / 78 2 / 2016	184-सी, कृष्णा विहार कॉलोनी, रायगढ़, छत्तीसगढ़ -496001	बीवीएससीएंडएच / जेएलएन केवीवी / 1996-97	02.04.1971
422	मनोज कुमार अवस्थी / स्व. श्री शिवप्रसाद अवस्थी	छत्तीसएसवीसी / 78 3 / 2016	बी-16, आदर्श नगर, दुर्ग, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़- 491001	बीवीएससीएंडएच / जेएलएन केवीवी / 1984-85	19.11.1963
423	श्रद्धा बारजीभे / श्री विजय बारजीभे	चंडी.एसवीसी / 726	सोनू फोटो कॉपियर, साई मंदिर के पास, तहसील चौक बगीचा, जिला-जाशपुर, छत्तीसगढ़-496224	बीवीएससीएंडएच / छत्तीसगढ़ कामधेनु विवि / 2014	21.02.1988
424	सुनील कुमार भट्ट / श्री हृदय नाथ भट्ट	डीवीसी / 0783 / 15	57, संगम अपार्टमेंट, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-87	बीवीएससीएंडएच / राजेंद्र कृ.विवि / 1982	07.04.1957
425	कुमुद कलिता / श्री बांगशी धर कलिता	डीवीसी / 0784 / 15	पलैट न. 431, दीप अपार्टमेंट, सेक्टर ए-9, पॉकेट-1, नरेला, दिल्ली-40	बीवीएससीएंडएच / असम कृ.विवि / 1996	10.11.1971

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
426	एस. सुदर्शन / श्री सम्बासिवम चिन्नाथम्बी	डीवीसी / 0785 / 15	84, जागृति अपार्टमेंट्स, कैप्टन सतीश मार्ग, रानी बाग, पीतमपुर, नई दिल्ली-34	बीवीएससी / टीएनएयू, चेन्नई / 1997	21.03.1973
427	कृष्ण कुमार गुप्ता / श्री अशोक कुमार गुप्ता	डीवीसी / 0786 / 15	द्वारा श्री राजकुमार, पहली मंजिल, म.न.: 100, चनना वाली गली, युसुफ सराय, नई दिल्ली-16	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर विवि, तिरुपति / 2011	09.09.1980
428	अंकुर / श्री सत्येंद्र कुमार	डीवीसी / 0787 / 15	ई-2 / 176, शास्त्री नगर, दिल्ली-52	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	24.10.1992
429	सुरेंद्र कुमार पांडे / श्री मोहन चंद्र रेडडी	डीवीसी / 0788 / 15	म.न.: 10 पॉकेट-4, सेक्टर-24, रोहिणी, दिल्ली-85	बीवीएससीएंडएच / जीबीयूए एंडटी / 1991	28.06.1966
430	धीरज कुमार सिंह / श्री धर्मनाथ सिंह	डीवीसी / 0789 / 15	डब्ल्यूजेड-36 / ए / 4, गली न.-17, एमआरवी स्कूल के निकट, कृष्णा नगर एक्स., तिलक नगर, दिल्ली-18	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी / 2015	12.05.1987
431	पीताम्बर सिंह / श्री रामस्वरूप सिंह	डीवीसी / 0790 / 15	म.न.: 99, पॉकेट-11, सेक्टर-22, रोहिणी, दिल्ली-85	बीवीएससीएंडएच / सीएसए केईपीवीवी / 1979	21.11.1955
432	सुनैना गुप्ता / श्री एस.जे. गुप्ता	डीवीसी / 0791 / 15	डी-110, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-24	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएसयू / 2012	14.10.1989
433	मितिन चनाना / श्री ए.के. चनाना	डीवीसी / 0792 / 15	179 / डी-12, सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-85	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएसयू / 2011	23.01.1989
434	गीता / श्री रघबीर सिंह	डीवीसी / 0793 / 15	एस-1, एसआईएफ, शिवाजी पार्क, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-26	बीवीएससीएंडएच / सीसीएस एचयू / 2001	28.08.1977
435	पीयूष शास्त्री / श्री सुरेश शास्त्री	डीवीसी / 0794 / 15	51-डी, ए-11, सूर्य अपार्टमेंट्स, कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली-19	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएसयू / 2011	17.11.1987
436	सोफिया राना / श्री प्रदीप राना	डीवीसी / 0795 / 15	7 / 3, कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली-19	बीवीएससीएंडएच / केवीएंड एफएसयू, बिदर / 2015	15.01.1992
437	रेखा कुमार / श्री अनिल टोप्पो	डीवीसी / 0796 / 15	एफ-18 / 51, पहली मंजिल, सेक्टर-15, रोहिणी, दिल्ली -89	बीवीएससीएंडएच / बिरसा कृ.वि.वि / 2015	29.12.1986
438	श्रेया डांग / श्री विजय डांग	डीवीसी / 0797 / 15	32 / 45, पश्चिमी पंजाबी बाग, नई दिल्ली-26	बीवीएससीएंडएच / एमएंडए फएसयू / 2015	20.08.1992
439	बैद्य नाथ मंडल / श्री सत्य नारायण मंडल	डीवीसी / 0798 / 15	105, कृषि निकेतन, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-63	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू ओएफएंडएफएस / 2007	17.01.1980
440	दीपक सारस्वत / श्री आर.पी. सारस्वत	डीवीसी / 0799 / 15	ए-126, हरिनगर आश्रम, नई दिल्ली	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएसयू / 2015	10.12.1989
441	आकाश बरोटिया / श्री प्रकाश चंद्र बरोटिया	डीवीसी / 0800 / 15	ए-126, हरिनगर, आश्रम, नई दिल्ली	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएसयू / 2015	04.02.1990
442	प्रीति भाटिया / श्री सुदीप भाटिया	डीवीसी / 0801 / 15	पॉकेट बी-6, म.न.: 96, सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-85	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएसयू / 2011	23.09.1987
443	अर्चना / श्री रामस्वरूप त्रिपाठी	डीवीसी / 0802 / 15	फ्लैट न. 110, तिलक अपार्टमेंट्स, आई.पी. एक्सटें, पटपड़गंज, दिल्ली-92	बीवीएससीएंडएच / सीसीएस एचयू / 2006	11.07.1981
444	मलय कुमार विश्वकर्मा / श्री दुर्गा प्रसाद	डीवीसी / 0803 / 15	41 / 9, किशनगढ़, वसंत कुंज, नई दिल्ली-70	बीवीएससीएंडएच / जीबीयूए एंडटी / 2009	05.03.1983
445	दीपक कुमार / श्री सतीश कुमार	डीवीसी / 0804 / 15	गवर्न. वेटरिनरी अस्पताल, भलस्वा डेरी कॉलोनी, दिल्ली -110042	बीवीएससीएंडएच / सीएसए केईपीवीवी / 2003	30.08.1980
446	जीमल अहमद गाज़ी / श्री गाज़ी अहमद शेख	डीवीसी / 0806 / 15	2 / 3, सुभाष नगर, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली	बीवीएससीएंडएच / ओयूएंड टी / 2008	17.08.1983
447	विनीता थूसु / श्री एम.एल. थूसु	डीवीसी / 0808 / 15	ई-418, जी.के.-11, नई दिल्ली-48	बीवीएससीएंडएच / ओयूएंड टी / 2009	24.04.1984
448	बसेत दूबे / श्री द्वारका प्रसाद दूबे	डीवीसी / 0809 / 15	14, नेवल अपार्टमेंट्स, वसुंधरा एंक्लेव, नई दिल्ली -96	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 2006	20.12.1978
449	जगताप स्वप्निल पांडुरंग / श्री जगताप पांडुरंग विठोबा	डीवीसी / 0810 / 15	फ्लैट न.-228, पॉकेट-ए, सरिता विहार, नई दिल्ली-76	बीवीएससीएंडएच / एमएंडए फएसयू / 2008	01.03.1983

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
450	ईशु अग्रवाल / श्री योगेश चंद्र अग्रवाल	डीवीसी / 0811 / 15	नई दिल्ली वेटेरिनरी क्लिनिक, शॉप न. -48, अजीत आर्कड, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-48	बीवीएससीएंडएच / जीबीयूए एंडटी / 1997	04.10.1983
451	सत्य देव गंगवार / श्री राम प्रसाद गंगवार	डीवीसी / 0812 / 15	डी-1, बी / 1 सी, एसएफएस फ्लैट्स, जनकपुरी, नई दिल्ली- 58	बीवीएससीएंडएच / जीबीयूए एंडटी / 1986	01.07.1963
452	अभिषेक गुप्ता / श्री योगेश गुप्ता	डीवीसी / 0813 / 16	बी-3, तीसरी मंजिल, दाहिनी ओर का भाग, सरदार नगर, रानपा प्रताप नगर, शादीपुर मेट्रो स्टेशन के निकट, दिल्ली	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेव ीवी / 2009	03.03.1984
453	जस प्रकाश पांडे / श्री भगवान पांडे	डीवीसी / 0814 / 16	पटेल नगर वेट. क्लिनिक, एम-27 (निचली मंजिल), पश्चिमी पटेल नगर, शादीपुर मेट्रो स्टेशन के निकट, दिल्ली	बीवीएससीएंडएच / दंदक हपस नदपध2013	06.02.1978
454	सतीश कुमार / श्री धर्म चंद	डीवीसी / 0815 / 11	डी-451, पालम एक्सटेंशन, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली-45	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएसयू / 2011	15.07.1984
455	गौरव गुप्ता / श्री राम निवास गुप्ता	डीवीसी / 0816 / 06	गवर्न. वेटेरिनरी अस्पताल, पटपडगंज, दिल्ली	बीवीएससीएंडएच / एनडीयूए एंडटी, फैजा बाद / 2007	10.05.1980
456	विजय पाल सिंह / श्री गुगन सिंह	डीवीसी / 0817 / 16	एम-26, फेज-4, प्रेम नगर, नजफगढ़, दिल्ली-43	बीवीएससीएंडएच / गुजरात कृ विवि / 1995	01.02.1972
457	राजन थापर (कर्मन्) / श्री विद्या सागर थापर	डीवीसी / 0818 / 16	महानिदेशक, आरवीएस, वेस्ट ब्लॉक- III, ओएमजी शाखा, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-66	बीवीएससीएंडएच / केरल कृ. विवि / 1986	18.06.1961
458	देशमुख प्रमोद भगवंतराव (कर्मन्.) / श्री डी. भगवंत राव एम.	डीवीसी / 0819 / 16	कमांडिंग ऑफिसर, 48, मिली. वेटेरिनरी अस्पताल, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली-10	बीवीएससीएंडएच / पंजाबराव कृ. विद्यापीठ, अकोला / 1986	01.08.1963
459	एम.वी. सिल्पा / श्री एम. पी. वेलायुधन	गोवाएसवीसी / 191 / 15	म.न.: 887 / 9(2), कामत नगर, सुकोरो पोरवोरिम, बारडेज, गोवा-403501	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2015	05.05.1993
460	सिल्विएरा मरिया सेरा / श्री वर्जिलियो सिल्विएरा	गोवाएसवीसी / 192 / 15	म.न.: 172, दूसरी डडडी, नावेलिम, सालसेट, गोवा- 403707	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2015	27.07.1993
461	दीपिका प्रभाकर / श्री प्रभाकर	गोवाएसवीसी / 193 / 15	टी-4, गोल्डन हिल अपार्ट., मगोर हिल्स, वास्को-डी- गामा, गोवा	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2015	29.07.1992
462	बोरोस गेल मातिल्दा / श्री मार्कोस बारोस	गोवाएसवीसी / 194 / 15	म.न.: 217, बारोस वार्ड, वेलिम, सालसेट, गोवा	बीवीएससीएंडएच / एमएएफ एसयू / 2015	24.01.1993
463	गोविंद / श्री ए.सी. संकरानारायण	गोवाएसवीसी / 195 / 15	ई 3, जी-2, नेवेलकर एस्टेट, बैंगुडनियम, ओल्ड गोवा, गोवा	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2015	15.02.1993
464	हर्न रंजीत दत्तात्रेय / हर्न दत्तात्रेय भगवानजी	गोवाएसवीसी / 196 / 15	द्वारा दत्ता नायक, ओम श्री साई अपा., एफ-2, दामोदर नगर, कुरती, पोंडा, गोवा	बीवीएससीएंडएच / एमएएफ एसयू / 2015	30.11.1988
465	मीना मधुकर काले / श्री मधुकर सदाशिव काले	गोवाएसवीसी / 197 / 15	द्वारा: विसेंट डी सूजा, बार एंटोनियो के सामने, डोंगाओ, कर्नीभट, मार्सेल, गोवा	बीवीएससीएंडएच / एमएएफ एसयू / 2008	30.07.1984
466	संधीप विष्णु थेर / श्री विष्णु दलपत थेर	गोवाएसवीसी / 198 / 15	द्वारा: विसेंट डी सूजा, बार एंटोनियो के सामने, डोंगाओ, कर्नीभट, मार्सेल, गोवा	बीवीएससीएंडएच / एमएएफ एसयू / 2008	06.09.1983
467	क्वीनी कैंडीस फर्नांडीज़ / श्री क्रुज़ फर्नांडीज़	गोवाएसवीसी / 199 / 15	फिलोमिना कॉलोनी, म.न.: 500 / 18, आल्टो सांटा, तिस्वाडी, गोवा-403202	बीवीएससीएंडएच / केवीएंड एफएसयू, बिदर / 2015	26.01.1992
468	एड्रियन अकेसियो कमारा / श्री एलन अकेसियो कमारा	गोवाएसवीसी / 200 / 15	म.न.: 223, एसी पाचेको रोड, बोरडा, मारगाओ, गोवा	बीवीएससीएंडएच / एमएएफ एसयू / 2015	05.03.1992
469	एम.वी. जिथिन / श्री एम. पी. वेलायुधन	गोवाएसवीसी / 200 / 15	म.न.: 887 / 9(2), कामत नगर, सुकोरो, पोरवोरिम, बारडेज, गोवा-403501	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2010	22.05.1988
470	परदेशी ए.सुभाष / श्री सुभाष बुधा परदेशी	गोवाएसवीसी / 201 / 15	वृंदावन बिल्डिंग, टोंका जंक्शन, काराक्सलेम, गोवा- 403002	बीवीएससीएंडएच / एमएएफ एसयू / 2009	14.02.1986
471	जागृति बथिनी / श्री बथिनी जागृति	गोवाएसवीसी / 202 / 16	म.न.: 111-ई / 3, गोविंद नगर, करासवाडा, मापुसा, गोवा	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2015	21.09.1992
472	सोलोमन राजकुमार / श्री आर. दाविंद राजू	गोवाएसवीसी / 203 / 16	डी-12, आईसीएआर रेजिडेंशल कॉम्प्लेक्स, ओल्ड गोवा- 403402	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2005	17.02.1983

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
473	सुसिथा राजकुमार / श्री नारायणन के.	गोवाएसवीसी / 204 / 16	डी-12, आईसीएआर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ओल्ड गोवा- 403402	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2005	28.09.1982
474	सिंह रतनदीप / श्री सिंह गंगाप्रसाद	गुजएसवीसी / 2678 / 16	सी-9, केवीके स्टाफ क्वा., दीसा-पटना हाईवे, दीपक होटल के पास, दीसा-385535, जिला-बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2006	17.09.1991
475	देवी सरिता / श्री लाल चंद	गुजएसवीसी / 2680 / 16	सी-9, केवीके स्टाफ क्वा., दीसा-पटना हाईवे, दीपक होटल के पास, दीसा-385535, जिला-बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2005	03.01.1983
476	अचंता अलेख्य प्रवीन / श्री सुब्बारायुडु	गुजएसवीसी / 3778 / 15	वाई-103, शिवाभी लक्जूरिया, जीजी माता मंदिर के सामने, मनेजा क्रॉस रोड, मनेजा, वडोदरा, जिला-वडोदरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर विवि / 2012	04.02.1989
477	विष्णुदेव कुमार / श्री ब्रज नंदन प्रसाद सिंह	गुजएसवीसी / 3779 / 15	अकेडमिक क्वा.न.-5, टाइप -बी/ए, जेएयू कैम्पस, जूनागढ़-362001, जिला-जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडए फएसयू / 2005	05.01.1979
478	बिनोद कुमार / श्री श्यामा नंद मेहता	गुजएसवीसी / 3780 / 15	सहायक प्रोफेसर, डिपा.वेट.पैरासिटोलॉजी, सीओवीएससी एंडएच, जेएयू, जूनागढ़-362001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / श्री वेंकटेश्वर विवि / 2008	03.01.1982
479	महाराना विस्वास रंजन / श्री बैकुंठ नाथ महाराना	गुजएसवीसी / 3781 / 15	सहायक प्रोफेसर, डिपा.वेट.पैरासिटोलॉजी, सीओवीएससी एंडएच, जेएयू, जूनागढ़-362001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / ओयूएंड टी / 2006	11.07.1981
480	अनिल शर्मा / श्री गंधर्व शर्मा	गुजएसवीसी / 3782 / 15	सहायक प्रोफेसर, डिपा.वेट.पैरासिटोलॉजी, सीओवीएससी एंडएच, जेएयू, जूनागढ़-362001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 2008	15.02.1983
481	आर. लक्ष्मी / श्री रमानी एम.वी.	गुजएसवीसी / 3783 / 15	न. 17 / 196, परशुराम अपार्टमेंट, जीवन बीमा नगर के निकट, सैटेलाइट रोड, अहमदाबाद-380015, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / पीयू / 19 99	16.11.1976
482	अटारा विराल कुमार / श्री भरतभाई	गुजएसवीसी / 3784 / 15	एटी / डाक-बिलपुडी (अटारा फालियु), तालुक-धरमपुर, जिला-वलसाड, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.विवि / 2015	22.11.1991
483	बलवानी जितेंद्र / श्री मुकेश कुमार	गुजएसवीसी / 3785 / 15	सांचा गली, नूतन गर्ल्स हाई स्कूल के पास, गणेश ट्रेडर्स के ऊपर, देवगढ़ा बरिया, जिला- दाहोद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.विवि / 2015	14.04.1993
484	चौधरी हसमुख भाई / श्री प्रेम भाई	गुजएसवीसी / 3786 / 15	एटी-लुहेरी निघल, फालियु, एटी-लुहेरी, डाक- कांगवी, तालुक-धरमपुर, जिला-वलसाड, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.विवि / 2015	20.06.1992
485	चौधरी सोनलबेन / श्री विष्णु भाई	गुजएसवीसी / 3787 / 15	चौधरीवास, एटी-अमुध, तालुक-उंझा, जिला- मेहसाना-384170, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.विवि / 2015	10.08.1992
486	चौधरी महेश कुमार / श्री मुलरजी भाई	गुजएसवीसी / 3788 / 15	204, चौधरीवास, एटी-कटारा, डाक-काठी कटारा, तालुक- हरीज, जिला-पाटन-384240, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.विवि / 2015	11.03.1991
487	मारु अजीत / श्री प्राणलाल	गुजएसवीसी / 3789 / 15	55, मिलन पार्क सोसायटी, संदेश प्रैस के पास, वस्त्रपुर, अहमदाबाद हाठ, एटी / तालु. / जिला-अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / पीएयू / 1 978	21.05.1955
488	चौहान आशीष / श्री विट्ठल भाई	गुजएसवीसी / 3790 / 15	वंकारवास, एटी-डाक- उंटावा, तालुका-कडी, जिला-मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.विवि / 2015	26.02.1993
489	चौधरी कोमल / श्री रामेश्वर लाल	गुजएसवीसी / 3791 / 15	34, जे.बी. रॉ हाउस, किम चार रास्ता, मंगरोल, जिला- सूरत-394111, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.विवि / 2015	07.07.1992
490	चेवेलिकर प्रतीक कुमार / श्री रमेश चंद्र	गुजएसवीसी / 3792 / 15	प्लॉट न.125 / 2, सेक्टर-14, एटी-गांधीनगर, जिला- गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.विवि / 2015	01.12.1991
491	देसाई ध्रुव / श्री नितिन कुमार	गुजएसवीसी / 3793 / 15	म.न.-6, "साई कुंज", संत कृपा सोसा., धरमिन नगर के पास, ग्रिड रोड, काबिलपोर, नवसारी-396424, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.विवि / 2015	24.12.1992
492	देसाई संजय कुमार / श्री प्रभात भाई	गुजएसवीसी / 3794 / 15	15, कुबेर नगर सोसायटी, अहमदाबाद हाईवे रोड, पालनपुर, जिला-बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.विवि / 2015	01.05.1992

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
493	गोंडलिया रवि / श्री भानदास	गुजएसवीसी / 3795 / 15	81-संत तुकाराम सोसायटी, पार्ट-2, पालनपुर, जकातनाका, सूरत, तालुक चौरयासी, जिला-सूरत, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.वि.वि / 2015	20.12.1992
494	गोस्वमी मयंक / श्री मानिगी	गुजएसवीसी / 3796 / 15	55, रौनक पार्क, शास्त्री नगर के पास, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.वि.वि / 2015	01.06.1993
495	जोशी नीरव / श्री हसमुख कुमार	गुजएसवीसी / 3797 / 15	बी / 10, जलदर्शन अपार्टमेंट, एटी-वावोल, तालुक-गांधी नगर, जिला-गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.वि.वि / 2015	19.01.1983
496	मकवाना रवि / श्री बिपिन चंद्र	गुजएसवीसी / 3798 / 15	जयहिंद लैडर कम्पाउंड, सुथरवास के पास, कल्याण पुरा, कलोल, जिला-गांधी नगर -382721, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.वि.वि / 2015	03.12.1991
497	भुरिया नरेश कुमार / श्री रमेश भाई	गुजएसवीसी / 3799 / 15	एटी / डाक- जलात मावी फालिया, एटी-जलात, तालुका- दाहोद, जिला- दाहोद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.वि.वि / 2015	05.03.1992
498	नायक चिंतन कुमार / श्री नयन कुमार	गुजएसवीसी / 3800 / 15	ए / 2, इरीगेशन कॉलोनी, छपरिया, राधे स्वीट मार्ट के सामने, एटी-हिम्मतनगर, जिला-साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.वि.वि / 2015	07.02.1992
499	शेख नूरजहा बेन / श्री अब्दुल कयूम	गुजएसवीसी / 3801 / 15	हुसैनी सोसायटी, जमाइत मस्जिद के निकट, सेवालिया (पाली), गल्लेश्वर, जिला- खेडा-388245, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.वि.वि / 2015	13.12.1992
500	पाण्ड्या हर्ष / श्री हसमुख भाई	गुजएसवीसी / 3802 / 15	38, अम्बेडकर नगर सोसा, कमालपुर रोड, पलक पार्टी प्लॉट के सामने, वडनगर, जिला-मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.वि.वि / 2015	06.09.1991
501	पटेल अर्पित कुमार / श्री जगदीश भाई	गुजएसवीसी / 3803 / 15	410, उमियानगर, एटी-उंछा, तालुक-प्रांतिज, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.वि.वि / 2015	10.08.1993
502	पटेल भाविक कुमार / श्री मुकेश कुमार	गुजएसवीसी / 3804 / 15	पटेल स्ट्रीट, एटी:माली, तालुका- हिम्मतनगर, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.वि.वि / 2015	23.12.1992
503	पटेल धवल कुमार / श्री भाईलाल भाई	गुजएसवीसी / 3805 / 15	एन-17, सहवास अपार्ट., रवि नगर स्कूल के पास, जीवराज पार्क, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.वि.वि / 2015	03.07.1993
504	पटेल हितेश कुमार / श्री कांति लाल	गुजएसवीसी / 3806 / 15	2726, उतारा फालिया, पीपल खेड, तालुक-वंसदा, जिला- नवसारी-396580, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.वि.वि / 2015	27.05.1993
505	पटेल निकुंज कुमार / श्री प्रकाश भाई	गुजएसवीसी / 3807 / 15	सरद फालिया ग्राम, बोडवंक, तालुक- चिखाली, जिला- नवसारी, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.वि.वि / 2015	10.04.1993
506	पटेल रेखन कुमार / श्री काशु भाई	गुजएसवीसी / 3808 / 15	एफ-8-161, निर्माण रोड, एटी-वंसडा, तालुका-वंसडा, जिला-नवसारी, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.वि.वि / 2015	28.04.1991
507	पटेल यश कुमार / श्री रामभाई	गुजएसवीसी / 3809 / 15	एटी-डाक-मिंधाबारी (उपला फालिया), एटी-मिंधाबारी, तालुका-वंसडा, जिला- नवसारी, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.वि.वि / 2015	25.11.1992
508	पवार वल्लभ भाई / श्री दशरु भाई	गुजएसवीसी / 3810 / 15	29, हडोल असन ना मल फालिया, ग्राम्य विस्तार, एटी-हडोल, तालुक- सुबीर, जिला-डांगस, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.वि.वि / 2015	01.04.1991
509	प्रजापति जिग्नेश कुमार / श्री पोपट लाल	गुजएसवीसी / 3811 / 15	117, प्रजापति फाली, नावा, एटी-नावा, तालुका-हिम्मत नगर, जिला-साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.वि.वि / 2015	06.10.1992
510	ठाकोर प्रकाशजी / श्री बाबू भाई	गुजएसवीसी / 3812 / 15	खोडियार नगर सोसायटी, एटी-शंखेश्वर, तालुका- शंखेश्वर, जिला-पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.वि.वि / 2015	01.06.1992
511	सोलंकी भूमि / श्री अजय कुमार	गुजएसवीसी / 3813 / 15	ब्लॉक न.-663/8, राजपुर हीरपुर रेलवे कॉलोनी, सिद्धि विनायक अस्पताल, मणिनगर, एटी-अहमदाबाद, जिला- अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.वि.वि / 2015	17.02.1993
512	वघाशिया भास्कर / श्री जयसुख भाई	गुजएसवीसी / 3814 / 15	टू-ईश्वरिया (रुपावती), एटी- ईश्वरिया, तालुका-विस्वावर, जिला-जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.वि.वि / 2015	23.09.1993

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
513	शेख हसन जहांगीर / श्री गुलाम दस्तगीर	गुजएसवीसी / 3815 / 15	ई-203, अल बुरुज सोसा., मकरबा रोड, एटी-अहमदाबाद, तालुक- अहमदाबाद, जिला- अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.वि.वि / 2015	06.09.1990
514	स्वामी श्रीजा / श्री पीयूष कुमार	गुजएसवीसी / 3816 / 15	यमुना पार्क, आनंद, जिला- आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.वि.वि / 2015	14.10.1991
515	व्यास सागर / श्री रमेश कुमार	गुजएसवीसी / 3817 / 15	78-कुलीन टेनामेंट, वासने बराज रोड, वासना अपार्टमेंट, अहमदाबाद, जिला- अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / नवसारी कृ.वि.वि / 2015	18.07.1992
516	चौहान विपुल भाई / श्री बटुक भाई	गुजएसवीसी / 3818 / 15	एटी-दुदाना, तालुका- कोडीनार, जिला- गिर सोमनाथ, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जूनागढ़ कृ.वि.वि / 2015	24.04.1993
517	पटेल राहुल कुमार / श्री कनु भाई	गुजएसवीसी / 3819 / 15	93, शांति नगर सोसायटी, महावीर नगर, हिम्मत नगर, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जूनागढ़ कृ.वि.वि / 2015	04.12.1991
518	सोलंकी विपुल / श्री लखमन भाई	गुजएसवीसी / 3820 / 15	एटी: अजोटा माधव प्रोवीजन स्टोर, बस स्टैंड, तालुका- वेरावल, जिला- गिर सोमनाथ -362268, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जूनागढ़ कृ.वि.वि / 2015	10.4.1993
519	रावल सौरभ कुमार / श्री रमेश चंद्र	गुजएसवीसी / 3821 / 15	ब्लॉक न.-112, सेक्टर-25, सहकार कॉलोनी (जीएचबी), एटी-गांधीनगर, जिला- गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जूनागढ़ कृ.वि.वि / 2015	01.04.1992
520	केशरिया देसूर / श्री केशुर भाई	गुजएसवीसी / 3822 / 15	एटी- भडथर, तालुक- जाम खमभलिया, जिला-द्वारका, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जूनागढ़ कृ.वि.वि / 2015	01.04.1992
521	गोस्वामी मनीष गिरि / श्री बाबू गिरि	गुजएसवीसी / 3823 / 15	गायत्री कृपा बंगला, एटी- धादुसिया मठ, डाक-बयाद, तालुक- बयाद, जिला- अरावली, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जूनागढ़ कृ.वि.वि / 2015	07.02.1993
522	डोबरिया कल्पेश कुमार / श्री नागजी भाई	गुजएसवीसी / 3824 / 15	एटी-भम्भनिया, तालुका- कुकावाव वाडिया, जिला- अमरेली, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जूनागढ़ कृ.वि.वि / 2015	01.06.1991
523	देसाई केतन कुमार / श्री नागजी भाई	गुजएसवीसी / 3825 / 15	राबरीवास, एटी/डाक-इंद्राद, तालुक- कडी, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जूनागढ़ कृ.वि.वि / 2015	17.10.1992
524	चौधरी जगदीश कुमार / श्री माफाभाई	गुजएसवीसी / 3826 / 15	एटी-कुवाटा, तालुक-देवदर, डाक-पलाडी, जिला- बनासकंठा- 385330, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जूनागढ़ कृ.वि.वि / 2015	10.07.1993
525	गलचर रमेश / श्री करशन भाई	गुजएसवीसी / 3827 / 15	एटी-पंचासिया, तालुक- वांकनेर, जिला- मोरबी, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जूनागढ़ कृ.वि.वि / 2015	14.05.1990
526	जरदव जयेश / श्री जयंति लाल	गुजएसवीसी / 3828 / 15	एटी-अखोदर, तालुक- केशोद, जिला- जूनागढ़- 362220, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जूनागढ़ कृ.वि.वि / 2015	24.03.1992
527	टांक जतिन / श्री किशोर	गुजएसवीसी / 3829 / 15	टू:अंजार खत्री चौक, इस्माइल खत्री शॉप के सामने, तुरिया, वाड, अंजार, तालुक-अंजार, जिला- कच्छ, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जूनागढ़ कृ.वि.वि / 2015	27.09.1994
528	गोहेल राहुल कुमार / श्री हरसुख भाई	गुजएसवीसी / 3830 / 15	अमृत नगर, मधुरम बस स्टॉप के सामने, मारुति काम्प्लेक्स के निकट, 'राहुल', जूनागढ़, जिला-जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जूनागढ़ कृ.वि.वि / 2015	24.03.1991
529	खटरिया मिथुन कुमार / श्री देवदान भाई	गुजएसवीसी / 3831 / 15	टू:केशोद, एयरपोर्ट रोड, मंगलम सोसायटी, बी / न.8, तालुक-केशोद, जिला- जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जूनागढ़ कृ.वि.वि / 2015	09.08.1993
530	वानिया राहुल कुमार / श्री प्रवीन भाई	गुजएसवीसी / 3832 / 15	खाराघोड़ा (जूनागाम), तालुका -पातडी, जिला- सुरेंद्र नगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जूनागढ़ कृ.वि.वि / 2015	07.02.1991
531	राढेर राधाबेन / श्री रामू भाई	गुजएसवीसी / 3833 / 15	बरादा-फालिया, एटी- कवदेज, तालुक-वंसदा, जिला - नवसारी-396580, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जूनागढ़ कृ.वि.वि / 2015	23.11.1990
532	चत्रभुजी बूदा / श्री बिपिन भाई	गुजएसवीसी / 3834 / 15	दीपांजलि 1, गायत्री स्कूल के सामने, ब्रज, एटी-जूनागढ़- 362001, जिला-जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जूनागढ़ कृ.वि.वि / 2015	25.10.1991
533	पांडवदारा चांदनी बेन / श्री नाजाभाई	गुजएसवीसी / 3835 / 15	एटी / डाक-पोरबंदर, श्याम पार्क, प्लॉ.न. 47, आर्य समाज मंदिर के निकट, रोकड़िया हनुमान मंदिर के पीछे, एटी-पोरबंदर, जिला- पोरबंदर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जूनागढ़ कृ.वि.वि / 2015	05.02.1991

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
534	आग्जा दीपेश / श्री चंद्रवदन	गुजएसवीसी / 3836 / 15	27-रहस्य सोसायटी, नवीन चंद्र पार्क के सामने, विट्टल नगर क्रॉस रोड, सिविल कैम्प रोड, साहीबोंग, ता.-असारवा, अहमदाबाद-380004, जिला- अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	24.06.1992
535	विनीत कुमार / श्री राहुल प्रसाद सिंह	गुजएसवीसी / 3837 / 15	सहायक प्रोफेसर, डिपा. ऑफ वेट. सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, सीओवीएससी एंड एच, जेएयू, जूनागढ़- 362001, जिला-जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / केवीएएंड एफएसयू / 2008	01.03.1978
536	भोरानिया आबिद हुसैन / श्री गुलाम भाई	गुजएसवीसी / 3838 / 15	एटी-डाक- रसूलपुर, एटी- रसूलपुर, तालुका-खेरालू, जिला-मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	24.06.1991
537	चौधरी परेश कुमार / श्री ईश्वर भाई	गुजएसवीसी / 3839 / 15	एटी-अधगाम, डाक- चांगा, तालुक- ककरेज, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	06.05.1992
538	चौधरी महेश भाई / श्री पुंजा भाई	गुजएसवीसी / 3840 / 15	एटी- रामपुरा, डाक-एटा, तालुक- सुईगाम, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	21.04.1990
539	चावडा हिमाली / श्री संजय भाई	गुजएसवीसी / 3841 / 15	बी711, जिला पंचायत स्टाफ क्वा., एस.टी. कॉलोनी के सामने, जी.डी. मोदी कॉलेज रोड, एटी- पालनपुर, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	05.02.1993
540	चावडा नीरज सिंह / श्री किरित सिंह	गुजएसवीसी / 3842 / 15	ब्लॉक न.-140 / 3359, गुजरात हाउसिंग बोर्ड, मेघानी नगर, एटी- अहमदाबाद, जिला- अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	23.07.1991
541	दामोर पंकज कुमार / श्री अदेसिंह	गुजएसवीसी / 3843 / 15	ए-101, जीवन ज्योत सोसा., मल्होत्रा मिल रोड, ओधव, अहमदाबाद, जिला- अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	10.11.1989
542	दामोर विनायक कुमार / श्री मगन भाई	गुजएसवीसी / 3844 / 15	एटी-छितादारा, डाक- नवगाम, तालुका- मेघराज, जिला-अरावली, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	27.01.1992
543	सावरकर सुरेंद्र / श्री वामन राव	गुजएसवीसी / 3845 / 15	सहायक प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, डिपा.वेट एंड एच एक्स., सीओवीएससी एंड एच, जूनागढ़-362001, जिला- जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / डॉ- पंजाबराव कृषि विद्यापीठ / 1995	01.01.1971
544	गधवी नेगीदन / श्री शम्भुदन	गुजएसवीसी / 3846 / 15	एटी- कोरेती, तालुका- सुईगाम, जिला-बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	21.06.1993
545	गारसिया विनोद भाई / श्री खाटू भाई	गुजएसवीसी / 3847 / 15	एटी- पदिमाधुदी, डाक- झालोद, तहसील- झालोद	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	05.01.1991
546	घसूरा गजाला / श्री सिकंदर खान	गुजएसवीसी / 3848 / 15	38-ए, न्यू अमन पार्क सोसा., सुखबाग रोड, पालनपुर, जिला-बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	29.01.1992
547	चांद सागर / श्री ईश्वर दास	गुजएसवीसी / 3849 / 15	डिपा.ऑफ एलपीटी, सीओवी एसएंडएच, जेएयू, जूनागढ़, तालुक-जूनागढ़, जिला- जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीकेबीवी / 2009	10.09.1985
548	जोशी अक्षय कुमार / श्री बाबू लाल	गुजएसवीसी / 3850 / 15	286 / बी, ब्राह्मनवास, एटी- शिकरिया, तालुक- दांतीवाड़ा, जिला-बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	29.04.1992
549	जोशी कृपा / श्री राजेंद्र कुमार	गुजएसवीसी / 3851 / 15	बी-34, सारथी नगर सोसा., चानरमा हाईवे, सांथिनिकेतन हाई स्कूल के निकट, पाटन, जिला-पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	28.07.1992
550	जोशी विधि / श्री विजय कुमार	गुजएसवीसी / 3852 / 15	27, गुरुकृपा सोसा., अकेसन रोड, अहमदाबाद हाईवे, एटी - पालनपुर, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	10.03.1992
551	कला जितेंद्रकुमार / श्री काशीराम भाई	गुजएसवीसी / 3853 / 15	6 / 23, अम्बेडकर नगर, एटी डाक- / धीमा, तालुक-वाव, जिला-बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	23.11.1990
552	कापड़ी आरतीबेन / श्री जयंतिलाल	गुजएसवीसी / 3854 / 15	17, भक्ति नगर, एटी डाक- थारा, तालुका- ककरेज, जिला-बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	10.01.1993

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
553	खत्री सुनील / श्री भोमा राम	गुजएसवीसी / 3855 / 15	ढेबर रोड, सोनी बाजार के पास, दीसा, बनासकंठा, एटी—दीसा, तालुका—दीसा, जिला—बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	21.02.1993
554	लिम्बचिया नीरव / श्री मुकेश कुमार	गुजएसवीसी / 3856 / 15	42, ग्रीन सिटी, पाटन हाईवे रोड, जिला—बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	12.07.1992
555	मोघ रौनक / श्री हसमुख लाल	गुजएसवीसी / 3857 / 15	गाठमन गेट के बाहर, पेट्रोल पम्प के पास, एटी—पालनपुर, जिला—बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	13.09.1991
556	मोदी रजनी कांत / श्री चम्पक लाल	गुजएसवीसी / 3858 / 15	ढूंढियावाड़ी, रेलवे कॉलोनी के निकट, ताजपुरा रोड, घेमर पुरा नाका, एटी—पालनपुर, जिला—बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	16.08.1991
557	नलवाया शिषिर कुमार / श्री भरत सिंह	गुजएसवीसी / 3859 / 15	42, आकाशदीप सोसायटी, दाहोद नगर, दाहोद—12—389151, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	19.01.1991
558	राठवा नेहल कुमार / श्री भाव सिंह	गुजएसवीसी / 3860 / 15	एफ / 56, शरनम टेनामेंट, स्वामी नारायण गुरुकुल के पास, वाघोडिया, रिंग रोड, वडोदरा 390 019, जिला—वडोदरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2016	30.09.1992
559	परमार अरविंद कुमार / श्री बाबू लाल	गुजएसवीसी / 3861 / 15	पुराना एफ32 / 6, सरदार कृषि नगर, दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, दांतीवाड़ा, तालुका—दांतीवाड़ा, जिला—बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	20.06.1992
560	परमार गिरीशभाई / श्री अम्बा भाई	गुजएसवीसी / 3862 / 15	संघवी मंदिर के पास, हरिजन प्लॉट, एटी / डाक—ताड़व, तवाव, जिला—बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	05.02.1992
561	पटेल अजयकुमार / श्री गनपत भाई	गुजएसवीसी / 3863 / 15	41, रघुवीर सोसा., उमिया माता के मंदिर के पीछे, उंझा, ता.—उंझा, जिला—मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	23.04.1993
562	पटेल बृजेशकुमार / श्री प्रवीन भाई	गुजएसवीसी / 3864 / 15	51, तिरुपति पार्क सोसायटी, एटी—विजयपुर, जिला—मेहसाना—382870, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	16.03.1992
563	पटेल बृजेशकुमार / श्री रमेश भाई	गुजएसवीसी / 3865 / 15	सरदार सोसायटी, हसनापुर, तालुका—विजयपुर, जिला—मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	15.01.1992
564	पटेल जानकीबेन / श्री कांति लाल	गुजएसवीसी / 3866 / 15	“वीरकृपा फार्म हाउस”, कृष्णा रेजीडेंसी के पीछे, अम्बाजी हाईवे, चार रास्ता, पालनपुर, तालुका—पालनपुर, जिला—बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	06.12.1992
565	पटेल जयदीप कुमार / श्री रमन भाई	गुजएसवीसी / 3867 / 15	नवुपारु, एटी—बाजीपुरा, डाक—कुवासना, तालुक—विसनगर, जिला—मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	12.06.1991
566	पटेल काजलबेन / श्री सोमाभाई	गुजएसवीसी / 3868 / 15	बी / 8, शक्ति नगर सोसा., एस.टी.वर्कशॉप के पीछे, बेचरपुरा, पालनपुर, तालुका—पालनपुर, जिला—बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	11.12.1991
567	पटेल मौलिक कुमार / श्री गोविंद भाई	गुजएसवीसी / 3869 / 15	ईश्वर नगर (मधुपुरा), एटी—कामली, तालुका—सोनगढ़, जिला—तापी, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	03.08.1992
568	पटेल नीरव कुमार / श्री गमन लाल	गुजएसवीसी / 3870 / 15	3ए / 187, सेक्टर—4, पठारदा कॉलोनी, एटी—उकई, तालुक—सोनगढ़, जिला—तापी, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	31.12.1991
569	पटेल प्रतीक कुमार / श्री विनोद भाई	गुजएसवीसी / 3871 / 15	सी—1एस, राजकमल सोसा., शांतिनिकेतन स्कूल के निकट, चनास्मा हाईवे, पाटन, जिला—पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	07.10.1991
570	पटेल राज कुमार / श्री कनु भाई	गुजएसवीसी / 3872 / 15	सी / 20, तिरुपति टाउनशिप, धारोई कॉलोनी रोड, विसनगर, तालुका—विसनगर, जिला—मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	08.07.1992
571	पटेल रौनक कुमार / श्री कनुभाई	गुजएसवीसी / 3873 / 15	न्यू वाहनवटिमा मंदिर, लक्ष्मी पुरा (नंदासन), तालुक—कडी, जिला—मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	01.09.1992

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
572	पवार जयेश भाई / श्री परसोत भाई	गुजएसवीसी / 3874 / 15	इसुरादा, एटी एवं डाक- हनमतमल, तालुक- धरमपुर, जिला-वलसाड, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	12.03.1993
573	प्रजापति भावेश, श्री मनुभाई	गुजएसवीसी / 3875 / 15	एटी-सलेमपुरा, डाक- कुम्भासन, तालुका-पालनपुर, जिला-बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	30.07.1993
574	प्रजापति खुशबू बेन / श्री कीर्ति बेन	गुजएसवीसी / 3876 / 15	प्रजापतिवास, एटी-कुम्भासन, तालुका-पालनपुर, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	26.12.1992
575	प्रजापति रानाभाई / श्री कांजी भाई	गुजएसवीसी / 3877 / 15	एटी:लोरवाडा, डाक-जामदा, तालुका-थराड, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	01.06.1991
576	राठौड़ अंजलिबेन / श्री सुरेश भाई	गुजएसवीसी / 3878 / 15	287, अंतियावास, एटी-गढ़, तालुका-पालनपुर, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	03.08.1993
577	रत्नु देवनगिनिबा / श्री अनिरुद्ध सिन्हा	गुजएसवीसी / 3879 / 15	9-शिवम बंगला, रिंलाएस पेट्रोल पम्प के पीछे, मेहसाना हाईवे, बेचरजी, तालुक- बेचरजी, जिला-मेहसाना -384210, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	01.01.1993
578	रावल दिशबेन / श्री योगेश कुमार	गुजएसवीसी / 3880 / 15	ए/1, विराट नगर, बर्ना रोड, हिम्मत नगर, जिला- साबरकंठा-383001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	13.06.1993
579	सक्सेना हार्दिक कुमार / श्री यशवंत भाई	गुजएसवीसी / 3881 / 15	एटी / डाक-राजपुर(वड), एटी -राजपुर, तालुक-वडनगर, जिला-मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	30.07.1992
580	शेख परवेज़ / श्री एजाज़	गुजएसवीसी / 3882 / 15	4, चिनार पार्क, मेमन हॉल के पास, शरखेज रोड,अहमदाबाद -380055,तालुक-अहमदाबाद	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	21.09.1992
581	सोनी तन्वीबेन / श्री महेंद्र कुमार	गुजएसवीसी / 3883 / 15	48, मोदी नगर सोसायटी, गोबारी रोड, पालनपुर, जिला -बनासकंठा-385001,गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	23.11.1992
582	त्रिवेदी विजय कुमार / श्री रमेश भाई	गुजएसवीसी / 3884 / 15	एटी: लुनाल, तालुका- थरड, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	03.04.1993
583	वाघेला रुदाभाई / श्री बाला भाई	गुजएसवीसी / 3885 / 15	एटी- जेतदा, तालुका- थरड, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	11.06.1991
584	वरसट अश्विन कुमार / श्री रामाजी भाई	गुजएसवीसी / 3886 / 15	एटी-साजापुर, डाक-राजेंद्र नगर, तालुका-हिम्मतनगर, जिला-साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	08.06.1991
585	असारी धवल सिंह / श्री दिलीप सिंह	गुजएसवीसी / 3887 / 15	एटी एवं डाक-खलवाड, तालुका- भिलोडा, जिला- अरावली, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	01.06.1991
586	भाभोर अश्विन कुमार / श्री पुंजाभाई	गुजएसवीसी / 3888 / 15	चौहान फालियु, धमरदा, एटी-धमरदा, तालुका- दाहोद, जिला-दाहोद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	30.06.1987
587	बोछर जयमिन / श्री भुरजी भाई	गुजएसवीसी / 3889 / 15	ए/9, बंसीधर सोसायटी, महावीर नगर, एटी-हिम्मत नगर,जिला-साबरकंठा,गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	07.08.1990
588	चौधरी अशोक / श्री देवजी भाई	गुजएसवीसी / 3890 / 15	एटी- अंकलियारा, तालुक- सतलासना, जिला-मेहसाना- 384330, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	06.10.1988
589	चौधरी नितेश कुमार / श्री जेरम भाई	गुजएसवीसी / 3891 / 15	एटी-पंठारमल, डाक- कलीबेल, तालुक-वघाई, जिला- डांग अहवा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	02.08.1990
590	जयस्वाल रवि कुमार / श्री भीखा लाल	गुजएसवीसी / 3892 / 15	एटी-लखतार, तालुक- लखतार, जिला- सुरेंद्र नगर- 382775, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	07.06.1991
591	खराडी रवि / श्री हीरालाल	गुजएसवीसी / 3893 / 15	ब्लॉक न.-25/5, "सीएच" टाइप, सेक्टर-29, गांधीनगर - 382029, जिला-गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	30.10.1988
592	मकवाना धर्मेश कुमार / श्री बिपिन भाई	गुजएसवीसी / 3894 / 15	अम्बिका स्ट्रीट, भटियेल, तालुक- पेटलाड, जिला- आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	14.05.1990

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
593	पराधी संजय कुमार / श्री लेम्बा भाई	गुजएसवीसी / 3895 / 15	230, दाभी फाली, खुनिया, तालुक-अमीरगढ़, जिला- बी.के.-385130, जिला-बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	15.01.1989
594	परमार मोहसिनखा / श्री लियाकत खान	गुजएसवीसी / 3896 / 15	ई-402, अल-बुरुज फ्लैट्स, मकरबा पुलिस स्टेशन के सामने, एस.जी. हाईवे, अहमदाबाद, एटी-सरखेज, जिला-अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	07.01.1991
595	पटेल सचिन कुमार / श्री विष्णु भाई	गुजएसवीसी / 3897 / 15	उमियापारु, एटी-सेवला, तालुका-चनास्मा, जिला- पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसकेडी एयू / 2015	04.09.1990
596	चौधरी पार्थ / श्री जेसिंग भाई	गुजएसवीसी / 3898 / 15	डाकघर के निकट, एटी- टकटुका, तालुका- भिलोडा, जिला-अरावली, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एयू, आनंद / 2015	03.05.1993
597	छत्रालिया जयश्रीबेन / श्री जयंतिभाई	गुजएसवीसी / 3899 / 15	एल / 5, ब्लॉक न.-8, कमरा न.-230, शास्त्री नगर, नारनपुरा, एटी- अहमदाबाद	बीवीएससीएंडएच / एयू, आनंद / 2015	02.05.1992
598	चित्रालया जहानवी / श्री महेंद्र कुमार	गुजएसवीसी / 3900 / 15	41, महालक्ष्मी सोसा., जीआईडी सी के पास, मनसा-382845, एटी-मनसा, तालुका-मनसा, जिला- गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एयू, आनंद / 2015	15.04.1993
599	डांगर प्रभात कुमार / श्री बीजल भाई	गुजएसवीसी / 3901 / 15	बावजी शेरी प्लॉट, एटी- नेशदा, तालुका-आईओआरए, जिला-साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एयू, आनंद / 2015	22.04.1993
600	चावडा धवल कुमार / श्री प्रवीन भाई	गुजएसवीसी / 3902 / 15	एटी / डाक-भद्रेसर, एटी- इदार, तालुक-इदार, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एयू, आनंद / 2015	10.04.1992
601	धियाद अरुण / श्री जगाभाई	गुजएसवीसी / 3903 / 15	'अरुण', 6-वांकानेर हाउ.सो., जामनगर रोड, राजकोट, एटी- राजकोट, तालुक-राजकोट, जिला-राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एयू, आनंद / 2015	09.09.1990
602	गोरी हरीशभाई / श्री पंजाभाई	गुजएसवीसी / 3904 / 15	एटी एवं डाक-गोधार (प.), तालुक-संतरामपुर, जिला-महीसागर-389230, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एयू, आनंद / 2015	01.06.1989
603	गोंडालिया वैशाली / श्री लालजी भाई	गुजएसवीसी / 3905 / 15	एटी एवं डाक-सुल्तानपुर, वसानी प्लॉट, तालुक-गोंडलम, जिला- राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एयू, आनंद / 2015	06.11.1992
604	जादव राहुल भाई / श्री वाल्मी भाई	गुजएसवीसी / 3906 / 15	जनता कॉलोनी, एटी- कोठाम्बा, लूनावाड़ा, जिला- महीसागर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एयू, आनंद / 2015	26.06.1992
605	जोशी नयन कुमार / श्री हरि शंकर	गुजएसवीसी / 3907 / 15	"अवदकूपा", 152-ए, जैन डेरासर के पास, दर्शन सोसा., अहमदाबाद हाईवे, एटी- शिहोर, तालुक-शिहोर, जिला - भावनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एयू, आनंद / 2015	15.06.1992
606	कलास्वा सचिन कुमार / श्री मावजी भाई	गुजएसवीसी / 3908 / 15	422, कलास्वा-ठकरदा फाली, लिलछा पटिया, एटी व डाक -खलवाड, ग्राम-खलवाड, तालुक -भिलोडा, जिला-अरावली- 383245, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एयू, आनंद / 2015	16.12.1992
607	करकरिया तुषना / श्री सरोश	गुजएसवीसी / 3909 / 15	ई / 3, प्रार्थना, आलोक, एच.एल. कॉलेज के निकट, नवरंगपुरा, एटी- अहमदाबाद, तालुका-अहमदाबाद, जिला- अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एयू, आनंद / 2015	01.04.1991
608	कोडियातर माधुरी / श्री दिलीप कुमार	गुजएसवीसी / 3910 / 15	जलराम नगर-1, प्लॉट न.-17, राजीव नगर के निकट, नरसंग के पीछे, टेकरी डाक- जीआईडीसी, पोरबंदर- 360577, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एयू, आनंद / 2015	21.05.1991
609	कुमार राधिका / श्री रथीश	गुजएसवीसी / 3911 / 15	405, अश्व मेघ अपार्ट., इरमा गेट के सामने, आनंद- 388001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एयू, आनंद / 2015	02.04.1992
610	मानवर निकुंज कुमार / श्री भगवानजी भाई	गुजएसवीसी / 3912 / 15	एटी: नावदा, तालुक-वनथली, जिला-जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एयू, आनंद / 2015	18.05.1992

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
611	मिस्त्री उर्विश/श्री प्रवीन भाई	गुजएसवीसी/3913 / 15	1, विेनी पार्क, कैरा कैन क्वा. के सामने, कैलाश फार्म रोड, गणेश चौकड़ी, एटी-आनंद, तालुक-आनंद, जिला-आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच/एएयू, आनंद /2015	09.12.1992
612	सगदा नूरदास /श्री मगन भाई	गुजएसवीसी/3914 / 15	12, टापनापोर, एटी- अनवरपुरा, तालुका-झलोद, जिला-दाहोद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच/एएयू, आनंद /2015	15.12.1991
613	पांड्या शैली/श्री मनीश कुमार	गुजएसवीसी/3915 / 15	5-सम्भवनाथ सोसायटी, गायत्री मंदिर रोड, महावीर नगर, एटी-हिम्मत नगर, तालुका-हिम्मत नगर, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच/एएयू, आनंद /2015	15.05.1993
614	परमार चिराग कुमार/श्री चंदूलाल	गुजएसवीसी/3916 / 15	म.न.: 173, हरिजनवास, एटी एवं डाक- टकटुका, तालुक भिलोडा, जिला-ऐवेली -383246, गुजरात	बीवीएससीएंडएच/एएयू, आनंद /2015	10.05.1992
615	प्रजापति अशोक कुमार/श्री रमन लाल	गुजएसवीसी/3917 / 15	एटी-डाक-रखियल, एटी- रखियल, तालुका-मोडासा, जिला- अरावली, गुजरात	बीवीएससीएंडएच/एएयू, आनंद /2015	05.04.1992
616	प्रजापति अतुल कुमार/श्री डाहया भाई	गुजएसवीसी/3918 / 15	एटी एवं डाक-धानपुरा, तालुका- वीजापुर, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच/एएयू, आनंद /2015	03.11.1992
617	प्रजापति कौशल /श्री बाबू लाल	गुजएसवीसी/3919 / 15	डी-405, समर्पण रेजिडेंसी, सिंदबाद होटल के सामने, हाइवे रोड, एटी-कलोल, तालुका-कलोल, जिला- गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच/एएयू, आनंद /2015	10.11.1991
618	पटेल आकाश /श्री विनोद भाई	गुजएसवीसी/3920 / 15	ब्लॉक न. 229/2,किशननगर, सेक्टर-26, गांधीनगर- 382026, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच/एएयू, आनंद /2015	10.04.1992
619	पटेल भौमिक/श्री नरेंद्र भाई	गुजएसवीसी/3921 / 15	4, नारायण पार्क सोसायटी, एच.एल. कॉमर्स कॉलेज के पीछे, रेड रोज होस्टल के सामने, नवरंगपुरा,अहमदाबाद, जिला-अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच/एएयू, आनंद /2015	13.04.1993
620	पटेल बिपिन कुमार/श्री कनुभाई	गुजएसवीसी/3922 / 15	एटी-नराना मुवाडा, पटेल फालियु, तालुका- कपाड़वज, जिला-खेड़ा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच/एएयू, आनंद /2015	10.06.1992
621	पटेल मौलिक कुमार /श्री अरविंद भाई	गुजएसवीसी/3923 / 15	68,वाचालु फालिया, सलावाडा, डाक-चरंगम, तालुका- लुनावाडा, जिला-महीसागर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच/एएयू, आनंद /2015	22.04.1993
622	पटेल मयंक कुमार/श्री कन्हैया लाल	गुजएसवीसी/3924 / 15	बी/77, तिरुपति टाउनशिप, धरोई कॉलोनी के पास, एटी- विसनगर, तालुका- विसनगर, जिला-मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच/एएयू, आनंद /2015	21.05.1992
623	पटेल राहुल कुमार/श्री चंदु लाल	गुजएसवीसी/3925 / 15	एटी एवं डाक- संगल, तालुका- मेधराज, जिला- अरावली, गुजरात	बीवीएससीएंडएच/एएयू, आनंद /2015	04.08.1992
624	पटेल श्वेता बहन/ श्री नागिन भाई	गुजएसवीसी/3926 / 15	एटी एवं डाक-केशरगंज, तालुक-वडाली, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच/एएयू, आनंद /2015	22.06.1993
625	पटेलिया दीपक कुमार/श्री शामजी भाई	गुजएसवीसी/3927 / 15	215, दया पार्क सोसायटी, जयम्बे स्कूल के निकट, एल.एच.रोड, वरछा रोड, सूरत, जिला-सूरत, गुजरात	बीवीएससीएंडएच/एएयू, आनंद /2015	23.03.1993
626	राठौड़ अशोक भाई/श्री मनुभाई	गुजएसवीसी/3928 / 15	दूध की डेरी के पास, एटी: ओलक, तालुका-लखतार, जिला-सुरेंद्र नगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच/एएयू, आनंद /2015	30.10.1992
627	राठौड़ राजेश कुमार/श्री चंदुभाई	गुजएसवीसी/3929 / 15	229, नवजीवन विद्यालय के सामने, राठौड़ वास, एटी- पटनाकुवा, तालुका-देहगाम, जिला-गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच/एएयू, आनंद /2015	04.08.1992
628	शाह बंसारी/श्री रोहित कुमार	गुजएसवीसी/3930 / 15	कल्पतरु-16, राधिका पार्क, आकृति नगर के पीछे, जितोदिया रोड, आनंद- 388 001, जिला-आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच/एएयू, आनंद /2015	22.08.1992
629	शाह जिमिशा/श्री गोविंद कुमार	गुजएसवीसी/3931 / 15	212/213,वेलकम फ्लैट, एम आईजी फ्लैट के निकट, बुध देव कॉलोनी के सामने,करेली बाग, एटी/तालुका- वडोदरा, जिला-वडोदरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच/एएयू, आनंद /2015	09.09.1992

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
630	सोलंकी दिग्नेश / श्री पुरुषोत्तम भाई	गुजएसवीसी / 3932 / 15	एच / 103, प्रमुख ओएसिस, सरगासन चौकडी के निकट, एटी:गांधीनगर, ता. -गांधीनगर, जिला गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू आनंद / 2015	21.10.1991
631	वधाम्शी विपिन कुमार / श्री गमरु भाई	गुजएसवीसी / 3933 / 15	एटी:विकरिया, राम मंदिर के निकट, तालुका-विसवावर, जिला- जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू आनंद / 2015	07.04.1992
632	वाधामाशी दिलीप कुमार / श्री घुसा भाई	गुजएसवीसी / 3934 / 15	वाधामाशी घुसाभाई समतभाई, खोडियार माता ना मंदिर पास, एटी-विजापदी, तालुका -सावर कुंडला,जिला:अमरेली, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू आनंद / 2015	31.12.1992
633	विसानी हिरेन कुमार / श्री रामजी भाई	गुजएसवीसी / 3935 / 15	303, सोपान अपार्ट., निर्मला कॉन्वेंट रोड, डॉ.कमल दोषी का अस्पताल, एटी-राजकोट, जिला- राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू आनंद / 2015	05.05.1992
634	यादव अंजु कुमारी / श्री जगदीश भाई	गुजएसवीसी / 3936 / 15	7, धनलक्ष्मी पार्क, जितोदिया रोड, एटी-आनंद, जिला- आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू आनंद / 2015	01.01.1992
635	जाला भावेशभाई / श्री हीराभाई	गुजएसवीसी / 3937 / 15	हीराभाई मावजीभाई जाला, एटी-गुजरदा, तालुका- गरियाधर, जिला-भावनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू आनंद / 2015	09.05.1991
636	संधिया मिलाप / श्री गौतम भाई	गुजएसवीसी / 3938 / 15	7, देव दर्शन बंगला, सोमनाथ महादेव मंदिर के पास, तारेती रोड, मेहसाना-1, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू आनंद / 2015	02.11.1991
637	मकवाना दीक्षिता कुमारी / श्री मेहुल कुमार	गुजएसवीसी / 3939 / 15	डी / 87, प्रांगण सोसायटी, एम.जी.एम. स्कूल के पास, न्यु सामा रोड, एटी-वडोदरा, जिला- वडोदरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू आनंद / 2015	18.02.1991
638	भिन्सारा धर्मेश कुमार / श्री बाबू भाई	गुजएसवीसी / 3940 / 15	म.न.: -495, भिन्सरा फालिया, एटी-नानापोंधा, तालुका- कापरडा, जिला-वलसाड, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू आनंद / 2015	28.10.1991
639	भोये आशीष कुमार / श्री रमनभाई	गुजएसवीसी / 3941 / 15	11,मामलेश्वर पार्क,काबिलपोर, मोतीचौविसी, कानबीवाड के पीछे,396427,तालुका-नवसारी, जिला- नवसारी, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू आनंद / 2015	24.10.1991
640	गोस्वामी कुंजलगिरि / श्री गोपालगिरि	गुजएसवीसी / 3942 / 15	बी / 21,राजचंद्र सोसा., नरोदा -काठवाड़ा रोड, न्यु नरोला, एटी-अहमदाबाद, तालुक- दशकरोई, जिला-अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू आनंद / 2015	14.07.1991
641	मालीवाड आनंद / श्री कलसिंग भाई	गुजएसवीसी / 3943 / 15	ए / 28,कैलाशकुंज सोसायटी, नानाचिलाकडा, पुष्कर बंगले के सामने, अहमदाबाद, ता.-अहमदाबाद, जिला- अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू आनंद / 2015	15.06.1992
642	पांचाल जयकुमार / श्री वसंत लाल	गुजएसवीसी / 3944 / 15	ओमनगर सोसायटी, मोदासा रोड, मालपुर, जिला- अरावली, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू आनंद / 2015	02.02.1992
643	पांड्या प्रशांत / श्री फतेह कुमार	गुजएसवीसी / 3945 / 15	401, द्वारकेश रेजिडेंसी, बकरोल गेट के निकट, वल्लभ विद्यानगर, जिला- आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू आनंद / 2015	15.03.1984
644	राठौड़ राहुल / श्री ईश्वर भाई	गुजएसवीसी / 3946 / 15	269,के. चोरापा विस्तार, एटी: नावा वाघनिया, तालुका- बागासरा, जिला-अमरेली, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू आनंद / 2015	01.04.1991
645	राठवा कौशिक कुमार / श्री भवन भाई	गुजएसवीसी / 3947 / 15	ए / 20,यमुनानगर,बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज, दभाई, तालुक-दभाई, जिला- वडोदरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू आनंद / 2015	06.11.1990
646	बरडे अनिल / श्री दयाराम	गुजएसवीसी / 3948 / 15	ए / 4, सैटेलाइट डेरी, अंडेल आनंद, गुजरात- 388640, जिला-आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / डॉ-पीआर डीकेवीपी, अकोला / 1998	24.08.1974
647	पाटिल श्रीकांत / श्री सोमा	गुजएसवीसी / 3949 / 15	सहायक प्रोफेसर, पशु पोषण विभाग, सीवीएससीआई, जूनागढ़ कृ.वि.वि, जूनागढ़, जिला- जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडए फएसयू / 2002	22.08.1980

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
648	राजेश कुमार/श्री राम सिंहासन सिंह	गुजएसवीसी/3950 / 15	सहायक प्रोफेसर, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, जेएयू, जूनागढ़-362001, जिला- जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच/एमएएंडएफएसयू/2007	08.11.1980
649	मरंडी संतोष/श्री दासो मरंडी	गुजएसवीसी/3951 / 15	सी-3, टाइप डी, स्टाफ क्वा., जूनागढ़ कृषि विवि कैम्पस, मोतीबाग रोड, जूनागढ़-362 001, जिला-जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच/डब्ल्यूबीयू एंडएफएस, कोलकाता /2005	19.10.1982
650	जॉइसी पी. जोसेफ/श्री पी.वी. जोसेफ	गुजएसवीसी/3952 / 15	सहायक प्रोफेसर, सीओवीएस सी, जूनागढ़ कृषि विवि, जूनागढ़, -362001, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच/केरल कृ. विवि /2009	13.05.1985
651	सिंह जोगेन्द्र/श्री प्रेम सिंह	गुजएसवीसी/3953 / 16	वेटेरिनरी अस्पताल, एटी- अविधा, ग्राम पंचायत के निकट, तालुक-झगडिया, जिला-भड़ौच, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच/आरएजेयू वीएएसयू, बीकानेर /2015	05.06.1990
652	विनय कांत/श्री विजय कुमार गुप्ता	हरिएसवीसी/2507	डिपा. ऑफ फार्मकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, एलयू वीएएस, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएएच/सीएसके एचपीकेवी/2006	21.05.1984
653	अंकित मगोत्रा /श्री कुलदीप राज मगोत्रा	हरिएसवीसी/2508	डिपा. ऑफ एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, एलयू वीएएस, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएएच/ओयूएटी /2007	15.03.1985
654	विजय सिंह बेनीवाल/श्री जय किशन	हरिएसवीसी/2509	733, ग्राम एवं डाक-खरिया, तह.-रानिया, सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएंडएएच/एचएयू/2008	25.12.1980
655	विकास ज्यानी/ श्री महेंद्र सिंह	हरिएसवीसी/2510	ग्राम एवं डाक- शमसुख, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएएच/केवीएंड एफएसयू, बिदर/2015	16.08.1991
656	सुनील कुमार/ श्री बाबू लाल	हरिएसवीसी/2511	ग्राम एवं डाक- कैरू, भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएएच/एलयू वीएएस, हिसार/2015	10.02.1991
657	राजबीर/श्री साधु राम	हरिएसवीसी/2512	ग्राम- धानी ठकरिया, डाक- हांसी, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएएच/एलयू वीएएस, हिसार/2015	10.07.1989
658	संजीव कुमार नैन /श्री बलजिन्दर सिंह नैन	हरिएसवीसी/2513	2401, सेक्टर 9-11, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएएच/एलयू वीएएस, हिसार/2015	23.03.1992
659	प्रवीन कुमार/श्री कपूर सिंह	हरिएसवीसी/2514	ग्राम एवं डाक- रोहराई, रिवाड़ी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएएच/एलयू वीएएस, हिसार/2015	11.01.1992
660	सुरजीत सिंह/श्री श्री राम	हरिएसवीसी/2515	ग्राम एवं डाक- भिरदाना, फतेहाबाद, हरियाणा	बीवीएससीएंडएएच/एलयू वीएएस, हिसार/2015	06.09.1990
661	छोटू राम/हेत राम	हरिएसवीसी/2516	ग्राम एवं डाक- झनवारी, तहसील- तोशम, भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएएच/एलयू वीएएस, हिसार/2015	04.05.1989
662	स्वीटी/श्री इंदर पाल	हरिएसवीसी/2517	1618, वार्ड न.-7, तोशम, भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएएच/एलयू वीएएस, हिसार/2015	03.12.1990
663	सोनू/श्री जसवंत सिंह	हरिएसवीसी/2518	ग्राम- हंसावास, कलां तहसील- बधरा, भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएएच/एलयू वीएएस, हिसार/2015	14.04.1990
664	सुमित/श्री श्याम सुंदर	हरिएसवीसी/2519	188, वार्ड न.-12, राम नगर कॉलोनी, मंडी डाबवाली, सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएंडएएच/एलयू वीएएस, हिसार/2015	25.02.1991
665	अम्बिका/श्री सुरेंद्र मल	हरिएसवीसी/2520	19, बिश्नोई कॉलोनी, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएएच/एलयू वीएएस, हिसार/2015	24.12.1991
666	कपीश्वर/श्री लाल चंद	हरिएसवीसी/2521	ग्राम-भगवानपुर, डाक- कंवल रिवाड़ी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएएच/एलयू वीएएस, हिसार/2015	12.04.1990
667	उमील/श्री प्रदीप यादव	हरिएसवीसी/2522	784, ग्राम एवं डाक- भंवर, रिवाड़ी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएएच/एलयू वीएएस, हिसार/2015	21.01.1992
668	दिनेश गुलिया/ श्री सुभाष गुलिया	हरिएसवीसी/2523	ग्राम एवं डाक- मेहराना, झज्जर, हरियाणा	बीवीएससीएंडएएच/एलयू वीएएस, हिसार/2015	20.05.1991
669	यजेश कुमार/श्री राजेंद्र सिंह मलिक	हरिएसवीसी/2524	1562/31, छोटू राम, कॉल 2, गोहन रोड, संतोष पेट्रोल पम्प के सामने, सोनीपत, हरियाणा	बीवीएससीएंडएएच/एलयू वीएएस, हिसार/2015	06.08.1992
670	शहकूल/श्री कासिम	हरिएसवीसी/2525	ग्राम-सकरस, तह.-फिरोजपुर झिरका, मेवात, हरियाणा	बीवीएससीएंडएएच/एलयू वीएएस, हिसार/2015	10.04.1988

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
671	अजीत वर्मा / श्री महाबीर प्रसाद	हरिएसवीसी / 2526	ग्राम एवं डाक-गुधा, महेंद्रगढ़, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	13.03.1991
672	संदीप जून / श्री कंवर सिंह	हरिएसवीसी / 2527	ग्राम एवं डाक- समचाना, रोहतक, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	07.11.1988
673	सुमित कुमार / श्री जगबीर सिंह	हरिएसवीसी / 2528	25-बी, आदर्श कॉलोनी, हिसार कैंट, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	28.08.1992
674	राहुल बरार / श्री भाग मल	हरिएसवीसी / 2529	ग्राम-बिलासपुर, डाक- शहजादपुर, तह. -नारायणगढ़, अम्बाला, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	05.07.1991
675	राजेया दलाल / श्री सुमेर सिंह	हरिएसवीसी / 2530	ग्राम एवं डाक-कुम्भा, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	25.04.1991
676	राहुल / श्री कश्मीर सिंह	हरिएसवीसी / 2531	ग्राम एवं डाक- बाठेरा, झज्जर, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	12.12.1991
677	अमन कम्बोज / श्री कश्मीर लाल	हरिएसवीसी / 2532	ग्राम एवं डाक- नेजा डेला, खुर्द, सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	11.05.1991
678	नीरज शर्मा / श्री आनंद शर्मा	हरिएसवीसी / 2533	ग्राम एवं डाक- पाली, महेंद्रगढ़, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	03.07.1991
679	लक्ष्य / श्री सतवीर सिंह	हरिएसवीसी / 2534	68, मेघदूत अपार्टमेंट, सेक्टर-10ए, गुडगांव, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	23.05.1990
680	प्रवीन कुमार अहलावत / श्री सुरेश कुमार अहलावत	हरिएसवीसी / 2535	ग्राम- आजाद नगर, डाक- छूछकवास, झज्जर, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	26.09.1990
681	नवीन कुमार / श्री राम सिंह	हरिएसवीसी / 2536	राम नगर कॉलोनी, गली न.-2, हाउसिंग बोर्ड के सामने, नसीबपुर, नारनौल, महेंद्रगढ़, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	04.10.1991
682	अनिल कुमार / श्री विजय सिंह	हरिएसवीसी / 2537	802, धाबी कलां, फतेहाबाद, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	07.10.1988
683	प्रियंका / श्री हरीश कुमार	हरिएसवीसी / 2538	160, ग्राम एवं डाक कोसली, रिवाड़ी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	15.08.1991
684	मनोज / श्री कमल सिंह	हरिएसवीसी / 2539	13 / 851, खैरपुर कॉलोनी, हिसार रोड, सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	10.03.1991
685	हरदीप कलकल / श्री भगवान कलकल	हरिएसवीसी / 2540	ग्राम एवं डाक- इमलोटा, तहसील- च. दादरी, भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / केवीएंड एफएसयू, बिदर / 2015	12.12.1992
686	विक्रान्त सिंह / श्री सुरजीत सिंह	हरिएसवीसी / 2541	68223, अट्टारी कॉलोनी, कम्युनिटी सेंटर के निकट, हुडा-1, शाहबाद, कुरुक्षेत्र, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	22.01.1992
687	प्रतिभा मौन / श्री महावीर सिंह मौन	हरिएसवीसी / 2542	805, सेक्टर-13, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	19.08.1992
688	नवीन प्रभा / श्री बलराज सिंह	हरिएसवीसी / 2543	ग्राम एवं डाक-जेवरा, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	26.12.1991
689	रुबी सिंह / श्री राजेंद्र सिंह	हरिएसवीसी / 2544	1677 / 7, जवाहर नगर, दुहान कॉटेज, पटियाला चौक, जीद, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	22.08.1991
690	स्नेह लता चौहान / श्री विजय सिंह चौहान	हरिएसवीसी / 2545	113, विजय कॉलोनी, सोसायटी चौक, जवाहर नगर, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	04.08.1991
691	रौनक भारद्वाज / श्री सोमदत्त भारद्वाज	हरिएसवीसी / 2546	वार्ड न.-18, मौह.-केशवदास, च. दादरी, भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	25.08.1990
692	कविता / श्री कृष्णा कुमार	हरिएसवीसी / 2547	1263 / 1-ए, न्यू महावीर कॉलोनी, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	27.05.1992
693	राजपाल कौर / श्री गुरदेव सिंह	हरिएसवीसी / 2548	ग्राम-भंगु, सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	06.03.1990
694	पूजा / श्री बलवान सिंह कंडु	हरिएसवीसी / 2549	4411, डिफेंस कॉलोनी, जीद, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	12.08.1991
695	श्रृषि पाल / श्री राम पाल	हरिएसवीसी / 2550	रेलवे कॉलोनी, लाइन पार, कालानौर, रोहतक, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	04.01.1984

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
696	सुमित सरदाना / श्री जनकराज सरदाना	हरिएसवीसी / 2551	134-बी, वार्ड न.-17, तूर नगर, तोहाना, फतेहाबाद, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	19.12.1988
697	विकास / श्री वेद प्रकाश	हरिएसवीसी / 2552	गाम-बसरा, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	15.06.1991
698	आर्यन भीम सेन / श्री भगवान सिंह	हरिएसवीसी / 2553	ग्राम-भेरी, अकबरपुर, तहसील- उकलाना, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	03.04.1989
699	मोनिका / श्री वेद प्रकाश लोहान	हरिएसवीसी / 2554	834 / 1, सेक्टर-25, पंचकुला, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	15.01.1993
700	ज्योति बेनीवाल / श्री राजेंद्र सिंह बेनीवाल	हरिएसवीसी / 2555	150, सेक्टर-23, हुडा, भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	22.01.1992
701	सरिता / श्री कुशी राम	हरिएसवीसी / 2556	179, ग्राम एवं डाक रामगढ़, सरकारी स्कूल के निकट, रामगढ़, रिवाड़ी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	07.01.1992
702	नितिन रहेजा / श्री रमेश चंद	हरिएसवीसी / 2557	352 / 6, भगत कॉलोनी, इंद्री रोड, लाडवा, कुरुक्षेत्र, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	23.08.1991
703	विमल प्रकाश / श्री ओम प्रकाश	हरिएसवीसी / 2558	ग्राम-सुरानी (सराय), तह.- नारनौल, महेंद्रगढ़, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	05.03.1991
704	रमेश कुमार / श्री मुंशी राम	हरिएसवीसी / 2559	114, वार्ड न.-9, सिवानी मंडी, भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरयूओ एफवीएंडएएस, बीकानेर / 2014	07.12.1989
705	यादवेंदर सिंह / श्री सतेंदर कुमार	हरिएसवीसी / 2560	ग्राम- ममताजपुर, तहसील- नाहर, रिवाड़ी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरयूओ एफवीएंडएएस, बीकानेर / 2014	07.01.1992
706	सपना सोनी / श्री सुभाष	हरिएसवीसी / 2561	ग्राम एवं डाक- खिड़की दौला, गुडगांव, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	13.07.1992
707	अनुराधा वर्मा / श्री अमर सिंह वर्मा	हरिएसवीसी / 2562	ग्राम एवं डाक- धारसोन, तहसील-नारनौल, महेंद्रगढ़, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	17.11.1991
708	विनय कुमार / श्री धर्मवीर सिंह	हरिएसवीसी / 2563	ग्राम एवं डाक-छप्पर, तहसील- च. दादरी, भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरयूओ एफवीएंडएएस, बीकानेर / 2014	15.10.1992
709	मुकेश कुमार / श्री भूप सिंह	हरिएसवीसी / 2564	कोठी न.-6, मार्केट कमिटी कॉम्प्लेक्स, सीएमके गर्ल्स कॉलेज के निकट, सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरयूओ एफवीएंडएएस, बीकानेर / 2014	19.08.1989
710	रोबिन / श्री रमेश कुमार	हरिएसवीसी / 2565	111 / 26, सुभाष नगर, रोहतक रोड, जीद, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरयूओ एफवीएंडएएस, बीकानेर / 2014	09.02.1991
711	गरिमा शर्मा / श्री रामदत्त शर्मा	हरिएसवीसी / 2566	40, सेक्टर-5, गुडगांव, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	10.01.1991
712	बलजीत नरवल / श्री राज मल	हरिएसवीसी / 2567	328 / 29, मॉडल टाउन, रोहतक, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरयूओ एफवीएंडएएस, बीकानेर / 2014	10.02.1986
713	अमन कुमार / श्री जोगिन्दर राना	हरिएसवीसी / 2568	वार्ड न.-7, जेलदार पाटिल, कलायत, कैथल, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरयूओ एफवीएंडएएस, बीकानेर / 2014	10.06.1990
714	अमनजोत सिंह / श्री जगदीश सिंह	हरिएसवीसी / 2569	ग्राम एवं डाक- शाहपुर बेगू, सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरयूओ एफवीएंडएएस, बीकानेर / 2014	07.07.1991
715	रविन्दर सैनी / श्री रतन लाल सैनी	हरिएसवीसी / 2570	ग्राम एवं डाक- सारदेहरी, तहसील- बरवा, अम्बाला, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	01.04.1992
716	विक्रमजीत सिंह / श्री नफे सिंह	हरिएसवीसी / 2571	ग्राम एवं डाक- चक्कन, तहसील- रानिया, सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	23.05.1988
717	रामवीर / श्री चांद राम	हरिएसवीसी / 2572	1378 / 3, गली न.-6, राजीव नगर, गुडगांव, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरयूओ एफवीएंडएएस, बीकानेर / 2014	02.04.1983

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
718	अमन बिशला / श्री सतपाल	हरिएसवीसी / 2573	वार्ड न.-15, शिव कॉलोनी, सफीदों, जींद, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरयूओ एफवीएंडएएस, बीकानेर / 2013	09.09.1991
719	विकास / श्री बनवारी लाल	हरिएसवीसी / 2574	ग्राम एवं डाक- बेहल, तहसील- लोहारु, भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरयूओ एफवीएंडएएस, बीकानेर / 2014	02.06.1992
720	प्रदीप कुमार / श्री राम कुमार	हरिएसवीसी / 2575	ग्राम एवं डाक- शेरला, तहसील- लोहारु, भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरयूओ एफवीएंडएएस, बीकानेर / 2014	05.08.1992
721	जसवीर / श्री देवेन्द्र कुमार	हरिएसवीसी / 2576	ग्राम एवं डाक-खासपुर, डाक- डुबलाना, तहसील- नारनौल, महेंद्रगढ़, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरयूओ एफवीएंडएएस, बीकानेर / 2014	01.01.1991
722	आनंद कुमार पांडे / श्री राम प्रसाद पांडे	हरिएसवीसी / 2577	टीवीसीसी, सीओवीएस, एलयूवएस, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेव वी / 2004	05.07.1980
723	पुनीत पाल सिंह / श्री निर्मल सिंह	हरिएसवीसी / 2578	ए-133, नेशनल डेरी रिसर्च इन्सटीट्यूट, करनाल, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एसकेआर एयू बीकानेर / 2010	31.01.1986
724	करन गोयल / श्री भोज राज गोयल	हरिएसवीसी / 2580	1044 / 12, इंदिरा कॉलोनी, बस स्टैंड के निकट, तोहाना, फतेहाबाद, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरयूओ एफवीएंडएएस, बीकानेर / 2014	06.03.1990
725	दीपशिखा सिंह / श्री सुधरी कुमार चौहान	हरिएसवीसी / 2581	एफ-450 (निचला तल), सुशांत लोक- II, सेक्टर-57, गुडगांव, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरयूओ एफवीएंडएएस, बीकानेर / 2014	01.11.1990
726	नलिनी प्रजापति / श्री हनुमान प्रसाद प्रजापति	हरिएसवीसी / 2582	वार्ड न.-5, डाबवाली रोड, कुम्हार कॉलोनी, ईलानाबाद, सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आईजीके वीवी, रायपुर / 2009	09.09.1983
727	हरप्रीत सिंह / श्री परमजीत सिंह	हरिएसवीसी / 2583	गिल अस्पताल, उकलाना, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरयूओ एफवीएंडएएस, बीकानेर / 2014	08.08.1989
728	सुखदीप वोहरा / श्री सतपाल वोहरा	हरिएसवीसी / 2584	डिपा.ऑफ वेट.पैरासिटोलॉजी, सीओवीएस, एलयूवएस, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / पीएयू, लुधियाना / 1998	16.10.1973
729	अनीता गांगुली / श्री ओम प्रकाश	हरिएसवीसी / 2585	डी-3, एनबीएजीआर, करनाल, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / पीएयू, लुधियाना / 1999	04.01.1974
730	अमित डाहिया / श्री रामपाल डाहिया	हरिएसवीसी / 2586	ग्राम एवं डाक-किढोली, तहसील-खरखोडा, सोनीपत, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरयूओ एफवीएंडएएस, बीकानेर / 2015	17.06.1988
731	सुशील डाहिया / श्री रनपाल डाहिया	हरिएसवीसी / 2587	ग्राम एवं डाक-किढोली, तहसील-खरखोडा, सोनीपत, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरयूओ एफवीएंडएएस, बीकानेर / 2015	27.12.1990
732	श्रीकांत / श्री पवन कुमार	हरिएसवीसी / 2588	1911, सेक्टर-14, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरयूओ एफवीएंडएएस, बीकानेर / 2011	04.10.1987
733	राकेश राना / श्री धर्मजीत राना	हरिएसवीसी / 2589	ग्राम एवं डाक- पकास्मा, रोहतक, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2015	28.11.1990
734	वैभव प्रजापत / श्री तेज प्रजापत	हरिएसवीसी / 2590	313, सबगा, ग्राम- साहा, अम्बाला, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / केवीएंड एफएसयू, बिदर / 2015	20.10.1992
735	एकता / श्री रनधीर मलिक	हरिएसवीसी / 2591	997 / 20, आया नगर कॉलोनी, हांसी, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएस, हिसार / 2015	14.10.1990
736	दिनेश बिष्ट / श्री केवल सिंह बिष्ट	हरिएसवीसी / 2592	पी-505, ट्यूलिप ऑफिसर्स एंक्लेव, ईबीएस, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एपीएयू, हैदराबाद / 1996	18.10.1971
737	संजय मलिक / श्री रिसाल सिंह	हरिएसवीसी / 2593	534, सेक्टर-17, फरीदाबाद, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एचएयू, हिसार / 1988	11.09.1964
738	रवि गिरधर / श्री घंडेर प्रशाद गिरधर	हरिएसवीसी / 2594	534, सेक्टर-17, फरीदाबाद, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एचएयू, हिसार / 1988	14.04.1965
739	संदीप सिंह कश्यप / श्री रनबीर सिंह	हरिएसवीसी / 2595	क्वा.न. 360, विजय रतन विहार, सेक्टर-15- II, गुडगांव, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / पीएयू, लुधियाना / 1985	18.03.1962

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
740	आशीष शर्मा / श्री ईश्वर सिंह	हरिएसवीसी / 2596	ग्राम-महराना, डाक-बेरी, झज्जर, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / केवीएंडएफएसयू / 2015	24.08.1990
741	हितेश्वर सिंह / श्री राजेंद्र सिंह यादव	हरिएसवीसी / 2597	150, ग्राम-रामपुरा, रिवाड़ी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरयूओ एफवीएंडएएस, बीकानेर / 2015	26.12.1991
742	समन बिश्नोई / श्री कृष्ण कुमार	हरिएसवीसी / 2598	ग्राम एवं डाक-सदलपुर, तहसील- मंडी, आदमपुर, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एलयू वीएएस, हिसार / 2013	19.08.1991
743	सरेंद्र कुमार / श्री चुरिया राम	हरिएसवीसी / 2599	ग्राम एवं डाक- मटलोडा, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एंडएएसयू / 2015	30.06.1987
744	नरेंद्र शर्मा / श्री सुरेश चंद	हरिएसवीसी / 2600	ग्राम एवं डाक- नंगल चौधरी, तहसील- नारनौल, महेंद्रगढ़, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एंडएएसयू / 2015	13.12.1989
745	पाटिल चंद्र शेखर संतोष / श्री पाटिल संतोष हरि	हरिएसवीसी / 2601	डिपा. ऑफ एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, लुवास, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू, नागपुर / 2009	03.10.1984
746	सोनी रिचा / श्री संजय सोनी	हरिएसवीसी / 2602	फ्लैट -208, ब्लॉक-जी, रेल विहार, गुडगांव, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू, नागपुर / 2013	31.01.1989
747	सुरेंद्र पाल शर्मा / श्री हरि सिंह शर्मा	हरिएसवीसी / 2603	प्ल-10, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, सोनीपत रोड, रोहतक हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / पीएयू, लुधियाना / 1969	01.11.1947
748	जाधव विजय जसवंत / श्री जयवंत बचाराम	हरिएसवीसी / 2604	10बी-2, न्यू कैम्पस, सीसीएस, एचएयू, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / केकेवीपी / 1998	13.06.1976
749	सुरेश कुमार भारद्वाज / श्री ऋषि लाल भारद्वाज	हरिएसवीसी / 2605	ग्राम एवं डाक- दालमवाला, जींद, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एचएयू हिसार / 1986	30.09.1964
750	विकास खिचर / श्री भागीरथ मल	हरिएसवीसी / 2607	वी.एस.आई. / सी.जी.वी.एच., ढाब धानी, भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरएयू बीकानेर / 2009	29.09.1982
751	समर सिंह / श्री महाराज सिंह	हरिएसवीसी / 2608	फ्लैट न.-106, द कासल अपार्टमेंट, प्लॉट न. 36-ए, सेक्टर-56, गुडगांव, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 1985	14.11.1961
752	अंकुश सिहाग / श्री जोगिन्दर सिंह सिहाग	हरिएसवीसी / 2609	123 / 23, ग्राम-हैगेतपुरा, जींद, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएएसयू, बीकानेर / 2016	06.05.1991
753	जुगनू सिंह / श्री सुरेश कुमार	हरिएसवीसी / 2610	ग्राम एवं डाक- गुभाना, तहसील- बहादुरगढ़, झज्जर, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएएसयू, बीकानेर / 2016	17.12.1992
754	रवीन्द्र फुलिया / श्री रामफल फुलिया	हरिएसवीसी / 2611	ग्राम एवं डाक- उरलाना कलां, तहसील- मदलौदा, पानीपत, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएएसयू, बीकानेर / 2016	22.04.1992
755	मनजीत शर्मा / श्री कुलदीप शर्मा	हरिएसवीसी / 2612	ग्राम-हरसार, डाक- गढ़ी, हरसार, गुडगांव, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएएसयू, बीकानेर / 2016	01.11.1990
756	अरविंदर / श्री श्याम लाल	हरिएसवीसी / 2613	ग्राम एवं डाक- निसिंग (डाक खाने के निकट), करनाल, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएएसयू, बीकानेर / 2016	01.05.1982
757	योगेन्द्र सिंह / श्री ओम प्रकाश	हरिएसवीसी / 2614	ग्राम एवं डाक- निलाहेरी ब्लाफक, सल्हावास, झज्जर, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएएसयू, बीकानेर / 2016	02.03.1992
758	धर्मेन्द्र छारंग / श्री सुशील कुमार	हरिएसवीसी / 2615	जीवीएच टिगरा, नारनौल, जिला- महेंद्रगढ़, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरएयू, बीकानेर / 2002	02.01.1976
759	दिव्या अग्निहोत्री / श्री आर.के. अग्निहोत्री	हरिएसवीसी / 2616	1338, अर्बन एस्टेट- I, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एचएयू हिसार / 1999	25.10.1975
760	विकास वर्मा / श्री महावीर वर्मा	हरिएसवीसी / 2617	276-पी, सेक्टर-21-पी, मिल गेट, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरयूओ वीएंडएएस, बीकानेर / 2016	24.05.1990
761	कोरेड्या सलीशा पिटनी / श्री कोरेड्या	हरिएसवीसी / 2618	फ्लैट न.-4, एस 20-21, डीएलएफ फेज- I, I, गुडगांव, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / केवीएंडएफएसयू, बिदर / 2014	19.10.1989
762	सतवीर सिंह (ले.कर्न.) / श्री गिरधारी लाल	हरिएसवीसी / 2619	सीओ 42, मिलिट्री वेट. अस्पताल, चंडी मंदिर, पंचकुला, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएच एसएयू, हिसार / 1995	30.08.1968
763	पारस / श्री मंगतू राम	हरिएसवीसी / 2620	जीवीएच ग्राम ओटी, ब्लॉक रानिया, जिला- सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू, नागपुर / 2011	04.07.1987

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
764	जसजीत जोसन /स्व. श्री जसवंत सिंह जोसन	हरिएसवीसी / 2621	423, प्रथम मंजिल, सेक्टर- 23, हुडा, गुडगांव, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच/सीसीएच एसएयू, हिसार/1994	25.07.1971
765	अंकिता / श्री विरेन्द्र सिंह	हरिएसवीसी / 2622	वी.एस.एच., रानोली, रिवाड़ी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच/एचएयू हिसार / 2008	27.11.1984
766	योगेन्द्र कुमार यादव/ श्री हेम चंदर यादव	हरिएसवीसी / 2623	वी.एस.एच., दुलहेरा, तहसील - बहादुरगढ़, जिला-झज्जर, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच/पीएयू, लुधियाना / 2001	06.08.1976
767	जोशी विनय गणेशराव/ श्री जोशी गणेश लक्ष्मनराव	हरिएसवीसी / 2624	10 / 88, न्यू कैम्पस, सीसीएसएचएयू हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच/एमएफ एसयू, नागपुर / 2007	14.10.1984
768	बाबू लाल जांगिड़ / श्री भगीरथ मल जांगिड़	हरिएसवीसी / 2625	क्वा.न.: 118 / 72, पुराना कैम्पस, ईसीएस एचएयू, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच/एमएफ एसयू, नागपुर / 2007	05.04.1982
769	कुनाल पंडित/ श्री चमन लाल	एचपीएसवीसी / 104 7 / 15	ग्राम-अरन्याना, डाक- काटली, तहसील-काटली, जिला-मंडी, हिमाचल प्रदेश- 175003	बीवीएससीएंडएच/सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	4.9.1991
770	दीपक सोबती / श्री सुभाष सोबती	एचपीएसवीसी / 104 8 / 15	ग्राम- बारोई, डाक- पड़डा, तहसील-धर्मशाला, जिला- कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश- 176052	बीवीएससीएंडएच/सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	14.07.1992
771	विनय सिंह/ श्री अशोक कुमार	एचपीएसवीसी / 104 9 / 15	ग्राम-कसवार, डाक- बलियाह, तहसील- बरसर, जिला-हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश-174305	बीवीएससीएंडएच/सीएसके चपीके वी, पालमपुर / 2015	11.05.1991
772	मनीष खरवाल / श्री ओम प्रकाश खरवाल	एचपीएसवीसी / 105 0 / 15	म.न.: -2, सीनियर सेक. गवर्न. स्कूल के पीछे, राम चौक, पाजमपुर, जिला- कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-176001	बीवीएससीएंडएच/सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	28.12.1991
773	आदित्य शर्मा/ श्री प्यारे लाल	एचपीएसवीसी / 105 1 / 15	ग्राम एवं डाक- गहर, घुमारविन, जिला- बिलास पुर, हिमाचल प्रदेश- 174027	बीवीएससीएंडएच/सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	08.03.1991
774	पल्लवी शर्मा / श्री जगदीश शर्मा	एचपीएसवीसी / 105 2 / 15	ग्राम- कालेहरी, डाक- भदेरवर, तहसील- सरकाघाट, जिला- मंडी, हिमाचल प्रदेश- 175049	बीवीएससीएंडएच/सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	09.06.1993
775	ज्योत्सना चौहान / श्री एम.आर. चौहान	एचपीएसवीसी / 105 3 / 15	ग्राम- बनानू, डाक-बड़ी गुमानू, तहसील- सदर, जिला-मंडी, हिमाचल प्रदेश -175001	बीवीएससीएंडएच/सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	28.03.1992
776	तुषार सूद / श्री कुलभूषण सूद	एचपीएसवीसी / 105 4 / 15	ब्लॉक न.-3, सेट न.:बी-4, एच.पी. हाउसिंग कॉलोनी, स्टॉबेरी हिल, छोटा शिमला- 171002, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	02.04.1991
777	अंकुश कुमार / श्री धरम चंद	एचपीएसवीसी / 105 5 / 15	ग्राम एवं डाक-भाटसमुला, तहसील-पालनपुर, जिला- कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश- 176064	बीवीएससीएंडएच/सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	13.06.1991
778	प्रांशु शर्मा / श्री आर.पी. शर्मा	एचपीएसवीसी / 105 6 / 15	ग्राम-कोटली, डाक- भरवेन, तहसील- एमबी, जिला- उना, हिमाचल प्रदेश- 177109	बीवीएससीएंडएच/सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	14.12.1991
779	आशीष कुमार शर्मा / श्री कमल देव शर्मा	एचपीएसवीसी / 105 7 / 15	ग्राम-जोह, डाक- चम्बोह, तहसील-भोरांज, जिला- हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश- 177601	बीवीएससीएंडएच/सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	30.01.1991
780	रजत दत्ता / श्री अश्विनी दत्ता	एचपीएसवीसी / 105 8 / 15	ग्राम- लोअर अर्नियाला, डाक- कोटना कलां, जिला- उना, हिमाचल प्रदेश- 174303	बीवीएससीएंडएच/सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	08.02.1993
781	पाटिल राजेंद्र दामू / श्री पाटिल दामू गोविंद	एचपीएसवीसी / 105 9 / 14	सहायक प्रोफेसर, डिपा. ऑफ वेटरिनरी पैथोलॉजी, सीओवीएएस, सीएसके, एचपीकेवी, पालनपुर, हिमाचल प्रदेश-176062	बीवीएससी / महात्मा फुले कृ.वि.वि, राहूरी / 99	08.08.1977
782	रोहित कुमार / श्री श्याम सिंह	एचपीएसवीसी / 106 0 / 15	ग्राम एवं डाक- कोलार, तहसील- पोंटा साहिब, जिला- सिरमौर, हिमाचल प्रदेश- 173001	बीवीएससीएंडएच/सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	19.10.1992
783	प्रीति राना / श्री परवीन राना	एचपीएसवीसी / 106 1 / 15	ग्राम-बास्केहर, डाक-दारो, तहसील- पालमपुर, जिला- कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश- 173092	बीवीएससीएंडएच/सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	13.02.1993

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
784	रुचि मल्होत्रा / श्री ध्रुव चंद मल्होत्रा	एचपीएसवीसी / 106 2 / 15	ग्राम- धार द्रुमका, डाक- काछेरा, तहसील- जयसिंग पुर, जिला- कांगड़ा,	बीवीएससीएंडएच / सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	18.08.1989
785	तेजेन्द्र कुमार / श्री बलदेव	एचपीएसवीसी / 106 3 / 15	ग्राम-कानौन, डाक-निहरी, तहसील-सुंदर नगर, जिला - मंडी, हिमाचल प्रदेश -175038	बीवीएससीएंडएच / सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	15.05.1991
786	मानवी चौधरी / श्री नेक लाल चौधरी	एचपीएसवीसी / 106 4 / 15	हैप्पी निवास, लोअर-11, पंथाघाटी, कसुम्पटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश-171009	बीवीएससीएंडएच / सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	11.11.1991
787	यवनिका कश्यप / श्री के. एल. कश्यप	एचपीएसवीसी / 106 5 / 15	म.न.: 163 / 5, पॉलीटेक्निक कॉलेज, हरिपुर कॉलोनी, डुंडेरगढ़, मंडी, हिमाचल प्रदेश-175018	बीवीएससीएंडएच / सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	19.01.1993
788	बृज वनिता / श्री मोहिन्दर पाल	एचपीएसवीसी / 106 6 / 15	म.न.: 294 / 3, न्यू कॉलोनी, रसमेन, डाक- चाटरोखारी, मंडी, हिमाचल प्रदेश- 175018	बीवीएससीएंडएच / सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	06.05.1992
789	मोनिका शर्मा / श्री बृज लाल शर्मा	एचपीएसवीसी / 106 7 / 15	ग्राम- तलहर, डाक- नागवेइन, तहसील- ओट, जिला-मंडी, हिमाचल प्रदेश -175121	बीवीएससीएंडएच / सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	18.03.1992
790	नीलम / श्री प्रीतम सिंह	एचपीएसवीसी / 106 8 / 15	ग्राम- भवराऊन, डाक- चैल चौक, तहसील- चचयोत, जिला-मंडी, हिमाचल प्रदेश -175028	बीवीएससीएंडएच / सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	25.02.1992
791	तरक्षी रिहेलिया / श्री वास देव रहलिया	एचपीएसवीसी / 106 9 / 15	ग्राम-कवारी, डाक व तहसील- नगरोटा बागवन, जिला- कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-176047	बीवीएससीएंडएच / सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	02.05.1991
792	राजीव कुमार कुंडाल / श्री बलदेव सिंह	एचपीएसवीसी / 107 0 / 15	ग्राम एवं डाक- कछियारी, तहसील व जिला- कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश- 176001	बीवीएससीएंडएच / सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	06.09.1988
793	शराया ठाकुर / श्री बिरि शिंग	एचपीएसवीसी / 107 1 / 15	वार्ड न.-5, म.न.: 48 / 14, ग्राम- अपर चहल, डाक- झनियारा, जिला- हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश- 177001	बीवीएससीएंडएच / सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	07.09.1991
794	हेमलता गौतम / श्री सालिग्राम गौतम	एचपीएसवीसी / 107 2 / 15	राम निकेतन निवास, संदल चक्कर, शिमला, हिमाचल प्रदेश- 171005	बीवीएससीएंडएच / सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	03.06.1991
795	अनुराग शर्मा / श्री वेद प्रकाश शर्मा	एचपीएसवीसी / 107 3 / 15	ग्राम-बोनी, डाक- भपराल, तहसील-घुमारविन, जिला- बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	24.03.1991
796	नीरज ठाकुर / श्री पवन ठाकुर	एचपीएसवीसी / 107 4 / 15	ग्राम- धार, डाक-दरपा, तहसील- सरकाघाट, जिला-मंडी, हिमाचल प्रदेश -175042	बीवीएससीएंडएच / सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	17.09.1992
797	रोशन लाल / श्री कांशी राम	एचपीएसवीसी / 107 5 / 15	ग्राम एवं डाक- अन्नी (जडी देओरी), तहसील- अन्नी, जिला-कुल्लु, हिमाचल प्रदेश- 172026	बीवीएससीएंडएच / सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	26.08.1990
798	स्वाति शर्मा / श्री पुरुषोत्तम दास शर्मा	एचपीएसवीसी / 107 6 / 15	ग्राम- सिओला, तहसील- सदर, जुखाला, जिला- बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	08.07.1992
799	शिल्पा ठाकुर / श्री जागीर सिंह	एचपीएसवीसी / 107 7 / 15	ग्राम- पटेरा, डाक- दिदवान, तहसील- बरसर, जिला- हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश- 177401	बीवीएससीएंडएच / सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	20.05.1992
800	निर्देशिका चौधरी / श्री तिलक राज चौधरी	एचपीएसवीसी / 107 8 / 15	ग्राम-टंगरोटी, डाक-रामाह, तहसील- धर्मशाला, जिला- कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश- 176062	बीवीएससीएंडएच / सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	30.10.1990
801	शगुन महाजन / श्री अनिल कुमार महाजन	एचपीएसवीसी / 107 9 / 15	एस.पी.स्टेट को-ऑप.बैंक के निकट, घुमारविन, तहसील- घुमारविन, जिला- बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश -174021	बीवीएससीएंडएच / सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	22.10.1991
802	दीपा गारफा / श्री तासी अंगरुप गारफा	एचपीएसवीसी / 108 0 / 15	ग्राम-खकनाल, तहसील- मनाली, जिला- कुल्लू, हिमाचल प्रदेश- 175143	बीवीएससीएंडएच / सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	20.08.1990
803	अशिम आनंद / श्री प्रेम लाल	एचपीएसवीसी / 108 1 / 15	ग्राम- दोभा, डाक- बरान, तहसील- मनाली, जिला- कुल्लू, हिमाचल प्रदेश- 175131	बीवीएससीएंडएच / सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	22.02.1991

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
804	बृज लाल/श्री हरदा राम	एचपीएसवीसी/108 2/15	ग्राम- हरवानी, डाक-अपर बेल्ही, तहसील- सुंदर नगर, जिला- मंडी, हिमाचल प्रदेश -174401	बीवीएससीएंडएच/ सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर /2015	20.05.1970
805	निशांत/श्री राम चंद	एचपीएसवीसी/108 3/15	ग्राम-सपरेई, डाक-शिवा, तहसील-सदर, जिला- मंडी, हिमाचल प्रदेश- 175121	बीवीएससीएंडएच/ सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर /2015	07.06.1991
806	विश्वजीत सिंह/ श्री विजय सिंह चंडेल	एचपीएसवीसी/108 4/15	ग्राम-कोट, डाक-सजाओ पीपलु, तहसील-सरकाघाट, जिला- मंडी, हिमाचल प्रदेश-175025	बीवीएससीएंडएच/ सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर /2015	04.07.1992
807	सुगम शर्मा/श्री सुदर्शन	एचपीएसवीसी/108 5/15	ग्राम एवं डाक-रायसरी, तहसील एवं जिला- उना, हिमाचल प्रदेश- 174303	बीवीएससीएंडएच/ सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर /2015	09.12.1989
808	नरेश पुंडीर/श्री विजय सिंह	एचपीएसवीसी/108 6/15	ग्राम एवं डाक-देवामनाल सूबा, तहसील-नोहराधर, जिला- सिरमौर, हि.प्र.- 173104	बीवीएससीएंडएच/ सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर /2015	20.12.1986
809	इंदु बाला/श्री राविन सिंह	एचपीएसवीसी/108 7/15	ग्राम-पपलोग, डाक-साधोत, तहसील-सरका घाट, मंडी, हि.प्र.-176062	बीवीएससीएंडएच/ सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर /2015	24.02.1992
810	शाम्भवी/श्री शमशेर सिंह	एचपीएसवीसी/108 8/15	म.न.: 7/11, तरना हिल्स, मंडी, हिमाचल प्रदेश- 175001	बीवीएससीएंडएच/ सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर /2015	16.12.1991
811	प्रिंस चौहान/श्री एम.एस. चौहान	एचपीएसवीसी/108 9/15	मकान न.-7/11, तरना हिल्स, मंडी, हिमाचल प्रदेश- 175001	बीवीएससीएंडएच/ सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर /2015	10.10.1990
812	स्वाली मिलि कमलेश/श्री कमलेश जे.स्वाली	एचपीएसवीसी/109 0/15	लोबसांग थुबचो,तिबत चैरिटी, एनिमल केयर सेक्शन, टैगल बुड, टीवीसी हैंडीक्राफ्ट्स कैंट, धर्मशाला, जिला- कांगड़ा, हि.प्र. -176216	बीवीएससीएंडएच/ एमएफ एसयू/2015	01.11.1991
813	अक्षय शर्मा/श्री किशोर चंद शर्मा	एचपीएसवीसी/109 1/15	ग्राम-धुग्गर, डाक-पालमपुर, जिला-कांगड़ा, हि.प्र.- 176061	बीवीएससीएंडएच/ सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	23.01.1992
814	संतोष कुमार/श्री तेज सिंह	एचपीएसवीसी/109 2/15	ग्राम-लोट, डाक-बिरतुंगल, तहसील-सदर, जिला-मंडी, हिमाचल प्रदेश-175001	बीवीएससीएंडएच/ सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	27.07.1990
815	राहुल गांधी/श्री रनदीप सिंह	एचपीएसवीसी/109 3/15	ग्राम- भानरा, तहसील- नोहराधर, जिला- रिमौर, हिमाचल प्रदेश-173104	बीवीएससीएंडएच/ सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	28.02.1988
816	गौरव रतिका/श्री रविन्दर रतिका	एचपीएसवीसी/109 4/15	ग्राम-बराडा, डाक- अरहल, तहसील-रोहरु, जिला- शिमला, हि.प्र.-171207	बीवीएससीएंडएच/ सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर / 2015	26.11.1990
817	सुरिन्दर कुमार/ श्री रुप चंद	एचवीसी/2489	ग्राम एवं डाक- जटवार, तहसील-नारायण गढ़, जिला-अम्बाला, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच/ सीसीए सएचएयू/94	18.12.1970
818	रेनु/श्री सुरेश कुमार	एचवीसी/2500	1722, सेक्टर-14 पी, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच/ सीसीए सएचएयू/99	27.09.1977
819	जितेंद्र सिंह/श्री राजेंद्र सिंह	एचवीसी/2502	448, डिफेंस कॉलोनी, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच/राजस्था न कृ विवि/2002	15.03.1976
820	दिनेश मित्तल/श्री हरबंस लाल मित्तल	एचवीसी/2505	सहायक प्रोफेसर, कॉलेज सेंट्रल लैबोरेटरी, सीओवीएस, लुवास, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच/ सीसीए सएचएयू/2001	23.05.1976
821	तरुण कुमार/श्री पवन देव	एचवीसी/2506	डिपार्टमेंट ऑफ वेटेरिनरी मेडिसिन, टीवीसीसी, लुवास, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच/ सीसीए सएचएयू/2007	17.09.1983
822	श्रीनाथ होनहगा, पुत्र श्री कुंज बिहारी होनहगा	जेवीसी/766/15	तुलसी निवास, टसर फार्म, मदकम हाट, चाईबासा, प. सिंघभूम, झारखंड-833201	बीवीएससीएंडएच/ बीएयू/ 2015	10.11.1989
823	अभिषेक यादव, पुत्र श्री स्व. श्री राजदेव यादव	जेवीसी/767/15	मनोहरपुर, चक्रधरपुर, पयिचमी सिंघभूम, झारखंड- 833104	बीवीएससीएंडएच/ बीएयू/ 2015	02.02.1989
824	कुंदन कुमार, पुत्र श्री प्रियाव्रत मुंडा	जेवीसी/768/15	निर्मला नीलायम, रबीता कॉलोनी, एमजीएम, कारडीह, धालभूम, पूर्वी सिंघभूम, झारखंड-831018	बीवीएससीएंडएच/ बीएयू/ 2015	15.12.1989
825	लीना कुमारी, पुत्री श्री भेदे मुंडा	जेवीसी/769/15	खरता, कैरो, लोहारडागा, झारखंड- 835301	बीवीएससीएंडएच/ बीएयू/ 2015	09.02.1989

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
826	हरे रामजी दिनकर, पुत्र श्री दामोदर प्र.मंडल	जेवीसी / 770 / 15	जयंतिग्राम, महादेव गंज, साहिब गंज, झारखंड- 816109	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 2015	02.06.1989
827	रुनेहा वर्मा, पुत्री श्री जितेंद्र कुमार वर्मा	जेवीसी / 771 / 15	क्वा.न.: ई / 21 / सेक्टर- 11, एचईसी, धुरवा, जगन्नाथपुर, रांची, झारखंड- 834004	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 2015	17.06.1991
828	सरोज करकेटा / पुत्री श्री पंक्रेसियस करकेटा	जेवीसी / 772 / 15	बकराकोना, टोंगो चैनपुर, गुमला, झारखंड- 835206	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 2015	02.06.1990
829	नवीन कुमार, पुत्र श्री कन्हैया राम	जेवीसी / 773 / 15	राजवाडीह, डाल्टनगंज, पालम, झारखंड-822118	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 2015	16.02.1992
830	रवि ज्ञान सुमन, पुत्र श्री सुनील प्रसाद	जेवीसी / 774 / 15	पंडारपल्ला, बी. पॉलीटेक्नीक, बैंक मोड़, धनबाद, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 2015	26.01.1988
831	रागिनी सिंघु, पुत्री श्री ललित कुमार सिंघु	जेवीसी / 775 / 15	कंसालापोस टोली, रुगुसाई, जगन्नाथपुर, प. सिंघभूमपुर, झारखंड- 833203	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 2015	26.12.1984
832	नवीन कुमार, पुत्र श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह	जेवीसी / 776 / 15	नौटोली, गियांता क्लब के निकट, मेदिनी नगर, पलामू, झारखंड- 822101	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 2015	02.12.1988
833	गीतांजलि कच्छप, पुत्री श्री बाले कच्छप	जेवीसी / 777 / 15	सुलंकी, हटिया, जगरनाथपुर, नामकुम, रांची, झारखंड- 834003	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 2015	19.03.1988
834	धीरज कुमार / स्व. श्री महाराज कुमार	जेवीसी / 778 / 15	पंडारपाला बैंक मोड़, सदर धनबाद, झारखंड-823130	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 2015	04.02.1982
835	मनीषा, पुत्री श्री सुनील कुमार	जेवीसी / 779 / 15	द्वारा: श्री बसंत टिरके, चौली, गुड्ड, रातू, रांची, झारखंड- 835222	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 2015	02.08.1989
836	तनवीर अखतर, पुत्र स्व. श्री नौशाद अली अंसारी	जेवीसी / 780 / 15	पात्रा टोली (लोअर लेन), आर.वी.सी. कनके, रांची, झारखंड- 834006	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 2003	05.01.1980
837	एच.एन. श्रीनिवास / पुत्र श्री एच.एन. नरसिंहइयाह	कर्नाएसवीसी / 5244	न. 827 / 6, 8वां मेन रोड, विद्यारान्यापुरम, बंगलौर, तालुक-बेंगलुरु, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएसएस, बंगलौर / 1982	20.07.1959
838	मुहम्मद शियाद के.के. / पुत्र श्री पी. बशीर अहम्मद	कर्नाएसवीसी / 5246	फ्लैट न.-101, न. 4 / 1, प्रथम तल, अंजुम रेजीडेंसी, जे.पी. नगर, 5वां फेज, बंगलौर-560078, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफ फएसयू बिदर / 2011	03.08.1985
839	सादिकुल्ला जी.ए. / पुत्री श्री अमानुल्ला एस.ए.	कर्नाएसवीसी / 5247	न. 1276, 9वां वार्ड, बी- ब्लॉक, गुडीबंडे, तालुक- चिक्कबलापुर, गुडीबंडे- 561209, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफ फएसयू बिदर / 2014	04.02.1991
840	पद्मालया दास / पुत्री श्री विश्वेश्वर राव रयाला	कर्नाएसवीसी / 5248	न.51, दूसरी मंजिल, गोल्डवुड अपार्ट., राहत बाग, सी.वी. रमन नगर डाक, ता.-बेंगलुरु अर्बन, जिला-बंगलौर- 560093, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / एएनजी आरएयू / 2000	10.02.1976
841	संतोष गौडा / पुत्र श्री निजलिंगप्पा एल.	कर्नाएसवीसी / 5249	जादेकुंटे ग्राम, चल्लाकेरे, तालुक-चित्रदुर्गा, जादेकुंटे- 577522, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफ फएसयू बिदर / 2012	15.12.1989
842	स्वाथि बी. / पुत्र डॉ. बी. एस. नाइक	कर्नाएसवीसी / 5250	न.-857, होसामने एक्सटेंशन, चिकमगलूर- 577101, ता.-चिकमगलूर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफ फएसयू बिदर / 2014	27.05.1990
843	अभिलाष एच.आर. / पुत्र श्री रमेश एच.एम.	कर्नाएसवीसी / 5251	प्रथम क्रॉस, पीडब्ल्यूडी कम्पा. के पीछे, के. एच.नगर, मद्दूर, तालुक- मांड्या, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफ फएसयू बिदर / 2013	22.02.1990
844	गजेंद्र कुमार पी.के. / पुत्र श्री कृष्णा मूर्ति पी.एच.	कर्नाएसवीसी / 5252	टेकावट्टी, होलाकेरे, तालु. -चित्रदुर्गा, टेकलावटी- 577526, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / यूएसएस धारवाड़ / 2004	15.04.1981
845	बासवराजू के.जी. / पुत्र श्री के.बी. गुरुबासप्पा	कर्नाएसवीसी / 5253	चेतना, 5वां क्रॉस, अशोक नगर, आशिका नगर, तुमकुर, ता.-तुमकुर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससी / मैसूर विवि / 1965	02.01.1941
846	एस.एस. आनंद / पुत्र श्री एस.बी. सिदलिंगप्पा	कर्नाएसवीसी / 5254	शिरंगला ग्राम व डाक, कुशालनगर होबली, सोमवार पेट तालुक, शिरंगला ग्राम, सोमवारपेट, ता.- कोडागु, जिला- कर्नाटक	बीवीएससी / यूएसएस / 1984	22.07.1961
847	नागराज टी.एम. / पुत्र श्री मुनियाचारी	कर्नाएसवीसी / 5255	न.-एसबी 5, बंदेमट्टा, कोम्माघट्टा मेन रोड, केंगेरी सैटेलाइट टाउन, बंगलौर- 560060, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / यूएसएस बंगलौर / 2002	10.07.1979
848	एच.के. सिददलिंगा मूर्ति / पुत्र श्री कचीलिंगइयाह	कर्नाएसवीसी / 5256	हलसाहल्ली ग्राम, मलावल्ली, धानागुर-571430, मलावल्ली, तालुक-मांड्या, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएसएस बंगलौर / 1988	22.07.1963

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
849	विनय बी.ए./पुत्र श्री अशोक बी.वी.	कर्नाएसवीसी/5257	न. 97, भद्रहल्ली ग्राम, शिलेरगेरे डाक, भराहल्ली 563103, कोलार, ता.— कोलार, जिला— कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर/2012	27.04.1990
850	बाल्लपा आर. अथानी/पुत्र श्री रामप्पा अठानी	कर्नाएसवीसी/5258	एम-91, सेक्टर-61, नवानगर, बगलकोट 587103, तालुक बगलकोट, कर्नाटक	बीवीएससी/यूएसबंगलौर/1984	23.05.1961
851	हरीश एच.पी./पुत्र श्री पुतन्ना	कर्नाएसवीसी/5259	हादीनारु ग्राम,डाक हादीनारु विला, 571301, नाजुनगुड, तालुक: मैसूर,जिला—कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/यूएसबंगलौर/2003	23.03.1979
852	खडे प्रसाद सदाशिव/पुत्र श्री खडे सदाशिव	कर्नाएसवीसी/5260	न. 1583/3, न्यू नाइक गली, खानापुर, बेलगाम 591302, बेलगाम तालुक एवं जिला— बेलगाम, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/एमएफएसयू नागपुर/2008	16.04.1985
853	पृथ्वीराज/पुत्र श्री शिवराज काम्बले	कर्नाएसवीसी/5261	बदरपुर, भल्की, बदरपुर 585328, भल्की, तालुक बिदर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर/2008	01.10.1985
854	भिषज मूर्थि/पुत्र स्व. श्री रामचंद्र मूर्थि	कर्नाएसवीसी/5262	बदावनाहल्ली, मधुगिरि 572112, तालुक तुमकुर, जिला— तुमकुर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/यूएस बंगलौर /2004	25.03.1980
855	किरन टी.एस./पुत्र स्व. श्री टी. शिवन्ना	कर्नाएसवीसी/5263	द्वारा: श्रुति नीलया, दूसरा मेन, कृषिनगर, कयाथसांद्रा डाक, तालुक व जिला— तुमकुर 572104, कर्नाटक	बीवीएससी/यूएस बंगलौर/1994	20.07.1970
856	राजाशेखर एस. मुदाबगिल/पुत्र श्री सिदारामप्पा मुदाबगिल	कर्नाएसवीसी/5264	प्रथम मेन, नीलकांतेश्वर नीलया, डी-क्रॉस, उमाशंकर नगर, रानीबेन्नूर, हावेरी 581115, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/यूएस बंगलौर/2000	22.07.1975
857	चन्ना रेड्डी सी./पुत्र श्री चन्नाराया रेड्डी	कर्नाएसवीसी/5265	न. 151, मरालु सिद्धेश्वर मंदिर के पीछे, एम.जी. रोड, जयभीम नगर, 8वां वार्ड, चिक्कबल्लापुर 562101, कर्नाटक	बीवीएससी/यूएस बंगलौर/1973	21.03.1947
858	जी.वी. मुरली कृष्णा/पुत्र स्व. श्री जी. वेंकटप्पा	कर्नाएसवीसी/5266	न. 104/2, शक्ति गनपति स्ट्रीट, थनम्मा लेआउट, बिलेकाहल्ली, बंगलौर, ता.— बेंगलुरु अर्बन जिला,कर्नाटक	बीवीएससी/यूएस बंगलौर /1990	19.07.1964
859	नवीन कुमार वी.एस./पुत्र श्री सनइयाह वी.एन.	कर्नाएसवीसी/5267	चेन्नांगी ग्राम,चेन्नायाना कोटे डाक, पोलीबेटा, विराजपेट, चन्नांगी 571215, विराजपेट, तालुक कोडागु, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/यूएस बंगलौर/2004	17.12.1980
860	वी.वी. भास्कर राव/पुत्र श्री पुष्प राव	कर्नाएसवीसी/5268	सिरि, न. 1401, तीसरा क्रॉस, प्रथम स्टेज, दूसरा फेज, चंद्रा लेआउट, विजय नगर, बंगलौर—560040, कर्नाटक	बीवीएससी/आंध्र प्रदेश कृ विवि/1986	30.06.1956
861	के.एन. मंजुनाथ/पुत्र श्री नागप्पा	कर्नाएसवीसी/5269	न. 302, छटा मेन, 7वां क्रॉस, गोकुलम, तीसरी स्टेज, मैसूर, कर्नाटक	बीवीएससी/यूएस बंगलौर/1995	08.07.1968
862	धर्मप्पा राठौड़/पुत्र श्री भीमप्पा राठौड़	कर्नाएसवीसी/5270	एटी/डाक तिंंगाडल्ली, मुद्देबिहाल, बीजापुर, मुद्देबिहाल— 586116, बीजापुर, तालुक— बीजापुर, जिला—कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर/2008	01.06.1980
863	दिव्या एन., पुत्री श्री सुरेश रेड्डी सी.	कर्नाएसवीसी/5271	द्वारा न.684, श्री साई कृपा, पूर्णा प्रज्ञा नगर, बाणशंकरी, बंगलौर 560061, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर/2014	14.05.1991
864	मंजुनाथ बी.पी./पुत्र श्री नागराज बी.पी.	कर्नाएसवीसी/5272	न. 98, प्रकृथि, तीसरा क्रॉस, भुवनेश्वरी नगर, एचएफ, डाक 560024, तालु.: बेंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससी/यूएसबंगलौर/1992	01.03.1970
865	एन.एल.गंगाधर/पुत्र श्री एन.सी. लिंगइयाह	कर्नाएसवीसी/5273	न. 6, छठी मंदिर वाली गली,15वां क्रॉस, मल्लेश्वरम, बंगलौर 560003, ता. बेंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससी/यूएसबंगलौर/1968	08.11.1945
866	सी.एस. श्रीनिवास /पुत्र श्री ए. शमन्ना	कर्नाएसवीसी/5274	न.74, प्रगथि नीलया, टी.बी. नारायणप्पा लेआउट, केईबी कार्यालय के सामने, डोड्डा बल्लापुरा, बंगलौर 561203, ता. बेंगलुरु रुरल जिला, कर्नाटक	बीवीएससी/यूएसबंगलौर/1989	12.07.1965
867	बीजू प्रसाद एम./पुत्र स्व. श्री वी.के. मनियन	कर्नाएसवीसी/5275	न. 15, सिटी रेजीडेंसी, साई मंदिर के निकट, नवानगर 580025, हुबली, तालुक— धारवाड़, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केरल कृ विवि/2008	27.09.1983

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
868	रवि एस. सालीगौडर, पुत्र श्री शिवना गौडा सालीगौडर	कर्नाएसवीसी / 5276	न. 7वां क्रॉस, कल्याण नगर, धारवाड़, कल्याण नगर, 580007, तालुक- धारवाड़, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएस धारवाड़ / 1992	18.12.1969
869	एच.जी. श्रीनिवास, पुत्र श्री गजानन भट्ट	कर्नाएसवीसी / 5277	एटी 4, डाक हनिया, होसानगर 577418, हनिया, तालुक शिमोगा, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएस बंगलौर / 1988	17.08.1964
870	रवि किरन डी., पुत्र स्व. श्री के.जी. दक्षिणामूर्ति	कर्नाएसवीसी / 5278	न. 80, जी-2, साई राघवेंद्र रेजीडेंसी, चौथा क्रॉस, 5वां मेन, अमरज्योति लेआउट, संजय नगर-94, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएस बंगलौर / 1993	29.05.1969
871	यशवंथ के.एल., पुत्र श्री लक्ष्म गौडा	कर्नाएसवीसी / 5279	न. 401, प्रथम मेन, 12वां क्रॉस, सौंदर्य नगर, नागसांद्रा 560073, बंगलौर नॉर्थ, ता. बेंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएस बंगलौर / 1992	04.01.1968
872	एम.के. वेंकटेश हेगडे, पुत्र स्व. श्री एम.के. कृष्णाप्पा हेगडे	कर्नाएसवीसी / 5280	न.32, लक्ष्मना मोडिलिया स्ट्रीट, शिवाजी नगर, बंगलौर 560001, बंगलौर, ता.बेंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएस बंगलौर / 1968	18.02.1942
873	एस. मुनि नारायण, पुत्र श्री सोनप्पा	कर्नाएसवीसी / 5281	न. 344, बंगारपेट सर्कल, ओ.टी.एफ. एक्सटेंशन, कोलार 563101, तालुक कोलार, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएस बंगलौर / 1985	12.07.1954
874	जयराम एम. चवन, पुत्र श्री मोती लाल चवन	कर्नाएसवीसी / 5282	न. 605 / 86, पूजा प्लाजा, अंजनेया बडवाने, अंजनेया मंदिर, तीसरा मेन, दावणगेरे 577004, बंगलौर नॉर्थ, ता. बेंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएस धारवाड़ / 1992	01.06.1968
875	जया एस.बी., पुत्र श्री सुनील राज आर.	कर्नाएसवीसी / 5283	बी-1303, मंत्री एलिंगेंस, बानेरघट्टा मेन रोड, एन.एस.पलया, बंगलौर 560076, बंगलौर, ता.-बेंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससी/एंडएच/केरल कृ विवि / 1995	27.05.1971
876	अनिल कुमार बी., पुत्र श्री सी.सी. बेट्टे गौडा	कर्नाएसवीसी / 5284	न. 2296, दूसरा क्रॉस, गांधी नगर, नांड्या, गांधीनगर 571401, मांड्या, ता. बेंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससी/एंडएच/यूएस बंगलौर / 2000	09.04.1977
877	रवीन्द्र नाथ एस. सरकार, पुत्र श्री सुबलचंद्रा	कर्नाएसवीसी / 5285	न. 7-1-226/ए, वलाबेलारी रोड, पीडब्ल्यूडी कैम्प, सिंधनूर 584128, सिंधनूर, ता.-रायचूर, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएस धारवाड़ / 1991	01.06.1966
878	मनोजा वी., पुत्र श्री वेंकटरावनप्पा	कर्नाएसवीसी / 5286	बिलांडलाहल्ली ग्राम, कडाडनामरी डाक, चिंतामनि कडाडनामरी 563125, चिंतामनि, तालुक-चिकबल्ला पुरा, जिला- कर्नाटक	बीवीएससी/एंडएच/केवीएफएसयू बिदर / 2014	21.07.1991
879	वरदराजू बी.आर., पुत्र श्री रंगास्वामी बी.के.	कर्नाएसवीसी / 5287	शांतिमार्ग, दूसरा क्रॉस, मारुथि नगर, 5वां ब्लॉक, अरासीकेरे 573103, अरासीकेरे, तालुक- हसन, जिला-कर्नाटक	बीवीएससी/एंडएच/यूएस बंगलौर / 2004	05.02.1981
880	रानी चाको, पत्नी श्री अरुण रॉय एंटोनी	कर्नाएसवीसी / 5288	416, असेट औरा, गुंजर गांव, वर्थुर होबली, बंगलौर पूर्व, 560087, ता.- बेंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससी/एंडएच/केवीएडवीएसयू/2008	23.05.1984
881	मनोहर बी.एम., पुत्र श्री मल्लिकार्जुन स्वामी बी. एस.	कर्नाएसवीसी / 5289	ब्लॉक, बेलकावाडी, मलावल्ली, बेलकावाडी, 571417, मलावल्ली, तालुक-मांड्या, जिला- कर्नाटक	बीवीएससी/एंडएच/केवीएफएसयू बिदर / 2015	20.07.1992
882	अरुण आर.टी., पुत्र श्री थमझ्याह आर.एस.	कर्नाएसवीसी / 5290	आर.जी. कोपालु, कडूर, चिकमगलूर, आर. जी. कोप्पलु 577548, कडूर, तालुक-चिकमगलूर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससी/एंडएच/केवीएफएसयू बिदर / 2015	04.06.1992
883	पृथ्वीराज एम., पुत्र श्री सथानारायण एम.के.	कर्नाएसवीसी / 5291	वानी कम्पाउंड, लक्ष्मीपुरा, अरासीकेरे हसन, अरासीकेरे 573103, अरासीकेरे, तालुक हसन, बंगलौर नॉर्थ, तालुक बेंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससी/एंडएच/केवीएफएसयू बिदर / 2015	31.05.1993
884	सुरेंद्र ए.जी., पुत्र श्री गोविंद गौडा	कर्नाएसवीसी / 5292	न. 5913, अनाकनहल्ली, के.आर. नगर, मैसूर, अनाकनहल्ली, 571604, के.आर. नगर, ता.-मैसूर, बंगलौर नॉर्थ, ता.- बेंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससी/एंडएच/केवीएफएसयू बिदर / 2015	01.06.1991
885	श्रव्या जी.एस., पुत्र श्री शंकर रेड्डी जी.सी.	कर्नाएसवीसी / 5293	न.2, इमाराकुंटे, श्रीनिवासपुरा कोलार, इमाराकुंटे 563135, श्रीनिवासपुर, तालुक-कोलार, कर्नाटक	बीवीएससी/एंडएच/केवीएफएसयू बिदर / 2015	23.05.1992

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
886	मेघाश्री सी.एस., पुत्र श्री सुब्रमण्य भट सी.एच.	कर्नाएसवीसी / 5294	गंगा सदन, विद्यानगर, विट्टल, बंटवाल, दक्षिण कन्नडा, विट्टल 574243, ता. -दक्षिण कन्नडा, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफ एएसयू बिदर / 2015	24.09.1992
887	नेथ्रवथी बी.टी., पुत्र श्री थिम्मैगौडा एच.टी.	कर्नाएसवीसी / 5295	न. 693-1, वार्ड न.13, भोवी कॉलोनी, बिरूर, कडूर, चिकमगलूर, बिरूर 577116, कडूर, ता.-चिकमगलूर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफ एएसयू बिदर / 2015	29.09.1992
888	सहाना एम., पुत्र श्री मंजुनाथ ई.	कर्नाएसवीसी / 5296	न. 23 / 370 प्रथम तल, ब्रह्मरम्बा एक्सटेशन, चौथा क्रॉस, चामराजनगर, 571313, ता.-चामराजनगर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफ एएसयू बिदर / 2015	22.02.1993
889	सैयदा सुमेया, पुत्र श्री सैयद हबीबुल्लाह	कर्नाएसवीसी / 5297	न. 510 / 1, 12वां क्रॉस, तीसरा मेन, के.टी. जे. नगर, दावणगेरे 577002, तालुक दावणगेरे, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफ एएसयू बिदर / 2015	24.03.1992
890	स्वेथा रेड्डी आर.वी., पुत्र श्री वेनुगोपाला रेड्डी आर.टी.	कर्नाएसवीसी / 5298	न.38, रामचंद्रपुरा, चिक्का कुरुगोडु, गौरीबिदनूर 561208, गौरीबिदनूर, तालुक चिक्कबल्लापुर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफ एएसयू बिदर / 2015	09.09.1992
891	बिरादर परीक्षित बाबूराव, पुत्र श्री बाबूराव बिरादर	कर्नाएसवीसी / 5299	वनमारपल्ली, औरद, बिदर, औरद, 585326, औरद, तालुक बिदर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / एमएफ एएसयू नागपुर / 2014	10.06.1992
892	सतबिगे अजय सूर्यकांत, पुत्र श्री सूर्यकांत	कर्नाएसवीसी / 5300	9-1.-129, रामपुर कॉलोनी, गुम्पा रोड, बिदर 585403, तालुक बिदर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / एमएफ एएसयू नागपुर / 2012	18.10.1988
893	तरिनी एन.के., पुत्र श्री एन.के. केम्पइयाह	कर्नाएसवीसी / 5301	न. 821, दूसरा क्रॉस, तीसरा फेज, चौथी स्टेज, विजय नगर, मैसूर 570018, तालुक मैसूर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफ एएसयू बिदर / 2015	30.09.1992
894	यशादित्य टी.पी., पुत्र श्री प्रभाकरइयाह	कर्नाएसवीसी / 5302	थिमन्नाहल्ली, चिक्कनायकन हल्ली, तुमकुर, चिक्कनायकन, 572228, तालुक तुमकुर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफ एएसयू बिदर / 2015	16.12.1990
895	ललिथ कुमार जे.एम., पुत्र श्री मंजुनाथ जे.एम.	कर्नाएसवीसी / 5303	हाई स्कूल रोड, जंगमकोटे, सिदलाघट्टा, जंगमकोटे 562102, ता.-चिक्कबल्लापुर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफ एएसयू बिदर / 2015	26.03.1993
896	राजशेखर एस., पुत्र श्री सोम शेखरप्पा	कर्नाएसवीसी / 5304	न. 40, पापेनाहल्ली ग्राम, रायन्नाहल्ली डाक, चित्रदुर्ग 577502, तालुक चित्रदुर्ग, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफ एएसयू बिदर / 2015	05.04.1991
897	चेतन बी.सी., पुत्र श्री चिन्नास्वामी	कर्नाएसवीसी / 5305	146, श्रीराम मंदिर, बेविनल्ली डाक एवं ग्राम, बेवीनल्ली 571402, तालुक मांड्या, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफ डएफएसयू / 2015	19.07.1992
898	रूपेश एम.पी., पुत्र श्री प्रभुस्वामी एम.	कर्नाएसवीसी / 5306	143, कॉवेरी रोड, मुल्लुर ग्राम- 571442, कोल्लेगल, तालुक-चामराजनगर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफ डएफएसयू / 2015	11.06.1992
899	हेमनाथकुमार एम., पुत्र श्री मंजे गौडा ए.	कर्नाएसवीसी / 5307	140, प्रथम फेज, चौथी स्टेज, विजयनगर, मैसूर, विजयनगर, तालुक-मैसूर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफ डएफएसयू / 2015	25.08.1992
900	अनंथ मलिक एस., पुत्र श्री सोमला नाइक	कर्नाएसवीसी / 5308	144, थरालाघट्टा, चिक्का जोगिल्ली डाक, 577214, शिकारीपुरा, तालुक-शिमोगा, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफ डएफएसयू / 2015	20.06.1992
901	वसंथ कुमार एच. जी., पुत्र श्री गंगाधरप्पा	कर्नाएसवीसी / 5309	श्री शिवालय, हालेनल्ली, हलकुरके डाक, 572201, शिकारीपुरा, तालुक-शिमोगा, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफ डएफएसयू / 2015	25.03.1992
902	गीथा एन., पुत्री श्री निगप्पा एम.	कर्नाएसवीसी / 5310	अरालाहल्ली ग्राम, 577527, होसादुर्ग, तालुक-चित्रदुर्ग, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफ डएफएसयू / 2015	23.02.1993
903	वनीथा एच.डी., पुत्री श्री देवप्पा जी.	कर्नाएसवीसी / 5311	द्वारा: मलप्पा अरबेरलिन, हिरण्यगिरि 563236, यलाबुर्गा, ता.-कोप्पल, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफ डएफएसयू / 2015	01.06.1992
904	कृष्णा प्रसाद जी. कूर्से, पुत्र श्री गनपति के. कूर्से	कर्नाएसवीसी / 5312	95 / ए 2, ओम बीच रोड, बंदीकेरी ओनी, दानिश बंगले के निकट, गोकर्णा 581326, कुमता, ता.-उत्तर कन्नडा, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफ डएफएसयू / 2015	20.03.1992

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
905	चेतन गौडा यू.सी., पुत्र श्री चंद्रशेखर	कर्नाएसवीसी / 5314	टैंक स्ट्रीट, उम्मदाहल्ली एटी डाक, उम्मदाहल्ली 571404, मांड्या, तालुक-मांड्या, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	04.04.1993
906	राजू पी.बी., पुत्र श्री पुतन्ना बी.आर.	कर्नाएसवीसी / 5315	034, मेन रोड, हेगोरे, 577522, चलाकेरे, तालुक- चित्रदुर्गा, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	03.08.1991
907	धीरज प्रकाश जी., पुत्र श्री गिरीश जी.	कर्नाएसवीसी / 5316	35, वार्ड न.1, होसयालानाडु, 577599, हिरियूर, तालुक- चित्रदुर्गा, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	10.12.1991
908	कमलेश कुमार के., पुत्र श्री सनप्पा नाइक एम.	कर्नाएसवीसी / 5317	श्री माइलारेश्वर सदाना, पानी की टंकी के पास, 5वां क्रॉस, गडीकोप्पा 577204, शिमोगा, तालुक शिमोगा, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	01.06.1993
909	चैत्रश्री आर.एस., पुत्री श्री रामप्पा	कर्नाएसवीसी / 5318	चैत्र नीलया, के.टी.मुण्डियप्पा बडवाने, बीएच रोड, कडूर 577548, कडूर, तालुक चिकमगलूर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	19.05.1992
910	तेजस्विनी के.जी., पुत्री श्री गिरिधर के.एम.	कर्नाएसवीसी / 5319	मादिलु, 148/2, मंगनाहल्ली क्रॉस, उल्लाल, बंगलौर, बेंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	23.11.1992
911	सविथा आर. काशप्पनावर, पुत्री श्री रुद्रप्पा	कर्नाएसवीसी / 5320	1476/ए,पुराना पोस्टऑफिस रोड, हावेरी-581110, तालुक हावेरी, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	07.10.1991
912	भरत के.आर., पुत्र श्री राजन्ना एच.	कर्नाएसवीसी / 5321	05,कुटनाहल्ली,अरालुमल्लिगे डाक, डोडाबल्लापुर तालुक, कुटनाहल्ली, 561203, बेंगलुरु रुरल जिला,कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	18.02.1993
913	भार्गवी प्रकाश, पुत्री श्री प्रकाश बी.एस.	कर्नाएसवीसी / 5322	499/2, बी-ब्लॉक, तीसरी स्टेज, विजय नगर, मैसूर 570017, तालुक- मैसूर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	25.07.1992
914	चैत्रा श्री ए.आर., पुत्री श्री रामगौडा	कर्नाएसवीसी / 5323	एमआईजी / 11-333, सुमुखा नीलया, केएचबी लेआउट, हसन पब्लिक स्कूल के सामने, सथ्यामंगला, तालुक हसन, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	29.05.1992
915	अनंथ के., पुत्र श्री कृष्णामूर्ति एल.	कर्नाएसवीसी / 5324	121, दूसरा एफ मेन रोड, कोरामंगला, 8वां ब्लॉक, बंगलौर 560095, ता.-बेंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	03.11.1991
916	मंजुनाथ बी.एच., पुत्र श्री हनुमंथरायप्पा	कर्नाएसवीसी / 5325	न्यू एक्सटेंशन, बारागुर एटी डाक, बारागुर डाक, सिरा, ता.-तुमकूर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	16.06.1992
917	राजेश एस., पुत्र श्री श्रीयमप्पा एन.	कर्नाएसवीसी / 5326	011, येन्नागुरु ग्राम, नागमंगला डाक, 562102, शिदलाघट्टा, तालुक चिकमगलूर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	11.06.1991
918	पलाक्ष जी.एम., पुत्र श्री मनोहर जी.	कर्नाएसवीसी / 5327	466,मेन रोड, इसूर, शिकारी पुर तालुक, 577514,तालुक- शिमोगा, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	26.06.1992
919	पवित्रा सी., पुत्र श्री चंद्रशेखर जी.	कर्नाएसवीसी / 5328	2/2855,कौडारेडडी पालया, दूसरा मेन क्रॉस, चिंतामनि, 563125, ता. चिकबल्लापुरा, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	19.12.1992
920	वीरेश एच.बी., पुत्र श्री बासप्पा	कर्नाएसवीसी / 5329	17/121, उदय लेआउट, मंगलानाहल्ली, बंगलौर नॉर्थ, तालुक बेंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	03.03.1989
921	पूर्ण चंद्र के.टी., पुत्र श्री तुक्कोकी राव पी.	कर्नाएसवीसी / 5330	458/2, दूसरा क्रॉस, दूसरा वार्ड, विनायक एक्सटेंशन, के.आर.नगर टाउन, 571602, के. आर.नगर, तालुक-मैसूर, जिला कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	22.02.1992
922	लोहिथ टी.एस., पुत्र श्री शिवा स्वामी एम.एस.	कर्नाएसवीसी / 5331	सिददारामेश्वरा नीलया, नाटका माने के पास, सिटी क्लब, सिरा गेट के निकट, तुमकूर 572106, तालुक- तुमकूर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू बिदर/ 2015	10.11.1992
923	अदिति हांडा, पुत्री श्री अजय हांडा	कर्नाएसवीसी / 5332	बीडी2, 302, वाइट हाउस अपार्ट., छठा मेन,15वां क्रॉस, आरटी नगर,बंगलौर 560032, बेंगलुरु, ता.-बेंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू बिदर/ 2015	01.12.1992

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
924	विनय एस.एस., पुत्र श्री शेकरप्पा टी.सी.	कर्नाएसवीसी / 5333	गौडरु बीडी, शिवानी 577549, तारीकेरे, तालुक चिकमगलूर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर/ 2015	02.10.1992
925	अब्दुल मतीन वलीभाई, पुत्र श्री खजामीन वलीभाई	कर्नाएसवीसी / 5334	एल/301, मदीना नगर, कलकेरी, सिंदगी तालुक, तालुक बीजापुर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर/ 2015	22.07.1992
926	निजामुद्दीन कुमसागी, पुत्र श्री अलादीन कुमसागी	कर्नाएसवीसी / 5335	318, लक्ष्मी मंदिर स्ट्रीट, कोकटानूर, सिंदगी तालुक, 586138, बीजापुर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर/ 2015	31.07.1992
927	अरुण कुमार टी.आर., पुत्र श्री रामाकृष्ण गोडा टी.एम.	कर्नाएसवीसी / 5336	89, थिन्नाली,होगलागेरे डाक, होगल, 563138, श्रीनिवासपुर, तालुक-कोलार, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर/ 2015	08.05.1992
928	महेश एम. कुम्बर्की, पुत्र श्री महंतेश एस. कुम्बर्की	कर्नाएसवीसी / 5337	7वां क्रॉस, पम्पा नगर, हुनाशीकट्टी रोड, रेनेबेन्नूर, 581115, तालुक-हावेरी, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर/ 2015	09.12.1991
929	बलराज एस., पुत्र श्री सिदप्पा एस.	कर्नाएसवीसी / 5338	माथा पिथु नीलया, मालू स्लीपर्स लि., राजाजीनगर, बिरुर-577116, कडूर, ता.-चिकमगलूर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर/ 2015	22.04.1993
930	रघुवीरे डी.एम., पुत्र श्री मल्लिकार्जुन डी.टी.	कर्नाएसवीसी / 5339	290, अपर थोटा, दुर्गावरा ग्राम एवं डाक 577522, चल्लाकेरे, तालुक चित्रदुर्ग, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर/ 2015	18.09.1992
931	अजीथ एम.सी., पुत्र श्री चंद्रशेखर गोडा एम.	कर्नाएसवीसी / 5340	2-180-ए, कोरमबट्टा, नाडुगल्लू 574218, सुलिया, तालुक-दक्षिण कन्नडा, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर/ 2015	06.07.1992
932	थेजस के.एस., पुत्र श्री सिदप्पा के.एम.	कर्नाएसवीसी / 5341	होसकाडाजेट्टी ग्राम एवं डाक, होसकाडाजेट्टी- 571 315, सुलिया, तालुक-दक्षिण कन्नडा, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर/ 2015	16.05.1992
933	चेन्नावीरप्पा, पुत्र श्रीशरनप्पा पी. पाटिल	कर्नाएसवीसी / 5342	टेग्गिन ओनी, सोमानल, चेल्लूर डाक, 583229, गंगावथी, तालुक-कोप्पल, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर/ 2015	08.07.1992
934	राघवेंद्र येलीवाल, पुत्र श्री लोकन्ना	कर्नाएसवीसी / 5343	जी.बी. शंकर राव नगर, रस्तीहल्ली 581116, हिरेकेरुर, तालु-हावेरी, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर/ 2015	20.07.1992
935	हर्षिथा सी.आर., पुत्री स्व. श्री राजप्पा सी.डी.	कर्नाएसवीसी / 5344	थोरेनूर ग्राम एवं डाक, 571234, सोमवारपेट, तालुक -कोडागु, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर/ 2015	23.12.1991
936	बिंधुजा बी.वी., पुत्र श्री वेंकटेशप्पा ए.एम.	कर्नाएसवीसी / 5345	बेलूटी ग्राम, मलामाचनाहल्ली डाक, 562102, शिदलाघट्टा, तालुक-चिकबल्लापुर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर/ 2015	30.04.1993
937	अभिषेक के., पुत्र श्री केशव रेड्डी एस.	कर्नाएसवीसी / 5346	अभिनव नीलया, 8वां क्रॉस एक्सटेंशन, स्वर्ण नगर, रॉबर्ट सोनपेट, केजीएफ कोलार 563122, बंगारपेट, तालुक- कोलार, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर/ 2015	28.02.1993
938	गुरुप्रसाद, पुत्र श्री शरण बासप्पा	कर्नाएसवीसी / 5347	ई/236, सोनारगल्ली, नेलोगी 585310, जेवार्गी, तालुक- गुलबर्गा, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर/ 2015	28.09.1993
939	अनिल सिंधूर, पुत्र श्री शिवलिंगप्पा	कर्नाएसवीसी / 5348	तुबाची एटी डाक-587119, जामाखंडी, तालुक- बगलकोट, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर/ 2015	28.05.1992
940	चेजन सातप्पा खानापुर, पुत्र श्री सातप्पा	कर्नाएसवीसी / 5349	1007, सिददारुद मठ, कल्लोली- 591224, गोकक, तालुक बेलगाम, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर/ 2015	23.07.1991
941	मुददारंगइयाह एम. आर., पुत्र श्री रंगाशामइयाह	कर्नाएसवीसी / 5350	132, मध्य वेंकटपुरा, मवाथुर डाक, 572129, कोराटगेरे, तालुक तुमकुर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर/ 2015	20.07.1991
942	महंतेश फकीरप्पा मेती, पुत्र श्री फकीरप्पा	कर्नाएसवीसी / 5351	534/एम/4, केसी नगर, तीसरा क्रॉस, बेलाहोंगल, 591102, तालुक-बेलगाम, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर/ 2015	05.07.1991
943	यशोधा राठौड, पुत्र श्री परशुराम राठौड	कर्नाएसवीसी / 5352	7 / 156, बगदल टांडा, 585226, बिदर, तालुक- बिदर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर/ 2015	05.12.1993

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
944	किरन कुमार एस., पुत्र श्री सूर्यकुमार राव सूर्यन	कर्नाएसवीसी / 5353	95, केआईएडीबी हाउसिंग कॉलोनी, नौबाद, 585402, बिदर, तालुक-बिदर,कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर / 2015	04.03.1993
945	उदय कुमार, पुत्र श्री दशरथ गजरे	कर्नाएसवीसी / 5354	13-1-80, मस्जिद लाडगेरी के निकट, बिदर, 585401, तालु. बिदर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर / 2015	08.01.1992
946	विद्याधर बी.एच., पुत्र श्री बासव राज हदनूर	कर्नाएसवीसी / 5355	33 / 100, मुजूनाथ नीलया, हट्टी लेआउट, शाहापुर रोड, जेवागी 585310, तालुक-गुलबर्गा, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर / 2015	20.01.1993
947	पन्नगा पी., पुत्र श्री पंचाक्षरइयाह सी.	कर्नाएसवीसी / 5356	916/ए, हैड पोस्ट ऑफिस रोड, त्यागराज नगर, चल्लाकरे 577522, तालुक चित्रदुर्गा, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर / 2015	27.11.1992
948	तृप्ति सूर्यकांत कट्टीमनि, पुत्री श्री सूर्यकांत कट्टीमनि	कर्नाएसवीसी / 5357	सूर्यकांत कट्टीमनि, 1 / 13, शिकर मोटकापल्ली, सेल बर्नाली डाक, 585306, चिंचोली, तालुक-गुलबर्गा, जिला -कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर / 2015	23.01.1993
949	पाटिल रानी, पुत्री श्री रवीन्द्र	कर्नाएसवीसी / 5358	डोंगरदेवी स्कूल रोड, डोंगरगांव, 585313, गुलबर्गा, तालुक-गुलबर्गा, जिला -कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर / 2015	01.06.1991
950	मधु आर., पुत्र श्री रमेश एच.	कर्नाएसवीसी / 5359	एस. नेरलाकरे डाक, 577542, होसादुर्ग, तालुक- चित्रदुर्गा, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर / 2015	20.04.1992
951	शिवा बी.वी., पुत्र श्री वेंकट रेड्डी बी.वी.	कर्नाएसवीसी / 5360	भूमिशेट्टीहल्ली, गुडारमर हल्ली डाक, भूमिशेट्टीहल्ली -563125, चिंतामनि, तालुक -चिक्कबल्लापुर, जिला कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर / 2015	10.08.1991
952	निधा, पुत्री श्री इम्तियाज अहमद एफ.आर.	कर्नाएसवीसी / 5361	एकुआ बुक सेंटर, बस स्टैंड, बालेहोन्नूर 577112, पुरा के निकट, तालुक-चिकमगलूर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर / 2015	02.05.1992
953	धनराज गुरुबासप्पा गिरिमल, पुत्र श्री गुरुबासप्पा जी.	कर्नाएसवीसी / 5362	7-4-256 / 1, वीरभद्रेश्वर नीलया, प्रथम क्रॉस,मनाहल्ली रोड, कैलाश लेआउट, बिदर -585401, तालुक- बिदर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर / 2015	20.08.1992
954	सिद्दाश्री, पुत्री श्री रमेश स्वामी	कर्नाएसवीसी / 5363	भाल्की, तालुक- बिदर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर / 2015	01.01.1993
955	शिव कुमार, पुत्र श्री संग्राम	कर्नाएसवीसी / 5364	1-4, मेन रोड, तोरना, औरद-बी, तालुक-बिदर, तोरना- 585443, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर / 2015	04.06.1989
956	प्रवीन विजय कुमार मठपति, पुत्र श्री वी.के. मठपति	कर्नाएसवीसी / 5365	शिवयोगी नीलया, जेईआरई प्लॉट,शांति नगर,प्रथम क्रॉस, अथानी, 591304, तालुक बेलगाम, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर / 2015	20.08.1992
957	मालाश्री जी., पुत्री श्री रामन्ना गोंडा	कर्नाएसवीसी / 5366	2 / 99, चिल्लार्गी ग्राम- 585401, बिदर, तालुक- बिदर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर / 2015	20.01.1993
958	दीपक बी. पाटिल, पुत्र श्री बासवराज ए. पाटिल	कर्नाएसवीसी / 5367	1 / 4 / 84, संगमेश्वर कॉलोनी, चिदरी रोड, बिदर, 585401, बिदर, तालुक- बिदर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर / 2015	20.11.1991
959	चंद्रशेखर आर., पुत्र श्री रामाकृष्णइयाह	कर्नाएसवीसी / 5368	79, वार्ड न.25, जलमंगला रोड, हनुमंथ नगर, रामनगर 562159, रामनगर, तालुक रामनगर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर / 2015	06.03.1992
960	मंजुनाथ अडिगा, पुत्र श्री नागराजा अडिगा	कर्नाएसवीसी / 5369	3-163, बीजाडी ग्राम, 576222, कुंडापुरा, तालुक उडुपी, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर / 2015	18.06.1993
961	अनुपमा के., पुत्री श्री कृष्णामूर्ति वाई.आई.	कर्नाएसवीसी / 5370	श्री लक्ष्मीरंगनाथ कृपा,ज्योथि होम इंडस्ट्रीज के निकट, सरस्वथीपुरम, तुमकुर 572 105,तालुक तुमकुर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू बिदर / 2015	01.10.1992
962	सिद्धार्थ सवाले, पुत्र श्री सवाले तुकाराम	कर्नाएसवीसी / 5371	कमेटी हॉल के निकट, तोरना 585443, औरद-बी, तालुक-बिदर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू / 2015	24.04.1992
963	सौम्या एन., पुत्री श्री नागराजू पी.	कर्नाएसवीसी / 5372	ए.ओ.कॉलोनी कोटे, सिदला घट्टा 562105,सिदलाघट्टा, तालुक-चिक्कबल्लापुर, जिला -कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू / 2015	16.02.1993
964	विजय कुमार एन., पुत्र श्री नागराजइयाह एम.	कर्नाएसवीसी / 5373	143 / 2, तीसरा मेन रोड, 9वां क्रॉस, चामराजपेट 560018,बैंगलुरु, ता.-बैंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएफएसयू / 2015	11.02.1993

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
965	रश्मि के.एम., पुत्री श्री महादेव मूर्ति के.आर.	कर्नाएसवीसी / 5374	241, श्री कृष्णा धाम, फेज-1, स्टेज-4, विजय नगर, मैसूर 570077, तालुक-मैसूर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएण्डएफएसयू / 2015	27.01.1992
966	शांथला होबली, पुत्री श्री शम्भू नाथ हुबली	कर्नाएसवीसी / 5375	1192, छठा वार्ड, सरकारी अस्पताल, कोट्टूर, 583134, मुलबगल, तालुक कोलार, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएण्डएफएसयू / 2015	26.08.1992
967	मल्लिका एन., पुत्री श्री नागराजा जी.	कर्नाएसवीसी / 5376	3694 / 3, शारदा गर्ल्स कॉलेज रोड, मुथयलपेट 563131, मुलबगल, तालुक कोलार, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएण्डएफएसयू / 2015	01.03.1993
968	प्रसन्ना बी.बी., पुत्र श्री बेट्टेगोडा	कर्नाएसवीसी / 5377	21, भारथवल्ली, हुन्सावल्ली डाक, भरथवल्ली, एच- 573 213, अलूर, तालुक हसन, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएण्डएफएसयू / 2015	11.03.1993
969	प्रियंका जी.एस., पुत्री श्री शंकरा रेड्डी	कर्नाएसवीसी / 5378	05, गुड्डिसिवारीपल्ली, डाक यारमवारीपल्ली, 563135, श्रीनिवासपुरा, तालुक कोलार, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएण्डएफएसयू / 2015	03.11.1991
970	राहुल पी.ए., पुत्र श्री अश्वथ नारायण	कर्नाएसवीसी / 5379	381, श्रीकारा नीलया, 8वां क्रॉस, जसनगर कोला, 563101, कोलार, तालुक कोलार, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएण्डएफएसयू / 2015	09.05.1992
971	निश्चिथ कुमार बी., पुत्र श्री बास्कर बी.	कर्नाएसवीसी / 5380	280, बैंक रोड, कसाबा होबली, नागनहल्ली 570003, तालुक-मैसूर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएण्डएफएसयू / 2015	28.01.1993
972	विनीत, पुत्र श्री विजय कुमार	कर्नाएसवीसी / 5381	17-5-41, कुम्भारवाडा, बिदर तालुक, 585401, बिदर, तालुक-बिदर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएण्डएफएसयू / 2015	09.12.1993
973	शियाशी कुमार नागप्पा गोटे, पुत्र श्री नागप्पा	कर्नाएसवीसी / 5382	संथोषनगर स्ट्रीट, आरेहल्ली डाक, 573101, संथोषनगर- 573101, बेलूर, तालुक हसन, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएण्डएफएसयू / 2015	17.07.1992
974	आकाश कडागांची, पुत्र श्री मल्लिकार्जुन	कर्नाएसवीसी / 5383	8-322, मारवाडी गली, किराना बाजार, कलबुरगी 585401, कलबुरगी, तालुक-गुलबर्गा, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएण्डएफएसयू / 2015	01.12.1992
975	अरविंद बद्दी नारायण, पुत्र श्री बद्दी नारायण के.एस.	कर्नाएसवीसी / 5384	111, श्रीनिवास, 10वां क्रॉस, इंदिरा नगर, स्टेज-1, बेंगलुरु, तालुक- बेंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएण्डएफएसयू / 2015	16.11.1985
976	सूरज कौजाल्गी, पुत्र श्री चानप्पा कौजाल्गी	कर्नाएसवीसी / 5385	201 / 1, कल्याण कॉलोनी, गणेश मंदिर के सामने, लक्ष्मी एक्सटेंशन, गोकक, तालुक -बेलगाम, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएण्डएफएसयू / 2015	04.07.1992
977	संगमेश पाटिल, पुत्र श्री चंद्रकांत पाटिल	कर्नाएसवीसी / 5386	8-10-78, अक्कामहादेवी कॉलोनी, के.ई.बी. रोड, मेगूर आई सेंटर के निकट, बिदर, 585401, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएण्डएफएसयू / 2015	10.08.1992
978	सिद्धेश पाटिल, पुत्र श्री चंद्रकांथ पाटिल	कर्नाएसवीसी / 5387	8-10-78, अक्कामहादेवी कॉलोनी, के.ई.बी. रोड, मेगूर आई सेंटर के निकट, बिदर, 585401, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएण्डएफएसयू / 2015	10.08.1992
979	वेंकटेश नाइक एन., पुत्र श्री नागराज आर.	कर्नाएसवीसी / 5388	वेटेरिनरी अस्पताल के निकट, चिक्काजोगी हल्ली 583126, कुडलिगी, तालुक- बेलारी, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएण्डएफएसयू / 2015	27.03.1993
980	धर्शन कुमार जी.टी., पुत्र श्री थिप्पेस्वामी जी.के.	कर्नाएसवीसी / 5389	उज्जिनी माता के पीछे, रंगायन बागिलु, कारुविना कट्टा सर्कल, चित्रदुर्ग 577 501, तालुक चित्रदुर्ग, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएण्डएफएसयू / 2015	22.06.1992
981	अचिन्त्य गौथम, पुत्र श्री गौथम एम.बी.	कर्नाएसवीसी / 5390	53, अमरना, 9वां मेन, नागेंद्र ब्लॉक, बीएसके स्टेज-3, बेंगलुरु 560050, तालुक- बेंगलुरु, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएण्डएफएसयू / 2015	30.07.1992
982	सुजीथ एस. नाथ, पुत्र श्री सुरेंद्र नाथ जी.	कर्नाएसवीसी / 5391	बी15, केएचबी कॉलोनी, पुट्टेनाहल्ली, येलाहंका, बेंगलुरु, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएण्डएफएसयू / 2015	15.07.1992
983	सुहास के.एस., पुत्र श्री श्रीनिवासइयाह के.	कर्नाएसवीसी / 5392	11, 9वां क्रॉस, टैंट रोड, संजीवनी नगर, मुदालापलया, बेंगलुरु, 560072, तालुक- बेंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएण्डएफएसयू / 2015	09.08.1992

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
984	नागेंद्र स्वामी एस., पुत्र श्री चंद्र शेखर एस.	कर्नाएसवीसी / 5393	12-24, मताधा स्ट्रीट, लिंगायथ एरिया, पी. जी.पलया, कोल्लेगल तालुक, 571457, चामराजनगर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	18.05.1993
985	शिवाकुमार स्वामी एस, पुत्र श्री सिद्दारामप्पा	कर्नाएसवीसी / 5394	11 / 8, गनेशन बीडी, शिवानी, तारीकेरे तालुक, 577549, चिकमगलूर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससी / यूएसबंगलौर / 1997	18.05.1975
986	राजाप्रेमा शेटी के., पुत्र श्री शीनप्पा शेटी	कर्नाएसवीसी / 5395	कोठाडी हाउस, बन्नाडी डाक -570002, उडुपी, तालुक उडुपी, जिला- कर्नाटक	बीवीएससी / यूएसबंगलौर / 1992	12.07.1955
987	कावेरम्मा एम.एस., पत्नी श्री उमेश के.सी.	कर्नाएसवीसी / 5396	1018, 13वां मेन, 3-क्रॉस, स्टेज-2, बेंगलूरु 560008, तालुक- बेंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएसबंगलौर / 1987	20.12.1964
988	संजय कुमार वाई.आर., पुत्र श्री राजन्ना वाई.एस.	कर्नाएसवीसी / 5397	120, चौथा मेन, तीसरा क्रॉस, केजीई लेआउट, न्यू बीईएल रोड, बेंगलुरु 560094, तालुक बेंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएसबंगलौर / 1992	20.05.1970
989	चंद्रकांथा, पुत्र श्री वेंकटचला बेलिया बी.	कर्नाएसवीसी / 5398	10-32-डी2, निसर्ग, कवकुरजे रोड, दूसरा क्रॉस, एलयूटी लेआउट के सामने, सांथेकटटे डाक, 576105, तालुक-उडुपी, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएसबंगलौर / 1983	07.06.1959
990	बी.एन. महेश, पुत्र श्री नांजुडप्पा	कर्नाएसवीसी / 5399	115 / 16ए, बीएसके स्टेज-3, फेज-3, ब्लॉक-5, बानशंकरी 560085, बंगलौर, तालुक बेंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएसबंगलौर / 1997	31.07.1973
991	वेंकटेश एस.एम., पुत्र श्री मलावे गौडा	कर्नाएसवीसी / 5400	12, एस.एम. डोडडी ग्राम, अक्कूर डाक, एस.एम. डोडडी ग्राम 562160, चन्नापटना, ता. -रामनगर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2011	10.07.1988
992	नागराजा के.एच., पुत्र श्री हरियप्पा एम.आर.	कर्नाएसवीसी / 5401	द्वारा राधाकृष्णा पिल्लै, बरुवे रोड, रिप्पनपेट 577426, होसांगर, तालुक शिमोगा, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2011	19.06.1988
993	सुरेश, पुत्र श्री शिवलिंगप्पा हच्छड	कर्नाएसवीसी / 5402	127 / 8, बिद्दापुर कॉलोनी, अफज़लपुर रोड, गुलबर्गा, 585103, गुलबर्गा, तालुक-गुलबर्गा, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/यूएस धारवाड / 2004	28.06.1977
994	कृष्णा रेड्डी एच. खयाडड, पुत्र श्री हनुमरेड्डी आर. खयाडड	कर्नाएसवीसी / 5403	जावूर, नवलगुंड, तालुक- धारवाड, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/यूएस बंगलौर / 1988	15.06.1962
995	निशांथ एच.आर., पुत्र श्री रवि कुमार एच.बी.	कर्नाएसवीसी / 5404	556, तीसरा मेन, 11वां क्रॉस, डब्ल्यूओसी रोड, महालक्ष्मी पुरम, स्टेज-2, बंगलौर, 560086, तालुक- बेंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	03.09.1992
996	मुनिराजू एच.एम., पुत्र श्री मुनिस्वामइयाह	कर्नाएसवीसी / 5405	118, होसापलया, डी.एस.हल्ली डाक, कसबा होबली, होसा पलया, 562131, मगडी, तालुक -रामनगरा, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	10.05.1993
997	योगेश गौडा एस, पुत्र श्री शिवलिंगे गौडा एस.	कर्नाएसवीसी / 5406	केटी 728, 13वां क्रॉस, चामुंडेश्वरी नगर, केईबी कॉलोनी, मांड्या, 571401, ता. -मांड्या, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	26.03.1992
998	अर्पिथा आर, पुत्री श्री रामा कृष्णइयाह एन.	कर्नाएसवीसी / 5407	मरालूर दिन्ने, मेन रोड, शांथि नगर, तुमकुर 572102, तालुक-तुमकुर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	14.01.1993
999	पुनीथ कुमार डी.एस., पुत्र श्री सिद्दाररेड्डी डी.बी.	कर्नाएसवीसी / 5408	कोल्लूर रोड, वेंकटेश्वर एक्सटेंशन, श्रीनिवासपुरा, तालुक कोलार, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	03.08.1992
1000	रंजीथा एच.बी., पुत्री श्री बोमन्ना के.	कर्नाएसवीसी / 5409	1592, श्री रंगनाथ नीलया, रिग रोड के निकट, मरालूर, 572105, तालुक-तुमकुर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	08.03.1993
1001	प्रियंका वी.एस., पुत्री श्री वेंकटारेड्डी	कर्नाएसवीसी / 5410	1 / 1271, टैंक बंड रोड, चिंतामनि 563125, तालुक चिकबल्लापुर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	18.12.1992

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1002	क्रिस्टल चंद्र महाबुबानी, पुत्री श्री सी.एच. महाबुबानी	कर्नाएसवीसी / 5411	आर-004, पूर्वा पार्क, जीवना हल्ली रोड, कॉक्स टाउन, बंगलौर 560005, तालुक-बेंगलुरु अर्बन जिला,कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएएडएफएसयू/ 2015	29.07.1992
1003	अदनान शबीर, पुत्र श्री शबीर अहमद खाकी	कर्नाएसवीसी / 5412	120, वेटेरिनरी बॉयज़ होस्टल, हेब्बला, बेंगलुरु- 560024, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएएफएसयू/ 2015	06.12.88
1004	सुनील कुमार यू.एम., पुत्र श्री मंजप्पा एम.	कर्नाएसवीसी / 5413	उदुगेरे डाक, 577140, कडूर, तालुक-चिकमगलूर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएएडएफएसयू/ 2015	25.05.1992
1005	महेश पी., पुत्र श्री पेरियास्वामी एम.	कर्नाएसवीसी / 5414	बेलांगनाहल्ली रोड, होस्थोरल्ली, 571114, एच.डी. कोटे, तालुक-मैसूर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएएडएफएसयू/ 2015	29.06.1992
1006	मनु कुरियन मैथ्यू, पुत्र श्री रेजू एम. कुरियन	कर्नाएसवीसी / 5415	90, प्रथम तल, तीसरा मेन, ब्लॉक-1, आरटी नगर डाक, 566032, बंगलौर, तालुक- बेंगलुरु अर्बन जिला,कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएएडएफएसयू/ 2015	16.02.1992
1007	कार्थिक के.वी., पुत्र श्री वेंकटेश के.वी.	कर्नाएसवीसी / 5416	कोलूर ग्राम, मुदुगेरे डाक, 562160, चन्नापटना, तालुक रामनगर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएएडएफएसयू/ 2015	02.11.1992
1008	सथीश एम.सी., पुत्र श्री चन्नाबासप्पा एम.	कर्नाएसवीसी / 5417	136, लिंगायत बीडी, अरुंदी डाक, होन्नाली तालुक, 577223, तालुक-दावणगेरे, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएएडएफएसयू/ 2015	21.02.1993
1009	विनय टी., पुत्र श्री शिवकुमार टी.	कर्नाएसवीसी / 5418	मादप्पा कम्पाउंड, गणेश मंदिर के पीछे, रंगियाना गेट के निकट,चित्रदुर्गा, 577501, चित्रदुर्गा, तालुक चित्रदुर्गा, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएएडएफएसयू/ 2015	11.04.1993
1010	रामिथ के.आर., पुत्र श्री राजन्ना के.एच.	कर्नाएसवीसी / 5419	हरवे कलाहल्ली ग्राम, हरवे डाक,गावडागेरे होबली, हरवे कल्लाहा, 571134, हुंसूर, ता.-मैसूर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएएडएफएसयू/ 2015	20.06.1991
1011	मनोहर एन., पुत्री श्री नरसिम्हइयाह आर.	कर्नाएसवीसी / 5420	अंजनाद्री नीलया, जीबीएन रोड, कोडीगेनाहल्ली एटी डाक, मधुगिरि, तालुक- तुमकूर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएएडएफएसयू/ 2015	14.04.1992
1012	सूरज कुमार, पुत्र श्री वासुदेवा बी.	कर्नाएसवीसी / 5421	2-110, विनम्र नीलया, नवग्रह कॉलोनी, वीजेसी कोटा के पीछे, कोटाटट्टू- कोटा ग्राम, 576224, उडुपी, तालुक उडुपी, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएएडएफएसयू/ 2015	02.09.1992
1013	निखिल के.सी., पुत्र श्री चन्ना बासप्पा के.एम.	कर्नाएसवीसी / 5422	मंदिर रोड, कानीसिना कट्टे, सिदलीपुरा डाक, 577301, भद्रावथी, तालुक-शिमोगा, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएएडएफएसयू/ 2015	20.10.1992
1014	शरथ वी.सागर, पुत्र श्री वीरु पाक्षप्पा एन.सी.	कर्नाएसवीसी / 5423	डीडब्ल्यूसी 238/बी, सेंट चार्ल्स स्कूल के सामने, हुथा कॉलोनी, भद्रावथी 577301, ता.-शिमोगा,जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएएडएफएसयू/ 2015	08.07.1992
1015	ग्रीष्मा राव यू.बी., पुत्री श्री नाग राजा राव यू.बी.	कर्नाएसवीसी / 5424	7/ 139, दमासकट्टे, किन्नीगोली, मैंगलोर 574141, तालुक-दक्षिण कन्नडा, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएएडएफएसयू/ 2015	17.09.1992
1016	पुष्पा जी. मलगिट्टीमठ, पुत्री श्री गूलया मलगिट्टीमठ	कर्नाएसवीसी / 5425	68, पुष्पा नीलया, एच.टी. कुलकर्णी, टीचर्स कॉलोनी, राजीव गांधी नगर, गडग, 582101, तालुक- गडग, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएएडएफएसयू/ 2015	03.10.1992
1017	मुट्टुराज यादव ई., पुत्र श्री इरागरियन्ना के.सी.	कर्नाएसवीसी / 5426	3/ 1137, आशीर्वाद नीलया, बाथी शिनागप्पा कम्पाउंड, पेट्रोल बंक के पीछे, हरिहर, 577601, तालुक-दावणगेरे, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएएडएफएसयू/ 2015	26.06.1992
1018	सचिन के., पुत्र श्री श्रीनिवास के.एच.	कर्नाएसवीसी / 5427	2515, होनालप्पा स्ट्रीट, टी.बी. रोड, हलेपेटे, कडूर 577548, तालुक चिकमगलूर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएएडएफएसयू/ 2015	08.10.1992
1019	संथोष आर. मलागुंड, पुत्र श्री रामन्ना मलागुंड	कर्नाएसवीसी / 5428	78, कल्लापुर एटी डाक 581102, हंगल, तालुक- हावेरी, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएएडएफएसयू/ 2015	05.05.1992

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1020	नीवन कुमार बी.एस., पुत्र श्री शिवप्पा बी.	कर्नाएसवीसी / 5429	67, मारीकम्बा रोड, इसूर 577214, शिकारीपुरा, तालुक -शिमोगा, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	15.02.1992
1021	दीपक टी., पुत्र श्री थिरुपेरुद्रप्पा एस.	कर्नाएसवीसी / 5430	श्री श्रीनिवास नीलया, दूसरा स्टेज, गोकुल एक्सटेंशन, बड्डीहल्ली 572104, तुमकुर, ता.-तुमकुर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	20.05.1993
1022	पुनीथ के.वी., पुत्र श्री वेंकटेश आर.	कर्नाएसवीसी / 5431	172, सुभाष नगर, के.एम. रोड, फॉरेस्ट ऑफिस के सामने, कडूर 577548, ता.-चिकमगलूर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू बिदर/ 2015	21.02.1992
1023	मौहम्मद ज़ियाउल्ला, पुत्र श्री मौहम्मद सैफुल्लाह	कर्नाएसवीसी / 5432	पीसी 12/2, केपीसी कॉलोनी, मारथीकोटे, होसना गारा ता.,577448,होसनागारा, ता.-शिमोगा,जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू बिदर/ 2015	05.05.1991
1024	मधुसूदन एस.वी., पुत्र श्री वृशबेद्रप्पा	कर्नाएसवीसी / 5433	एलआईजी-62, हाउसिंग बोर्ड, पेरियापटना 571107, पेरियापटना, तालुक मैसूर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू बिदर/ 2015	24.06.1992
1025	सुरेश नाइक एम. पुत्र श्री मनिया नाइक एम.	कर्नाएसवीसी / 5434	29, सेवालाल मंदिर के पास, लक्ष्मीपुरा, सत्तूर डाक, 577 002, हरप्पनहल्ली, तालुक- दावणगेरे, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू बिदर/ 2015	04.06.1992
1026	बासवनगौडा आर.के., पुत्र श्री रमनगौडा यू कडलीगौडरु	कर्नाएसवीसी / 5435	बेन्नेगेरी, भरांगी डाक, 577413, सोराब, तालुक शिमोगा, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू बिदर/ 2015	01.08.1992
1027	सुशांत टी.आर., पुत्र श्री रामा स्वामी टी.वाई	कर्नाएसवीसी / 5436	261, थगाचगेरे ग्राम एसं डाक, थगाचगेरे, चन्नापटना, तालुक-रामनगर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू बिदर/ 2015	05.12.1992
1028	शभारिशा बी., पुत्र श्री बासवराजू एम.	कर्नाएसवीसी / 5437	1769, सरस्वथीपुरम, हुंसूर 571105, तालुक- मैसूर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू बिदर/ 2015	09.01.1992
1029	मुजम्मिल पीरजादा एस., पुत्र श्री सैयद महबूब कादरी	कर्नाएसवीसी / 5438	बडी कमान रोड, रिपब्लिक स्कूल के निकट, असार गली, वार्ड न.24, विजयपुरा 586101, तालुक-विजयपुरा, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू बिदर/ 2015	11.04.1992
1030	किरन सी.आर., पुत्र श्री रंगनाथ सी.आर.	कर्नाएसवीसी / 5439	चिक्कागौजा ग्राम, हीरेगौजा डाक 577168, चिकमगलूर, तालुक-चिकमगलूर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू बिदर/ 2015	15.12.1992
1031	प्रकाश सोलोनी, पुत्र श्री श्रीकांत	कर्नाएसवीसी / 5440	307, म.न. 207-547, सैदापुर, 587312, मुधोल, तालुक-बगलकोट, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू बिदर/ 2015	18.05.1991
1032	महेश एस. हुगर, पुत्र श्री संगप्पा ए. हुगर	कर्नाएसवीसी / 5441	181, मारुथि मंदिर के पास, नागुर, इवानागी डाक, 586 203, बासवानन, बागेवाडी, ता.-बीजुपुर,जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू बिदर/ 2015	12.07.1992
1033	विद्या एम.के., पुत्री श्री कुशा एम.एल.	कर्नाएसवीसी / 5442	121, मल्लेनाहल्ली, कसाबा होबली, 573201, मलेनाहल्ली चन्नापटना, तालुक-हसन, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू बिदर/ 2015	23.08.1992
1034	दर्शन सी.एम., पुत्र श्री नानजुडे गौडा	कर्नाएसवीसी / 5443	44, सिरी नीलया 13वां वार्ड, 5वां क्रॉस, ललिथम्मा वटारा, सरस्वथीपुरम, हसन 573201, ता.-हसन, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू बिदर/ 2015	18.04.1993
1035	लोहित एम.बी., पुत्र श्री बासवराजू	कर्नाएसवीसी / 5444	02, मट्टीहल्ली डाक- 572201, तिपतुर, तालुक- तुमकुर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	20.06.1992
1036	यशस आर. कुमार, पुत्र श्री रवीन्द्र कुमार	कर्नाएसवीसी / 5445	75, दूसरा मेन, मुनिरामन्ना ब्लॉक, गंगानगर, 560032, बंगलौर, तालुक-बेंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/ 2015	20.04.1992
1037	अभिजीथ एम.एस., पुत्र श्री सदाशिव	कर्नाएसवीसी / 5446	एमआईजी 2,वानासिरि, फेज -1, प्रथम क्रॉस, केएसबी कॉलोनी, ज्योथिनगर, चिकमगलूर 577102,तालुक- चिकमगलूर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू बिदर/ 2015	27.05.1992
1038	अमर एन., पु ए नान्जुंडा स्वामी एस.	कर्नाएसवीसी / 5447	28/ए, 9वां क्रॉस, चौथा मेन, स्टेज-2, अल्लनाहल्ली लेआउट, मैसूर 570028, ता.-मैसूर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू बिदर/ 2015	25.12.1992

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1039	करुनाकारा, पुत्र श्री निन्नेगौडा के.एच.	कर्नाएसवीसी / 5448	223, केरेकोडिहल्ली, जवगल डाक, केरेकोडिहल्ली- 573 125, अरासीकेरे, ता. -हसन, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू बिदर / 2015	03.09.1992
1040	मंजुनाथ जी.एस., पुत्र श्री स्वामी जी.एस.	कर्नाएसवीसी / 5449	श्री मंजुनाथ स्वामी नीलया, बीएसएनएल एक्सचेंज ऑफिस के सामने, गोरुर 573120, तालुक-हसन, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू बिदर / 2015	02.07.1992
1041	ज्योथि एस.बी., पुत्री श्री भगवान शंकर एस.जी.	कर्नाएसवीसी / 5450	श्रीनिवास नीलया, बी.काटी हल्ली कोप्पालु, गकनाहल्ली डाक, बी.काटी हल्ली कोप्प- 573201, हसन, ता.-हसन, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू बिदर / 2015	09.07.1992
1042	किरन एम., पुत्र श्री मारीस्वामी बी.	कर्नाएसवीसी / 5451	10वां क्रॉस, केईबी कॉलोनी, चामुंडेश्वरी नगर, मांड्या 571401, मांड्या, तालुक-मांड्या, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू बिदर / 2015	12.12.1992
1043	नम्रथा के.बी., पुत्री श्री बासवराजु बी.	कर्नाएसवीसी / 5452	226, गराडीमाने स्ट्रीट, फोर्ट एरिया, कनकपुरा तालुक- 562117, कनकपुरा, तालुक -रामनगर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू बिदर / 2015	07.06.1992
1044	श्रुथि बी.आर., पुत्री श्री रामचंद्र एन.	कर्नाएसवीसी / 5453	79, वांगीमल्लू ग्राम, डाक कडाडनामारी, 563125, चितामनि, ता.-चिकबल्लापुर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू बिदर / 2015	15.06.1992
1045	सतीश ए.सी., पुत्र श्री चंद्रशेखर ए.	कर्नाएसवीसी / 5454	15वां वार्ड, न्यू अमरावथी, होसपेट, तालुक-बेल्लारी, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू बिदर / 2015	21.02.1993
1046	अभिलाष पी. बालेर, पुत्र श्री प्रकाश बी.	कर्नाएसवीसी / 5455	77 / 1, मारीगडागो स्ट्रीट, हिट्टाला ग्राम, शिमोगा- 577214, शिकारीपुरा, तालुक -शिमोगा, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू बिदर / 2015	29.07.1992
1047	हर्षिथा बी., पुत्री श्री बोरेगौडा	कर्नाएसवीसी / 5456	50, कृष्ण मंदिर के निकट, कल्लीहुसूर, माइलानायकन हल्ली डाक, 562160, चन्नापाटना, ता.-रामनगरा, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 2015	09.11.1992
1048	रंजन एम., पुत्र श्री महादेव स्वामी एस.	कर्नाएसवीसी / 5457	293, अलानाहल्ली, सिद्धार्थ नगर डाक, कसबा होबली, मैसूर 570028, मैसूर, ता. -मैसूर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 2015	22.01.1993
1049	नवीन कुमार बी.एम., पुत्र श्री मंजुनाथ बी.जी.	कर्नाएसवीसी / 5458	द्वारलू, लक्ष्मी सागर डाक, सिरा तालुक, 572137, सिरा, तालुक-तुमकुर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 2015	01.04.1993
1050	तजुन्निसा एम., पुत्री श्री मुशताक अहमद	कर्नाएसवीसी / 5459	मासूमा मंजिल, 86, तीसरा क्रॉस, स्टेज-2, आरएमएल नगर, शिमोगा 577204, तालुक शिमोगा, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 2015	29.08.1992
1051	अनुषा कुरडेकर, पुत्री श्री प्रकाश के. कुरडेकर	कर्नाएसवीसी / 5460	एमआईजी 15, प्रथम मेन, फेज -3, प्रेस कॉलोनी, गोपाल, शिमोगा 577205, तालुक- शिमोगा, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 2015	18.03.1992
1052	त्रिवेनी एम.ए., पुत्री श्री अरकेशा	कर्नाएसवीसी / 5461	168, मुदुगेरे ग्राम व डाक, मुदुगेरे-562160, चन्नापाटना, तालुक-रामनगर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 2015	13.02.1993
1053	प्रदीप आर.के., पुत्र श्री करियप्पा आर.	कर्नाएसवीसी / 5462	गोडी रंगपुरा, शिवानी आर.एस. डाक, गोडी रंगपुरा- 577549, तारीकेरे, तालुक-चिकमगलूर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 2015	23.05.1991
1054	शरथ के.पी., पुत्र श्री पापेगौडा के.एम.	कर्नाएसवीसी / 5463	1821, दूसरा क्रॉस, आदलीमाने रोड, हसन- 573201, तालुक-हसन, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 2015	09.02.1993
1055	किरन ए.वी. पुत्र श्री वेनुगोपाल सी.आर.	कर्नाएसवीसी / 5464	511, मल्लेश्वर नगर, अरासीकेरे 573103, अरासीकेरे, तालुक-हसन, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 2015	27.03.1993
1056	नवीन कुमार आर.एच., पुत्र श्री रामप्पा हिरेकेरुर	कर्नाएसवीसी / 5465	यत्तिनाहल्ली, एम.के. 581109, हिरेकेरुर, तालुक- हावेरी, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 2015	15.07.1993
1057	चंद्रशेखर जी.एस., पुत्र श्री सूर्यनारायण ए.वी.	कर्नाएसवीसी / 5466	गुज्जनहल्ली, मुदियानूर डाक, गुज्जनहल्ली- 563101, मुलाबगल, तालुक कोलार, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 2015	08.08.1992

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1058	अंजलि बी.एन., पुत्री श्री नन्जुंदइयाह बी.जी.	कर्नाएसवीसी / 5467	472, कुडा लेआउट, दूसरा ब्लॉक, पहला क्रॉस, तमाका, कोलार, 563101, तालुक कोलार, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/2015	13.01.1993
1059	मिथुनराज पी.एन., पुत्र श्री नागराजू पी.एल.	कर्नाएसवीसी / 5468	114, कालुवे रोड, पंचेगौडाना डोड्डी, केरेगोडू डाक, पाचेगौडाना-571446, मांड्या, ता.-मांड्या, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/2015	13.09.1992
1060	रविकिरन बी.आर., पुत्र श्री राजइयाह बी.एम.	कर्नाएसवीसी / 5469	बाइरापुरा, मिधाला डाक, 572104, तुमकुर, तालुक- तुमकुर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/2015	01.11.1992
1061	अनिकेथना, पुत्र श्री रमेश एस.	कर्नाएसवीसी / 5470	54, 14वां क्रॉस, उल्लाल मेन रोड, ज्ञान भारती, मुनेश्वर नगर, बंगलौर 560056, हरप्पनहल्ली, तालुक- दावणगेरे, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/2015	20.05.1993
1062	डोड्डा बासवना गौडा उट्टांगी, पुत्र श्री कोटरा गौडा उट्टन	कर्नाएसवीसी / 5471	चिगातेरे डाक, 583127, हरप्पनहल्ली, तालुक- दावणगेरे, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/2015	01.07.1992
1063	लोकेश एन., पुत्र श्रीनारायणप्पा एम.	कर्नाएसवीसी / 5472	29, 8वां क्रॉस, बाचप्पा लेआउट, बासवनापुरा मेनरोड, के.आर.पुरम बेन, बैंगलुरु, तालुक अर्बन, जिला कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/2015	23.07.2015
1064	दिनेश एम.बी., पुत्र श्री बासवन गौडा एम.एस.	कर्नाएसवीसी / 5473	अराबागट्टे, होन्नाली तालुक, 577217, दावणगेरे, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/2015	20.05.1993
1065	यशस्वी बी. काशीपुर, पुत्र श्री बासवराज एस.	कर्नाएसवीसी / 5474	106, काशीपुरा ग्राम, काशीपुरा -577218, चन्नागिरि, तालुक दावणगेरे, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/2015	24.03.1992
1066	विद्यासागर, पुत्र श्री नरसप्पा चटनालिकर	कर्नाएसवीसी / 5475	1159, नागोरा, बिदर, तालुक- बिदर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/2015	03.08.1992
1067	रेशमा खानम डब्ल्यू, पुत्री श्री वहीद खान	कर्नाएसवीसी / 5476	150/4, फाथिमा मस्जिद रोड, थानीसांद्रा मेन रोड, सरायपालया, बैंगलुरु 560077, तालुक-बैंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/2015	30.10.1991
1068	निकिथ एम.एस., पुत्र श्री शेखरा पी.	कर्नाएसवीसी / 5477	होसामलंगी, कोलेगल ता., होसामलंगी-571442, तालुक - चामराजनगर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/2015	25.04.1993
1069	महालिंगेश्वर एच., पुत्र श्री शिवमूर्ति एल.	कर्नाएसवीसी / 5478	92/7, पीडी कोटे, धर्मापुरा, 577546, हिरियूर, तालुक- चित्रदुर्गा, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/2015	04.07.1991
1070	सुप्रीथ सूर्या, पुत्र श्री सुरेश	कर्नाएसवीसी / 5479	कुवेम्पु नगर, प्रथम स्टेज, बल्लूर डाक, बेलूर तालुक, 57315, बेलूर, तालुक हसन, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/2015	13.03.1992
1071	सागर पाटिल, पुत्र श्री संगप्पा पाटिल	कर्नाएसवीसी / 5480	2/31, रेकुलमी 585227, बिदर, तालुक बिदर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/2015	13.02.1991
1072	मनीषा एच.एस., पुत्री श्री सिदइयाह एस.	कर्नाएसवीसी / 5481	एसपी 163, गांधी नगर, 10वां क्रॉस, मांड्या जिला, 571401, मांड्या, तालुक मांड्या, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/2015	29.08.1992
1073	पवना बी.एस., पुत्र श्री सान्नेगौडा	कर्नाएसवीसी / 5482	बेलावडी ग्राम एवं डाक, बेलावडी-573113, अराकलागुडा, तालुक-हसन, जिला- कर्नाटक- 573113	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/2015	15.03.1992
1074	हरीषा के.एम., पुत्र श्री महादीवप्पा के.एम.	कर्नाएसवीसी / 5483	22, कडलामग्गे, के. किट्टनकेरे डाक, 573117, अराकलागुडा, तालुक- हसन, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/2015	04.03.1993
1075	सागर लोचन बी., पुत्र श्री बाला लोचन जी.बी.	कर्नाएसवीसी / 5484	शकुनि रंगनाथ नीलया, सलागमे रोड, नॉर्थन एक्स., हसन 573201, हसन, तालुक हसन, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/2015	22.02.1993
1076	गंगाधर पी., पुत्र श्री नागन्ना गौडा पी.	कर्नाएसवीसी / 5485	पीएफए-मैसूर, 280, बोगाडी ग्राम, मैसूर-570026, तालुक मैसूर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससी/यूएसएस बंगलौर / 1981	25.04.1959

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1077	रश्मि के.आर., पुत्री श्री रुद्रप्पा के.	कर्नाएसवीसी / 5486	20 / 2, सामने डॉ.अम्बेडकर हाई स्कूल, सीएम लेआउट, हिरियूर 577598, तालुक चित्रदुर्गा, जिला कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू बिदर / 2015	21.05.1993
1078	हरीशकुमार एस., पुत्र श्री श्रीनिवासप्पा आर.	कर्नाएसवीसी / 5487	102, मंचीगनाहल्ली, मुलबगल डाक एवं तालुक, 563131, मुलबगल, तालुक-कोलार, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू बिदर / 2015	15.11.1993
1079	हेमंथ आर., पुत्र श्री राज शेखरप्पा एस.	कर्नाएसवीसी / 5488	87, श्री वीरभद्रेश्वर नीलया, मेन रोड, किट्टूर चैनम्मा ब्लॉक, न्यू टाउन, भद्रावथी 577301, ता.-शिमोगा, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएस बंगलौर / 1999	25.11.1975
1080	चंद्रपाल सिंह के., पुत्र श्री केसर सिंह बी.	कर्नाएसवीसी / 5489	203, गॉड क्रैस्ट अपार्टमेंट, 5 / 2-2, आई-डी मेन, हेब्ल, बंगलौर, ता.-बेंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएस बंगलौर / 1976	08.08.1955
1081	जगदीश बी. हिरेमथ, पुत्र श्री बासइया हिरेमथ	कर्नाएसवीसी / 5490	शिवा नीलया, कॉलेज रोड, विद्या नगर, हुंगुंड 587118, तालुक बगलकोट, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / यूएस धारवाड़ / 2003	28.08.1980
1082	शिवारामु कीलरा वीरप्पा, पुत्र श्री वीरप्पा	कर्नाएसवीसी / 5491	कीलारा, मांड्या तालुक, मांड्या, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएडएफएसयू / 2005	
1083	सुनील यादव जी.पी., पुत्र श्री गुरु लिंगप्पा जी.पी.	कर्नाएसवीसी / 5492	19, गुंडुमुंगू 583126, कुडलिगी, तालुक बेल्लारी, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएडएफएसयू / 2015	14.05.1993
1084	रक्षिथ टी.एम., पुत्र श्री माइलारप्पा	कर्नाएसवीसी / 5493	गिरिजम्मा, द्वारा बासवराजू, चौदेश्वरी कॉलोनी, एम.जी. रोड के निकट, तारीकेरे 577228, तालुक-चिकमगलूर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएडएफएसयू / 2011	27.02.1989
1085	मल्लिकार्जुन एम.एस., पुत्र श्री सूर्यनारायण शेटी एम.एल.	कर्नाएसवीसी / 5494	3291, आर्शीवाद, 12वां मेन, चौथा क्रॉस, एमसीसी, बी- ब्लॉक, दावणगेरे 577004, ता.: दावणगेरे, जिला-कर्नाटक	बीवीएससी / यूएस बंगलौर / 1995	22.06.1971
1086	प्रभुदेव डी.के., पुत्र श्री कोटराशप्पा डी.एम.	कर्नाएसवीसी / 5495	115 / 4, नेत्रावती नीलया, तावराघट्टा मेन रोड, शंकरा घट्टा 577451, भद्रावथी तालुक, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू बिदर / 2015	17.10.1992
1087	विश्वास ए., पुत्र श्री अनंथ पद्मनाभइयाह के.	कर्नाएसवीसी / 5497	2 / 165, ब्राहिमन स्ट्रीट, चिक्केरे, अनेकल 562106, अनेकल तालुक, बेंगलुरु रुरल, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू बिदर / 2015	16.07.1993
1088	सदानंद खाडेकर, पुत्र श्री भरमप्पा	कर्नाएसवीसी / 5498	सिद्धापुर फेक्ट्री क्वार्टर्स, जामखंडी 587301, जामखंडी, तालुक-बगलकोट, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू बिदर / 2015	12.01.1990
1089	मौह. मुदस्सर चंदा, पुत्र श्री हफीज़ चंदा	कर्नाएसवीसी / 5499	6-2-176 / 12, मनियार तालीम, बिदर-585401, बिदर, तालुक-बिदर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / यूएस धारवाड़ / 2003	12.06.1979
1090	वाराहक्ष्मी ए., पत्नी डॉ. नंजेश बी.एस.	कर्नाएसवीसी / 5500	03, वार्ड न.10, सीईएससीओ एम के पीछे, उदयगिरि एक्स., चन्नारायापेट 573116, ता.- हसन, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू बिदर / 2012	25.11.1988
1091	अरासागोंड मल्लिकार्जुन धारेप्पा, पुत्र श्री अरासागोंड धारे	कर्नाएसवीसी / 5501	द्वारा आईएस कोल्हूर, सेक्टर न.-12, प्लॉट न. 38 सी, गवर्न.अस्पताल के पीछे, नवा नगर, बगलकोट 587102, ता.-बगलकोट, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू नागपुर / 2013	01.06.1989
1092	थेजस्वी जे.एन., पुत्र श्री नांजुडप्पा जे.एच.	कर्नाएसवीसी / 5502	1271, 7वां क्रॉस, चौथा मेन, चंद्रा लेआउट, बंगलौर 560 040, बंगलौर, तालुक- बेंगलुरु, जिला-कर्नाटक	बीवीएससी / यूएस बंगलौर / 1994	04.04.1971
1093	जयदेवप्पा जी.के., पुत्र श्री कालप्पा जी.एस.	कर्नाएसवीसी / 5503	सब्जेक्ट मेटर स्पेशलिस्ट, एससी, आईसीएआर- तरलाबालू, केवीके, एलआईसी कॉलोनी, दावणगेरे 577004, बंगलौर, तालुक-बेंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएस बंगलौर / 1988	21.01.1966
1094	प्रकाश एस., पुत्र श्री संजीवप्पा	कर्नाएसवीसी / 5504	वन अधिकारी, विद्यानगर, संगम थिएटर के पास, तवारागेरा-583279, कुस्तगी, ता.-कोपल, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएडएफएसयू / 2015	30.05.1992

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1095	उमेश एच., पुत्र श्री हिरियप्पा	कर्नाएसवीसी / 5505	ऊरकुंटे ग्राम, मिट्टूर डाक, ऊरकुंटे ग्राम-563127, मुलबगल, तालुक-कोलार, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/2015	18.06.1992
1096	प्रकाश एच.एम., पुत्र श्री चन्ना वीरइयाह एच.एम.	कर्नाएसवीसी / 5506	प्रशांथ नीलया, कोट्टुरु रोड, पीएलडी बैंक, हरापनहल्ली, 583131, तालुक-दावणगेरे, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/2015	22.01.1984
1097	चामराजू, पुत्र श्री सम्बइयाह	कर्नाएसवीसी / 5507	कर्नाटक सरकार,अनागट्टी., के.जी.एच., एच.डी. कोटे, ता.- मैसूर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/यूएसएसबंगलौर/2005	01.06.1980
1098	निर्णय मूर्थि एन., पुत्र श्री नरसिम्हा मूर्थि एम.	कर्नाएसवीसी / 5508	253, 14वां क्रॉस, ए-सेक्टर, येलाहका न्यू टाउन, बंगलौर, 560064, तालुक बेंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/2015	28.08.1990
1099	राल्फ फ्रांसिस एस.पिटो, पुत्र श्री नोरबेरी एफ.पिटो	कर्नाएसवीसी / 5509	13, लैंगफोर्ड कोर्ट, 9, लैंग फोर्ड गार्डन्स, रिचमंड टाउन, बंगलौर 560025, ता.-बेंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससी/यूएसएस बंगलौर / 1982	10.10.1956
1100	सुरेश रेड्डी ए.वी., पुत्र श्री वेंकटरमन रेड्डी सी. टी.के.	कर्नाएसवीसी / 5510	अनेपल्ली ग्राम, बालतुमरी डाक, 563134, श्रीनिवासपुरा, तालुक-कोलार, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू बिदर / 2015	09.03.1990
1101	गिरीश वी.आर., पुत्र श्री वेंकटरामु आर.वी.	कर्नाएसवीसी / 5511	ए 312, सुरक्षा गोल्डन पाम्स, नयनाप्पना हल्ली, अराकरे, बानेरघट्टा रोड के पास, अराकरे-560076, तालुक- बेंगलुरु अर्बन जिला,कर्नाटक	बीवीएससी/यूएसएसबंगलौर / 1987	29.06.1964
1102	अनुराधा मेनन ई., पत्नी श्री भगध सुधीर	कर्नाएसवीसी / 5512	जूल, श्रीराम स्पोर्ट्स अपार्ट., आईटीपीएल मेन रोड,कुडला हल्ली,बंगलौर 560037,ता.-बेंगलुरु अर्बन जिला,कर्नाटक	बीवीएससी/ केरल कृ विवि / 2004	18.11.1979
1103	पुतन्ना एम., पुत्र श्री मुनिवेंकटप्पा	कर्नाएसवीसी / 5513	125, विद्या विनायक नीलया, चौथा मेन, 7वां क्रॉस, गोविंद राज नगर, बेंगलुरु 560040	बीवीएससी/यूएसएस बंगलौर / 1995	22.09.1964
1104	भैरप्पा अनकली, पुत्र श्री सूर्यकांत अनकली	कर्नाएसवीसी / 5514	2738, अनकली रोड, संकेश्वर 591313, हुक्केरी, तालुक-बेलगाम, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू/2012	28.05.1988
1105	रामकृष्णइयाह पी., पुत्र श्री पापन्ना	कर्नाएसवीसी / 5515	324, प्रथम क्रॉस,तीसरा मेन, छठा ब्लॉक, फेज़-2, बान शंकरी, स्टेज-3, बंगलौर 560085, तालुक-बेंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससी/यूएसएस बंगलौर / 1966	16.05.1942
1106	रोहित एस. हेगडे, पुत्र श्री सदानंद एन. हेगडे	कर्नाएसवीसी / 5516	सी-133, गुरुकृपा बिल्डिंग, 14वां ब्लॉक, टाउनशिप, पाटिल अस्पताल के पीछे, डांडेली 581325, हलियल, ता.-करवर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू बिदर / 2011	13.11.1988
1107	शमीका कृष्णा राव, पुत्र श्री कृष्णा शर्मा राव	कर्नाएसवीसी / 5517	8, नंदनम, रॉयल हैबिटैट हाउ. कॉलोनी, एचएसआर लेआउट, सेक्टर-2, बेंगलुरु 560102, तालुक बेंगलुरु अर्बन जिला कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/पॉ. डीचेरी विवि/2015	24.09.1992
1108	मल्लिकार्जुन, पुत्र श्री शिवाजी	कर्नाएसवीसी / 5518	10 / 125, राम मंदिर के पास, गोआ होटल, ब्रह्मापुर, 585 103, गुलबर्गा, तालुक-गुलबर्गा, जिला- कर्नाटक	बीवीएससी/यूएसएस बंगलौर / 1993	25.05.1963
1109	यासीन साहेब, पुत्र श्री रहीमन साहेब जेंदी	कर्नाएसवीसी / 5519	पूजन ओनी, नवलगुंड, 582208, नवलगुंड, तालुक- धारवाड़, जिला-कर्नाटक	बीवीएससी/यूएसएस धारवाड़ / 1993	13.07.1969
1110	लारिनमावई हमार, पुत्र श्री जोहमिंग थांगा	कर्नाएसवीसी / 5520	ए-57,आर्म्स वेंग रोड, सारोन वेंग, आइज़वाल, 796001, तालुक आइज़वाल, मणिपुर	बीवीएससीएंडएच/केंद्रीय कृ विवि, मणिपुर / 2012	10.04.1989
1111	यशोधा डी.सी., पुत्री श्री चिदानंदइयाह डी.एन.	कर्नाएसवीसी / 5521	द्वारा: विजय कुमार, डीलक्स रोड लाइन्स, दूसरा मेन रोड, न्यू मंडीपेट,तुमकुर-572101, ता.-तुमकुर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएण्डएफएसयू बिदर / 2009	14.09.1984
1112	पाटिल सुप्रिया, पुत्री श्री नरसिंगराव	कर्नाएसवीसी / 5524	146, चम्बोल, बिदर तालुक, चम्बोल, 585401, तालुक- बिदर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/एमएएफ एसयू नागपुर / 2012	08.12.1990

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1113	मल्लासेटप्पा, पुत्र श्री साहूकार	कर्नाएसवीसी / 5525	608, टीवी सेंटर, बेलगाम, तालुक-बेलगाम, जिला- कर्नाटक	बीवीएससी / यूएस बंगलौर / 1970	25.10.1944
1114	रघु नाइक, पुत्र श्री कृष्णा नाइक	कर्नाएसवीसी / 5526	बीडुगोंडाना हल्ली, डोड्डा टांडा, 577213, बीडुगोंडाना, एच-577213, चन्नागिरि, ता.-दावणगेरे, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएण्डएफएसयू / 2012	20.02.1990
1115	मंजुनाथ जी.एल., पुत्र श्री लोकेश जी.	कर्नाएसवीसी / 5527	06, बेलागेरे, 577231, चन्नागिरि, तालुक-दावणगेरे, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / यूएस बंगलौर / 2003	15.07.1980
1116	रमेश पी.बी., पुत्र श्री बोपड्याह पी.पी.	कर्नाएसवीसी / 5528	वाईडीवाईए, 605, तीसरा क्रॉस, छटा मेन, एचआरबीआर लेआउट, कल्याणनगर, बेंगलुरु 560043, ता.-बेंगलुरु अर्बन जिला, जिला-कर्नाटक	बीवीएससी / यूएस बंगलौर / 1989	18.09.1966
1117	श्रीकांत बी.वी., पुत्र श्री वीरन्ना के.आर.	कर्नाएसवीसी / 5529	38 / 27, प्रथम क्रॉस, 5वां ब्लॉक, फेज-3, बाणशंकरी, स्टेज-3, बेंगलुरु 560085, तालुक बेंगलुरु अर्बन जिला, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएस बंगलौर / 1993	22.08.1969
1118	मौहम्मद आरिफ, पुत्र श्री अबुल जब्बार	कर्नाएसवीसी / 5530	पगथम मेन रोड, खलाण्डिया नगर, भद्रवथी, 577301, तालुक- शिमोगा, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएण्डएफएसयू बिदर / 2012	19.04.1988
1119	पापेगौडा, पुत्र श्री चिक्का मकलप्पा	कर्नाएसवीसी / 5531	2429 / 173, 5वां क्रॉस, 31वां वार्ड, वापसांद्रा, चिक्कबल्लापुर 562101, चिक्कबल्लापुर तालुक- चिक्कबल्लापुर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससी / यूएस बंगलौर / 1991	12.05.1964
1120	सम्पथ कुमार, पुत्र श्री वेंकटप्पा	कर्नाएसवीसी / 5532	3 / 58-2, आरके पिंकी कम्पाउंड, अदयार डाक, 575 007, मैंगलोर, ता.- दक्षिण कन्नडा, जिला- कर्नाटक	बीवीएससी / यूएस बंगलौर / 1989	16.08.1958
1121	राजाशेखर राव, पुत्र श्री गनपति राव	कर्नाएसवीसी / 5533	808, उपासना, दूसरा क्रॉस, उपकार रेजीडेंसी लेआउट, बंगलौर, तालुक बंगलौर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससी / यूएस बंगलौर / 1993	29.04.1969
1122	कलगी सुधाकर, पुत्र श्री बंदेप्पा कलगी	कर्नाएसवीसी / 5534	7633 / 5, सर्वोदय कॉलोनी, शिवपुर क्रॉस, तिरुपुरंत, बासवकल्याण, 585327, ता.-बिदर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएण्डएफएसयू / 2015	04.08.1987
1123	मल्लिकार्जुन हुंडेकर, पुत्र श्री शिवरुद्र हुंडेकर	कर्नाएसवीसी / 5535	एटी डाक मोले, 591322, अठानी, तालुक-बेलगाम, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / यूएस धारवाड़ / 1993	27.01.1969
1124	गौथम बी., पुत्र श्री बायारेड्डी बी.	कर्नाएसवीसी / 5536	भवथारा हल्ली, उलप्पनहल्ली डाक, 563125, चिंतामनि, तालुक-चिक्कबल्लापुरा, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएण्डएफएसयू / 2015	07.11.1992
1125	सथीशा ए., पुत्र श्री अप्पाजी	कर्नाएसवीसी / 5537	अन्नुरु, भारथीनगर डाक, अन्नुरु- 571422, तालुक- मांड्या, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / यूएस बंगलौर / 2004	02.06.1981
1126	सिदप्पा, पुत्र श्री पीरप्पा चवन	कर्नाएसवीसी / 5538	362, गेडागरी टांडा, 583236, येलाबर्गा, तालुक- कोप्पल, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएण्डएफएसयू बिदर / 2015	01.07.1991
1127	मनु एच.टी., पुत्र श्री थिम्मइयाह एच.टी.	कर्नाएसवीसी / 5539	28, प्राइमरी स्कूल रोड, तालुक पंचायत क्वार्टर्स, मुदीगेरे, 577132, मुदीगेरे, तालुक-चिकमगलूर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएण्डएफएसयू बिदर / 2012	15.03.1990
1128	शशिकांत एस. बुदीनल, पुत्र श्री सोमप्पा बुदीनल	कर्नाएसवीसी / 5540	रत्न नीलया, 11वां क्रॉस, सी.वी. रमन रोड, देवराज मेन रेड, सरस्वथीपुरम, तुमकुर, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएस धारवाड़ / 1993	05.04.1967
1129	रंगप्पा एच., पुत्र श्री हनुमन्थप्पा	कर्नाएसवीसी / 5541	दुर्गावरा, ओबालापुरा डाक, दुर्गावरम, चल्लाकेरे, तालुक -चित्रदुर्गा, जिला-कर्नाटक	बीवीएससी / यूएस बंगलौर / 1993	13.03.1966
1130	संजीव चन्नाल, पुत्र श्री पांडप्पा चन्नाल	कर्नाएसवीसी / 5542	अरालीमट्टी रोड, धावतेश्वर, गोकक तालुक, बेलगाम, जिला-कर्नाटक	बीवीएससी / यूएस धारवाड़ / 1992	30.03.1968
1131	रवि नाइक, पुत्र श्री चंद्रा नाइक एल.	कर्नाएसवीसी / 5543	कलकेरे ग्राम व डाक, चौला हिरियूर, कलकेरे- 577180, कडूर, तालुक-चिकमगलूर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएण्डएफएसयू बिदर / 2008	03.06.1982
1132	रामचंद्र वार्ड. होसामनि, पुत्र श्री यालप्पा	कर्नाएसवीसी / 5544	हल्लाड ओनी, खलवाड, नवलागुंड तालुक, खलवाड -582208, तालुक-धारवाड़, जिला- कर्नाटक	बीवीएससी / यूएस धारवाड़ / 1989	21.07.66

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1133	अच्युत बिरादर, पुत्र श्री पांडुरंगा राव	कर्नाएसवीसी / 5545	123, राम मंदिर के निकट, होलसामुद्रा, औरद बी तालुक 585417, औरद बी, तालुक -धारवाड़, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / एमएएफ एसयू नागपुर / 2015	01.01.1993
1134	थोकचोम सांतादेवी	कर्नाएसवीसी / 5546	ई 025, ट्रिफेस्टा एस्पलांडे, कुम्बेना,अग्रहारा रोड, अयप्पा स्वामी मंदिर के पास, बेलथूर काडुगो- 560067, बेंगलुरु, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केंद्रीय कृ विवि / 2003	01.03.1978
1135	कोटरेश एम.आर., पुत्र श्री रुद्रप्पा एम.के.	कर्नाएसवीसी / 5547	श्री कृथनज्ञानम, बालाजी नर्सिंग होम के पीछे, लक्ष्मेश नगर, कडूर, तालुक-चिकमगलूर, जिला-कर्नाटक	बीवीएससी / यूएएस बंगलौर / 1997	04.06.1974
1136	विजय महेश बी. डोनाम्पनावर, पुत्र श्री बासप्पा एफ	कर्नाएसवीसी / 5548	रावातूर डाक, शीराहट्टी तालुक, रावातूर डाक, शीराहट्टी तालुक, तालुक- गडग, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / यूएएस धारवाड़ / 2001	22.07.1978
1137	सुधीर दिवाकर मुतालिक देसाई, पुत्र श्री दिवाकर डी मुतालिक	कर्नाएसवीसी / 5549	337, 10वां क्रॉस, जी-ब्लॉक, राकृष्णा नगर, मैसूर, तालुक -मैसूर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केकेवीपी / 1989	24.03.1966
1138	मीना एस., पुत्री श्री सुब्बारामप्पा एस.जे.	कर्नाएसवीसी / 5550	503 ए, दूसरा ई मेन, तीसरा क्रॉस,मुथयाला नगर, बंगलौर, तालुक-बंगलौर, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएएसबंगलौर / 1994	28.03.1972
1139	सुधाकर शिवा गौडा धर्मट्टी, पुत्र श्री शिवा गौडा	कर्नाएसवीसी / 5551	हारुगेरी, रायबाग तालुक, 591220, रायबाग, बेलगाम, जिला-कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / यूएएस धारवाड़ / 2003	23.08.1980
1140	श्रीनिवास जी., पुत्र श्री गोविंदे गौडा	कर्नाएसवीसी / 5552	थोरेकडानाहल्ली, मलावल्ली तालुक, मांड्या, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / यूएएस बंगलौर / 2004	27.08.. 1980
1141	राजाचेरी के.बी., पुत्र श्री भद्राचारी	कर्नाएसवीसी / 5553	225, तीसरा क्रॉस, गौरी पेट, कोलार, तालुक- कोलार, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएएसबंगलौर / 1994	01.07.1969
1142	मुकुंद राघवेंद्र गजेंद्रगड, पुत्र श्री गजेंद्रगड	कर्नाएसवीसी / 5554	288 / 15, 14वां ए क्रॉस, वयालीकावल, बंगलौर 560 003, ता.-बंगलौर, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएएसबंगलौर / 1974	18.06.1953
1143	प्रकाश कुमार एन.एन., पुत्र श्री रागनायककुलु एन.	कर्नाएसवीसी / 5555	23, सिद्धि विनायक नीलया, प्रथम मेन,दूसरा क्रॉस, चिन्ना स्वामप्पा लेआउट, होरामवु, बेंगलुरु 560043, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएएसबंगलौर / 1992	09.06.1970
1144	रामाकृष्णा वी, पुत्र श्री विस्वेश्वर अइयर के.एस.	कर्नाएसवीसी / 5556	162, नागनहल्ली डाक, येलाहंका होबली, बंगलौर नॉर्थ, बंगलौर, तालुक बंगलौर, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / जेएनके वीवी, जबलपुर / 1969	23.03.1945
1145	राजशेखर पाटिल, पुत्र श्री डॉकना गौडा पाटिल	कर्नाएसवीसी / 5557	202, प्रतिमा अपार्टमेंट्स, बाराकोटरी, शिवगिरि, धारवाड़ 580007, तालुक- धारवाड़, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएएस धारवाड़ / 1992	25.07.1968
1146	कांताराजा चिंदेरा, पुत्र श्री ऑंकारप्पा चिंदेरा	कर्नाएसवीसी / 5558	बालेरु ग्राम,कागीनेल्ली डाक, बेलेरु, शिकारीपुरम, तालुक -शिमोगा, जिला- कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / यूएएसबंगलौर / 2004	22.07.1981
1147	चेरियाकोया एम. / श्री नल्लाकोया मराकनखल	लक्षएसवीसी / 8 / 8 9	मादल हाउस, अमीनी द्वीपसमूह, लक्षद्वीप	बीवीएससी / यूएएसबंगलौर / 83	10.06.57
1148	एचबी वरंगम अनल, पुत्र श्री एचबी एलेक्जेंडर अनल	मणिपुरएसवीसी / 47 7 / 15	खम्माथेल ग्राम, चंडेल जिला- 795127, मणिपुर	बीवीएससीएंडएच / सीएयू / 2013	27.08.1989
1149	लेइशरम किपजेन, पुत्र श्री एन.धनंजोय सिंह	मणिपुरएसवीसी / 47 8 / 15	इरम सिफई मेथी लेइकेई, वांगोल- 795123, मणिपुर	बीवीएससीएंडएच / सीएयू / 2015	03.08.1989
1150	नेंगनीकिम बैते, पुत्री श्री थोथोग बैतेक	मणिपुरएसवी सी / 479 / 15	पुन.तेराखोंग ग्राम, सेनापति जिला- 795010, मणिपुर	बीवीएससीएंडएच / सीएयू / 2015	14.11.1992
1151	फानजौबाम ब्रोजेंद्रो सिंह, पुत्र श्री पबित्रो सिंह	मणिपुरएसवीसी / 48 0 / 15	एण्ड्रोख इम्फाल पूर्व, डाक- येरीपोक- 795149, मणिपुर	बीवीएससीएंडएच / सीएयू / 2015	05.03.1992
1152	पैनरीफी जी.एस., पुत्र श्री पेमटिंग जी.एस.	मणिपुरएसवीसी / 48 1 / 15	लुंधार ग्राम, उखरूल जिला- 795142, मणिपुर	बीवीएससीएंडएच / सीएयू / 2015	10.11.1990
1153	लेइशरम अर्जुन सिंह, पुत्र श्री एल. दिलीप कुमार सिंह	मणिपुरएसवीसी / 48 2 / 15	नम्बोल, अवांग, लेइकेई डाक एवं थाना, नम्बोल- 795134, मणिपुर	बीवीएससीएंडएच / सीएयू / 2015	20.03.1991

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1154	हुइद्रोम लक्ष्मी देवी, पुत्री श्री एच.चाओबा सिंह	मणिपुरएसवीसी/48 3/15	सिंगजामेई माखा, सोरोखेबाम, लेइकेई, इम्फाल वेस्ट 795008, मणिपुर	बीवीएससीएंडएच/सीएयू/2015	03.02.1990
1155	खांगेमबाम रोजेश, पुत्र श्री ख. दाओजी	मणिपुरएसवीसी/48 4/15	पिशुमथोंग निंगोम, लेईरक, इम्फाल वेस्ट-795001, मणिपुर	बीवीएससीएंडएच/सीएयू/2015	15.07.1991
1156	मेरी निंगबियाखो, पुत्री श्री थांगमांग गूटे	मणिपुरएसवीसी/48 5/15	जेनहांग लामका चुराचांदपुर जिला-795128, मणिपुर	बीवीएससीएंडएच/सीएयू/2015	03.03.1991
1157	थोओनाओजाम लीना रॉय, पुत्री श्री नबचंद्र सिंह	मणिपुरएसवीसी/48 6/15	क्वाकेईथेल, मोइरंगनुरेल, लेइकेई, इम्फाल वेस्ट-795001, मणिपुर	बीवीएससीएंडएच/सीएयू/2015	14.02.1991
1158	येंगखोम रोजिता देवी, पुत्री श्री वाई बोरजेन सिंह	मणिपुरएसवीसी/48 7/15	काकचिंग माखा लेइकेई, थोबल जिला-795103, मणिपुर	बीवीएससीएंडएच/सीएयू/2014	13.03.1989
1159	अनुपम चतुर्वेदी/ उमेश कुमार चतुर्वेदी	एमपीएसवीसी/316 3/2015	एमआईजी जे-96, लाला बाबा मंदिर के पास, धनवंतरी नागा, जबलपुर, मध्य प्रदेश-482003	बीवीएससीएंडएच/जेएनके वीवी/2010	12.08.1986
1160	नागेंद्र पाटिल/ श्री राधा किशन पाटिल	एमपीएसवीसी/316 4/2015	145, कृष्णा कुंज कॉलोनी, तिमरानी जिला, हरदा, मध्य प्रदेश-461221	बीवीएससीएंडएच/जेएनके वीवी/2008	11.07.1979
1161	निशांत कुमार/ श्री अशोक प्रसाद	एमपीएसवीसी/316 5/2015	म.न.:25, रुद्र कॉलोनी, सिओनी-मालवा, जिला- होशंगाबाद, मध्य प्रदेश-461223	बीवीएससीएंडएच/जेएनके वी/2003	10.11.1983
1162	उपासना नायक/ श्री यू. डी. चौबे	एमपीएसवीसी/316 6/2015	51, चंद्रिका आश्रम, गोरखपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश-482001	बीवीएससीएंडएच/जेएनके वी/1994	01.07.1969
1163	विपिन पटेल/ श्री कमलापत पटेल	एमपीएसवीसी/316 7/2015	ग्राम-तारीचर कलां, तहसील- निवारी, जिला-टीकमगढ़, मध्य प्रदेश-472445	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	29.06.1987
1164	जय प्रताप सिंह/ श्री दीन बंधु सिंह	एमपीएसवीसी/316 8/2015	ग्राम- पठरौदा, डाक- जावा, जिला-रीवा, मध्य प्रदेश-486223	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	01.07.1989
1165	दीपक सिंह/ श्री विजय सिंह	एमपीएसवीसी/316 9/2015	ग्राम एवं डाक-अजरगाहा, जिला- रीवा, मध्य प्रदेश-486001	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	21.09.1990
1166	लख्मीकांत गोयल / श्री दुर्गा प्रसाद गोयल	एमपीएसवीसी/317 0/2015	खार नाला रोड, सबलगढ़, जिला- मुरैना, मध्य प्रदेश-476229	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	01.01.1986
1167	दिनेश यादव/ श्री श्रीराम यादव	एमपीएसवीसी/317 1/2015	न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, महाराजपुर रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	02.09.1986
1168	सदीप श्रीवास्तव/ श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव	एमपीएसवीसी/317 2/2015	गांधी पार्क के सामने, एम.एस. रोड, जौरा, मुरैना, मध्य प्रदेश-476221	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	13.08.1988
1169	हरिराम मांझी/ श्री राम किशन	एमपीएसवीसी/317 3/2015	म.न.:100, सेवा नगर, पार्क के निकट, ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474003	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	08.07.1980
1170	दीपक लाल कुमार/ श्री जगत लाल कुमार	एमपीएसवीसी/317 4/2015	ग्राम एवं डाक- व्याहा चंडिया रोड, उमरिया, मध्य प्रदेश-484660	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	02.06.1990
1171	रामलाल गनावा/ श्री काचरु गनावा	एमपीएसवीसी/317 5/2015	ग्राम-मौदीपदा, डाक- अमरगाह, तहसील-सेलाना, जिला- रतलाम, मध्य प्रदेश-457550	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	05.06.1987
1172	सुरेंद्र मार्सकोले/ श्री राधे लाल मार्सकोले	एमपीएसवीसी/317 6/2015	ग्राम-नवेगांव हमेशा, डाक-मिरा एम.पुर, तहसील-तिरोडी, जिला-बालाघाट, मध्य प्रदेश-481449	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	02.04.1985
1173	दीपक निंगवाल/ श्री दयाराम निंगवाल	एमपीएसवीसी/317 7/2015	ग्राम-जामदा, डाक-धरमारम, तहसील-दाही, जिला-धार, मध्य प्रदेश 454331	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	01.06.1989
1174	अनिता बाघेल/ श्री कान सिंह बाघेल	एमपीएसवीसी/317 8/2015	आजाद कॉलोनी, कुकशी जिला, धार, मध्य प्रदेश-454331	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	22.04.1987
1175	विरेंद्र विक्रम सिंह / श्री बृजेश सिंह	एमपीएसवीसी/317 9/2015	ग्राम- दिही, डाक- मंगी, थाना- त्योन्थर, जिला-रीवा, मध्य प्रदेश-486226	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	15.01.1989
1176	प्रिया शक्ला/ श्री राजीव कुमार शुक्ला	एमपीएसवीसी/318 0/2015	बलराम नगर, गोले का मंदिर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474005	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	02.02.1989
1177	फूल चंद धुरवे/ श्री भददे लाल	एमपीएसवीसी/318 1/2015	स्कूल कॉलोनी, सामनापुर, थाना एवं जिला- डिंडोरी, मध्य प्रदेश -481778	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	10.05.1989

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1178	नरेंद्र भावरे/श्री कन्हैया लाल भावरे	एमपीएसवीसी/318 2/2015	22, सुभाष मार्ग, बदवाहा, जिला-खारगोन, मध्य प्रदेश- 451115	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	10.01.1990
1179	अभिषेक मेहरा/ श्री डी. के. मेहरा	एमपीएसवीसी/318 3/2015	104 ए, नव आदर्श कॉलोनी, एमआर-4 रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश- 482001	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	06.04.1989
1180	अंकित मेशरम/श्री गणेश प्रसाद मेशरम	एमपीएसवीसी/318 4/2015	ग्राम- बिखा लामता रोड, बैहर, जिला- बालाघाट, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	12.01.1991
1181	खुशाबू जैन/श्री कैलाश जैन	एमपीएसवीसी/318 5/2015	म.न.: 2755, सिद्ध नगर, जबलपुर, मध्य प्रदेश- 482003	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	29.12.1989
1182	देवव्रत कोष्ठी/श्री राज कुमार कोष्ठी	एमपीएसवीसी/318 6/2015	त्रिवेनी सदन, धान मिल गंज, ग्वालियर, मध्य प्रदेश- 474003	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	15.01.1990
1183	नीरज सिंह ठाकुर /श्री गुलजार सिंह ठाकुर	एमपीएसवीसी/318 7/2015	ग्राम एवं डाक- छिरारी, तहसील- रेहली, जिला- सागर, मध्य प्रदेश-470227	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	01.07.1988
1184	हिमांशु प्रताप सिंह/श्री राम किशोर सिंह	एमपीएसवीसी/318 8/2015	ग्राम-मधराधा (शंकरपुर), जिला- अशोक नगर, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	01.07.1990
1185	दिव्या तिवारी/श्री ए.एल. तिवारी	एमपीएसवीसी/318 9/2015	आनंद नगर, रीवा, मध्य प्रदेश- 486001	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	01.02.1991
1186	अंजलि खरे/श्री उदय कुमार खरे	एमपीएसवीसी/319 0/2015	एमआईजी-2-17, दीन दयाल पुरम, उत्तली, सतना, मध्य प्रदेश -485001	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	07.12.1991
1187	नीरज सिंह राजपूत/श्री रामेश्वर दयाल राजपूत	एमपीएसवीसी/319 1/2015	हल्लू कॉलोनी, नौगांव जिला, छतरपुर, मध्य प्रदेश- 471201	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	24.04.1990
1188	अल्का सुमन/श्री राज बहादुर सुमन	एमपीएसवीसी/319 2/2015	रोशन भवन के सामने, शिवाजी वार्ड, बीना, जिला- सागर, मध्य प्रदेश- 470113	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	01.07.1990
1189	गौरव थोराट/श्री अरुण थोराट	एमपीएसवीसी/319 3/2015	बाला बाई बाजार, गंगा मंदिर गली, लशकर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश- 474001	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	03.06.1989
1190	रश्मि कुलेश/श्री करम सिंह कुलेश	एमपीएसवीसी/319 4/2015	ग्राम- लालपुर, डाक- शाक्का, जिला- छिंडोरी, मध्य प्रदेश- 481880	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	04.05.1989
1191	वंदना मरकम/श्री नेतराम मरकम	एमपीएसवीसी/319 5/2015	डाक-पठारी, ब्लॉक- बिछुआ, जिला- छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश -480111	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	26.01.1999
1192	आरती सलामे/श्री प्रकाश सलामे	एमपीएसवीसी/319 6/2015	334, संजय नगर, देओरी जनपद पंचायत, उदयपुरा, जिला- रायसेन, मध्य प्रदेश- 464774	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	07.06.1990
1193	रुधि सिंह बाघे/ श्री राजेश प्रताप सिंह	एमपीएसवीसी/319 7/2015	शास्त्री नगर, नागोड़ जिला, सतना, मध्य प्रदेश- 485446	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	05.09.1988
1194	सचिन सिंह/श्री दिवाकर सिंह	एमपीएसवीसी/319 8/2015	ग्राम- खमहा, डाक- उमरी, गोविंदपुर, तहसील- त्योंनथर, जिला-रीवा, मध्य प्रदेश- 486226	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	01.02.1987
1195	मनीश कुमार कुशवाहा/श्री सुंदर लाल कुशवाहा	एमपीएसवीसी/319 9/2015	आकश गंगा नगर, पाटेरी, डाक- महदेव, जिला- सतना, मध्य प्रदेश- 485001	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	16.09.1989
1196	मोना शर्मा/श्री के.के. शर्मा	एमपीएसवीसी/320 0/2015	ग्राम एवं डाक- रासमोहिनी (जैतपुर), शाहडोल, मध्य प्रदेश -484669	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	10.10.1990
1197	अर्चना महोबिया/ श्री कालूराम महोबिया	एमपीएसवीसी/320 1/2015	नये कोर्ट के सामने, बैरासिया, भोपाल, मध्य प्रदेश- 463103	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	23.03.1988
1198	विनिता सिंह/श्री पुष्पराज सिंह	एमपीएसवीसी/320 2/2015	म.न.: 63, ग्राम-चोरगडी, डाक- नौधिया, तह.- रायपुर, कारचू, जिला-रीवा, मध्य प्रदेश- 486114	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	28.10.1989
1199	आम्रपाली भिमटे/ श्री शंकर लाल	एमपीएसवीसी/320 3/2015	वार्ड न.-11, बुडी बालाघाट, मध्य प्रदेश- 481001	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	07.07.1987
1200	प्रमिला किरद/श्री धन सिंह किरद	एमपीएसवीसी/320 4/2015	ग्राम एवं डाक- अवलदमन, तहसील- गंधवानी, जिला- धार, मध्य प्रदेश- 45446	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	18.10.1988

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1201	जीतेंद्र सिंह तोमर / श्री रमेश सिंह तोमर	एमपीएसवीसी / 320 5 / 2015	गिरिजा बाग, इमली नाका, सिकंदर, केएम.पी.यू., लशकर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश- 474001	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	17.12.1992
1202	सौरभ सेन / श्री घासी राम	एमपीएसवीसी / 320 6 / 2015	बडी टाकिया, खरगपुर, जिला- टीकमगढ़, मध्य प्रदेश- 472115	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	04.01.1991
1203	मनीष कुमार शुक्ला / श्री योगेंद्र कुमार शुक्ला	एमपीएसवीसी / 320 7 / 2015	67, मंडी रोड न.-2, सबलगढ़, जिला- मुरैना, मध्य प्रदेश- 476229	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	17.09.1987
1204	कीर्ति सिंह / श्री चंद्र पाल सिंह	एमपीएसवीसी / 320 8 / 2015	183, रुबी स्कूल के पीछे, नेहरु कॉलोनी, सिहोर, मध्य प्रदेश- 466001	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	24.03.1991
1205	दिवेश पटेल / श्री बाबूलाल पटेल	एमपीएसवीसी / 320 9 / 2015	ग्राम- पृथ्वीपुरा उजरा, थाना- महाराजपुर, जिला- छतरपुर, मध्य प्रदेश- 471411	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	01.07.1985
1206	सुप्रिया गुप्ता / श्री अशोक कुमार गुप्ता	एमपीएसवीसी / 321 0 / 2015	कमलेश जनरल स्टोर, शीतल गंज, इंदरगाह, दतिया, मध्य प्रदेश- 470113	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	15.07.1987
1207	प्रणय ठाकुर / श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर	एमपीएसवीसी / 321 1 / 2015	सिंधी कॉलोनी, गांधी वार्ड, बीना, जिला- सागर, मध्य प्रदेश- 470113	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	23.06.1989
1208	कल्पना जायसवाल / श्री मोहन लाल जायसवाल	एमपीएसवीसी / 321 2 / 2015	म.न.-1249, द्वारका नगर, पूर्वी घमनपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश -482001	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	13.08.1988
1209	महेंद्र पाल सोलंकी / श्री पूरन सिंह सोलंकी	एमपीएसवीसी / 321 3 / 2015	पीपरवाह, तहसील-सोनकाछ, जिला-देवास, मध्य प्रदेश- 455118	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	11.03.1987
1210	ज्योति उडके / श्री डी. आर. उडके	एमपीएसवीसी / 321 4 / 2015	न्यू बजरंग कॉलोनी, केवलरी, जिला- सिओनी, मध्य प्रदेश- 480994	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	16.12.1991
1211	पुष्पेश कुमार राठौड़ / श्री राम प्रकाश राठौड़	एमपीएसवीसी / 321 5 / 2015	डाक- मिहोना, जिला- भिंड, मध्य प्रदेश- 477335	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	01.07.1988
1212	रोहित कुमार सितोले / श्री मोहन लाल सितोले	एमपीएसवीसी / 321 6 / 2015	ग्राम- धारगांव, तहसील- महेश्वर, जिला- खारगोन, मध्य प्रदेश- 451221	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	19.10.1986
1213	तरुण बाघेल / श्री केशर सिंह बाघेल	एमपीएसवीसी / 321 7 / 2015	40 जी, सुदामा नगर, ई-सेक्टर, इंदौर, मध्य प्रदेश- 452009	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	13.04.1990
1214	ओंकार आंचल / श्री सादिया आंचल	एमपीएसवीसी / 321 8 / 2015	ग्राम- सोंदुले, तहसील-मनावर, जिला-धार, मध्य प्रदेश- 454446	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	04.02.1986
1215	प्रदीप सिंह / श्री राम सुमिरन सिंह	एमपीएसवीसी / 321 9 / 2015	ग्राम- छाहना, डाक- टांघा, तहसील- जाबा, जिला- रीवा, मध्य प्रदेश- 486223	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	01.11.1989
1216	अमरीश सिंह कुशवाहा / श्री रनवीर सिंह कुशवाहा	एमपीएसवीसी / 322 0 / 2015	ग्राम एवं डाक- रोन, जिला- भिंड, मध्य प्रदेश- 477335	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	21.03.1983
1217	मेघ सिंह / श्री आसाराम आर्या	एमपीएसवीसी / 322 1 / 2015	वार्ड न.- 21, ग्वालियर, मध्य प्रदेश- 474012	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	02.01.1985
1218	नरेंद्र सिंह सेमर / श्री रामदास सिंह सेमर	एमपीएसवीसी / 322 2 / 2015	न्यू मेहरा कॉलोनी, थारटी पुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश- 474011	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	05.08.1988
1219	महेश दयाराम बर्मन / श्री दयाराम बर्मन	एमपीएसवीसी / 322 3 / 2015	461 / एफ, राजनगर, आनंद स्कूल के निकट, इंदौर, मध्य प्रदेश- 452002	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	05.11.1987
1220	अश्विन चौहान / श्री निर्भय सिंह	एमपीएसवीसी / 322 4 / 2015	न्यू टीचर कॉलोनी, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश- 457887	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	10.10.1991
1221	सुरेश काने / श्री जगदीश काने	एमपीएसवीसी / 322 5 / 2015	ग्राम-रनगांव, डाक- झिरबी, तहसील-मनावर, जिला- धार, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	15.07.1986
1222	प्राकृत सिंह / श्री लक्ष्मण प्रसाद सिंह	एमपीएसवीसी / 322 6 / 2015	द्वारा पूर्णिमा स्टाफ नर्स, जिला- हौस्पिटल बिछिया, जिला- रीवा, मध्य प्रदेश- 486001	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	01.07.1990
1223	नीरु यादव / श्री रनवीर सिंह यादव	एमपीएसवीसी / 322 7 / 2015	के.एस.एच.एस. स्कूल के निकट, ए.बी. रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश- 453446	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	11.02.1988
1224	राहुल जामरा / श्री रूप सिंह जामरा	एमपीएसवीसी / 322 8 / 2015	नर्मदा नगर, कुकशी, जिला- धार, मध्य प्रदेश- 454335	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	20.03.1989

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1225	सुनील राठौड़ / श्री कान सिंह राठौड़	एमपीएसवीसी / 322 9 / 2015	ग्राम- रानापुर, जिला- झबुआ, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	10.10.1989
1226	शैलजा कनासिया / श्री दयाराम कनासिया	एमपीएसवीसी / 323 0 / 2015	ग्राम एवं डाक- उदयपुर, तहसील- बागली, जिला- देवास, मध्य प्रदेश- 455227	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	02.02.1992
1227	ज्योति मंडलोई / श्री हीरा सिंह मंडलोई	एमपीएसवीसी / 323 1 / 2015	गली न.-4, वैश्रवी कॉलोनी, खारगोन, मध्य प्रदेश- 451001	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	05.07.1991
1228	शकुंतला बिरला / श्री श्रीराम बिरला	एमपीएसवीसी / 323 2 / 2015	डाक- खामखेडा, तहसील- कासरावाड़, जिला- खारगोन, मध्य प्रदेश- 453446	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	21.06.1990
1229	लोकेश वस्केल / श्री मल सिंह	एमपीएसवीसी / 323 3 / 2015	ग्राम एवं डाक-जवलई, तेज-मनावर, जिला-धार, मध्य प्रदेश- 454449	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	04.08.1986
1230	रश्मि विश्वकर्मा / श्री तेजराम विश्वकर्मा	एमपीएसवीसी / 323 4 / 2015	197, यादव कॉलोनी, नरसिंघपुर, मध्य प्रदेश- 487001	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	22.07.1990
1231	वनिला शुक्ला / श्री नरेंद्र कुमार शुक्ला	एमपीएसवीसी / 323 5 / 2015	एचआईजी-5ए, मुखर्जी नगर, मध्य प्रदेश- 464001	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	07.09.1990
1232	अजय दंडोतिया / श्री आनंद दंडोतिया	एमपीएसवीसी / 323 6 / 2015	एच-7, पीडब्ल्यूडी कैम्पस, गणेशपुरा, मुरैना, मध्य प्रदेश- 476111	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	19.12.1988
1233	सोनु कुमार जैन / श्री महेंद्र कुमार जैन	एमपीएसवीसी / 323 7 / 2015	ग्राम- बारेह, तहसील- अम्बाह, जिला- मुरैना, मध्य प्रदेश- 476111	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	01.12.1989
1234	अपूर्व अर्गंडा / श्री माधव राव अर्गंडे	एमपीएसवीसी / 323 8 / 2015	369, बजरंग नगर, टाकीज के सामने, उड्डन के सामने, इंदौर, मध्य प्रदेश- 452001	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	18.07.1991
1235	आदेश कुमार / श्री विजय कुमार	एमपीएसवीसी / 323 9 / 2015	10 / 83, लालमियां वाली गली, एम.पी. अशोक अग्रल के निकट, दत्तपुरा, मुरैना, मध्य प्रदेश- 476001	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	22.02.1991
1236	हरीश कुशवाहा / श्री बाबूलाल	एमपीएसवीसी / 324 0 / 2015	जेल रोड, जौरा, जिला- मुरैना, मध्य प्रदेश- 476221	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	07.07.1990
1237	राम रतन शाक्या / श्री जगदीश शाक्या	एमपीएसवीसी / 324 1 / 2015	बीटीआई रोड, संतोष नगर, भिंड, मध्य प्रदेश- 477001	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	20.08.1983
1238	मोहन मुवेल / श्री बालू सिंह मुवेल	एमपीएसवीसी / 324 2 / 2015	ग्राम- मालपुरा, डाक-बोहरला, तहसील- मनावर, जिला- धार- 454449, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	03.02.1989
1239	ऋषिकेश यादव / श्री दामोदर सिंह यादव	एमपीएसवीसी / 324 3 / 2015	एमआईजी-469, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मुरैना, मध्य प्रदेश -476001	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	05.10.1989
1240	सौरभ राजपूत / श्री राम नरेश राजपूत	एमपीएसवीसी / 324 4 / 2015	सेंट थॉमस (नोइल) पब्लिक स्कूल के निकट, चंद्र नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश- 474003	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	13.11.1992
1241	आकाश सिंह सिकरवर / श्री अवधेश सिंह सिकरवर	एमपीएसवीसी / 324 5 / 2015	ग्राम- बटसौली, तहसील- सबलगढ़, जिला-मुरैना, मध्य प्रदेश- 476229	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	10.07.1988
1242	मनीष बादली / श्री नेतराम बादली	एमपीएसवीसी / 324 6 / 2015	रैमजा का पुरा, नया बस स्टैंड, वार्ड न.-3, जौरा, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	10.06.1986
1243	मिलन किरद / श्री यदुवेंद्र सिंह	एमपीएसवीसी / 324 7 / 2015	सिंधी कॉलोनी, माधोपुरा, गली न.-4, मुरैना, मध्य प्रदेश- 476001	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	30.11.1990
1244	शशि भारती / श्री भइया लाल पटेल	एमपीएसवीसी / 324 8 / 2015	टाइप 32 / 1, विवेकानंद नगर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कटनी, मध्य प्रदेश-483503	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	28.10.1990
1245	पूजा बडसर / श्री नारायण बडसर	एमपीएसवीसी / 324 9 / 2015	487, श्री राम चौक, छाईगांव माखन, खंडवा, मध्य प्रदेश- 450771	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	14.01.1989
1246	सीमा ठाकुर / श्री मान सिंह ठाकुर	एमपीएसवीसी / 325 0 / 2015	म.न.: गर्ल्स स्कूल के पीछे, चना गोदाम, महु, मध्य प्रदेश- 453441	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	22.04.1989
1247	प्रियंका कुशराम / श्री आर.के. कुशराम	एमपीएसवीसी / 325 1 / 2015	खेरमई रोड, वार्ड न.-15, राधा कृष्ण मंदिर के पास, नैनपुर, जिला- मांडला, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	14.10.1991

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1248	सारिका चौहान / श्री राधे श्याम चौहान	एमपीएसवीसी / 325 2 / 2015	ए.बी. रोड, तहसील-धार, एम.पी., उरी, जिला- धार, मध्य प्रदेश- 454552	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	04.10.1989
1249	नरेंद्र सिंह डावर / श्री सुख देव डावर	एमपीएसवीसी / 325 3 / 2015	हरिजन मौहल्ला, दाही, धार, मध्य प्रदेश- 454331	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	14.08.1986
1250	आकाश शुक्ला / श्री एन.के. शुक्ला	एमपीएसवीसी / 325 4 / 2015	म.न.: 51 / 20, एकता कॉलोनी, राजीव वार्ड, बीना, जिला- सागर, मध्य प्रदेश- 470113	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	27.03.1991
1251	योगेश कुम्भार / श्री कैलाश चंद्र कुम्भार	एमपीएसवीसी / 325 5 / 2015	अस्पताल के सामने, ताहा रोड, किलचीपुर, जिला- रायगढ़, मध्य प्रदेश- 465679	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	01.06.1989
1252	अभिषेक श्रीवास्तव / श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव	एमपीएसवीसी / 325 6 / 2015	ए-38, न्यू सिटी, त्रुबा कॉलेज के निकट, आरएयू बाईपास, इंदौर, मध्य प्रदेश- 452012	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	17.09.1989
1253	शेखर साहू / श्री रमेश चंद्र साहू	एमपीएसवीसी / 325 7 / 2015	चा एम.पी.आई., मौहल्ला नरसिंघगढ़, जिला- राजगढ़, मध्य प्रदेश- 465669	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	04.02.1990
1254	इंद्र सिंह दोहरे / श्री भोगी लाल दाहरे	एमपीएसवीसी / 325 8 / 2015	दोहर मौहल्ला, गंज, सिहोर, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	10.04.1991
1255	अरुणा मंद्रहा / श्री राम मंद्रहा	एमपीएसवीसी / 325 9 / 2015	222, गांधी गंज, वार्ड न.- 5, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश- 480002	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	01.03.1980
1256	दिनेश कुमार साहू / श्री लाल राम साहू	एमपीएसवीसी / 326 0 / 2015	ग्राम एवं डाक- डुगरिया, तहसील- बैरासिया, जिला- भोपाल, मध्य प्रदेश- 463111	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	12.07.1988
1257	निकिता वसकाले / श्री नारायण वसकाले	एमपीएसवीसी / 326 1 / 2015	सिद्धार्थ विला, सुख निवास धाम, इंदौर, मध्य प्रदेश- 452001	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	03.05.1991
1258	सोनु पाटीदार / श्री प्रकाश चंद्र पाटीदार	एमपीएसवीसी / 326 2 / 2015	ग्राम एवं डाक- सदलपुर, तहसील- भानपुर, जिला- मंदसौर, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	10.11.1987
1259	मनोज बागरी / श्री विशान स्वरूप बागरी	एमपीएसवीसी / 326 3 / 2015	एम.एच.रोड, तिकोनिया मुरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	28.11.1985
1260	दिनेश दीक्षित / श्री आनंद कुमार	एमपीएसवीसी / 326 4 / 2015	34, रामानुज नगर, गोविंदपुरी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश- 474011	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	06.07.1989
1261	अमित कुमार डोडवे / श्री किशोर डोडवे	एमपीएसवीसी / 326 5 / 2015	ग्राम एवं डाक- तवलई, तहसील- मनावर, जिला- धार, मध्य प्रदेश- 454449	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	24.12.1985
1262	हरे सिंह वस्केल / श्री कालू सिंह वास्केल	एमपीएसवीसी / 326 6 / 2015	ग्राम एवं डाक- जाटपुर, तहसील- मनावर, जिला- धार, मध्य प्रदेश- 454446	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	03.07.1983
1263	तुषार थोसार / श्री जगन्नाथ थोसार	एमपीएसवीसी / 326 7 / 2015	म.न.: 189, डी-4, स्कीमा न.-78, इंदौर, मध्य प्रदेश- 452010	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	04.03.1991
1264	निशा छाबरा / श्री केशव छाबरा	एमपीएसवीसी / 326 8 / 2015	दाल बाजार, राधेश्याम बिल्डिंग, लशकर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	24.04.1989
1265	रवीन्द्र कुमार पटेल / श्री सुख लाल पटेल	एमपीएसवीसी / 326 9 / 2015	ग्राम- कटारे का पुखा, डाक- ईशानगर, छतरपुर, मध्य प्रदेश -471315	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	20.12.1986
1266	नीलिमा पटेल / श्री राम नर्देश पटेल	एमपीएसवीसी / 327 0 / 2015	ग्राम एवं डाक- खजूहा कलां, जिला- रीवा, मध्य प्रदेश- 486553	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	15.11.1987
1267	तारा चंद जांगिड़ / श्री शंकर लाल	एमपीएसवीसी / 327 1 / 2015	प्लेट न. 204, क्रिएटिव हाइट्स, गुलमोहर, ई-8 एक्सटेंशन, भोपाल, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एमपीसीसीवीवी, जबलपुर / 2012	15.03.1988
1268	नीति लखानी / श्री जी.पी. लखानी	एमपीएसवीसी / 327 2 / 2015	एफ-37, कृषि नगर, अधरताल, जबलपुर, मध्य प्रदेश- 482004	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	23.01.1991
1269	ज्योति पटेल / श्री तुलसी राम पटेल	एमपीएसवीसी / 327 3 / 2015	ग्राम- काशी खैरी, नरसिंगपुर, मध्य प्रदेश- 487001	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	15.06.1991
1270	दीपिका पारतेती / श्री इंद्र शाह पारतेती	एमपीएसवीसी / 327 4 / 2015	नई आबादी, वार्ड न.-02, अमरवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	27.05.1992
1271	रविकांत हिरानी / श्री सुरेश हिरानी	एमपीएसवीसी / 327 5 / 2015	क्यू-1, सुपर सिटी, म्हुळ, मध्य प्रदेश- 453441	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	26.06.1988

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1272	पल्लव साहनी / श्री एस. के. साहनी	एमपीएसवीसी/327 6/2015	पाठक वार्ड, बीना, जिला- सागर, मध्य प्रदेश- 470113	बीवीएससीएंडएच/आरयूओएफवीएंडएएस, बीकानेर/2013	13.01.1990
1273	महेंद्र कुमार शाक्य / श्री बट्टी प्रसाद शाक्य	एमपीएसवीसी/327 7/2015	सी-597, आनंद नगर, बहोदापुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश- 474003	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	06.07.1988
1274	रितिका मांधवन/ श्री सचिन मांधवनी	एमपीएसवीसी/327 8/2015	प्लॉट न. 6, साहिल दिवन्स, विजयनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश- 452010	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	29.09.1992
1275	सुरेंद्र सिंह भदौरिया / श्री आर.एस. भदौरिया	एमपीएसवीसी/327 9/2015	जी-7, वेटेरिनरी कॉलेज, कुथुलिया, रीवा, मध्य प्रदेश- 486001	बीवीएससीएंडएच/जेएलएनकेवीवी/1977	08.05.1955
1276	जगबीर सिंह नरवारिया/ श्री महेंद्र सिंह नरवारिया	एमपीएसवीसी/328 0/2015	अशोक बसाई वेयर हाउस, सुथालिया रोड, मकसूदनगढ़, गुना, मध्य प्रदेश-473287	बीवीएससीएंडएच/जेएलएनकेवीवी/2009	01.07.1982
1277	पन्ना लाल पोपंडिया/ श्री कांजी पोपंडिया	एमपीएसवीसी/328 1/2015	ग्राम- आनंदखेड़ी, डाक- राजोड, तहसील-सरदारपुर, जिला-धार, मध्य प्रदेश-454660	बीवीएससीएंडएच/जेएलएनकेवीवी/1986	04.08.1963
1278	विरेंद्र कुमार गंगवाल/ श्री शिव शंकर	एमपीएसवीसी/328 2/2015	वेटेरिनरी अस्पताल, कोलारस, जिला- शिवपुरी, मध्य प्रदेश- 473770	बीवीएससीएंडएच/जीबीपीयूओएफएंडटी/2007	01.07.1980
1279	बेनी प्रसाद गौड़/ श्री गोवर्धन लाल गौड़	एमपीएसवीसी/328 3/2015	सी-330, शाहपुरा, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462016	बीवीएससीएंडएच/जेएलएनकेवीवी/2003	08.08.1976
1280	बिकाश चंद्र सरखेल/ श्री बिमल चंद्र सरखेल	एमपीएसवीसी/328 4/2015	235, बाई का बगीचा, दूसरी लेन, जबलपुर, मध्य प्रदेश- 482001	बीवीएससीएंडएच/जेएलएनकेवीवी/1975	31.03.1954
1281	शिवांगी पाठक/ श्री अश्विनी पाठक	एमपीएसवीसी/328 5/2015	42, साकेत नगर, उखरी स्कवेयर, शंकर पेट्रोल पम्प के निकट, जबलपुर, मध्य प्रदेश- 482002	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	01.09.1990
1282	प्रिया वालिया/ श्री रमेश कुमार वालिया	एमपीएसवीसी/328 6/2015	ब्लॉक न. 6, रवि ट्रेडर्स के निकट, प्रोफेसर कॉलोनी, सुहागी, अधरताल, जबलपुर, मध्य प्रदेश- 482004	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	29.03.1991
1283	विनय कुमार मिश्रा / श्री एन.पी. मिश्रा	एमपीएसवीसी/328 7/2015	द्वारा ए.के. पांडे, 13/29, एसबीआई कॉलोनी, मानस नगर, बर्रा, जिला-रीवा, मध्य प्रदेश- 486001	बीवीएससीएंडएच/आईजीएयू, रायपुर /2005	02.11.1980
1284	प्रणय भारती/ श्री राज बहादुर सिंह	एमपीएसवीसी/328 8/2015	ग्राम एवं डाक-पनवार, जावा, जिला-रीवा, मध्य प्रदेश- 486001	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2012	19.07.1987
1285	मुकेश बाघेल/ श्री उमाराव सिंह बाघेल	एमपीएसवीसी/328 9/2015	04, पुलिस लाइन, मनावर, थानेश्वर मंदिर के पीछे, तहसील मनावर, जिला-धार, मध्य प्रदेश -454446	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2015	28.06.1987
1286	शशि भूषण त्रिपाठी / श्री ऋषिकेश कुमार त्रिपाठी	एमपीएसवीसी/329 0/2015	आजाद चौक, नया पन्ना नाका, छतरपुर, मध्य प्रदेश- 471001	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2013	10.12.1990
1287	प्रीतम सिंह/ श्री राजेंद्र सिंह	एमपीएसवीसी/329 1/2015	द्वारा:बाबू लाल मिश्रा, वार्ड न.-4, लवकुश नगर, छतरपुर, मध्य प्रदेश- 471515	बीवीएससीएंडएच/एमपीपीसीवीवी, जबलपुर/2011	02.10.1982
1288	प्रमोद शर्मा/ श्री विजय राम शर्मा	एमपीएसवीसी/329 2/2015	वैशांकर भवन, ईदगाह के सामने, गोधी रोड, मुरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश- 474006	बीवीएससीएंडएच/जेएलएनकेवीवी/2004	28.11.1979
1289	अविनाश सिंह/ श्री प्रद्युम्न सिंह	एमपीएसवीसी/329 3/2015	मकान न.-16/380, पी.के. स्कूल के पीछे, उराहट, रीवा, मध्य प्रदेश- 486001	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएसयू, जबलपुर /2012	02.08.1987
1290	शैलेंद्र सिंह/ श्री मैथिली शरण सिंह	एमपीएसवीसी/329 4/2016	ग्राम पठारा, डाक- सोहरवा, तहसील-टियोन्थर, जिला- रीवा, मध्य प्रदेश- 486220	बीवीएससीएंडएच/जेएलएनकेवीवी/2010	10.07.1984
1291	अशोक कुमार/ श्री नबाब सिंह	एमपीएसवीसी/329 5/2015	472/500, ग्राम एवं डाक- जेरथ, तह.-पठारिया, जिला- दामोह, मध्य प्रदेश-470666	बीवीएससीएंडएच/जेएलएनकेवीवी/2009	25.09.1982
1292	अशोक कुमार निगम/ श्री दुख भंजन प्रसाद निगम	एमपीएसवीसी/329 6/2016	डीके-2/18, व्यू पॉइंट, दानिश कुंज, कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462012	बीवीएससीएंडएच/जेएलएनकेवीवी/1978	01.02.1955
1293	अरुणक कुमार शुक्ला/ श्री बाल कृष्ण शुक्ला	एमपीएसवीसी/329 7/2016	पटेल होस्टल के पीछे, निराला नगर, रीवा, मध्य प्रदेश- 486002	बीवीएससीएंडएच/जेएलएनकेवीवी/2008	17.12.1980

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1294	मनीश कुमार अहिरवार / श्री प्रीतम दास अहिरवार	एमपीएसवीसी / 329 8 / 2016	एम-32, बारकी सराय, भांडेर, जिला- दतिया, मध्य प्रदेश- 475335	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए सयू, जबलपुर / 2014	23.11.1986
1295	पूजा पटेल / श्री मोहन लाल पटेल	एमपीएसवीसी / 329 9 / 2016	सेक्टर-सी-330, शाहपुरा, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462001	बीवीएससीएंडएच / जेएलएन केवीवी / 2005	28.12.1976
1296	पवन कुमार तिवारी / श्री केशव दास तिवारी	एमपीएसवीसी / 330 0 / 2016	न.-1 स्कूल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुख. के सामने, छतरपुर, मध्य प्रदेश-471001	बीवीएससीएंडएच / जेएलएन केवीवी / 2006	31.03.1980
1297	दीपक मेहरा / श्री कालेश्वर लाल मेहरा	एमपीएसवीसी / 330 1 / 2016	ई / 34, वेटेरिनरी कॉलेज कैम्पस, म्हऊ, इंदौर, मध्य प्रदेश-453446	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए सयू, जबलपुर / 2013	28.05.1981
1298	आदित्य मिश्रा / श्री प्रकाश चंद्र मिश्रा	एमपीएसवीसी / 330 2 / 2016	वार्ड न.-13, लहर रोड, मिहोना, भिंड, मध्य प्रदेश-477441	बीवीएससीएंडएच / आईजीए यू, रायपुर / 2004	09.03.1977
1299	राधे श्याम गुप्ता / श्री मोती लाल गुप्ता	एमपीएसवीसी / 330 3 / 2016	211, बी.ए.पी.आर.कॉलोनी, कटंगा, जबलपुर, मध्य प्रदेश- 482001	बीवीएससीएंडएच / जेएलएन केवीवी / 1980	19.05.1950
1300	जितेंद्र सिंह अरोड़ा / श्री दामोदर सिंह	एमपीएसवीसी / 330 4 / 2016	56, प्रेम नगर, पोस्ट ऑफिस के पीछे, मदन महल, जबलपुर, मध्य प्रदेश- 482001	बीवीएससीएंडएच / जेएलएन केवीवी / 1980	17.12.1949
1301	मनोज कुमार शर्मा / श्री प्रभु दयाल शर्मा	एमपीएसवीसी / 330 5 / 2016	ईई-270, दीन दयाल नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश-475001	बीवीएससीएंडएच / आईजीके वीवी, रायपुर / 2003	26.06.1976
1302	अमित कुमार सिंह / श्री अतुल सिंह कुर्मी	एमपीएसवीसी / 330 6 / 2016	एलआईजी-4, साउथ सिविल लाइंस, जबलपुर, मध्य प्रदेश- 482001	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए सयू, जबलपुर / 2013	19.04.1987
1303	ए. लालरामलियाना / श्री रुपियांगा	मिजोएसवीसी / 025 4 / 15	खावरुहलियान, आइजवाल, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / केंद्रीय कृ विवि / 2015	22.05.1988
1304	फ्रेडी एच. सियाम थारा / श्री सी. लालरिंडिका (एल)	मिजोएसवीसी / 025 5 / 15	हाउलवांग, लुंगलेई, जिला- मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / केंद्रीय कृ विवि / 2015	18.10.1991
1305	मनेसिया खेईमीछो / श्री के. जोहरा	मिजोएसवीसी / 025 6 / 15	लोअर न्यू कॉलोनी, सियाहा, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / केंद्रीय कृ विवि / 2015	25.07.1990
1306	वानलालगिल्नेली राल्ले / श्री आर. लालछुआनवमा	मिजोएसवीसी / 025 7 / 15	सी-17, सईखाओमाकौन, आइजवाल, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / केंद्रीय कृ विवि / 2015	30.12.1990
1307	डेबी लांगईहावमी / श्री बियाक मुआनसांगा	मिजोएसवीसी / 025 8 / 15	टी-24, बंगकवान डैम, वेंग, आइजवाल, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / असम कृ विवि / 2015	27.04.1990
1308	के. हिमंथनसांगी / श्री के. लाल बिआकजुआला	मिजोएसवीसी / 025 9 / 15	एचटी-22, हुंधार वेंग, आइजवाल, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / केंद्रीय कृ विवि / 2015	23.07.1989
1309	एलिजाबेथ वी.एल. हमांगइजुआली / श्री आर. लालरिटलु आंगा	मिजोएसवीसी / 026 0 / 15	सीएनबी / सी-21, चाल्टलांग, उत्तरी आइजवाल, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / केंद्रीय कृ विवि / 2015	08.11.1990
1310	सी.लालसंगजुआला / श्री सी. लालडेइलोवा	मिजोएसवीसी / 026 1 / 15	चम्फाई, वेंगथलांग, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / केंद्रीय कृ विवि / 2015	02.10.1990
1311	एम.एस.डोंगलियांगा / श्री वी.एल. हमाछुआना	मिजोएसवीसी / 026 2 / 15	के-125, बेथलेहम, वेंग, आइजवाल, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / केंद्रीय कृ विवि / 2015	01.09.1989
1312	जे. बानथंगा / श्री जे. सांगटुमा	मिजोएसवीसी / 026 3 / 15	ऐनक, सिआहा जिला, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / केंद्रीय कृ विवि / 2015	19.07.1991
1313	माइकेल लालरामछना / श्री सी. जकइया	मिजोएसवीसी / 026 4 / 15	एफ-34, चानमारी, आइजवाल, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / केंद्रीय कृ विवि / 2015	15.03.1990
1314	ललावमकिमा / श्री नगाईजुआला	मिजोएसवीसी / 026 5 / 15	सी-23, इलेक्ट्रिक वेंग, आइजवाल, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / केंद्रीय कृ विवि / 2015	17.11.1989
1315	लालरितलुआंगा / श्री जेसिया	मिजोएसवीसी / 026 6 / 15	सी-182, सलेम वेंग, आइजवाल, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / केंद्रीय कृ विवि / 2015	24.08.1991
1316	टिमोथी लालमल सॉवमा / श्री एफ. लालफकमाविया	मिजोएसवीसी / 026 7 / 15	ए-18 / 1, रामहलुन वेंगलई, पीडब्ल्यूडी, दलांग, आइजवाल, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / केंद्रीय कृ विवि / 2015	28.12.1991

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1317	के. लालछन्निहा / डॉ. के.वी.एल. रोहरजेला	मिजोएसवीसी / 026 8 / 15	बी-28 / ए, रामहलुन नॉर्थ आइज़वाल, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / केंद्रीय कृ विवि / 2015	05.01.1991
1318	डेनियल लालछुआ नौमा / श्री सी. लालसंगलियाना	मिजोएसवीसी / 026 9 / 15	डी-106, रामहलुन, नॉर्थ आइज़वाल, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / केंद्रीय कृ विवि / 2015	30.04.1989
1319	लालरिंजुआली न्नॉटे / श्री लालरिन मविया न्नॉटे	मिजोएसवीसी / 027 1 / 15	डी / 1-8, दियाक्कवान, कोलासिब, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / केंद्रीय कृ विवि / 2015	16.05.1990
1320	लालरुनुइया चिंजाह / श्री सी. लालकुंगा	मिजोएसवीसी / 027 2 / 15	लौंगल्लाई, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / असम कृ विवि / 2015	31.03.1992
1321	डोरोथी लालछन्निमी / श्री छिंघथानखुमा	मिजोएसवीसी / 027 3 / 15	जेएफ-100, जीमाबौक, आइज़वाल, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / असम कृ विवि / 2015	04.09.1990
1322	रेबेका लालखांगईसांगी / श्री आर.लालरेमरुआते	मिजोएसवीसी / 027 4 / 15	ए / 12, इलेक्ट्रिक वेंग, आइज़वाल, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / असम कृ विवि / 2015	19.12.1990
1323	लालरुनुमाविया / श्री एच.लालनुंटलुआंगा	मिजोएसवीसी / 027 5 / 15	रामहलुन, वेंगलई, आइज़वाल, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / असम कृ विवि / 2015	10.07.1992
1324	वनलालहमांगेही फनई / श्री एफ. लालथलामुआना	मिजोएसवीसी / 027 6 / 15	सी-18, चाट्लांग रोड, चानमारी, आइज़वाल, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / असम कृ विवि / 2015	10.01.1990
1325	पी.सी. लालरियातुइया / श्री लालरमथारा	मिजोएसवीसी / 027 7 / 16	आर्म्ड वेंग, आइज़वाल, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / केंद्रीय कृ विवि / 2016	17.09.1990
1326	डेविड लालरमेगा / श्री थांगजुआला	मिजोएसवीसी / 027 8 / 16	सी-125, तुइवामित, सेंट्रल जेल, वेंग, सेंट्रल जेल, वेंग, आइज़वाल, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / केंद्रीय कृ विवि / 2016	09.02.1991
1327	लालरुइत्तुआंगी / लालसंगलुरा	मिजोएसवीसी / 027 9 / 16	ए-35 / 4, पुलिस क्वार्टर, सारोन वेंग, आइज़वाल, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / केंद्रीय कृ विवि / 2016	16.08.1991
1328	रेबेका लालमुआनपुरई / श्री आर.लालपेका	मिजोएसवीसी / 028 0 / 16	सी-49, दुर्तलांग, आइज़वाल, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / केंद्रीय कृ विवि / 2016	16.10.1991
1329	एम.लालमंगईजुआला / श्री एम. ज़हावला	मिजोएसवीसी / 028 1 / 16	साईरंग डार, वेंग, आइज़वाल, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / केंद्रीय कृ विवि / 2016	17.08.1993
1330	जॉन रोज़रलिआना / श्री एच. संघलुना	मिजोएसवीसी / 028 2 / 16	वाई-162, तुइतियांग, वेंग, आइज़वाल, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / केंद्रीय कृ विवि / 2016	17.08.1993
1331	लालरुइत्तुआंगी / श्री लालरौंगबवाला	मिजोएसवीसी / 028 3 / 16	वीके- 102, जीमाबौक, आइज़वाल, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / केंद्रीय कृ विवि / 2016	11.12.1992
1332	वी.एल. रोज़ामी / श्री लालरोहलुआ	मिजोएसवीसी / 028 4 / 16	रामहलुन वेंगलई, आइज़वाल, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / केंद्रीय कृ विवि / 2016	02.12.1991
1333	रोजोउ पोहिना / श्री सालोन्धी पोहिमा	एनएसवीसी / 312 / 15	जावामा ग्राम एवं डाक, पफुत्सेरो, जिला- फेक, नागालैंड- 797107	बीवीएससीएंडएच / पीयू / 20 15	14.01.1993
1334	केविसेनुओ एवलिन विजो / श्री राओकुओटोली विजो	एनएसवीसी / 313 / 15	एल.खेल, कोहिमा ग्राम, डाक- कोहिमा, नागालैंड- 797001	बीवीएससीएंडएच / पीयू / 20 15	27.12.1990
1335	एले खापे / श्री वकोउसा खापे	एनएसवीसी / 314 / 15	पफुत्सेरो टाउन, फेक जिला, नागालैंड- 797107	बीवीएससीएंडएच / पीयू / 20 15	22.09.1992
1336	नेमजेमयेंगर / श्री बेंडंगतोशी	एनएसवीसी / 315 / 15	म.न.-118, फ़ैलोशिप कॉलोनी, दीमापुर, नागालैंड- 797112	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 2 015	19.03.1992
1337	नीजोली रियो / श्री रुदिलहो रियो	एनएसवीसी / 316 / 15	पेरासिएजी कॉलोनी, म.न.: 62, कोहिमा, नागालैंड- 797001	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 2 015	11.01.1991
1338	वाई. याविंग कोनयाक / श्री एच. यानबोह कोबन्याक	एनएसवीसी / 317 / 15	चेनमोहो ग्राम, जिला- मोन, नागालैंड- 798603	बीवीएससीएंडएच / सीएयू / 2 015	27.04.1990
1339	रावेयी खेशोह / श्री वीटो खेशोह	एनएसवीसी / 318 / 15	हेबरोन-1 कॉलोनी, फेक न्यू टाउन, नागालैंड- 797108	बीवीएससीएंडएच / पीयू / 20 15	22.02.1989
1340	बिकाश चंद्र सेठी / श्री बिजय कुमार सेठी	ओएसवीसी / 2632 / 2015	एटी-रामेश्वरपुर, डाक-गडीजंग, थाना- निमेलो, जिला-कटक, पिन- 754134, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	12.09.1990

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1341	अनुराग मोहंती / श्री बिजया कुमारी मोहंती	ओएसवीसी / 2633 / 2015	एटी / डाक-खोराट, कडुपडा, जगतसिंगपुर- 754106, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	03.06.1992
1342	सौरभ रंजन होता / श्री हरे प्रसाद होता	ओएसवीसी / 2634 / 2015	क्वा.न.: जी-50 / ए, अकाउंट्स कॉलोनी, खुरदा रोड, जटनी- 752050, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	15.03.1991
1343	प्रियदर्शिनी पात्रो / श्री गोविंद पात्रो	ओएसवीसी / 2635 / 2015	एटी / डाक- दूसरी गोलापल्ली स्ट्रीट, ब्रिहामपुर गंजम- 760001, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	03.09.1990
1344	पार्थसारथी स्वेन / श्री पंचानन स्वेन	ओएसवीसी / 2636 / 2015	एटी / डाक- रुशीपदा, जिला- कटक-754037, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	01.07.1992
1345	सुधांशु मोहन नायक / श्री कृष्णचंद्र नायक	ओएसवीसी / 2637 / 2015	एटी-तेलियागंज, डाक- सोरो, जिला- बालासौर- 756045, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	18.05.1990
1346	निकुंज बिहारी मोहंता / श्री पतितपाबन मोहंता	ओएसवीसी / 2638 / 2015	एटी / डाक / वाया- तातो, थाना- करंजिया, जिला- मयूरभंज-756045, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	11.07.1992
1347	शितांशु पांडा / श्री सुरेश चंद्र पांडा	ओएसवीसी / 2639 / 2015	एटी-नंदोल, डाक- भाटापारा, जिला-कटक-754200, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	05.05.1992
1348	संग्राम केशरी साहू / श्री प्रकाश चंद्र साहू	ओएसवीसी / 2640 / 2015	एटी / डाक- खजूरीपदा, जिला- कंधमाल- 754200, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	25.01.1992
1349	पद्मालय मेहर / श्री सिबराम मेहर	ओएसवीसी / 2641 / 2015	एटी / डाक- सखीपारा, जिला- सम्बलपुर- 768001, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	17.07.1990
1350	प्रीति पुस्या मोहंती / श्री देबेन्द्र चंद्र मोहंती	ओएसवीसी / 2642 / 2015	एटी / डाक- सोरो, वाया- सोरो, जिला- बालासौर- 756045, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	30.03.1992
1351	सौरव मिश्रा / श्री सरत चंद्र मिश्रा	ओएसवीसी / 2643 / 2015	एटी / डाक- गढ़ करमला, जिला- पुरी- 752116, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	30.06.1992
1352	सुभाश्री पाणिग्रही / श्री भाबसंकर पाणिग्रही	ओएसवीसी / 2644 / 2015	एटी / डाक-जयरामपुर, वाया- भोगराई, जिला- बालासौर- 756038, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	15.05.1992
1353	सुदीप्त कुमार पांडा / श्री सुरेंद्र मोहन पांडा	ओएसवीसी / 2645 / 2015	एटी / डाक- भाटली, जिला- बारगढ़- 768030, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	17.06.1989
1354	सुभालक्ष्मी साहू / श्री जादबनंदा साहू	ओएसवीसी / 2646 / 2015	एटी-मटियासाही, डाक- हकीमपदा, जिला- अंगुल-759143, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	28.05.1989
1355	रश्मि रंजन स्वेन / श्री रणजीत कुमार स्वेन	ओएसवीसी / 2647 / 2015	एटी-चटियाना, डाक- जमुगांव, वाया- एलनहाट, जगतसिंगपुर- 754107, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	21.01.1988
1356	अमिता प्रधान / श्री मन्मथ कुमार प्रधान	ओएसवीसी / 2648 / 2015	एटी-स्टोनी रोड, डाक- चादिनी चौक, कटक-753002, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	14.03.1991
1357	प्रणति बेहेरा / श्री गोपीनाथ बेहेरा	ओएसवीसी / 2649 / 2015	क्वा.न.: बी / 1430, नाल्को नगर, जिला- अंगुल- 759145, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	12.04.1992
1358	सुभास्मिता दास / श्री सत्याव्रत दास	ओएसवीसी / 2650 / 2015	एटी-नंदीपदा, डाक- मोरईगांव, जिला- केओन्झर- 758083, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	09.07.1992
1359	यास्मीन पाथी / श्री यशोबंत नारायण पाथी	ओएसवीसी / 2651 / 2015	एसबीआई लेन, घनासाहू चाका, गांधी मार्ग, अंगुल- 759122, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	20.06.1991
1360	रंजीथा टिग्गा / श्री मार्टिन टिग्गा	ओएसवीसी / 2652 / 2015	वार्ड न.-7, एटी / डाक- कुआलिंदा, ज्यातिपदा, जिला- सम्बलपुर- 768222, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	14.10.1990
1361	ज्योतिमयी अग्रवाला / श्री गौरीशंकर अग्रवाला	ओएसवीसी / 2653 / 2015	रामेश्वर विहार, जिला- बोध, पिन- 762014, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	01.06.1992
1362	सागरिका बेहेरा / श्री बिम्बाधर बेहेरा	ओएसवीसी / 2654 / 2015	एटी / डाक-नालदिया पलांदा, डाक- टिखिरी, वाया- कुजंगा, जिला- केंद्रपाड़ा, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	14.06.1992
1363	बिजय लक्ष्मी लेंका / श्री दिलीप कुमार लेंका	ओएसवीसी / 2655 / 2015	एटी / डाक-बडकुल, वाया- मारशाघई, जिला- केंद्रपाड़ा, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	22.06.1990
1364	निशिवापना गरानायक / श्री स्वप्नेश्वर गरानायक	ओएसवीसी / 2656 / 2015	द्वारा: डॉ. सन्तुघ्न रानाबिजुली, एटी-गडमंतिरम, ब्लॉक- बेगुनिया, जिला-खुर्दा- 752062, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	03.07.1990

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1365	सरिता बेहेरा / श्री नंद कुमार बेहेरा	ओएसवीसी / 2657 / 2015	एटी/डाक- पल्लाहरा, जिला- अंगुल- 759119, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	19.06.1990
1366	ज्योत्सना रानी सिंह / श्री जगबंधु सिंह	ओएसवीसी / 2658 / 2015	एटी/डाक- देउलिया, वाया- बादसाही, जिला- मयूरभंज- 752026, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	25.05.1987
1367	बालुकेश्वर हंडसा / श्री हरिहर हंडसा	ओएसवीसी / 2659 / 2015	एटी/डाक- चंदुआ, जिला- मयूरभंज, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	15.06.1987
1368	प्रकाश चंद्र घडेल / डॉ. अक्षय कुमार घडेल	ओएसवीसी / 2660 / 2015	एटी-भादंगा, डाक- अरुहा, जिला- जाजपुर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	15.06.1991
1369	अर्पित स्वेन / श्री रबीन्द्र नाथ स्वेन	ओएसवीसी / 2661 / 2015	एटी-बेनुपुर, डाक-चासपदा, जिला-जगतसिंगपुर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	05.07.1992
1370	देवी प्रसन्ना स्वेन / श्री उच्छब चरन स्वेन	ओएसवीसी / 2662 / 2015	रजनी बंधु निवास, प्लॉट न. सीएचपी-75, कानन विहार, फेज-1, बीबीएसआर-751031, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	15.05.1989
1371	सिद्धार्थ प्रसाद मिश्रा / श्री महेश प्रसाद मिश्रा	ओएसवीसी / 2663 / 2015	रघुनाथ भवन, जवाहर चौक, ढेंकनाल- 759001, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	19.02.1991
1372	शुभम बिस्वाल / श्री महादेव बिस्वाल	ओएसवीसी / 2664 / 2015	एटी/डाक- सरनकुल, जिला- नयागढ़- 752080, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	25.06.1992
1373	राधाकृष्ण साहू / श्री श्रीहरि साहू	ओएसवीसी / 2665 / 2015	एटी-धियाजोड़ी, डाक- झार पोखरिया, जिला- मयूरभंज- 757086, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	30.09.1992
1374	रुद्राशीष सेठी / श्री रबीन्द्र कुमार सेठी	ओएसवीसी / 2666 / 2015	एटी-कांजियापदा, डाक- कानपुर, जिला- कटक- 754037, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	05.11.1991
1375	अर्चना सारंगी / श्री जगदीश प्रसाद सारंगी	ओएसवीसी / 2667 / 2015	एटी-परदेशीपाड़ा, डाक- क्षेत्राजीपुर, जिला-सम्भलपुर- 768003, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	17.03.1992
1376	रंजनमयी साबर / श्री आश्रम साबर	ओएसवीसी / 2668 / 2015	एटी- हॉस्पिटल कॉलोनी, डाक/जिला-नौपदा-766105, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2014	20.07.1991
1377	जगन्नाथ नायक / श्री अनिरुद्ध नायक	ओएसवीसी / 2669 / 2015	नगर निगम कार्यालय के सामने, मेन रोड, उमरकोट, नबरंगपुर- 764073, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	03.12.1991
1378	सत्यनारायण टांडी / श्री भरत टांडी	ओएसवीसी / 2670 / 2015	एटी/डाक- पदमपुर कॉलेज रोड, जिला- बारगढ़- 768036, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	27.06.1989
1379	हरेश कुमार दलाई / श्री दिबाकर दलाई	ओएसवीसी / 2671 / 2015	एटी-महम्मदपुर, डाक- त्योंदाकुरा, जिला- कटक- 754134, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	28.04.1992
1380	संकर हियाल / श्री जोगेन्द्र हियाल	ओएसवीसी / 2672 / 2015	एटी-खेड़ापदा, डाक-दुमुरीगुडा, वाया- थेरुबल्ली, रायागडा -765018, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	20.05.1993
1381	सुरेंद्र नाथ बेशरा / श्री सहदेव बेशरा	ओएसवीसी / 2673 / 2015	एटी-दारखोली, डाक- पलासबानी, वाया-सरकाना, मयूरभंज-757051, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	16.06.1990
1382	सौम्या प्रकाश नायक / श्री त्रिलोचन सिंह	ओएसवीसी / 2674 / 2015	एटी- सिंकुल बहल, डाक- जगमोहनपुर, जिला-केओन्डार- 758084, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	03.05.1989
1383	रश्मि रंजन मिश्रा / श्री रमाकांत मिश्रा	ओएसवीसी / 2675 / 2015	एटी-चतारा सासन, डाक- गोपालजू पटना, जिला- केंद्रपाड़ा- 754250, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	02.05.1993
1384	सत्सार्थक त्रिपाठी / श्री खिरोद चंद्र त्रिपाठी	ओएसवीसी / 2676 / 2015	के 7-480, घटीकिया, कलिंग नगर, भुबनेश्वर- 751003, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	20.04.1991
1385	जितेंद्र कुमार परिदा / श्री बोरी बंधु परिदा	ओएसवीसी / 2677 / 2015	एटी- चंडीमंगल, डाक- सिंघनाथ पिठा, जिला- कटक- 754031, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	03.04.1991
1386	रश्मि सिंह / श्री प्रभात कुमार सिंह	ओएसवीसी / 2678 / 2015	प्लॉट न.-1341/69, महानदी विहार, डाक- नया बाजार, कटक-753004, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	29.05.1992
1387	सुभाश्री प्रधान / श्री गजेंद्र प्रधान	ओएसवीसी / 2679 / 2015	द्वारा जुधिष्ठिर प्रधान, एटी-बहाराना, डाक- नियाली, जिला- कटक, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	30.06.1991

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1388	पंकज कुमार जेना / श्री सिद्धेश्वर जेना	ओएसवीसी / 2680 / 2015	एटी-अंतरोई, डाक-कमासलिया, वाया-नाम्पो, जिला- बालासौर- 756034, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	08.08.1992
1389	पृथ्वीराज परिदा / श्री बैकुंठ परिदा	ओएसवीसी / 2681 / 2015	एटी/डाक-अटटापुर, वाया- सोरो, जिला- बालासौर- 756045, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	16.04.1992
1390	प्रीतम मोहापात्रा / श्री क्षिरोद मोहापात्रा	ओएसवीसी / 2682 / 2015	एटी-खेतौली, डाक- ओराली, वाया-नटदीही, जिला-केंओझर -758083, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	21.03.1992
1391	नीलामाधव साहू / श्री निबरन साहू	ओएसवीसी / 2683 / 2015	एटी/डाक- कंटोर, थाना- परजांग, जिला- ढेंकनाल- 759120, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	06.08.1992
1392	सौभाग्य रंजन साहू / श्री भागीरथी साहू	ओएसवीसी / 2684 / 2015	क्वा.न.-2, पल्ला, एच.बी. कॉलोनी, डाक- पल्लाहाट, खोरधा-752056, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	12.11.1993
1393	अंशुमान महापात्रा / श्री बिवाश च. महापात्रा	ओएसवीसी / 2685 / 2015	प्लॉट न.-240 / 108, लेन-5, ऐरोड्रोम एरिया, भुबनेश्वर- 751020, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	28.08.1993
1394	जंगयादत्ता दाश / प्रसन्ना कुमार दाश	ओएसवीसी / 2686 / 2015	क्वा.न.: एल1-700, फेज- II, एचबी कॉलोनी, दुमुदुहा, भुबनेश्वर- 751019, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	12.01.1993
1395	कुरेश कुमार नायक / श्री प्रफुल्ल कुमार नायक	ओएसवीसी / 2687 / 2015	के.के. नगर, हाउसिंग बोर्ड, एलआईजी- 86, स्ट्रीट- II, बरहामपुर, जिला- गंजम, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	31.05.1993
1396	प्रत्युश रंजन बाघ / श्री श्रीधर बाघ	ओएसवीसी / 2688 / 2015	एटी-सोनेपुर, अम्बेडकर चौक, जिला-सोनेपुर- 767017, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	09.06.1991
1397	सुभाश्री सारंगी / श्री भगवान सारंगी	ओएसवीसी / 2689 / 2015	एटी/डाक- बाराबाती, वाया-खंडापारा, जिला- नयागढ़- 752077, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	15.04.1991
1398	सम्पिका साहू / श्री नित्यानंद साहू	ओएसवीसी / 2690 / 2015	प्लॉट न. 595 / एफ, सेक्टर-6, सी.डी.ए. कटक- 753014, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	10.07.1992
1399	सुमित्रा पाणिग्रही / श्री किशोर कुमार पाणिग्रही	ओएसवीसी / 2691 / 2015	अरविंद नगर, दूसरी लेन, म.न.-ए / 127, बरहामपुर, जिला- गंजम, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	22.04.1991
1400	मंगलिमा राउत / श्री उमेश चंद्र राउत	ओएसवीसी / 2692 / 2015	एटी/डाक-रोहिया, वाया- नुआगांव हाट, जिला- जगतसिंगपुर- 754113, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	14.06.1992
1401	ईश्वर नायक / श्री भजमना नायक	ओएसवीसी / 2693 / 2015	एटी-चित्रकोट, डाक- अंचलगुमा, जिला-नबरंगपुर- 764069, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	21.11.1991
1402	बिस्वशांति जंग्या दत्ता राउता / श्री पी.सी. राउता	ओएसवीसी / 2694 / 2015	एटी/डाक- करलामुंडा, जिला -कालाहांडी- 766032, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	31.12.1991
1403	सुधामयी मेहेर / श्री सिबराम मेहेर	ओएसवीसी / 2695 / 2015	द्वारा सिबराम मेहेर, सखीपारा (राधाकृष्ण मंदिर के पास, कॉन्वेंट स्कूल के सामने), सम्बलपुर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	15.08.1992
1404	सोनाली राउत / श्री उमेश चंद्र राउत	ओएसवीसी / 2696 / 2015	एल-16, बीडीए कॉलोनी, खोरधा- 752055, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	21.11.1991
1405	स्वागतिका मिश्रा / श्री सूर्य नारायण मिश्रा	ओएसवीसी / 2697 / 2015	एटी/डाक- जालो, जिला- सुबामापुर- 767018, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	18.07.1992
1406	अलकनंदा कर / श्री मनोरंजन कर	ओएसवीसी / 2698 / 2015	एटी-छतरपुर, डाक-सोरो, जिला-बालासौर- 756045, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	07.03.1992
1407	मायादेवी मांडी / श्री मोहन मांडी	ओएसवीसी / 2699 / 2015	एटी-गिडिघट्टी, डाक- हटिया, थाना-गोरुमहिशानी, जिला- मयूरभंज- 757042, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	19.07.1982
1408	निबेदिता साहू / श्री अद्वैत कुमार साहू	ओएसवीसी / 2700 / 2015	एटी-सिरस्ता, डाक- पैलो, वाया-कोलार, जिला- जगतसिंगपुर-754162, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	18.03.1991
1409	अरुण कुमार साहू / श्री टीकेश्वर साहू	ओएसवीसी / 2701 / 2015	एटी/डाक- बारपाली (वार्ड न.-4), जिला- बारगढ़, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	06.07.1987
1410	स्मृति रेखा पति / श्री चित्त रंजन पति	ओएसवीसी / 2702 / 2015	एटी: जहांगीराबाद, डाक- सिसुआ, थाना- सालीपुर, जिला- कटक, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	30.04.1992
1411	रचिता सेठी / श्री तूना सेठी	ओएसवीसी / 2703 / 2015	एटी/डाक/थाना- जगन्नाथ प्रसाद, जिला-गंजम- 761121, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	15.04.1992

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1412	प्रियंका प्रियदर्शिनी / श्री रमेश चंद्र पाधी	ओएसवीसी / 2704 / 2015	एटी/डाक- नरीशो, वाया- बालीपटना, जिला-खुरदा, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच/ओयूएटी / 2015	15.04.1992
1413	नमस्या प्रियदर्शिनी / श्री परीक्षित बेहेरा	ओएसवीसी / 2705 / 2015	प्लॉट न. एफ/ 801, सेक्टर-6, सीडीए बिदानसी, कटक- 753014, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच/ओयूएटी / 2015	28.10.1992
1414	सुभाश्री नायक / श्री अश्विनी कुमार नायक	ओएसवीसी / 2706 / 2015	आई.बी.रोड, लक्ष्मनपुर, डाक- जगतपुर, जिला-कटक- 754021, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच/ओयूएटी / 2015	16.06.1992
1415	बंदिता मिश्रा / श्री बृंदाबन मिश्रा	ओएसवीसी / 2707 / 2015	एटी-बालीसाही, डाक-इंडालो, वाया-दानपुर, जिला-केंद्रपाड़ा- 754210, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच/ओयूएटी / 2015	21.08.1992
1416	कृष्ण चंद्र दास / श्री बिनायक दास	ओएसवीसी / 2708 / 2015	ई-021, कॉस्मोपोलीज, दमदमा, खंडागिरि, भुवनेश्वर- 751019, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच/ओयूएटी / 1991	17.08.1969
1417	बिभु प्रसाद दाश / श्री डोलगोबिंदा दाश	ओएसवीसी / 2709 / 2015	एटी-सुजंगा, डाक/जिला- जगतसिंगपुर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच/ओयूएटी / 2015	20.05.1992
1418	श्रीकांत पाणिग्रही / श्री कालीचरन पाणिग्रही	ओएसवीसी / 2710 / 2015	डी-1/2, सेक्टर-ए, जोन-डी, एमआईई, भुवनेश्वर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच/ओयूएटी / 2015	22.08.1192
1419	लेनिन कुमार गुम्फा / श्री गुम्फा अंकित	ओएसवीसी / 2711 / 2015	एटी/डाक-गुनुपुर, बाबुली नगर, जिला- रायगढ़, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच/ओयूएटी / 2015	04.05.1993
1420	मानस रंजन बेहेरा / श्री उपेंद्र प्रसाद बेहेरा	ओएसवीसी / 2712 / 2015	एटी-मंगलाबाग मल्हासाही, डाक-बक्शीबाजार, जिला- कटक-753001, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच/ओयूएटी / 2015	27.01.1991
1421	आशीश रंजन साहू / श्री अखिल कुमार साहू	ओएसवीसी / 2713 / 2015	एटी-गदाधरपुर, डाक-दहीपुर, अथगढ़, कटक-754029, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच/ओयूएटी / 2015	11.01.1992
1422	राजेश कुमार सेठी / श्री संकरसन सेठी	ओएसवीसी / 2714 / 2015	एटी/डाक- बंधाहुडा, नरसिंघपुर, कटक, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच/ओयूएटी / 2015	19.04.1992
1423	सिद्धांत सेखर साहू / श्री रामाकृष्ण साहू	ओएसवीसी / 2715 / 2015	एटी/डाक-ओडागांव, डालक, जिला- नयागढ़- 752081, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच/ओयूएटी / 2015	23.07.1991
1424	स्तुति तान्या मोहंती / श्री आनंद बल्ली मोहंती	ओएसवीसी / 2716 / 2015	एटी-चांदमारी पडिया, डाक- सहदेव खुंटा, जिला- बालासौर -756001, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच/ओयूएटी / 2015	16.07.1992
1425	अलका अभिषा बलियार सिंह / श्री सुधीर कुमार बलियार सिंह	ओएसवीसी / 2717 / 2015	एल-312, एच.बी. कॉलोनी, बारामुंडा, डाक- डेल्टा, जिला- खुर्दा- 751003, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच/ओयूएटी / 2015	03.05.1992
1426	प्रसांत कुमार नंदा / श्री देबराज नंदा	ओएसवीसी / 2718 / 2015	एटी/डाक-एम. रामपुर, जिला- कालाहांडी- 766102, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच/ओयूएटी / 2015	02.07.1992
1427	मानस रंजन प्रहराज / श्री सुभाष चंद्र प्रहराज	ओएसवीसी / 2719 / 2015	प्लॉट न.-ओ, आरबीआई कॉलोनी, पाइकानगर, बारामुंडा, जिला- खुर्दा, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच/ओयूएटी / 2015	10.05.1993
1428	राजेंद्र कुमार त्रिपाठी / श्री सुभाष चंद्र त्रिपाठी	ओएसवीसी / 2720 / 2015	एट-सौभाग्य नगर, एफआरसी के पीछे, डाक- अंगुल, जिला- अंगुल-759122, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच/ओयूएटी / 2015	16.11.1991
1429	आर्य प्रकाश पांडा / श्री राधाश्याम पांडा	ओएसवीसी / 2721 / 2015	सीडीए सेक्टर-7, प्लॉट न.- 876/एफ, कटक- 753014, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच/ओयूएटी / 2015	21.12.1990
1430	स्नेहासीस प्रधान / श्री सुरेश चंद्र प्रधान	ओएसवीसी / 2722 / 2015	एटी-सिगीताली, प्रदीव लॉक, वाया-कुजंग, जिला- जाजपुर- 754141, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच/ओयूएटी / 2015	15.12.1992
1431	शबनम अखतर / श्री एम.एम. होसैन	ओएसवीसी / 2723 / 2015	एफ-042, द कॉस्मोपोलीस, दमदमा, एनएच-5, खंडागिरि, भुवनेश्वर- 751019, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच/ओयूएटी / 2015	11.10.1991
1432	सुदाम चंद्र साहू / श्री जय कृष्णा साहू	ओएसवीसी / 2724 / 2015	एटी- सियालियानुसाही, डाक- बोलागढ़, जिला-खुर्दा- 752066, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच/ओयूएटी / 2015	27.09.1991
1433	सुचिस्मिता महालिक / श्री संकरसन महालिक	ओएसवीसी / 2725 / 2015	एटी-जोगेश्वरपुर (तंतुलियथ मंदिर के सामने), डाक- जानुगंज, जिला- बालासौर- 756019, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच/ओयूएटी / 2015	22.06.1992

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1434	रोजालिन खटुआ / श्री रामा चंद्र खटुआ	ओएसवीसी / 2726 / 2015	द्वारा रामा चंद्र खटुआ, एटी- माझीखंडा, डाक- नियाली, जिला-कटक-754004, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	12.09.1991
1435	डालिका देहुरी / पत्नी श्री ओम प्रकाश माहपात्रा	ओएसवीसी / 2727 / 2015	द्वारा: ओम प्रकाश माहपात्रा, प्लॉट न.-50, ए.आर.कॉम्प्लेक्स, शेल्टर चाक, तुलसीपुर, कटक- 753008, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	02.12.1990
1436	सत्यव्रत खनडांगा / श्री सुधीर कुमार खनडांगा	ओएसवीसी / 2728 / 2016	एटी-जय नगर, डाक-कोनिसी, जिला-गंजम- 761008, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	30.05.1992
1437	रामानुज पांडा / श्री दीनबंधु पांडा	ओएसवीसी / 2729 / 2016	एटी/डाक-सोवरामपुर (हनुमान मंदिर के निकट), जिला- बालासौर-756001, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	31.01.1992
1438	मनोज कुमार बेहेरा / श्री मायाधर बेहेरा	ओएसवीसी / 2730 / 2016	एटी/डाक- गोपालपुर, थाना- खंडापारा, जिला-बालासौर -756044, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	25.05.1992
1439	सूर्यकांता राउत / श्री सुरेश चंद्र राउत	ओएसवीसी / 2731 / 2016	एटी/डाक- पातापुर, वाया सालीपुर, जिला-कटक- 754202, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	17.10.1991
1440	सुनील मनोहर पांडा / श्री नृसिंघा परिदा	ओएसवीसी / 2732 / 2016	एटी/डाक-धनहारा, डाक- माझीहारा, थाना- बालीपटना- 752103, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	15.06.1993
1441	मनोज कुमार दास / श्री रबीन्द्र कुमार दास	ओएसवीसी / 2733 / 2016	एटी/डाक- कानपुर, वाया- रासगोबिंदपुर, जिला-मयूरभंज- 757016, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	05.11.1992
1442	प्रियाव्रत बेहेरा / श्री पुष्कर बेहेरा	ओएसवीसी / 2734 / 2016	ग्राम- बालीपटना, डाक-बडास, वाया-कनास, जिला-पुरी- 752017, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2015	18.03.1993
1443	गुरविंदर सिंह गिल / श्री दर्शन सिंह गिल	पीबीएसवीसी / 1473 / 15	688 / 2874, गुरदेव नगर, लुधियाना- 141001, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / पीएयू / 1990	30.07.1967
1444	गुदीप सिंह गिल / श्री दर्शन सिंह गिल	पीबीएसवीसी / 3319 / 15	507, पुराना कैट रोड, अमन नगर, फरीदकोट, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	19.08.1988
1445	दलजीत सिंह / श्री गुरबचन सिंह	पीबीएसवीसी / 3320 / 15	म.न.-166, विवेकानंद पार्क, मकसूदन, जालंधर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	05.02.1990
1446	सतपाल सिंह / श्री गुरदीप सिंह	पीबीएसवीसी / 3321 / 15	सी-038, देव नगर कॉलोनी, घुराला, डाक एवं जिला- गुरदासपुर-143521, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	14.07.1987
1447	सुमीतिन्दर सिंह भंगु / श्री गुरिन्दर सिंह भंगु	पीबीएसवीसी / 3322 / 15	म.न.: 81, वार्ड न.-05, प्रेम नगर, मोरिदा, जिला-रोपड़, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	07.02.1991
1448	शमशेर पाल सिंह बाजवा / श्री मनजीत सिंह बाजवा	पीबीएसवीसी / 3326 / 15	म.न.:1217, वार्ड न. 3, सनसिटी एकलेव के निकट, जालंधर रोड, तहसील- बटाला, जिला- गुरदासपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	18.07.1988
1449	विक्रम सिंह ग्रेवाल / श्री रजनीश सिंह ग्रेवाल	पीबीएसवीसी / 3327 / 15	म.न.-5356, साहिबजादा जूझर सिंह नगर, रोपड़, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	14.03.1991
1450	हरनिंदर सिंह मरोक / श्री नरिंदर सिंह	पीबीएसवीसी / 3328 / 15	90, अनूप नगर, डाक- बस्ती दानिशमंद, तहसील एवं जिला- जालंधर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	17.09.1990
1451	उमर दीन / श्री गुलजार खान	पीबीएसवीसी / 3329 / 15	ग्राम- मनाल, डाक- करूर, तहसील एवं जिला- बरनाला- 148104, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	02.03.1991
1452	रोमी गिल / श्री जगपाल सिंह गिल	पीबीएसवीसी / 3330 / 15	273, ब्लॉक-जी, भाई रनधीर सिंह नगर, लुधियाना- 141012, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	04.10.1991
1453	मंकेश कुमार मिश्रा / श्री शेष कुमार मिश्रा	पीबीएसवीसी / 3331 / 15	द्वारा: डीएवी कॉलेज, जालंधर- 144008, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	05.04.1991
1454	गगनदीप सिंह / श्री जयमल सिंह	पीबीएसवीसी / 3332 / 15	ग्राम व डाक-बोलेवल, तहसील -बटाला, जिला-गुरदासपुर- 143514, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	10.09.1991
1455	परम प्रताप सिंह संधु / श्री भुपिंदर सिंह	पीबीएसवीसी / 3333 / 15	236, आकाश एवेन्यू, फतेहगढ़ चुरियन रोड, अमृतसर- 143001, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	22.06.1992
1456	निखिल शर्मा / श्री सुरेंदर कुमार शर्मा	पीबीएसवीसी / 3334 / 15	178, ट्रिब्यून सोसायटी, कंसल, डाक-नयागांव, जिला-एसएस नगर (मोहाली), पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	28.10.1992

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1457	नवरीत सिंह / श्री बलवीर सिंह	पीबीएसवीसी / 3335 / 15	सरदार कॉलोनी, गवर्नमेंट रणबीर कॉलेज, स्ट्रीट-5, संगरूर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	15.02.1989
1458	गगन दीप कौर / श्री नरिन्दर कुमार	पीबीएसवीसी / 3336 / 15	ग्राम एवं डाक- गार्डले, तहसील एवं जिला- रोपड़, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	25.12.1991
1459	नरिंदर कुमार / श्री सुखदेव राम	पीबीएसवीसी / 3337 / 15	ग्राम-करमगढ़ सतरान, डाक- सरदारगढ़, तहसील एवं जिला- भटिंडा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	13.01.1989
1460	जसकरन सिंह / श्री जसवंत सिंह	पीबीएसवीसी / 3338 / 15	ग्राम-जंडाली, डाक-निजामपुर, तहसील-पयाल, जिला- लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	06.12.1992
1461	अमनदीप कौर / श्री भुपिंदर सिंह	पीबीएसवीसी / 3339 / 15	6979, बी-34, सुनील पार्क, जासियन रोड, हैबोवाल कलां, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	23.06.1992
1462	अंकुर दीप गिल / श्री सुखदेव सिंह गिल	पीबीएसवीसी / 3340 / 15	म.न.-268-बी, राजगुरु नगर, लुधियाना-141012, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	28.04.1982
1463	हरमनप्रीत सिंह बल / श्री करनैल सिंह बल	पीबीएसवीसी / 3341 / 15	म.न.-3 / 171, अवतार नगर, मंडी, मुल्लनपुर, जिला- लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	09.11.1992
1464	जगजीत सिंह / श्री लाम सिंह	पीबीएसवीसी / 3342 / 15	आदर्श कॉलोनी, गरेवाल चौक, अजीत नगर, मलेरकोटला, जिला- संगरूर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	12.06.1991
1465	धीरज कुमार शर्मा / श्री प्रहलाद चंद शर्मा	पीबीएसवीसी / 3343 / 15	म.न.: 293, न्यू सिविल लाइंस, पुराने चुनाव कार्यालय के पास, होशियारपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	27.11.1991
1466	रमन वोहरा / श्री अरुण कुमार	पीबीएसवीसी / 3344 / 15	एमईएस रोड, चाणक्य मॉडर्न स्कूल के सामने, फाजिल्का, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	27.11.1991
1467	मंदीप सिंह / श्री निर्मल सिंह	पीबीएसवीसी / 3345 / 15	ग्राम-महमदपुर, तहसील-बस्सी पठाना, डाक-बल्हारी कलां, जिला-फतेहगढ़, साहिब, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	19.10.1991
1468	प्रियंका रानी / श्री नरिन्दर कुमार	पीबीएसवीसी / 3346 / 15	ग्राम एवं डाक-रानसिंह कलां, तहसील-निहाल सिंह वाला, जिला-मोगा-142055, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	20.11.1992
1469	सतिंदर पाल सिंह / श्री करमजीत सिंह	पीबीएसवीसी / 3347 / 15	म.न.: 9 / 529, स्ट्रीट न. 2, प्रजापत स्ट्रीट, वार्ड न. 23, न्यू सुर्गा पुरी, कोटकापुरा, जिला- फरीदकोट, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	06.12.1988
1470	किरनदीप कौर गिल / श्री हरप्रीत सिंह	पीबीएसवीसी / 3348 / 15	ग्राम व डाक-लापरान, तहसील -पयाल, जिला- लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	25.12.1992
1471	अमृतपाल सिंह / श्री गुरविंदर सिंह	पीबीएसवीसी / 3349 / 15	बी-1 / 1116, जगदीश कॉलोनी, कालका रोड, राजपुरा, जिला- पटियाला, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	11.05.1992
1472	परमेल / श्री मिठा सिंह	पीबीएसवीसी / 3350 / 15	ग्राम-मनवाला, डाक-कोट बख्तू, तहसील-तलवंडी साबो, जिला-भटिंडा-151301, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	29.03.1985
1473	जबदीप सिंह मान / श्री गुरनाम सिंह	पीबीएसवीसी / 3351 / 15	ग्राम-लुंडे वाला, तहसील- गिड्डरबाहा, डाक-बदेन, जिला -श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	08.12.1990
1474	गुरकीरत सिंह / श्री दरबारा सिंह	पीबीएसवीसी / 3352 / 15	ग्राम एवं डाक- अयाली कलां, जिला- लुधियाना- 142027, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	10.10.1992
1475	गुरनूर सिंह / श्री सुरजीत सिंह	पीबीएसवीसी / 3353 / 15	कोठी न.-70, विकास विहार, फेज-1, फिरोजपुर सिटी, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	08.01.1993
1476	नवजोत सिंह धालीवाल / श्री रवीन्दर सिंह धालीवाल	पीबीएसवीसी / 3354 / 15	म.न.-बी 13 / 880, बाबा दीप सिंह नगर, हंडाया रोड, बरनाला, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	03.12.1992
1477	संदीप कुमार / श्री इंदर पाल	पीबीएसवीसी / 3355 / 15	ग्राम एवं डाक-अदोआना, तहसील- बालाचौर, जिला- एसबीएस नगर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	22.07.1992
1478	नवनीत गुप्ता / श्री किशनजीत गोयल	पीबीएसवीसी / 3356 / 15	बी-वी-122, स्ट्रीट न.-2, संगटपुरा कॉलोनी, पटियाला गेट, नाभा, जिला-पटियाला- 147001, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	07.07.1991
1479	राजीव कुमार मिश्रा / श्री महेश मिश्रा	पीबीएसवीसी / 3357 / 15	टिबरी रोड, गुरदासपुर, डाक एवं जिला- गुरदासपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	09.01.1992

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1480	सुरभी अग्रवाल / श्री रमेश अग्रवाल	पीबीएसवीसी / 3358 / 15	1834 / 1, स्ट्रीट न.-1, पवित्र नगर, हैबोवाल कलां, लुधियाना -141001, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	08.10.1992
1481	राजनबीर सिंह / श्री सतनाम सिंह	पीबीएसवीसी / 3359 / 15	म.न.-93, स्ट्रीट न.-3, उज्जागर नगर, बटाला जिला, गुरदासपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	27.10.1990
1482	प्रियंका कुमारी / श्री अजय कुमार सिन्हा	पीबीएसवीसी / 3360 / 15	कमरा न. 102, होस्टल न.-5, गडवासु, पीएयू कैम्पस, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	10.12.1989
1483	अनंत सिमरन सिंह / श्री अमरवीर सिंह	पीबीएसवीसी / 3361 / 15	म.न.: 229, पाचोवरी चौक, ग्राम-शेख चक, जिला-तरन तारन, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	17.08.1991
1484	मनदीप कौर / श्री हरदेव सिंह	पीबीएसवीसी / 3362 / 15	ग्राम-बड़डुवाल, तहसील- धामकोट, जिला-मोगा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	08.09.1989
1485	विवेक शर्मा / श्री रमेश चंद्र	पीबीएसवीसी / 3363 / 15	ग्राम एवं डाक- बेहरामपुर, जिला-गुरदासपुर-143532, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	29.09.1992
1486	तरनजोत कौर / श्री हरजिंदर सिंह	पीबीएसवीसी / 3364 / 15	म.न.-745-ए, स्ट्रीट न.-4, बाजवा कॉलोनी, पटियाला, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	26.10.1992
1487	रवनीत घुमन / श्री सर्वजीत सिंह	पीबीएसवीसी / 3365 / 15	क्यू-357-बी, टाइप- III, रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	07.01.1992
1488	सुखमीत कौर / श्री सरबजीत सिंह	पीबीएसवीसी / 3366 / 15	ग्राम-भून, डाक एवं जिला- गुरदासपुर-143521, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	29.07.1991
1489	जगमीत कौर / श्री खलविंदर सिंह	पीबीएसवीसी / 3367 / 15	ग्राम-वेनेवल, डाक-राय चक, तहसील-बाबा डेरा नानक, जिला -गुरदासपुर- 143511, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	15.05.1990
1490	सुमनप्रीत कौर / श्री मनजीत सिंह	पीबीएसवीसी / 3368 / 15	15447-ए, स्ट्रीट न.-2, माता जीवी नगर, रोज गार्डन के निकट, भटिंडा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	09.01.1992
1491	अमनदीप कौर / श्री मनजीत सिंह	पीबीएसवीसी / 3369 / 15	ग्राम एवं डाक-डिडर वाला, तहसील-एन. एस. वाला, जिला- मोगा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	05.02.1993
1492	हरनीत सैनी / श्री वेद प्रकाश	पीबीएसवीसी / 3370 / 15	ग्राम एवं डाक-नूरपुर बेदी, तहसील-आनंदपुर साहिब, जिला-रोपड़-140001, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	06.02.1991
1493	अंगद नंदा / श्री संतपाल सिंह नंदा	पीबीएसवीसी / 3371 / 15	कमरा न.-16, होस्टल न.-9, पीएयू कैम्पस, लुधियाना- 141001, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	24.09.1990
1494	अर्शदीप रंधावा / श्री सुखमिंदर रंधावा	पीबीएसवीसी / 3372 / 15	चौधरी वाला, जिला-अमृतसरी, एन/ए वार्ड न.-06, पटानकोट, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	16.07.1987
1495	आदीश बलौरिया / श्री आर.एस. बलौरिया	पीबीएसवीसी / 3373 / 15	एचबी न. 381, ग्राम-छटवाल, तहसील-पटानकोट, गुरदासपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	25.03.1990
1496	सुप्रीत सिंह ढिल्लों / श्री निशान सिंह	पीबीएसवीसी / 3374 / 15	गिल स्ट्रीट, तलवंडी रोड, जिरा जिला- फिरोजपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	27.03.1992
1497	कमल जीत / श्री सीता राम	पीबीएसवीसी / 3375 / 15	वार्ड न.-22, स्ट्रीट न.-1, रामदेव मंदर के पास, गांधी बस्ती, कोटकापुरा, जिला- फरीदकोट-151204, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	08.08.1992
1498	अमनप्रीत सिंह / श्री कृष्ण सिंह	पीबीएसवीसी / 3376 / 15	बारेटा, तहसील-बुधलादा, जिला- मनसा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	23.12.1990
1499	संजम सिंह / श्री कुलीप सिंह	पीबीएसवीसी / 3377 / 15	9 / 17, पीएयू, लुधियाना- 140001, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	14.04.1991
1500	इकबाल सिंह / श्री जगतार सिंह	पीबीएसवीसी / 3378 / 15	बीएसएनएल टावर के निकट, दशमेश नगर, मुल्लनपुर, मुल्लन पुर मंडी, लुधियाना, लुधियाना (पश्चिम)-141101, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	16.03.1991
1501	विनय कुमार / श्री राम सिंह	पीबीएसवीसी / 3379 / 15	ग्राम- साहले चक, तहसील एवं जिला-गुरदासपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	10.12.1991
1502	जतिन्दर पाल सिंह / श्री राम सिंह	पीबीएसवीसी / 3380 / 15	म.न.-322, ग्राम- उग्रहन, तहसील-सुनाम, जिला- संगरूर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	28.03.1991
1503	हरसुवेग सिंह / श्री बलजीत सिंह	पीबीएसवीसी / 3381 / 15	ग्राम- मुस्तफाबाद, तहसील- बस्ती पटानन, जिला- फतेहगढ़, साहिब, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	05.05.1990

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1504	जानेश एम. कौर / श्री तेज बाल सिंह	पीबीएसवीसी / 3382 / 15	म.न.: 296, सेक्टर-10, चंडीगढ़, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	05.06.1992
1505	कमल प्रीत सिंह / श्री बलदेव सिंह	पीबीएसवीसी / 3383 / 15	ग्राम- राजपुरा, डाक- सरना स्टेशन (रेलवे), तहसील	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस / 2013	15.05.1990
1506	योगेश / श्री राज कुमार	पीबीएसवीसी / 3384 / 15	म.न.:बी-4, 889, स्ट्रीट न.-13, नई आबादी, बड़ा पुल, तहसील -अबोहर, सरकारी बीज फार्म, जिला-फाजिल्का, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	26.11.1993
1507	सिमरतबीर सिंह / श्री नरिन्दर पाल सिंह गिल	पीबीएसवीसी / 3385 / 15	ग्राम एवं डाक- फुल्लु खेरा, तहसील-मलौत, जिला-श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस / 2014	11.11.1990
1508	हरजाप सिंह / श्री सुचैन सिंह	पीबीएसवीसी / 3386 / 15	ग्राम- रातुल बेट, तहसील- जिरा, जिला-फिरोजपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस / 2014	16.07.1989
1509	गुरुमुख सिंह / श्री जय सिंह	पीबीएसवीसी / 3387 / 15	ग्राम- अलगोन कोठी, तहसील- पट्टी, जिला- तरन तारन, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस / 2012	05.08.1989
1510	अमृत सिंह / श्री रणजीत सिंह	पीबीएसवीसी / 3388 / 15	ग्राम-फैजगढ़, डाक-हिमताना, तहसील-मलेरकोटला, जिला- संगरूर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	13.04.1989
1511	संदीप सिंह / श्री भविशन सिंह	पीबीएसवीसी / 3389 / 15	ग्राम-साधुवाला, तहसील- सरदूल गढ़, जिला-मनसा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस / 2014	10.01.1992
1512	महिन्दर सिंह / श्री हरजिंदर सिंह	पीबीएसवीसी / 3390 / 15	वार्ड न.-8, फतेहगढ़ चुरियन, तहसील-सरदलगढ़, जिला- मनसा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस / 2014	02.09.1991
1513	सरप्रीत सिंह संधु / श्री अमरजीत सिंह	पीबीएसवीसी / 3391 / 15	म.न.: 1425, शहजादा नगर, जिरा, तहसील-जिरा, जिला- फिरोजपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस / 2014	21.01.1991
1514	अमनदीप सिंह सिरारी / श्री बलवंत सिंह	पीबीएसवीसी / 3392 / 15	म.न.: -19, विकास विहार, फेज- 2, विशाल डेशी के निकट, फिरोजपुर सिटी, तह. व जिला- फिरोजपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस / 2013	14.06.1989
1515	खुशामीत कौर / श्री कुलदीप सिंह बरार	पीबीएसवीसी / 3393 / 15	म.न.: 19498, स्ट्रीट न.-3, अजीत रोड, भटिंडा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस / 2013	02.11.1989
1516	हरकमल सिंह / श्री तरसेम चंद	पीबीएसवीसी / 3394 / 15	म.न.: बी 11 / 1718, शक्ति नगर, स्ट्रीट न. - 1, बरनाला- 148101, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस / 2013	18.09.1987
1517	अंकित नारंग / श्री अशोक नारंग	पीबीएसवीसी / 3395 / 15	म.न.: -बी-1653, कैलाश नगर, स्ट्रीट-20, फाजिल्का- 152123, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस / 2012	01.11.1989
1518	दरलीन कौर ग्रेवाल / श्री दलबीरसिंह ग्रेवाल	पीबीएसवीसी / 3396 / 15	230, मॉडल हाउस, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस / 2012	27.02.1990
1519	प्रतीक शर्मा / श्री सत पाल	पीबीएसवीसी / 3397 / 15	शर्मा इंजीनियरिंग वर्क्स, गुरुद्वारा चौक के निकट, मनसा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस / 2012	01.01.1989
1520	अनु धीमन / श्री राज कुमार	पीबीएसवीसी / 3398 / 15	602, अर्बन एस्टेट, कपूरथला (रूरल), कपूरथला, पंजाब- 144601, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एएसयू / 2015	23.09.1990
1521	दीपिन्दर सिंह / श्री हरचरन जीत सिंह	पीबीएसवीसी / 3399 / 15	ग्राम एवं डाक- बांदी, तहसील एवं जिला- भटिंडा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस / 2014	27.01.1990
1522	अज्ञापाल सिंह / श्री प्रीतम सिंह	पीबीएसवीसी / 3400 / 15	म.न.: -78-ए, ग्राम- मलकपुर भीमरा, मनसा, उददत सैदेवाला, पंजाब-151503, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस / 2014	23.05.1992
1523	नाजनीन अटवाल / श्री त्रिशन सिंह अटवाल	पीबीएसवीसी / 3401 / 15	अटवाल, मालको, मालको तरार, जालंधर, जालंधर- I, पंजाब- 144026	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस / 2014	21.03.1989
1524	मनवीर सिंह नाहल / श्री जसविंदर सिंह नाहल	पीबीएसवीसी / 3402 / 15	डाक- करतारपुर, हसन मुंडा, जालंधर, पंजाब- 144801, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस / 2012	22.08.1988
1525	रसमीक कौर बरार / श्री हरजिंदर सिंह बरार	पीबीएसवीसी / 3403 / 15	19672, गली न.-9-ए, वार्ड न. 15, अजीत रोड, भटिंडा सिटी, भटिंडा पंजाब-151005, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस / 2013	11.03.1991
1526	मनिंदर जीत सिंह शताब / श्री सुरजीत सिंह शताब	पीबीएसवीसी / 3404 / 15	माई गोदरी लीर मल कॉलोनी, कोटकापुरा रोड, फरीदकोट, जिला- फरीदकोट, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस / 2013	20.12.1991

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1527	मोहिंदर पाल सिंह / श्री भगवंत सिंह	पीबीएसवीसी / 3405 / 15	बांगेहर पट्टी, धनौला, बरनाला- 148105, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस / 2013	23.02.1990
1528	राजदीप बरार / श्री मनजीत सिंह	पीबीएसवीसी / 3406 / 15	म.न.- 23979, स्ट्रीट न.-16 / 1, धोबियाना रोड, भटिंडा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस / 2013	03.06.1990
1529	गुरविंदर सिंह / श्री गुरमेल सिंह	पीबीएसवीसी / 3407 / 15	ग्राम- महान भददर, तहसील- श्री मुक्तसर साहिब, जिला- श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस / 2013	07.10.1989
1530	जय शिव / श्री वेद प्रकाश	पीबीएसवीसी / 3408 / 15	शिवालिक स्कूल के निकट, वार्ड न.-4, शहीद भगतसिंह कॉलोनी, जालाबाद वेस्ट, जिला- फाज़िल्का-152024, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस / 2013	12.09.1989
1531	सुहेल लियाकत / श्री लियाकत अली फारुकी	पीबीएसवीसी / 3409 / 15	मुहल्ला अराइन चौधरियां वाला, सरहिंदी गेट के भीतर, मलेरकोटला, जिला-संगरूर- 148023, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एसयू / 2015	14.11.1988
1532	पूनम बावा / श्री मनोहर दास	पीबीएसवीसी / 3411 / 15	म.न.-16944, स्ट्रीट न.-1, वसंत विहार, जिला-भटिंडा- 151001, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस / 2013	17.12.1989
1533	अजयपाल सिंह काहलोन / श्री सतनाम सिंह काहलोन	पीबीएसवीसी / 3412 / 15	म.न.: 16, करन विहार, डायमंड एवेन्यू के निकट, लेन-4, मजीटा रोड, अमृतसर-143101, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एसयू / 2015	14.10.1992
1534	अमनदीप कौर गिल / श्री बूटा सिंह गिल	पीबीएसवीसी / 3413 / 15	बूटा सिंह गिल, पुत्र श्री केहर सिंह, ग्राम एवं डाक- साधा सिंह वाला, तहसील एवं जिला- मोगा-142048, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एसयू / 2015	21.03.1991
1535	आशीष गुप्ता / श्री अनिल कुमार गुप्ता	पीबीएसवीसी / 3414 / 15	234 / 7, बाबा राम सिंह कॉलोनी, सर्कुलर रोड, नामा जिला पटियाला-147201, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एसयू / 2015	02.06.1993
1536	भुपिन्दर सिंह / श्री गुरचरन सिंह	पीबीएसवीसी / 3415 / 15	ग्राम-झाल, डाक-अमरगढ़, तहसील- मलेरकोटला, जिला- संगरूर- 148022, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एसयू / 2015	04.09.1991
1537	चंदनदीप कौर / श्री कंस सिंह	पीबीएसवीसी / 3416 / 15	ग्राम- चानकोइयां खुर्द, डाक- दोराहा, तहसील- पयाल, जिला -लुधियाना-141421, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एसयू / 2015	17.09.1989
1538	दिलप्रीत सिंह अटवाल / श्री हरजीत सिंह अटवाल	पीबीएसवीसी / 3417 / 15	म.न.: 4701, ग्रीन एवेन्यू, तहसील-नकोदर, जिला- जालंधर-144040, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एसयू / 2015	11.09.1990
1539	गुरचरन सिंह / श्री हकीक सिंह	पीबीएसवीसी / 3418 / 15	मन्ना पिंडी, बरनाला रोड, धनौला, जिला- बरनाला- 148105, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एसयू / 2015	17.09.1989
1540	गुरप्रीत सिंह / श्री रूप सिंह	पीबीएसवीसी / 3419 / 15	ग्राम-लल्लोन खुर्द, तहसील- अमलोह, डाक-शम्सपुर, जिला- फतेहगढ़ साहिब-147203, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एसयू / 2015	02.02.1992
1541	हरदिलवर प्रीत सिंह / श्री हरनेक सिंह	पीबीएसवीसी / 3420 / 15	म.न.: 230, गली न.-1, अमरपुरा मौहल्ला, वार्ड न.-1, अहमदगढ़, संगरूर, पंजाब-148021	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एसयू / 2015	01.06.1991
1542	हरमन प्रीत सिंह / श्री लकविंदर सिंह	पीबीएसवीसी / 3421 / 15	म.न.: 147, ग्राम व डाक- होशियार नगर, तहसील व जिला - अमृतसर- 143001, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एसयू / 2015	06.06.1992
1543	हरमनप्रीत सिंह सोढी / श्री नरजीत सिंह सोढी	पीबीएसवीसी / 3422 / 15	म.न.: 131, गली न.-2, आनंद नगर, मोगा- 142001, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एसयू / 2015	19.11.1991
1544	हरमीत सिंह संधु / श्री दिलबाग संधु	पीबीएसवीसी / 3423 / 15	म.न.: 65, गुरु तेग बहादुर नगर, पुराना कैंट रोड, तारा प्लेस के निकट, फरीदकोट-151203, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एसयू / 2015	06.08.1991
1545	हरप्रीत सिंह / श्री अमरजीत सिंह	पीबीएसवीसी / 3424 / 15	ग्राम एवं डाक- नौशेरा पन्नुआन पट्टी, रिसाल्की, तह. व जिला- तरन तारन-143401, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एसयू / 2015	01.01.1990
1546	हर्षदीप कौर / श्री परमिंदर सिंह	पीबीएसवीसी / 3425 / 15	ग्रीन एवेन्यू, अमृतसर बाईपास के निकट, जिला- तरन तारन- 143401, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एसयू / 2015	27.06.1991

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1547	हृदय पाल सिंह/ श्री रनजीत सिंह	पीबीएसवीसी/3426 / 15	177, गोल्डन एवेन्यू, फेज़-1, जालंधर सिटी- 144022, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ जीएडीवी एसयू/2015	16.05.1992
1548	जयदीप कौर/ श्री हरदीप सिंह काहलोन	पीबीएसवीसी/3427 / 15	म.न.: -5, जवाहर एन्कलेव, मीरपुर मोड़, जेल रोड, गुरदासपुर- 143521, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ जीएडीवी एसयू/2015	06.02.1992
1549	जपिंदर सिंह/ श्री रनजीत सिंह	पीबीएसवीसी/3428 / 15	ग्राम-वरियाच, तहसील- अमलोह, जिला-फतेहगढ़ साहिब-147203, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ जीएडीवी एसयू/2015	01.06.1992
1550	जसमीन कौर/ श्री हरभजन सिंह	पीबीएसवीसी/3429 / 15	ग्राम-भांगेवाला, डाक-सीरवाला, तहसील-मुक्तसर, जिला मुक्तसर साहिब-152026, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ जीएडीवी एसयू/2015	03.12.1992
1551	जसप्रीत सिंह ग्रेवाल/ श्री गुरजिंदर सिंह ग्रेवाल	पीबीएसवीसी/3430 / 15	म.न.: - 14629, बी-31, टिब्बा रोड, लुधियाना-141001, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ जीएडीवी एसयू/2015	03.02.1992
1552	जोबनजीत सिंह/ श्री जसवंत सिंह	पीबीएसवीसी/3431 / 15	ग्राम एवं डाक-खीचन, तहसील - बाबा बकाला साहिब, जिला- अमृतसर-143111, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ जीएडीवी एसयू/2015	26.10.1991
1553	जुगराज सिंह महाल/ श्री कुलविंदर सिंह	पीबीएसवीसी/3432 / 15	अजीत एस्टेट, ग्राम एवं डाक- सुल्तानविंद, जिला-अमृतसर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ जीएडीवी एसयू/2015	19.08.1991
1554	कंवरपाल सिंह/ श्री बलविंदर सिंह	पीबीएसवीसी/3433 / 15	ग्राम एवं डाक-अड्डा चबाल, मिखीलविंद रोड, जिला- तरन तारन- 143001, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ जीएडीवी एसयू/2015	26.11.1992
1555	कुलवंत सिंह/ श्री माघर सिंह	पीबीएसवीसी/3434 / 15	वार्ड न.-11, म.न.: -236, करतार सिंह, अमलोह रोड के निकट, खन्ना, जिला- लुधियाना- 141401, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ जीएडीवी एसयू/2015	15.11.1990
1556	लखवीर सिंह/ श्री राजवंत सिंह	पीबीएसवीसी/3435 / 15	ग्राम एवं डाक- साफू वाला, तहसील एवं जिला-मोगा- 142048, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ जीएडीवी एसयू/2015	18.01.1984
1557	मलकीत सिंह/ श्री आत्मा सिंह	पीबीएसवीसी/3436 / 15	ग्राम एवं डाक- अमीनवाला, तहसील-धरमकोट, जिला- मोगा- 142042, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ जीएडीवी एसयू/2015	25.01.1992
1558	मनप्रीत सिंह भिंडर/ श्री दया सिंह	पीबीएसवीसी/3437 / 15	ग्राम-डेरवाली, डाक- पड़डी, तहसील- बटाला, जिला- गुरदासपुर- 143514, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ जीएडीवी एसयू/2015	24.11.1991
1559	नरिपजीत कौर/ श्री गुरबिंदर सिंह	पीबीएसवीसी/3438 / 15	ग्राम- मदाहर कलां, डाक- बारीवाला, जिला- श्री मुक्तसर साहिब-152025	बीवीएससीएंडएच/ जीएडीवी एसयू/2015	18.11.1992
1560	नवजोत सिंह सिद्धू/ श्री बलदेव सिंह	पीबीएसवीसी/3439 / 15	म.न.: 364/32, सीडी-2, आतम नगर, जगरांव जिला, लुधियाना-142026, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ जीएडीवी एसयू/2015	14.02.1993
1561	नवरोज संघा/ श्री सुरजीत सिंह	पीबीएसवीसी/3440 / 15	ग्राम- बीर भोलू वाला, डाक -पाखी कलां, तह. व जिला -फरीदकोट-151203, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ जीएडीवी एसयू/2015	29.08.1992
1562	नेहा जोशी/ श्री विजय कुमार जोशी	पीबीएसवीसी/3441 / 15	केआरजे डीएवी पब्लिक स्कूल के सामने, डिफेंस कॉलोनी, करतारपुर रोड, कपूरथला -144601, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ जीएडीवी एसयू/2015	28.02.1992
1563	परमप्रीत सिंह वालिया/ श्री चरनजीत सिंह वालिया	पीबीएसवीसी/3442 / 15	म.न.: 10/81, पीएचू कैम्पस, पंजाब कृषि विवि, लुधियाना -141004, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ जीएडीवी एसयू/2015	20.05.1988
1564	परमप्रीत सिंह/ श्री जसबीर सिंह	पीबीएसवीसी/3443 / 15	ग्राम एवं डाक- घनौली, तहसील एवं जिला-रूप नगर- 140113, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ जीएडीवी एसयू/2015	28.02.1993
1565	परमिंदर सिंह/ श्री बलजिंदर सिंह	पीबीएसवीसी/3444 / 15	ग्राम-सैदपुर, डाक- लंडरान, जिला-एसएस नगर -140307, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ जीएडीवी एसयू/2015	09.01.1991
1566	रजत बेदी/ श्री ईश बेदी	पीबीएसवीसी/3445 / 15	115-1, सराभा नगर, लुधियाना- 141001, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ जीएडीवी एसयू/2015	22.04.1991
1567	रशपाल सिंह/ श्री माखन सिंह	पीबीएसवीसी/3446 / 15	म.न.: बी-13/1788, स्ट्रीट न. 8, लखी कॉलोनी, बरनाला -148101, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ जीएडीवी एसयू/2015	01.11.1990
1568	रेवल प्रीत सिंह/ श्री गुरपाल सिंह	पीबीएसवीसी/3447 / 15	ग्राम व डाक-खानुवान, म.न.: -49, होशियार सिंह कॉलोनी, बस स्टैंड के पास, जिला- गुरदासपुर-143528, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ जीएडीवी एसयू/2015	03.03.1993

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1569	रोहित / श्री जे.बी. अग्रवाल	पीबीएसवीसी / 3448 / 15	म.न.:124,संचार कॉलोनी, भाई रणधीर सिंह नगर, ब्लॉक-डी, लुधियाना-141001, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीए एसयू / 2015	29.12.1991
1570	संदीप सिंह / श्री रणधीर सिंह	पीबीएसवीसी / 3449 / 15	78, आदर्श नगर, राम तीरथ रोड, अमृतसर-143001, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीए एसयू / 2015	15.08.1991
1571	सतवीर सिंह / श्री इकबाल सिंह	पीबीएसवीसी / 3450 / 15	लेहना पट्टी, ग्राम एवं डाक- पाखोवाल, जिला- लुधियाना- 141108, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीए एसयू / 2015	05.11.1989
1572	शन्नदीप सिंह काहलोन / श्री हरिन्दर पाल सिंह काहलोन	पीबीएसवीसी / 3451 / 15	ए-2, म.न.: 96, एनआरआई कॉलोनी, लोहारका रोड, रणजीत विहार, अमृतसर-143001, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीए एसयू / 2015	25.11.1991
1573	शिखा रानी / श्री महिन्दर पाल	पीबीएसवीसी / 3452 / 15	जीएनसी रोड, पीर खाने के सामने, बुधलादा, जिला- माना-151502, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीए एसयू / 2015	03.03.1990
1574	सिमरन जीत / श्री राम प्रकाश	पीबीएसवीसी / 3453 / 15	म.न.: 1041 बी, प्रताप नगर, अमृतसर-143001, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीए एसयू / 2015	20.05.1991
1575	वीरपाल कौर / श्री हरचंद सिंह	पीबीएसवीसी / 3454 / 15	ग्राम एवं डाक- हर्षा चिन्ना, तहसील-अजनाला, जिला- अमृतसर-143001, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीए एसयू / 2015	24.10.1992
1576	मिथुन कपूर / श्री सी.डी. कपूर	पीबीएसवीसी / 3455 / 15	म.न.:ई-590, रणजीत एवेन्च्यु, अमृतसर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस / 2014	14.01.1987
1577	कमल कुमार / श्री शिव चरन दास	पीबीएसवीसी / 3456 / 15	वार्ड न.-18, कुकु की दूकान के पास, पुरानी फैंक्ट्री रोड, कोटकपुरा, फरीदकोट, पंजाब -151204, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस / 2014	30.09.1991
1578	सिमरन के. भुल्लर / श्री बी.एस. भुल्लर	पीबीएसवीसी / 3457 / 15	3, बाबा फरीद कॉम्प्लेक्स, 'ए' मोगा-142001, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीए एसयू / 2015	15.10.1991
1579	सुश्री प्राची सेठ / श्री राहुल सेठ	पीबीएसवीसी / 3458 / 15	पत्नी श्री कुनाल सेठ, 322, आई.वी.वाई. हॉस्पिटल, सेक्टर -71, एसएस नगर (मोहाली) - 160071, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / दकचअअध 2012	18.09.1986
1580	नीरज पराशर / श्री नंद लाल शर्मा	पीबीएसवीसी / 3460 / 15	14, जैन नगर, अम्बाला कैंट, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / एचएयू / 1976	22.02.1955
1581	मनोज कुमार / श्री हरपॉल कुमार	पीबीएसवीसी / 3461 / 15	गांधी बस्ती, गली न.-4, कोटकापुरा जिला, फरीदकोट, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीए एसयू / 2015	07.09.1991
1582	रिधिमा देमरा / श्री दर्शन कुमार देमरा	पीबीएसवीसी / 3464 / 15	1994, खेता राम स्ट्रीट, मुक्तसर- 152026, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीए एसयू / 2015	15.06.1991
1583	हरलीन कौर ढिल्लों / श्री परगट सिंह ढिल्लों	पीबीएसवीसी / 3465 / 15	म.न.:28, पीएच-3, अर्बन एस्टेट, डुगरी, बसंत एवेन्च्यु, लुधियाना-141013, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीए एसयू / 2015	26.01.1991
1584	पुष्पिंदर सिंह / श्री सुखदेव सिंह	पीबीएसवीसी / 3466 / 15	म.न.:128, फुल टाउन, रामपुरा फुल, तहसील- रामपुरा फुल, जिला-भटिंडा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीए एसयू / 2015	21.02.1992
1585	गगनदीप सिंह / श्री इंदरजीत सिंह	पीबीएसवीसी / 3468 / 15	क्वा.न.:1142, यूटी3,सेक्टर-3, तलवारा टाउनशिप, तलवारा, होशियारपुर- 144216, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 2008	05.09.1985
1586	वीरमपाल सिंह / श्री करनैल सिंह	पीबीएसवीसी / 3470 / 15	बीएसएफ कैम्पस, गुरदासपुर, तहसील एवं जिला- गुरदासपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / एसकेयूएस सटी / 2011	04.07.1988
1587	इंदर पाल सिंह / श्री मान सिंह	पीबीएसवीसी / 3472 / 16	द्वारा श्री गुरमीत सिंह, म.न.: 214 / बी, गली न.-9, सतगुरु राम सिंह कॉलोनी, नया मोहिनी पार्क, खालसा कॉलेज के सामने, अमृतसर-1, पंजाब -143002	बीवीएससीएंडएच / एसकेयूएस सटी / 2010	21.03.1987
1588	निताशा सम्बयाल / श्री सुशील सिंह सम्बयाल	पीबीएसवीसी / 3473 / 16	म.न.: - 1690, इस्लामाबाद, अमृतसर, जी.पी. ओ., अमृतसर -143001, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / एसकेयूएस सटी / 2010	14.09.1986
1589	अविनाश नीरज / श्री नीरज कुमार	पीबीएसवीसी / 3474 / 16	कृष्णा गली, दाना मंडी, गुरदासपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / एसकेयूएस सटी / 2012	18.04.1990
1590	प्रीत पाल सिंह / श्री हरवंत सिंह	पीबीएसवीसी / 3476 / 16	म.न.: 583, मॉडल ग्राम, लुधियाना, पंजाब-141002	बीवीएससीएंडएच / पीएयू / 1989	08.01.1967
1591	कमलप्रीत सिंह / श्री सुरजीत सिंह	पीबीएसवीसी / 3478 / 16	इम्पूवमेंट ट्रस्ट कॉलोनी, सिंघा वाला रोड, मोगा, तहसील एवं जिला- मोगा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीए एसयू / 2016	08.12.1988

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1592	साहिल कुमार / श्री लाल चंद मास्टर	पीबीएसवीसी / 3479 / 16	बी: 32 ई 14 / 7892, भारती कॉलोनी, बहादुर के रोड, मनु मेडिकल स्टोर के निकट, लुधियाना-141007, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवी वी / 2010	09.05.1986
1593	मानिक शर्मा / श्री देव राज शर्मा	पीबीएसवीसी / 3481 / 16	शहर धारीवाल, डाक- धारीवाल, तहसील एवं जिला- गुरदासपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / एसकेआर एयू / 2012	26.02.1990
1594	के. सुंदीरेसन, पुत्र श्री कन्नन	पॉण्डीएसवीसी / 384 / 15	न. 37, ईस्ट कार स्ट्रीट, विलियानूर, पुडुचेरी- 605110	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2012	05.09.1987
1595	ए. कार्थिकेयन, पुत्र श्री अंबाजगान	पॉण्डीएसवीसी / 385 / 15	न. 47, 11 क्रॉस, मुगमबिगई नगर, रेडियारपलायम, पुडुचेरी -605010	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2012	18.03.1991
1596	आर. ईयप्पन, पुत्र श्री राजेंदिरन	पॉण्डीएसवीसी / 386 / 15	न.-9, ईस्ट मनावेली स्ट्रीट, कालीथीर्थलकुप्पम, पुडुचेरी- 605107	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2014	26.11.1990
1597	ए. अरुण भारथी, पुत्री श्री ए. अरुणाचलम	पॉण्डीएसवीसी / 387 / 15	न.-5, अरुणगिरि चेट्टी स्ट्रीट, मुथियलपेट, पुडुचेरी -605003	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2014	15.06.1993
1598	सी. प्रसाद, पुत्र श्री चक्रवर्थी	पॉण्डीएसवीसी / 388 / 15	न.-67, कूडालोर रोड, थिरुमुवनई पलायम, पुडुचेरी- 605107	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2014	4.12.1991
1599	आर. रवि कुमार / पुत्र श्री रविचंद्रन	पॉण्डीएसवीसी / 389 / 15	न.-47, वनोली स्ट्रीट, काट्टेरीकुप्पम, पुडुचेरी- 605502	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2014	19.04.1993
1600	ए. थेन्नावन, पुत्र श्री अरुमुगम	पॉण्डीएसवीसी / 390 / 15	न.-3, चिन्नावीरम पट्टिनम स्ट्रीट, ओडेवेली, अरियनकुप्पम, पुडुचेरी-605007	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2014	24.12.1992
1601	एम. सथ्या मूर्थि, पुत्र श्री माजिनी	पॉण्डीएसवीसी / 391 / 15	न.-8, कामराज स्ट्रीट, अलनकुप्पम, पुडुचेरी- 605111	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2014	05.09.1991
1602	बी. सुब्रमण्यम / श्री बास्करन	पॉण्डीएसवीसी / 392 / 15	न.-48, थिरुवल्लुवर स्ट्रीट, दीवान, कंडप्पा नगर, नयनार मंडपम, पुडुचेरी- 605004	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2014	14.09.1992
1603	वी.आरथी, पुत्री श्री ए. वेदासलेम	पॉण्डीएसवीसी / 393 / 15	न.-16, विवेकानंद स्ट्रीट, कोट्टईमेडु, विलियानूर, पुडुचेरी- 605110	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2014	19.01.1993
1604	वी. जयालक्ष्मी, पुत्री श्री वासु	पॉण्डीएसवीसी / 394 / 15	न.-17, अली स्ट्रीट, सोलई नगर, मुथैया मुदलियार स्ट्रीट, मुथियलपेट, पुडुचेरी-605003	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2014	05.07.1993
1605	आर. संधाना लक्ष्मी, पुत्री श्री रामचंद्रन	पॉण्डीएसवीसी / 395 / 15	न. 37, साउथपेट, नेरावी, करईकल, पुडुचेरी- 609604	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2014	25.02.1991
1606	जे. मनिमगलई, पुत्री श्री ज्याथि वैथियानाथन	पॉण्डीएसवीसी / 396 / 15	न.-61, मुथैया मुदलियार स्ट्रीट, मुथियलपेट, पुडुचेरी- 605003	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2014	29.01.1992
1607	के. विजयलक्ष्मी, पुत्री श्री केनेडी	पॉण्डीएसवीसी / 397 / 15	न.-53, नॉर्थ स्ट्रीट, सेथौर डाक, वी. कोट्टापडी, थेनांगुफी, करईकल, पुडुचेरी- 609607	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2014	15.06.1993
1608	आर. रमादेवी, पुत्री श्री अरिहरांस	पॉण्डीएसवीसी / 398 / 15	न.-47, पूर्णनकुप्पम स्ट्रीट, सुबइयाह नगर, अरियनकुप्पम, पुडुचेरी- 605007	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2014	28.06.1993
1609	एस. राजलक्ष्मी, पुत्री श्री सुंदरामूर्थि	पॉण्डीएसवीसी / 399 / 15	न.-12, गंगईअम्मन कोइल स्ट्रीट, थट्टपचावडी, पुडुचेरी -605009	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2014	05.08.1990
1610	एम. सैथिलनाथन, पुत्र श्री मुरुगेसन	पॉण्डीएसवीसी / 400 / 15	न.-19, पिलईयर कोविल स्ट्रीट, थूडुपोनामोलई नेरावी, करईकल, पुडुचेरी-609604	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2014	28.12.1992
1611	के. अमरना, पुत्री श्री कासी	पॉण्डीएसवीसी / 401 / 15	न.-22, वेथापुरीनाथम, बाहौर, पुडुचेरी- 607402	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2014	08.09.1989
1612	विष्णुप्रिया, पुत्री श्री एम. उमेशन	पॉण्डीएसवीसी / 402 / 15	रामसरस एम.वी. 362 ए, थाथाकुलम, मंजक्कल, माहे, पुडुचेरी-605008	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2014	20.03.1991
1613	एस. कैथरिना फौरे, पुत्री श्री फौरे सगयाराडजा	पॉण्डीएसवीसी / 403 / 15	न.-76-ए, मरियम्मन कोविल स्ट्रीट, पॉलपेट, लॉसपेट, पुडुचेरी-605008	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2014	27.01.1991
1614	ई. करपागमबिगई, पुत्री श्री ए. इट्टियन	पॉण्डीएसवीसी / 404 / 15	न.-3, न्यू स्ट्रीट, सेलियामेडु, पुडुचेरी-607402	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2014	01.06.1984
1615	एच. हेमलथा, पुत्री श्री हरिकृष्णन	पॉण्डीएसवीसी / 405 / 15	न.-28, मरियम्मन कोइल स्ट्रीट, वजईकुलम, पुडुचेरी- 605012	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2014	03.01.1991

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1616	पी. तमिलमारन, पुत्र श्री पन्नेर सेल्वम	पॉण्डीएसवीसी / 406 / 15	न.-21, नादुकलमपेट, नेरावी, करईकल, पुडुचेरी- 609606	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2014	10.08.1990
1617	पी. हेमा, पुत्री श्री पंडियान	पॉण्डीएसवीसी / 407 / 15	न.-2, उधयम नगर, नेहरु नगर, कोइलपथु, करईकल, पुडुचेरी- 609605	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2014	24.05.1992
1618	जानीपल्ली निखिल कुमार तेज, पुत्र श्री जानीपल्ली सत्य नारायण	पॉण्डीएसवीसी / 408 / 15	न.-5-5-162, मेन रोड, दरियालथिप्पा, अदिवीप्पोलम रेवेन्चू ग्राम, सनम, पुडुचेरी- 533464	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2012	12.07.1990
1619	पोन्नडा श्रीदेवी, पुत्री श्री पी. सत्यनारायण	पॉण्डीएसवीसी / 409 / 15	न. 50(पुराना), अपस्टेयर्स, मेन स्ट्रीट, रामनापुरम, काडिरकमम डाक, पुडुचेरी- 605009	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डी विवि / 2014	11.07.1990
1620	सुरेश कुमार पलसानिया / श्री चौधमल पलसानिया	राजएसवीसी / 4449 / 15	वार्ड न.-18, धानी खिजु, रवाली, शाहपुरा, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	07.09.1990
1621	मानसिंह / श्री रूपचंद	राजएसवीसी / 4450 / 15	ग्राम एवं डाक-सुलखानिया बाड़ा, तहसील- राजगढ़, चुरु, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / केएफएस यू, बिदर / 2014	30.06.1987
1622	रामवीर सिंह / श्री भगवान सिंह	राजएसवीसी / 4451 / 15	ग्राम-हिसामदा, तहसील- वियर, जिला-भरतपुर, भरतपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / केएफएस यू, बिदर / 2014	10.08.1987
1623	पंकज कुमार मंगल / श्री भगवान सिंह	राजएसवीसी / 4452 / 15	द्वारा शिव इलेक्ट्रिकल्स, सुभाष मंडी, नीम का थाना, सीकर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / केएफएस यू, बिदर / 2014	21.01.1989
1624	राकेश कुमार चित्तोरा / श्री महावीर प्र. चित्तोरा	राजएसवीसी / 4453 / 15	ग्राम एवं डाक-नमाना, तहसील- बूंदी, जिला-बूंदी- 323022, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 2001	30.04.1977
1625	मोनिका शर्मा / श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा	राजएसवीसी / 4454 / 15	4-ए / 11, मल्टी स्टोरी प्लैट, गांधी नगर, टोंक रोड, जयपुर -302015, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एलएलयू वीएस, हिसार / 2013	04.05.1990
1626	महावीर चौधरी / श्री गुट्टी राम चौधरी	राजएसवीसी / 4458 / 15	म.न.: 42, सेक्टर-12, सर्व शिक्षा अभियान, हनुमानगढ़ जंक्शन- 335512, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / सीसीएस एचयू, हिसार / 2009	12.08.1981
1627	दिपिन चंद्र / श्री चंद्र पाल	राजएसवीसी / 4462 / 15	गुलाब मेमोरियल हॉस्पिटल, कुंड रोड, बहरोर, अलवर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एलएलयू वीएस, हिसार / 2013	05.07.1989
1628	जितेन्द्र कुमार / श्री मान सिंह	राजएसवीसी / 4464 / 15	गली न.-2, मोहता कॉलेज के बाई ओर, दुर्गा कॉलोनी, सदूलपुर, जिला-चुरु, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एलएलयू वीएस, हिसार / 2012	20.07.1987
1629	चेतना कुमारी / श्री राजेंद्र सिंह	राजएसवीसी / 4468 / 15	सेक्टर-05, सैनिक कॉलोनी, सर्किट हाउस के पीछे, जिला-चुरु, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एलएलयू वीएस, हिसार / 2012	05.11.1989
1630	अनिल कुमार अग्रवाल / श्री हीरा लाल अग्रवाल	राजएसवीसी / 4469 / 15	प्लॉट न.-08, गली न.-12, शारदा कॉलोनी, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एलएलयू वीएस, हिसार / 2013	03.09.1976
1631	संदीप कुमार सांगवान / श्री हरि किशन सांगवान	राजएसवीसी / 4472 / 15	एलबीएस स्कूल के निकट, तह.-भद्रा, जिला-हनुमानगढ़, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एलएलयू वीएस, हिसार / 2013	26.01.1986
1632	मयंक कुमार राठौड़ / श्री नंद लाल राठौड़	राजएसवीसी / 4473 / 15	22, व्यास कॉलोनी, एयरफोर्स मेन गेट, जोधपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एलएलयू वीएस, हिसार / 2011	26.09.1981
1633	प्रियन यादव / श्री सतवीर सिंह	राजएसवीसी / 4474 / 15	अशोका 50, अपना घर, शालीमार एक्स., अलवर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसए चएयू / 2009	12.08.1981
1634	रुचि शर्मा / श्री मोहन शर्मा	राजएसवीसी / 4475 / 15	7, जीएचए 25, जवाहर नगर, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू / 2013	23.01.1986
1635	राघवेंद्र शर्मा / श्री माता प्रसाद शर्मा	राजएसवीसी / 4476 / 15	मलानी हाउस, पुराना बस स्टैंड, रिंगस, तहसील-श्री माधोपुर, जिला-सीकर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2013	16.09.1973
1636	आशीष शर्मा / श्री राम नारायण	राजएसवीसी / 4478 / 15	ग्राम-डोंडा, तह.-झालारा पट्टन, जिला-झालावाड़, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवी वी / 2006	07.08.1977
1637	गणेश नारायण मीना / श्री लल्लू राम मीना	राजएसवीसी / 4479 / 15	नादा को का मोहल्ला, जामवा, रामगढ़, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवी वी / 2003	15.07.1984
1638	धर्मेन्द्र मीना / श्री वीरेंद्र सिंह मीना	राजएसवीसी / 4480 / 15	ई-3, पश्चिम विहार, केशोपुरा, अजमेर रोड, जयपुर -302024, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	10.10.1986

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1639	घनश्याम कोली / श्री इंद्र लाल	राजएसवीसी / 4481 / 15	दिल्ली गेट के बाहर, दीवान जी का बाग, अलवर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	27.12.1985
1640	मोहित शांडिल्य / श्री बृज भूषण शर्मा	राजएसवीसी / 4482 / 15	32, फ्रैंड्स कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	09.04.1989
1641	रावेंद्र सिंह / श्री गजेंद्र सिंह	राजएसवीसी / 4483 / 15	बारखेरा फौजदार, डाक- खाखावाली, तहसील- नगर, भरतपुर- 321205	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	25.06.1989
1642	अपराजिता जोहरी / श्री अमित सक्सेना	राजएसवीसी / 4484 / 15	70 / 194, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर-302020, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	18.04.1989
1643	अमित शर्मा / श्री महेश प्रसाद शर्मा	राजएसवीसी / 4485 / 15	33, निर्मल निवास, कनोटा, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	08.03.1989
1644	मनीष कुमावत / श्री कन्हैयालाल कुमावत	राजएसवीसी / 4486 / 15	343-बी, महावीर नगर-वाई, सांगानेर, जयपुर-302029, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	05.04.1988
1645	जितेंद्र कुमार मीना / श्री बलराम मीना	राजएसवीसी / 4488 / 15	ग्राम- झरोटी, तह.- वेडर, भरतपुर- 321615, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	08.07.1990
1646	नीरज कुमार शर्मा / श्री राजेंद्र कुमार शर्मा	राजएसवीसी / 4489 / 15	284, तिलक नगर, भरतपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	05.09.1989
1647	ओम प्रकाश नागर / श्री दौलत राम नागर	राजएसवीसी / 4490 / 15	ग्राम-राजपुरा, डाक- सलोटीया, थाना- पिडावा, झालावाड़-326513, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	05.07.1983
1648	सतीश चंद बैरवा / श्री डाल चंद बैरवा	राजएसवीसी / 4491 / 15	ग्राम एवं डाक- हुडला, तह.- महावा, दौसा- 321608, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	04.04.1989
1649	नरेंद्र कुमार मीना / श्री भंवर लाल मीना	राजएसवीसी / 4492 / 15	ग्राम एवं डाक-ढोलासरी, थाना-दंजारामगढ़, सीकर- 332703, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	27.01.1987
1650	परमल सिंह / श्री दयाल सिंह	राजएसवीसी / 4493 / 15	32, फ्रैंड्स कॉलोनी, कालगिरि आई अस्पताल के निकट, मालवीय नगर, जयपुर- 302017, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	13.07.1990
1651	कृष्ण कुमार सिंह / श्री घनश्याम सिंह	राजएसवीसी / 4494 / 15	39 / 228, पुष्प वाटिका कॉलोनी, ब्रज गैस गोदाम रोड, भरतपुर-321001, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	12.07.1989
1652	निशांत गौड़ / श्री अजय कुमार शर्मा	राजएसवीसी / 4495 / 15	दौजी प्रोवीजनल स्टोर, बरसन गेट, भरतपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	23.07.1991
1653	उमेश कुमार चौधरी / श्री अम्मीलाल	राजएसवीसी / 4496 / 15	91, द्रोणपुरी कॉलोनी, 200 फीट बाईपास रोड, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	23.03.1989
1654	मंगेश कुमार / श्री दुर्गा शंकर कुमावत	राजएसवीसी / 4497 / 15	सरला बिरला कल्याण मंडप के सामने, न्यू कॉलोनी, कुचामन सिटी, नागौर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	03.04.1991
1655	देवेंद्र कुमार / श्री देवी लाल	राजएसवीसी / 4498 / 15	ग्राम- भिंडी, डाक-जलोदा, तह.-के. पाटन, जिला-बूंदी, राजस्थान-323301, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	03.02.1987
1656	अरविंद जटावत / श्री शिव लाल जटावत	राजएसवीसी / 4499 / 15	अम्बेडकर नगर, वार्ड न.-17, रिंगस, सीकर, राजस्थान- 332404	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	10.07.1984
1657	सुनील राजोरिया / श्री सुरेश चंद	राजएसवीसी / 4500 / 15	61, एस.एम.एस. कॉलोनी, ब्लॉक -बी, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान-302020	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	22.12.1990
1658	रोहित कुमार तिवारी / श्री रामावतार शर्मा	राजएसवीसी / 4501 / 15	अशोक नगर, सेक्टर-1, विनायक स्कूल के निकट, दौसा, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	01.04.1992
1659	बुजेश नंदा / श्री ओम प्रकाश	राजएसवीसी / 4502 / 15	डी-12, रामनगर विस्तार, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	20.12.1991
1660	रवि कुमार देवतवाल / श्री मुकेश कुमार देवतवाल	राजएसवीसी / 4503 / 15	रेलवे स्टेशन रोड, ग्राम पंचायत के निकट, बस्सी, जयपुर, राजस्थान- 303301	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	01.01.1989
1661	योगेश कुमार / श्री राम लाल	राजएसवीसी / 4504 / 15	ग्राम एवं डाक- बिरोदी छोटी, तहसील- लक्ष्मनगढ़, जिला- सीकर, राजस्थान-332316	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	01.07.1990
1662	आशीष सैनी / श्री हनुमान सहाय सैनी	राजएसवीसी / 4505 / 15	13-श्याम कॉलोनी, गंगापोल गेट के बाहर, बदनपुरा, जयपुर, राजस्थान-302002	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	29.08.1991

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1663	रघुवीर कुमार तेली / श्री गोपाल लाल तेली	राजएसवीसी / 4506 / 15	ग्राम व डाक-पंडेर, तहसील -जहाजपुर, जिला-भीलवाड़ा, राजस्थान- 311202	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	02.10.1989
1664	सिद्धार्थ कुमार / श्री अशोक कुमार	राजएसवीसी / 4507 / 15	127, विजय नगर, अलवर, राजस्थान-301001, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	01.11.1989
1665	पंकज बेनीवाल / श्री नेमी चंद बेनीवाल	राजएसवीसी / 4508 / 15	कुआ स्टैंड, डाक-डेरवाला, वाया-नुआ, झुंझुनू, राजस्थान -333041	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	28.12.1992
1666	श्रवण कुमार मील / श्री मंगु राम मील	राजएसवीसी / 4509 / 15	ग्राम एवं डाक-ठीकरिया, वाया-बाओरी, जिला- सीकर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	15.08.1984
1667	सुनील दत्त चौधरी / श्री सागर मल मंगावा	राजएसवीसी / 4510 / 15	धानी-मंगावाली, बगरियावास, तह.- श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	24.07.1989
1668	सुरेश सिंह / श्री जीवन सिंह	राजएसवीसी / 4511 / 15	ग्राम-अधड़या खुर्द, डाक- खान, तहसील- कुम्हेर, भरतपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	20.07.1991
1669	महेंद्र पाल पूनिया / श्री रत्न राम पूनिया	राजएसवीसी / 4512 / 15	ग्राम- नोजाला की धानी, डाक- कोलिया, तह.-डिडवाना, नागौर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	02.03.1990
1670	रवि रमन / श्री बनवारी लाल रमन	राजएसवीसी / 4513 / 15	32, पूनम विहार कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	10.07.1988
1671	राकेश कुमार / श्री छज्जु राम चौधरी	राजएसवीसी / 4514 / 15	धानी-जटवाली, भैंसलाना, कोटपुतली, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	31.12.1989
1672	खुशीराम यादव / श्री देशराज यादव	राजएसवीसी / 4515 / 15	7 / 26, मालवीय नगर, जयपुर -302017, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	22.09.1990
1673	हितेश कुमार वशिष्ठ / ईश्वरी प्रसाद शर्मा	राजएसवीसी / 4516 / 15	ग्राम एवं डाक-नवाली, तह.- बयाना, भरतपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	28.06.1990
1674	शैलेंद्र कुमार यादव / श्री मूल चंद यादव	राजएसवीसी / 4517 / 15	ग्राम एवं डाक-बनार, तहसील -कोटपुतली, जयपुर-303015, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	09.07.1988
1675	नवीन कुल्हारी / श्री कमलेश कुमार कुल्हारी	राजएसवीसी / 4518 / 15	85, पोस्ट ऑफिस, बिंजुसर, झुंझुनू, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	10.06.1989
1676	सुखवीर सिंह / श्री राम निवास	राजएसवीसी / 4519 / 15	ग्राम-दूमरा का वास, तह.- नवलगढ़, झुंझुन-333707, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	25.06.1992
1677	नेहा गौर / श्री अजय कुमार शर्मा	राजएसवीसी / 4520 / 15	दाउजी प्राविजनल स्टोर, बासन गेट, भरतपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	17.07.1991
1678	बलराम / श्री रघुनाथ प्रसाद	राजएसवीसी / 4521 / 15	47-बी, बाहुबली नगर, निवारु रोड, झोतवाड़ा, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	17.08.1985
1679	दिलीप कुमार लबना / श्री बालचंद लबना	राजएसवीसी / 4522 / 15	ग्राम / डाक- डुंगरा बाड़ा, तहसील- सज्जनगढ़, जिला- बांसवाड़ा, राजस्थान-327602	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	08.04.1986
1680	प्रवीन पिलानिया / श्री विद्याधर पिलानिया	राजएसवीसी / 4523 / 15	किशन कॉलोनी, नवलगढ़ रोड, सीकर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	11.02.1990
1681	निशांत, पुत्र श्री थान सिंह	राजएसवीसी / 4524 / 15	ग्राम / डाक-कासोट, तह.- डीग, जिला-भरतपुर, राजस्थान- 321202	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2015	15.06.1990
1682	सुनील कुमार सारासर, पुत्र श्री दादूराम सारासर	राजएसवीसी / 4526 / 15	ग्राम-दौलतपुर, डाक- कटराथल, जिला-सीकर, राजस्थान-321202	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	15.07.1989
1683	दीप्ती मीना, पुत्री श्री गोपाल मीना	राजएसवीसी / 4527 / 15	17 / 22, सॉकट कॉलोनी, देओली, टोंक, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	18.03.1988
1684	अर्नव मेहरोत्रा / पुत्र श्री विमल मेहरोत्रा	राजएसवीसी / 4528 / 15	राज माता का नोहरा, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	26.12.1990
1685	राम दास यादव, पुत्र श्री श्याम लाल यादव	राजएसवीसी / 4529 / 15	ग्राम व डाक- जाहोटा, तहसील- आमेर, जिला- जयपुर, राजस्थान -303701	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	10.07.1986
1686	महेश कुमार जाट / श्री गोविंद नारायण जाट	राजएसवीसी / 4530 / 15	ग्राम एवं डाक-बिलोंवी, तहसील- आमेर, जिला- जयपुर, राजस्थान-308805	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	22.07.1990
1687	प्रमोद कुमार बोयल / श्री नेमी चंद बोयल	राजएसवीसी / 4531 / 15	131, मोदी नगर, पुरानी चुंगी के निकट, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान-302019	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	18.03.1987

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1688	धीरेंद्र मीना / श्री कैलाश चंद्र मीना	राजएसवीसी / 4532 / 15	ए-26, तारा नागा-ए, झोतवाड़ा, जयपुर, राजस्थान-302012	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	25.01.1990
1689	सत्येंद्र / श्री जगदीश प्रसाद	राजएसवीसी / 4533 / 15	ग्राम-सितसर, डाक- अबुसर, जिला- झुंझुनू, राजस्थान- 333001	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	15.04.1991
1690	प्रशांत कुमार / श्री सज्जन सिंह	राजएसवीसी / 4534 / 15	ग्राम- नेत्रमपुरा, डाक- झाकोड, तह.-सूरजगढ़, झुंझुनू, राजस्थान- 333033	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	01.04.1988
1691	नीवन कुमार / श्री प्रगा राम	राजएसवीसी / 4535 / 15	ग्राम एवं डाक- धनोल, तहसील- रानीवाड़ा, जिला- जालोर, राजस्थान-343040	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	21.04.1986
1692	सौरभ कुमार गोयनका / श्री महेश गोयनका	राजएसवीसी / 4536 / 15	ग्राम एवं डाक- बलाहेरी, तह.- महवा, जिला-दौसा, राजस्थान- 321608	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	10.07.1989
1693	हितेश कुमार / श्री बलदेव सिंह	राजएसवीसी / 4537 / 15	ग्राम एवं डाक-बीबीपुर छोटा, तह.-फतेहपुर, जिला- सीकर, राजस्थान-332317	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2014	10.12.1988
1694	अनिल मोरडिया / श्री राम प्रसाद	राजएसवीसी / 4538 / 15	महु दलालपुर, डाक-महु घोसला, तह.-हिंडौन सिटी, जिला-करौली, राजस्थान-322257	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	15.07.1992
1695	नटवर सिंह सिंसिवार / श्री पूरनसिंह सिंसिवार	राजएसवीसी / 4539 / 15	ग्राम/डाक-बहाज, तहसील- डीग, जिला-भरतपुर, राजस्थान- 321203	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	29.03.1990
1696	मुकेश कुमार सोनी / श्री नंद लाल सोनी	राजएसवीसी / 4540 / 15	वार्ड न.-5, खेतरी, जिला- झुंझुनू, राजस्थान- 333503	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2015	20.06.1984
1697	कमल मोहन / श्री मोहन लाल	राजएसवीसी / 4541 / 15	किशन कॉलोनी, भोरकी रोड, गुधा गोरजी, झुंझुनू, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	05.03.1990
1698	अनिल घोरेला / श्री हनुमान प्रसाद घोरेला	राजएसवीसी / 4542 / 15	ग्राम-भुना वाली धानी, डाक- मुंडा, तह. व जिला- हनुमान गढ़ नगर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	01.07.1991
1699	मुकेश सक्सेना / श्री राम प्रकाश सक्सेना	राजएसवीसी / 4543 / 15	बी-603, आर.के. पुरम, कोटा, राजस्थान-10	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	04.09.1979
1700	अनुपम बरी / श्री शीषराम बरी	राजएसवीसी / 4544 / 15	ग्राम एवं डाक-मंडासी, तहसील-नवलगढ़, जिला- झुंझुनू, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2014	02.10.1989
1701	कमलेश कुमार बैरवा / श्री रतन लाल बैरवा	राजएसवीसी / 4545 / 15	प्रताप नगर कॉलेज रोड, गंगापुर सिटी (एसडब्ल्यूएम), राजस्थान-322201	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	12.05.1987
1702	प्रियंका नेहरा / श्री इंदर सिंह नेहरा	राजएसवीसी / 4546 / 15	ग्राम-सानोलोड, तह.-बुहाना, झुंझुनू, राजस्थान- 333702	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	09.07.1989
1703	विजय चौधरी / श्री धरम पाल सिंह	राजएसवीसी / 4547 / 15	एसटी न.-2, वार्ड न.-22, न्यू कॉलोनी साउथ, लोहारु रोड, पिलानी, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2014	05.12.1991
1704	विश्वेंद्र सिंह / श्री भूर सिंह	राजएसवीसी / 4548 / 15	ग्राम-मिलकीपुरा, डाक-ढिंढोरा, तह.-हिंडौन सिटी, जिला- करौली, राजस्थान-322236	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	14.07.1992
1705	तन्मय सिंह / श्री कपिल सिंह	राजएसवीसी / 4549 / 15	71/318, शिओपुर रोड, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	28.08.1991
1706	राजेश कुमार / श्री मोहन लाल	राजएसवीसी / 4550 / 15	राकेश फर्नीचर मार्ट के निकट, किसान कॉलोनी, झुंझुनू, राजस्थान-333001	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	25.01.1985
1707	विनीता कुमारी / श्री विरेंद्र सिंह	राजएसवीसी / 4551 / 15	ग्राम एवं डाक-संजय नगर, भोजासर, वाया-नुआ, झुंझुनू, राजस्थान-333041	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	20.09.1990
1708	राजीव जीगर / श्री मदन लाल जीगर	राजएसवीसी / 4552 / 15	लखारो का चौटा, माजिद रोड, भिनवाल, जालोर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/आनंद कृ. विवि, आनंद /2015	11.12.1989
1709	अनिल कुमार शर्मा / श्री विनोद कुमार शर्मा	राजएसवीसी / 4553 / 15	ग्राम-जखाल, तह.-नवलगढ़, जिला-झुंझुनू, राजस्थान- 333305	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2014	18.01.1988
1710	हर्षिता भूमरा / श्री अजय सिंह भूमरा	राजएसवीसी / 4554 / 15	25, अमर सिंह पुरा, विजय बैंक के सामने, बीकानेर, राजस्थान- 334001	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2014	03.02.1991
1711	पुरुषोत्तम / श्री पुनमारम बेनीवाल	राजएसवीसी / 4555 / 15	गवर्न. वेट. हॉस्पिटल के निकट, ढोरीमन्ना, बाड़मेर, राजस्थान- 344704	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीएस, जबलपुर /2015	15.05.1991

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1712	ब्रह्मानंद / श्री दया नंद	राजएसवीसी / 4556 / 15	ग्राम-थोठवाल, डाक- पलोटा, जिला-झुंझुनू, राजस्थान-333502	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	10.05.1988
1713	मृनालिनी सरन / श्री जगदीश प्रसाद सरन	राजएसवीसी / 4557 / 15	6 / 128, एम.पी. कॉलोनी, बीकानेर, राजस्थान- 334001	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	07.07.1989
1714	गब्बर सिंह / श्री राम खिलाड़ी	राजएसवीसी / 4558 / 15	ग्राम-हदौली, डाक-शेरपुर, तह.-हिंडौन सिटी, जिला- करौली, राजस्थान- 322236	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	20.06.1988
1715	प्रियंका / श्री राम चंद्र ओला	राजएसवीसी / 4559 / 15	ग्राम एवं डाक-बिदसर, तह.-लक्ष्मनगढ़, जिला-सीकर, राजस्थान-332316	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	30.06.1988
1716	धीरज निगोटिया / श्री बृजभान निगोटिया	राजएसवीसी / 4560 / 15	56, जगदम्बा कॉलोनी, बीएसएनएल टावर वाली गली, एनएच-11, जयपुर, राजस्थान-302031	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	04.07.1988
1717	प्रशांत कुमार / श्री गम्भीर सिंह	राजएसवीसी / 4561 / 15	ग्राम एवं डाक-तुहिया, तहसील एवं जिला-भरतपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	16.05.1990
1718	सूरज करन गुर्जर / श्री हनुमान सहाय गुर्जर	राजएसवीसी / 4562 / 15	183 / 91, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	31.08.1987
1719	विकाश कुमार / श्री महेश कुमार	राजएसवीसी / 4563 / 15	ग्राम / डाक- लोयाल, तह.- खेजरी, जिला- झुंझुनू, राजस्थान- 333503	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	06.10.1991
1720	अशोक कुमार / श्री रनवीर सिंह यादव	राजएसवीसी / 4564 / 15	ग्राम एवं डाक-ट्योडा, तहसील-खेतरी, जिला- झुंझुनू, राजस्थान-333503	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2015	02.02.1990
1721	जीतराज मीना / श्री बजरंग मीना	राजएसवीसी / 4565 / 15	ग्राम- मेहराना, डाक- तीरथ, तह.-तलेरा, जिला-बूंदी, राजस्थान- 323602	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	08.07.1989
1722	रोहित नागर / श्री पुरुषोत्तम नागर	राजएसवीसी / 4566 / 15	95, राजीव गांधी नगर, कोटा, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	02.11.1992
1723	जयेश नागर / श्री चम्पालाल नागर	राजएसवीसी / 4567 / 15	स्टेशन पेट्रोल पम्प के निकट, कवाई, बारान, राजस्थान- 325219	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	23.11.1992
1724	निखिल ऋंगी / श्री विष्णु दत्त ऋंगी	राजएसवीसी / 4568 / 15	ग्राम- अलोद, तह.- हिंडोली, जिला- बूंदी, राजस्थान- 323024	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	23.06.1989
1725	कपिल कुमार रेनवाल / श्री रवि प्रकाश रेनवाल	राजएसवीसी / 4569 / 15	649-50बी, श्रीनाथ पुरम, कोटा, राजस्थान- 324010	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	05.03.1990
1726	अभय कुमार उपाध्याय / श्री अनिल कुमार उपाध्याय	राजएसवीसी / 4570 / 15	नहरोली वाले, गांधी चौक, बयाना, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	11.07.1990
1727	राकेश कुमार / श्री छज्जू राम चौधरी	राजएसवीसी / 4571 / 15	ग्राम- जलाका, डाक-पुर, तह.-कोटकासिम, जिला- अलवर, राजस्थान- 301702	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	16.01.1984
1728	प्रवीन कुमार मान / श्री मूल चंद	राजएसवीसी / 4572 / 15	ए-32, शंकर विहार, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर, राजस्थान- 302039	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	15.04.1988
1729	राहुल डांगी / श्री राम किशन डांगी	राजएसवीसी / 4573 / 15	ग्राम एवं डाक-हल्दिना, अलवर, राजस्थान- 301406	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	18.01.1991
1730	धर्म राम चौधरी / श्री श्याम लाल चौधरी	राजएसवीसी / 4574 / 15	ग्राम / डाक- रतकुरिया, तहसील-सदूलपुर, जिला- चुरु, राजस्थान- 331305	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	15.01.1991
1731	ज्योति / श्री सुभाष चंद्र	राजएसवीसी / 4575 / 15	ग्राम एवं डाक- चांदगोठी, तहसील-सदूलपुर, जिला- चुरु, राजस्थान- 331305	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	31.05.1989
1732	अशोक कुमार बैरवा / श्री अमर चंद बैरवा	राजएसवीसी / 4576 / 15	म.न.-26, जगदम्बा एक्ट. कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	29.03.1989
1733	सुनील चौधरी / श्री बिरमा राम चौधरी	राजएसवीसी / 4577 / 15	हनुमान जी की धानी, जुसारी रोड, मकराना, नागौर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	04.09.1990
1734	प्रदीप पाल सिंह / श्री राम स्वरूप	राजएसवीसी / 4578 / 15	जागीरपुरा, निधेरा कला, तह.- सैपू, जिला-डोलपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	02.08.1991
1735	कपिल गुप्ता / श्री बाबू लाल गुप्ता	राजएसवीसी / 4579 / 15	शिवे कॉलोनी, मंदसौर रोड, माहवा, दौसा, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	12.07.1988

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1736	राकेश कुमार कलोरिया/ श्री ओंकार मल	राजएसवीसी/4580 / 15	ग्राम एवं डाक- सलदेपुरा, वाया- खंडेला, जिला- सीकर, राजस्थान-332709	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2014	22.12.1990
1737	सौरभ सिंह सिंघल/ श्री प्रेम सिंह मीना	राजएसवीसी/4581 / 15	ग्राम- बिनेगा, डाक- अर्निया, तह.-हिंडौन, जिला-करोली, राजस्थान- 322234	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	19.02.1987
1738	श्रुतिकान्त राना/ श्री सत्यकाम राना	राजएसवीसी/4582 / 15	मादियों की गली, नागौर, राजस्थान- 341001	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	27.03.1988
1739	अमित कुमार चोटिया/ श्री ओम प्रकाश चोटिया	राजएसवीसी/4583 / 15	ग्राम/डाक-पनलावा, वाया- बिदासर, तह.-लक्ष्मनगढ़, जिला- सीकर, राजस्थान- 332316	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2014	17.07.1987
1740	आकाश बरोटिया / श्री प्रकाश चंद बरोटिया	राजएसवीसी/4584 / 15	म.न.: 52, पल्टन बाजार, अजमेर, राजस्थान- 305001	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2014	04.02.1990
1741	मोनिका सोनी/ श्री राजेंद्र सोनी	राजएसवीसी/4585 / 15	2-एच-19, तलवंडी, कोटा, राजस्थान- 324005	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2014	17.09.1990
1742	मंदीप कामरा/ श्री सोहन लाल	राजएसवीसी/4586 / 15	वार्ड न.-16, पुलिस स्टेशन के निकट, टिब्बी, हनुमानगढ़, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2015	01.07.1987
1743	मनीश कुमार मीना/ श्री मूल सिंह मीना	राजएसवीसी/4587 / 15	ग्राम एवं डाक-मुदियासद, तहसील-विएर, जिला- राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2015	27.07.1987
1744	प्रभु दयाल/ श्री रामजस	राजएसवीसी/4588 / 15	ग्राम एवं डाक- बडोपाल, तहसील- पीलीबंगन, जिला- राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/एमएफएस, नागपुर/2015	05.07.1990
1745	जयवीर सिंह/ श्री वीरेंद्र पाल सिंह	राजएसवीसी/4589 / 15	48, डीके नगर, खाटीपुरा रोड, झोतवाड़ा, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2012	05.08.1981
1746	संदीप शर्मा/ श्री ओम प्रकाश शर्मा	राजएसवीसी/4590 / 15	जगनेर रोड बाईपास, गांधी तिराहा, तमसिया, बसेरी, राजस्थान- 328022	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2014	10.08.1991
1747	सुनील कुमार/ श्री सुरेश कुमार	राजएसवीसी/4591 / 15	ग्राम एवं डाक-सोतवाड़ा, तहसील-नवलगढ़, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2014	14.10.1992
1748	अभिलाषा दधीच / श्री हेमंत दधीच	राजएसवीसी/4592 / 15	अनंत भवन, रानी बाजार, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2015	16.01.1992
1749	विनोद कुमार/ श्री कृष्ण कुमार	राजएसवीसी/4593 / 15	पी.डब्ल्यू.डी. कॉलोनी, नोहर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2014	01.07.1989
1750	सुनीता मीना/ श्री मंगल चंद मीना	राजएसवीसी/4594 / 16	117, सोनी का बाग, अलका सिनेमा के पीछे, सीकर रोड, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2015	09.08.1991
1751	गायत्री गूजर/ श्री रतन लाल गूजर	राजएसवीसी/4595 / 16	द्वारा श्री रामसुख गूजर, डाक एवं ग्राम-बीवर खास, थाना- बीवर, जिला-अजमेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2015	15.02.1993
1752	गरिमा चौधरी / श्री धूरा राम चौधरी	राजएसवीसी/4596 / 16	सैनी नगर, कृषि मंडी के पीछे, जयपुर रोड, सीकर, राजस्थान- 302001	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2015	25.03.1991
1753	नरेंद्र कुमार पूनिया/ श्री चेतन राम पूनिया	राजएसवीसी/4597 / 16	ग्राम-बिन्चारी, डाक-कुसुम देसर, तह.-रतनगढ़, जिला- चुरु, राजस्थान-331022	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2015	07.08.1990
1754	सुदर्शन महला/ श्री सांवर लाल महला	राजएसवीसी/4598 / 16	ग्राम एवं डाक-घोड़ीवाला खुर्द, वाया-मुकुंदगढ़, तह.- नवलगढ़, जिला-झुंझुनू, राजस्थान- 333705	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2015	28.08.1990
1755	पाता राम/ श्री जेता राम	राजएसवीसी/4600 / 16	ग्राम-कोटरा, डाक-मलवारा, तहसील-जसवंतपुरा, जिला- जालोर, राजस्थान-343039	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2015	02.04.1988
1756	मनीष नारा/ श्री मोतीलाल सोनगारा	राजएसवीसी/4601 / 16	एच-184, पोस्ट ऑफिस के निकट, प्रताप नगर, जोधपुर, राजस्थान- 342004	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2015	25.08.1988
1757	नरसी राम/ श्री दुर्गा राम	राजएसवीसी/4602 / 16	ग्राम/डाक- लुनियासर, तहसील-संचोर, जिला- जालोर, राजस्थान-343041	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2015	20.12.1989
1758	अर्जुन नी/ श्री काली चरन वर्मा	राजएसवीसी/4603 / 16	बासन गेट, पुराना धाऊ पायसा, भरतपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2016	11.11.1991

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1759	लोकेश वशिष्ठ / श्री मुकेश शर्मा	राजएसवीसी / 4604 / 16	न्यू ब्रह्मपुरी कॉलोनी, मंडावरा रोड, नई मंडी, हिडौन नगर, जिला-करोली, राजस्थान- 322230	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2015	08.07.1992
1760	राजेश सैनी / श्री सत्य नारायण सैनी	राजएसवीसी / 4605 / 16	ग्राम-रामपुरा बास गंवार, डाक-गंवार, तह.-मालपुरा, जिला- टोंक, राजस्थान- 304502	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2015	20.12.1988
1761	संजय कुमार मीना / श्री काना राम मीना	राजएसवीसी / 4606 / 16	ग्राम-मलकेडा, डाक- बाजोर, सीकर, राजस्थान-332403	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2016	18.10.1992
1762	देवेंद्र सिंह / श्री गिर राज सिंह	राजएसवीसी / 4607 / 16	222, मनिहारी मौहल्ला, ग्राम व डाक-जनूठर, तह.-दीघ, जिला-भरतपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2016	04.06.1991
1763	सुमनिल मरवाहा / श्री अनिल कुमार	राजएसवीसी / 4608 / 16	सी-195, कांता खटूरिया कॉलोनी, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2015	28.08.1992
1764	गौरव मीना / श्री शिव दयाल मीना	राजएसवीसी / 4609 / 16	ग्राम एवं डाक-बिलापारा, तहसील-नाडोती, जिला- करुली, राजस्थान-322215	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2016	02.10.1991
1765	संजय सिंह / श्री राजेंद्र सिंह	राजएसवीसी / 4610 / 16	ग्राम-झज्जरपुर, डाक- सोडावास, तह.-मुंडावरा, जिला-अलवर, राजस्थान- 301427	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2016	30.06.1992
1766	जितेंद्र सिंह गंगवाल / श्री मदन लाल गंगवाल	राजएसवीसी / 4611 / 16	ग्राम-बीबोलॉजी, डाक-गनेती, तह.- टोडा रायसिंग, जिला- टोंक, राजस्थान- 304505	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2016	18.07.1993
1767	मोहिनिश कुमार डियार / श्री सुंदर लाल डोडीयार	राजएसवीसी / 4612 / 16	ग्राम-चौबीसो का पाडला, डाक-गमदी, तह.-बांसवाड़ा, जिला-बांसवाड़ा, राजस्थान- 327025	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2016	05.01.1991
1768	अविनाश कुमार शर्मा / श्री मदन मोहन शर्मा	राजएसवीसी / 4613 / 16	ग्राम एवं डाक- फतेहपुर, तह.- मसलपुर, जिला-करोली, राजस्थान- 322241	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2016	05.05.1993
1769	मानवेंद्र सिंह / श्री भगवान सिंह	राजएसवीसी / 4614 / 16	ग्राम-बैलारा कलां, डाक व तह.- कुम्हेर, जिला-भरतपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2016	05.04.1991
1770	रेनू कुमारी / श्री शिशुपाल सिंह	राजएसवीसी / 4615 / 16	ग्राम एवं डाक-चनवारा रोड, बिजरनिया की धानी, गुधा गोरजी, झुंझुनू, राजस्थान- 333022	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2015	01.06.1989
1771	पुखराज महला / श्री जोधाराम	राजएसवीसी / 4616 / 16	ग्राम-कुशलपुरा, डाक-रीगन, वाया-डिडवान, तह.-लडाऊं, जिला-नागौर, राजस्थान- 341303	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2016	15.12.1990
1772	ज्योति सुंडा / श्री संतोष कुमार सुंडा	राजएसवीसी / 4617 / 16	ज्योति नगर, जाट कॉलोनी, पिपराली रोड, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2015	09.01.1991
1773	सूर्य प्रताप सिंह फौजदार / श्री आर.के.एस. सिसिंवार	राजएसवीसी / 4618 / 16	426, संजय नगर, भरतपुर, राजस्थान- 321001	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2016	31.07.1993
1774	राजेश बाघेल / श्री देविन सिंह	राजएसवीसी / 4619 / 16	54, गुलाल कुंड, मथुरा गेट के बाहर, भरतपुर, राजस्थान -321001	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2016	15.05.1992
1775	अमित कुमार / श्री अशोक कुमार	राजएसवीसी / 4620 / 16	ग्राम एवं डाक-कोलारी, तह.- सेनपाऊ, जिला-धौलपुर, राजस्थान-328023	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2016	08.08.1993
1776	अभिनव चौधरी / श्री पूरन कुमार	राजएसवीसी / 4621 / 16	मेहंदी बाग, नरुका कॉलोनी, अलवर, राजस्थान- 301001	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2016	04.11.1988
1777	श्याम सुंदर सियाग / श्री चेतन राम सियाग	राजएसवीसी / 4622 / 16	श्री वीर तेजा ट्रेडिंग कंपनी, दूकान न.-110, कुम नोखा, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2015	01.01.1992
1778	परमारम गोरचिया / श्री मदन लाल गोरचिया	राजएसवीसी / 4623 / 16	सर्वोदय बस्ती, जाटों का मौहल्ला, वार्ड न.-3, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2015	08.06.1990
1779	रचना पूनिया / श्री धर्मपाल सिंह पूनिया	राजएसवीसी / 4624 / 16	ग्राम-केहरपुरा, खुर्द, डाक- मोहनपुरा, तह.-चिरवा, जिला-झुंझुनू, राजस्थान-333024	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2015	01.09.1988
1780	गरिमा चौधरी / श्री अजा राम चौधरी	राजएसवीसी / 4625 / 16	अस्पताल उरिया, ग्राम एवं डाक-ओसियान, जिला- जोधपुर, राजस्थान-342303	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2015	03.09.1990

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1781	कपिल देव शर्मा / श्री कपूर चंद शर्मा	राजएसवीसी / 4626 / 16	केशव नगर, नए आर.टी.ओ. ऑफिस के निकट, भरतपुर, राजस्थान-321001	बीवीएससी/एंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2016	04.09.1993
1782	राजीव शर्मा/श्री केशव देव शर्मा	राजएसवीसी / 4627 / 16	ग्राम- संधारा, डाक-धोरमुई, जिला- भरतपुर, राजस्थान- 321025	बीवीएससी/एंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2016	31.01.1993
1783	रोहित मीना/श्री शिव चरन मीना	राजएसवीसी / 4628 / 16	शिव कॉलोनी, पुरानी ट्रक यूनिशन, करौली, राजस्थान- 322241	बीवीएससी/एंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2016	07.04.1993
1784	तालिक हुसैन राजेर/श्री हफेद खान राजेर	राजएसवीसी / 4629 / 16	ग्राम-आकल, डाक-ओगला, तहसील-सेदवा, राजस्थान	बीवीएससी/एंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2016	02.08.1991
1785	विमल गुर्जर/श्री लखन लाल गुर्जर	राजएसवीसी / 4630 / 16	पी.न. 32, हनुमान बिहार, विजय पथ, राजस्थान	बीवीएससी/एंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2016	20.12.1989
1786	राजेश कुमार/श्री ओम प्रकाश	राजएसवीसी / 4631 / 16	ग्राम-अजीतपुरा, डाक- कसेरु, थाना-नवलगढ़, राजस्थान	बीवीएससी/एंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2016	29.04.1991
1787	दीपक भारद्वाज/ श्री रमेश चंद शर्मा	राजएसवीसी / 4632 / 16	पी.न. ए-9, भरत विहार कॉलोनी, पोल्ड्री फार्म के पीछे, राजस्थान	बीवीएससी/एंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2016	02.01.1990
1788	अंकित कुमार सेठी/श्री जयेंद्र कुमार सेठी	राजएसवीसी / 4633 / 16	खडेलवाल धर्मशाला के निकट, बांदीकुई, जिला- दौसा, राजस्थान-303313	बीवीएससी/एंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2016	25.08.1993
1789	मंजू गिरि/श्री बिरमा राम गिरि	राजएसवीसी / 4634 / 16	ग्राम/डाक-सेसम, वाया- खूर, जिला-सीकर, राजस्थान	बीवीएससी/एंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2015	02.01.1990
1790	विजय मोहन देव / श्री हीरा राम	राजएसवीसी / 4635 / 16	ग्राम- दुधू, डाक-ढोरिमाना, जिला- बाड़मेर, राजस्थान- 344704	बीवीएससी/एंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2016	02.10.1993
1791	प्रज्ञा नथिया/श्री रमेश च. नथिया	राजएसवीसी / 4636 / 16	7, प्रोफेसर कॉलोनी, देवपुरा, बूंदी, राजस्थान	बीवीएससी/एंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2015	03.02.1988
1792	मनफूल फूलफागर/श्री धन्नाराम फूलफागर	राजएसवीसी / 4637 / 16	ग्राम-खनवर, डाक- रोल, तहसील-जयाल, जिला- नागौर, राजस्थान- 341027	बीवीएससी/एंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2016	01.07.1991
1793	सीमा सिकरवार/ श्री पवन कुमार	राजएसवीसी / 4638 / 16	ग्राम/डाक-नागला भरतई, तहसील-भरतपुर, जिला- भरतपुर, राजस्थान	बीवीएससी/एंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2011	27.09.1988
1794	विनायक चुरा / श्री शिव कुमार चुरा	राजएसवीसी / 4639 / 16	बी-665, एमडीवी कॉलोनी, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससी/एंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2015	26.01.1991
1795	अमित सांगवान/ श्री विजय सांगवान	राजएसवीसी / 4640 / 16	90/230, पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससी/एंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2012	05.04.1990
1796	अरुण फोगट/श्री कुलदीप सिंह फोगट	राजएसवीसी / 4641 / 16	90/230, पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससी/एंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2012	22.07.1989
1797	अमनदीप/श्री हरि किशन लाल	राजएसवीसी / 4644 / 16	गली न.-2, वार्ड न.-22, न्यू कॉलोनी, साउथ नोहारु रोड, पिलानी, झुंझुनू, राजस्थान	बीवीएससी/एंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	04.01.1990
1798	राहिश कौरा/श्री राजन मोहन कौरा	राजएसवीसी / 4648 / 16	कौरा कॉलोनी, रानी बाजार, बीकानेर, राजस्थान- 334001	बीवीएससी/एंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2015	11.09.1991
1799	गोपी एच./श्री ए. हरिहरन	टीएनएसवीसी / 580 7 / 15	बी-44, पारीजाथम, शांति निकेतन अपार्ट., सिटी लिंक रोड, अदमबक्कम, चेन्नई-600088	बीवीएससी / टीएनएयू / 1986	17.07.1962
1800	जयकुमार एम./ श्री के. मसिलामनी	टीएनएसवीसी / 580 8 / 15	न. 14 / 7, गनपति पलायम नॉर्थ, थनथोनी, मलई डाक, करुर-639005, तमिलनाडु	बीवीएससी / university of madras/1973	06.01.1948
1801	वीरामनि पी./ श्री के. पचईअप्पन	टीएनएसवीसी / 580 9 / 15	न.-2, लक्ष्मी नगर एक्सटेंशन, सेलइयूर, पूर्वी तम्बारम, चेन्नई- 600073	बीवीएससी / टीएनएयू वीएस / 1993	31.03.1970
1802	तिरुमुरुगन के.जी./ श्री एस.के. गोपालन	टीएनएसवीसी / 581 0 / 15	प्लॉट न.45, 5वां क्रॉस, दूसरा मेन रोड, वीजीपी लेआउट - II, पलवक्कम, चेन्नई -600041	बीवीएससी / टीएनएयू वीएस / 1993	20.08.1970
1803	मनि एस./ श्री वी. श्रीरंगास्वामी	टीएनएसवीसी / 581 1 / 15	3 / 50 / ए, पूलंगडु, करई पलायम, नडयानूर डाक, मनमंगलम तालुक, करुर जिला-639117, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू / 1982	07.06.1956

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1804	निर्मला आर./श्री एस. राजेंद्रन	टीएनएसवीसी/581 2/15	25/18, थलवई स्ट्रीट, मीनाक्षीपुरम गार्डन, वादीवीश्वरम, नगरकोइल- 629002, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएयू वी एस/1998	07.06.1972
1805	अनीथा एस./श्री जी. जाबराज	टीएनएसवीसी/581 3/15	न.-13, रामनाथन स्ट्रीट, अयानावरम, चेन्नई-600023, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/पॉण्डी विवि/2006	03.12.1983
1806	जोशुआ कोइलराज टी. /श्री सी.पी.जे. थंगाराज	टीएनएसवीसी/581 4/15	31, संधिल नगर, रायाकोटा रोड, करापल्ली डाक, होसूर- 635109, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएयू वीएस/1995	23.02.1972
1807	असोकन एन./श्री एम. नागामुथु	टीएनएसवीसी/581 5/15	177/183, एफ-1 एवेन्यू, संतोष सुंदरामूर्ति स्ट्रीट, थानीकचालम नगर, ई-ब्लॉक, चेन्नई-600010	बीवीएससी/टीएनएयू वीएस/1998	22.04.1975
1808	मौहम्मद अब्दुल कादर जे. /श्री जेलानी	टीएनएसवीसी/581 6/15	2/169, कैदेमेलेट स्ट्रीट, पेरियापट्टिनम, रामनाथपुरम- 623523, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएयू/1977	13.06.1950
1809	कुमारसन एस./श्री टी. सेल्वराज	टीएनएसवीसी/581 7/15	न.-41213, मेट्टू स्ट्रीट, उलगापुरम डाक, वन्नूर तालुक, विल्लुपुरम-604154, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/पॉण्डी विवि/2015	14.06.1991
1810	श्रीनिवासन सी./श्री पी. चिन्नासामी	टीएनएसवीसी/581 8/15	जी.एच.के. पीछे, थम्बुडुकोट्टई, इरानाहल्ली डाक, पलकोड तालुक, धर्मापुरी जिला- 636808, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	10.06.1992
1811	प्रिया के./श्री आर. सुधाकर	टीएनएसवीसी/581 9/15	106/28सी, पन्नीर सेल्वम स्ट्रीट, अट्टूर, सेलम जिला- 636102, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	22.02.1993
1812	सथीश कुमार एस./श्री सम्पथ	टीएनएसवीसी/582 0/15	न.-15, कम्बुकलापट्टी ग्राम, वीरामलई डाक, पोचमपल्ली तालुक, कृष्णागिरि जिला- 635204, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	25.02.1993
1813	ससि कुमार पी./श्री एस. पलानी	टीएनएसवीसी/582 1/15	मुथानूर, हरुर तालुक, एट्टियमपट्टी डाक, धर्मापुरी, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	29.06.1992
1814	ससिकला एन./श्री वी. नाचीमुथु	टीएनएसवीसी/582 2/15	47, गौडेन पलायम, पुलियूर सी.एफ. करुर जिला- 639114, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	01.06.1992
1815	प्रभावथी आर./श्री सी. रंगासामी	टीएनएसवीसी/582 3/15	11/3, वलियानईपट्टी, थिरुमलईपट्टी डाक, संधामंगलम तालुक, नमक्कल जिला-637404, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	24.05.1993
1816	महालक्ष्मी एन./श्री जी. नटराजन	टीएनएसवीसी/582 4/15	1/29, मूकारेड्डीपट्टी, पल्लीपट्टी डाक, पाप्पीरेडिया पट्टी तालुक, धर्मापुरी- 636 905, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	15.07.1992
1817	प्रकाश ई./श्री जे. इलांगोवन	टीएनएसवीसी/582 5/15	4/4, मुल्लुकुरिची, आथनाक्कुरिची डाक, संधुरई तालुक, अरियालूर जिला- 621719, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	20.05.1993
1818	मीनू सराह जैस्मिन एस. /श्री सिमोन पी. बालुचामी	टीएनएसवीसी/582 6/15	6/43-ए, बेनियल कॉटेज, पारुवाची भवानी तालुक, इरोडे जिला-638312, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	01.05.1993
1819	कलई सेल्वन ई./श्री एस. इलांगोवन	टीएनएसवीसी/582 7/15	1/150, सिवन कोइल स्ट्रीट, पेरीयेरी डाक, अट्टूर तालुक, सेलम जिला-636101, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	10.02.1993
1820	दिनेश एम./श्री एस. मुरली	टीएनएसवीसी/582 8/15	2/317, पल्लार स्ट्रीट, एन. कोसावमपट्टी डाक, नमक्कल जिला- 637002, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	19.05.1993
1821	श्रीधर डी./श्री एन. दुरईसामी	टीएनएसवीसी/582 9/15	सेम्मन्डापट्टी डाक, ओमालूर तालुक, सेलम जिला- 636309, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	16.05.1993
1822	कार्थिगा एस./श्री एस. सेल्वम	टीएनएसवीसी/583 0/15	2/148, जम्मनाथल्ली डाक, पप्पीरेड्डीपट्टी तालुक, धर्मापुरी जिला-636904, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	07.10.1993
1823	कुप्पामुथुराजा एस./श्री ई. सुरुली	टीएनएसवीसी/583 1/15	42, मुथुरामलिंगा थेवर नगर, कास्या रोड, चिन्नामन्नूर, थेनी जिला-625515, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	02.06.1992
1824	आदिथ्या टी./श्री डी. तमिलारासन	टीएनएसवीसी/583 2/15	2/78, बूथनामि ग्राम, मेनासी डाक, पप्पीरेड्डीपट्टी तालुक, धर्मापुरी जिला-636904, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	26.03.1993

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1825	कीर्थना जे./श्री पी. जयरामालिंगम	टीएनएसवीसी/583 3/15	5/71, कीलेचावरी, लड्डीवाडी डाक, नमक्कल- 637002, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	13.06.1993
1826	रामया वी./श्री सी. वेलुसामी	टीएनएसवीसी/583 4/15	111/15, त्रिचेनगोडु रोड, नमक्कल- 637001, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	13.06.1993
1827	पुनिथा एस./श्री एम. सिवामुरुगन	टीएनएसवीसी/583 5/15	54ए-11, साउथ स्ट्रीट, कावंडमपट्टी, इडापडी, सलेम जिला-637101, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	15.03.1993
1828	प्रभाकरन के.पी./ श्री आर.पोन्नुसामी	टीएनएसवीसी/583 6/15	5/72, के.रसमपलायम, एस., वजावंथी डाक, पी. वेलूर तालुक, नमक्कल-637017, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	09.03.1993
1829	प्रियाथर्सिनी एस./श्री वी. एम. सोमासुंदरम	टीएनएसवीसी/583 7/15	2/70, वेंगामेडु, वल्लीपुरम डाक, कुन्नाथूर वाया, तालुक अविनासी, तिरुपुर जिला- 638103, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	29.08.1992
1830	सूर्या वी./श्री एम. वेंकटेशन	टीएनएसवीसी/583 8/15	अम्बलापट्टी ग्राम, डाक कंडाकौंडानूर, पप्पीराटिपट्टी डाक, धर्मापुरी जिला- 635 302, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	10.05.1993
1831	सुबालक्ष्मी बी./श्री ए. बालासुब्रमण्यन	टीएनएसवीसी/583 9/15	1/32ए, कूकालूर रोड, पेरुंडालइयूर, गोबीचेट्टी पलायम तालुक, इरोडे जिला	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	16.06.1993
1832	थरिनी मनोगरी एन./श्री एस. नल्लासामी	टीएनएसवीसी/584 0/15	वन्नावकडु थोट्टम, पेरुपलायम, नगालूर डाक, अथानी वाया, भवानी तालुक, इरोडे जिला-638502, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	29.07.1993
1833	कीर्थना डी./श्री के. धनराज	टीएनएसवीसी/584 1/15	97 सी, मूलापुदूर रोड, थगारापुदूर डाक, गंगावल्ली तालुक, सलेम जिला- 636110, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	12.04.1993
1834	मनिकंदन आर./श्री सी. राजेंद्रन	टीएनएसवीसी/584 2/15	डी.न.-28, फायर स्टेशन क्वार्टर्स, कलेक्टरेट डाक, धर्मापुरी-636705, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	21.09.1993
1835	रेवथी एम./श्री पी. मनि	टीएनएसवीसी/584 3/15	4/44, डब्ल्यू/बी डिवीजन, कोडानडु एस्टेट, कोटागिरि डाक, द नीलगिरीज-643217, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	18.08.1992
1836	सेल्वनायकी एस./श्री ए. सेकर	टीएनएसवीसी/584 4/15	परयापट्टी पुडुर डाक, पप्पीरेडीपट्टी तालुक, धर्मापुरी जिला-636903, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	25.10.1994
1837	शानमथि एस./श्री एस. शानमुगम	टीएनएसवीसी/584 5/15	73, मेन रोड, अरचालूर इरोडे जिला-638101, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	18.12.1992
1838	मार्थी पी./श्री आर. पलानीअप्पन	टीएनएसवीसी/584 6/15	14/14, थन्नीर किनारु स्ट्रीट, पालीकडू, कलीपट्टी डाक, नमक्कल जिला- 637501, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	30.03.1993
1839	जीवासथिनम के./ श्री पी. कैलासम	टीएनएसवीसी/584 7/15	3/47, वेस्ट स्ट्रीट, थटाथिरुपुरम डाक, नमक्कल जिला-637018, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	25.07.1992
1840	जीविथा एम./श्री एस. मुथुसामी	टीएनएसवीसी/584 8/15	101, रामासामी गौंडानूर, किडरम डाक, थूटियम तालुक, त्रिची जिला-621207, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	17.12.1992
1841	निथ्या टी./श्री बी. थंजन	टीएनएसवीसी/584 9/15	1/106, नडूर ग्राम, अलापुरम डाक, पप्पीरेडीपट्टी तालुक, धर्मापुरी जिला-636904, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	09.06.1993
1842	सरमथी आर./श्री एम.के. राजेंद्रियन	टीएनएसवीसी/585 0/15	लाथुवाडी पुदुर, नल्लाकुमारन, पलायम डाक, तिरुचेनगोडे तालुक, नमक्कल जिला- 637408, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	12.02.1993
1843	इञ्जिलभारथी एम./श्री एम.मथेश्वरन	टीएनएसवीसी/585 1/15	लाथुवडी पुदुर, नल्लाकुमारन पलायम डाक, तिरुचेनगोडे तालुक, नमक्कल जिला- 637408, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	05.07.1993
1844	चित्रादेवी एस./श्री एस. श्रवन कुमार	टीएनएसवीसी/585 2/15	4/106, जेजेआर नगर, रासीपुरम तालुक, कक्कावेरी डाक, नमक्कल जिला- 637 408, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	30.04.1990

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1845	अनिथा डी./श्री एम. धर्मलिंगम	टीएनएसवीसी/585 3/15	174, नॉर्थ स्ट्रीट, कोवाक्कुलम डाक, कृष्णारायापुरम तालुक, करुर जिला-639102, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	17.05.1993
1846	राजकुमार सी./श्री के. चिन्नामुथु	टीएनएसवीसी/585 4/15	1-41/एनए, वार्ड न.1/4, चिन्नापरामनूर ग्राम, डाक बी. अग्राहरम, पेन्नाग्राम तालुक, धर्मपुरी-636813, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	12.06.1993
1847	मीना ए./श्री एन. अन्नादुरई	टीएनएसवीसी/585 5/15	10-7ए/5 डब्ल्यू, उदयार कम्पाउंड, बस स्टैंड स्ट्रीट के निकट, ओमालूर डाक, सलेम जिला-636455, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	11.01.1993
1848	अजंथा ए./श्री सी. अंबाजगान	टीएनएसवीसी/585 6/15	न्यू अजंता जावली स्टोर्स, इलुपट्टी डाक, थोट्टियम तालुक, त्रिची जिला- 621215, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	01.02.1993
1849	मंजुरेखा जी./श्री एम. गुनासेखरन	टीएनएसवीसी/585 7/15	320, वल्लावर नगर, अयंथिरुकमालिगाई डाक, सलेम-636008, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	21.10.1992
1850	अंगप्पन एम./श्री एस. मदेश	टीएनएसवीसी/585 8/15	टी.टी. अप्पावू मुधाली स्ट्रीट, अन्नासाग्राम डाक, धर्मापुरी- 636704, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	22.03.1992
1851	अनुशा एस.ए./श्री एस. आदि कृष्णइयाह	टीएनएसवीसी/585 9/15	न-7, वेस्ट स्ट्रीट लेन, पालीपट, थिरुवल्लूर जिला- 631207, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	05.05.1993
1852	पवित्रा एम./श्री एस.वी. मुरुगेशन	टीएनएसवीसी/586 0/15	78/32-ए, चेट्टीकुट्टिवलासु, पी.के.वलासु डाक, मोदाकुरिची वाया, इरोडे जिला-638104, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	31.10.1992
1853	विजय सी./श्री पी. चिन्नुसामी	टीएनएसवीसी/586 1/15	2/88, करुकलवाडी डाक, ओमालूर तालुक, सलेम- 636013, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	04.05.1992
1854	प्रिया आर./श्री आर.के. रामालिंगम	टीएनएसवीसी/586 2/15	61/23बी, पल्लीकुडा स्ट्रीट, थनरमपेट रोड, थनीमलाई, थिरुवन्नामलाई- 606601, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	15.10.1992
1855	सौमिया पी.वी./श्री वी. वेंकटचलम	टीएनएसवीसी/586 3/15	टी.पुदुर ग्राम, पीठाथमपट्टी डाक, पप्पीरेडीपट्टी तालुक, धर्मापुरी जिला- 636454, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	08.02.1993
1856	नागाजोथी एस./श्री पी. शानमुगम	टीएनएसवीसी/586 4/15	1/2, मेन रोड, मंगलापुरम, मल्लिमाकोम्बई, अरासूर डाक, कासीपलायम वाया, साथी तालुक, इरोडे जिला- 638454, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	11.07.1993
1857	गोहिला एम./श्री ए. मनि	टीएनएसवीसी/586 5/15	72, पूंडी विनायगपुरम, अम्मईयाग्राम डाक, चिन्ना सलेम तालुक, विल्लुपुरम जिला-606201, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	10.05.1993
1858	श्रीवर्षा के.एस./श्री के.के. संकर बाबू	टीएनएसवीसी/586 6/15	467/2, 7वां मेन रोड, सांथी कॉलोनी, अन्ना नगर, चेन्नई -600040, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	02.10.1991
1859	विनोथिनी वी./श्री के. वर्धराज	टीएनएसवीसी/586 7/15	एस-13, धनलक्ष्मी नगर, मदु डाक, कल्लाकुरिची तालुक, विल्लुपुरम जिला-606206, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	17.01.1992
1860	मंजुला सी./श्री पी. चेलइयाह	टीएनएसवीसी/586 8/15	3/220, साउथ स्ट्रीट, वेंगाडथानूर डाक, थुरईयूर तालुक, त्रिची जिला-621002, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	20.07.1993
1861	अरुण बी./श्री एम. बाबू	टीएनएसवीसी/586 9/15	303, एलआईजी फेज़- II, टीएनएचबी, थिरुपथूर, वेल्लोर जिला-635601, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	02.06.1993
1862	देवेन्द्रिन पी./श्री एम. पेरुमल	टीएनएसवीसी/587 0/15	अंचानेयार कोविल स्ट्रीट, वेलियानई डाक, करुर जिला-639118, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	19.05.1992
1863	मुथुकुमार ए./श्री पी. अमरावेल	टीएनएसवीसी/587 1/15	बूथनाथेम ग्राम, मानसी डाक, पप्पीरेडीपट्टी तालुक, धर्मापुरी जिला-635303, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	20.06.1993
1864	मंजुला वी./श्री एम. वेंकटेशन	टीएनएसवीसी/587 2/15	7-डी, गांधीनगर, कडाथूर डाक, धर्मापुरी जिला- 638109, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	27.08.1993
1865	विजया राघवेंद्रन एस./श्री एम. सिवालिंगम	टीएनएसवीसी/587 3/15	डी.न. 155/1, गांधी स्ट्रीट, सिवागिरि, इरोडे जिला- 638109, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	12.11.1992

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1866	विजय शंकर वी./ श्री वी. विजयसेकर	टीएनएसवीसी/ 587 4/15	न. 157ए, त्रिची रोड, थुरईयूर त्रिची जिला-621010, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	11.08.1993
1867	सेंटामिलसेल्वी टी./ श्री वी. थियागराजन	टीएनएसवीसी/ 587 5/15	1/38, नॉर्थ स्ट्रीट, बोडीनायक्कन पट्टी डाक, सेंदामंगलम तालुक, नमक्कल जिला-637405, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	08.06.1993
1868	मनोज कन्नन वी./श्री एस. वेलुसामी	टीएनएसवीसी/ 587 6/15	26131, वेस्ट वन्ननदुरई स्ट्रीट, पी.वेलूर तालुक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	28.05.1993
1869	श्रवन कुमार के./ श्री एन. कलिया पेरुमल	टीएनएसवीसी/ 587 7/15	40ए 2, इंद्रा नगर, जयनकोडा, चोलापुरम डाक, अरियालूर जिला-621802, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	01.03.1993
1870	श्रीविद्या एस./ श्री एस. सेम्मुनी	टीएनएसवीसी/ 587 8/15	न.-2/166, गोपालापुरम, अलपुरम डाक, पप्पीरेडीपट्टी तालुक, धर्मापुरी जिला-636904, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	30.11.1992
1871	अकीला ए./ श्री जी. अरुणाचलम	टीएनएसवीसी/ 587 9/15	कलागम डाक, पेरावुरानी तालुक, थंजावुर जिला- 614804, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	08.01.1994
1872	बाबू एस./ श्री पी. सेल्वम	टीएनएसवीसी/ 588 0/15	पट्टावरथी ग्राम, जम्नहल्ली डाक, पप्पीरेडीपट्टी तालुक, धर्मापुरी जिला-636904, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	2.11.1991
1873	रवि कुमार एल./ श्री एस. लक्ष्मनन	टीएनएसवीसी/ 588 1/15	3/339, उदामलपट्टी ग्राम, पोचमल्ली डाक एवं तालुक, कृष्णागिरि जिला-635206, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	7.11.1992
1874	समीर अली एम./ श्री एस. मौहम्मद हनीफ	टीएनएसवीसी/ 588 2/15	6/22, पल्लीवासल स्ट्रीट, चिंथामनिपट्टी, करूर जिला- 621301, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	10.07.1993
1875	अलावरासन के./ श्री एम. कुमार	टीएनएसवीसी/ 588 3/15	डी.न.: 2-379, अरीगौंडानूर, थैथीगीरपट्टी डाक, मेट्टूर तालुक, सलेम जिला-636451, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	08.06.1993
1876	अलेक्जेंडर ए./ श्री डी. अरिवजागन	टीएनएसवीसी/ 588 4/15	साउथ स्ट्रीट, अयान अथूर डाक, अरियालूर तालुक व जिला-621705, न.-157ए, त्रिची राकड, थुरईयूर, त्रिची जिला-621010, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	05.06.1993
1877	दामोदिरन के./ श्री के. कलयप्पन	टीएनएसवीसी/ 588 5/15	बूमाथनहल्ली ग्राम, गेंडीकना हल्ली डाक, पलकोड तालुक, धर्मापुरी-635205, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	17.04.1993
1878	सीलमपरासन एम./ श्री के. मधु	टीएनएसवीसी/ 588 6/15	मधानक्कनापट्टी, कूटापट्टी डाक, मेट्टूर तालुक, सलेम जिला-636453, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	10.02.1993
1879	दिव्या एस./ श्री एम. सक्थिवेल	टीएनएसवीसी/ 588 7/15	85, भारतीदासन नगर, पुनजयारासंधंगल, कांचीपुरम- 631502, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	24.08.1993
1880	बालामुरुगन के./ श्री एम. कंडासामी	टीएनएसवीसी/ 588 8/15	वेस्ट स्ट्रीट, सीरानाथम ग्राम, इलांथनगुजी डाक, अलाथूर तालुक, पेरांबलूर जिला-621708, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	01.07.1992
1881	भार्गवी एस./ श्री पी. सुब्रमण्यन	टीएनएसवीसी/ 588 9/15	77बी, सेकंड स्ट्रीट, बेल एमोर्सीज कॉलोनी, सुवर्णकोट्टई, तिरुलनेलवेली- 627002, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	16.06.1993
1882	माथेश्वरन जी./ श्री ए. गनेसन	टीएनएसवीसी/ 589 0/15	68, वी.एस. कॉलोनी, सूरियम पलायम डाक, तिरुचेनगोडु -637211, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	10.06.1993
1883	लक्ष्मी प्रिया पी./ श्री एस. पांडीस्वरन	टीएनएसवीसी/ 589 1/15	1/319, माविलीपलायम रोड, कैमिकल्स, अक्कमापेट, सनारी, सलेम-637301, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	23.04.1993
1884	तामीजरासी बी./ श्री एम. बालूसामी	टीएनएसवीसी/ 589 2/15	मरियमनकोइल स्ट्रीट, ओरंगूर डाक, वेप्पूर तालुक, कुडालूर जिला-606108, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	20.05.1993
1885	वलारमठि एन./ श्री ए. नलिया गौंडेर	टीएनएसवीसी/ 589 3/15	1/25, कनूथोट्टम अन्नियार, कोलांथा पलायम, वेलागौंडम पट्टी डाक, नमक्कल जिला-637212, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	21.07.1993
1886	पुनीथा एम./ श्री वी. मोहनकुमार	टीएनएसवीसी/ 589 4/15	1/15, बोयार स्ट्रीट, चिन्ननकुप्पम डाक एवं ग्राम, पप्पीरेडीपट्टी तालुक, धर्मापुरी जिला-636903, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	20.07.1993

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1887	दीप्ती प्रियंका पी./श्री पी. पप्पू	टीएनएसवीसी/589 5/15	19/8, कुरुवप्पानाइकेनपल्ली, पिथलईपट्टी डाक, डिंडीगल -624002, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	01.06.1993
1888	मीरा रमेश/श्री आर. रमेश	टीएनएसवीसी/589 6/15	अक्षय न. 79, दूसरा मेन रोड, वी.जी.पी. लेआउट, पार्ट-1, पलावक्कम, चेन्नई-600041, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	21.11.1992
1889	गौरीशंकर एस./श्री आर. शानमुगम	टीएनएसवीसी/589 7/15	99-ए.नेताजी स्ट्रीट, पंचलिंगा पुरम, स्वामीनाथपुरम डाक, इरोडे-638104, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	26.05.1993
1890	मधन कुमार एन./श्री बी. नागराजन	टीएनएसवीसी/589 8/15	दूसरी जय स्ट्रीट, डेंकनी कोट्टई डाक एवं तालुक, कृष्णागिरि जिला-635107, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	18.06.1993
1891	दिव्या देवी एस./श्री डी. सेल्वरम	टीएनएसवीसी/589 9/15	128/70ए, आयमपट्टी पिल्लईयर कोइल (उ.) स्ट्रीट, श्रीविलीपुत्तूर-626125, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	11.04.1993
1892	वेंगटेश पेरुमल एस./श्री वी.के. सुब्रामनि	टीएनएसवीसी/590 0/15	1/3, विशामंगलम, थिरुपत्तूर तालुक, वेल्लोर जिला- 635652, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	17.07.1993
1893	राजादुरई ए./श्री अन्नादुरई	टीएनएसवीसी/590 1/15	1/15, मिडल स्ट्रीट, थोलुनन्थंगल, विल्लुपुरम जिला-605801, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	22.05.1993
1894	लक्ष्मी श्री एस./श्री जी. सिवा गुरु नाथन	टीएनएसवीसी/590 2/15	317, वॉटर टैंक रोड, नागरकोइल, कन्याकुमारी -629001, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	03.10.1992
1895	वेंकटेश्वरन के./श्री एस. कमरासन	टीएनएसवीसी/590 3/15	1/113, कोनांगीनायकनहल्ली ग्राम, बैसुहल्ली डाक, धर्मापुरी तालुक एवं जिला-635205, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	04.04.1993
1896	मंजू जी./श्री ई. गुरुनाथन	टीएनएसवीसी/590 4/15	न.-17, सेकंड स्ट्रीट, अथिपक्कम, वंडावासी डाक एवं तालुक, थिरुवन्नामलई- 604408, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	11.06.1993
1897	जीवन्या टी./श्री सी. थंगम	टीएनएसवीसी/590 5/15	106, पट्टपन वट्टम, वेलानायकनेरी, तिरुपत्तूर तालुक, वेल्लोर जिला- 635852, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	14.04.1993
1898	जया प्रीथि ए./श्री सी. जया चंद्रन	टीएनएसवीसी/590 6/15	20/116, पेरुमथेरु, कुजीथुरई, कन्याकुमारी जिला-629163, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	14.03.1993
1899	जिमी कैरोलिन जे.ए./श्री आर. जॉन केनेडी	टीएनएसवीसी/590 7/15	मथावनकोट्टई विल्लै, मंगरई डाक, करुंगल, वाया- कन्याकुमारी जिला-629157, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	23.04.1993
1900	कीर्थिका डी./श्री के. धनपाल	टीएनएसवीसी/590 8/15	13-2/14, चिन्नया रेत्ती स्ट्रीट, पी.एन. पट्टी, मेट्टूर -636402, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	23.05.1993
1901	अस्विनी दुर्गा जे.के./श्री आर. कुमार	टीएनएसवीसी/590 9/15	491, अन्ना स्ट्रीट, ममबट्टूर ग्राम एवं डाक, पोलुर तालुक, थिरुवन्नामलई जिला- 606803, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	10.04.1993
1902	अनिथा एम./श्री वी. मनिक्कम	टीएनएसवीसी/591 0/15	16/1-339, गनपति नगर, चामराजपेट डाक, मेचेरी, मट्टूर तालुक, सलेम जिला- 636451, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	27.04.1993
1903	बानुप्रिया टी./श्री ई. थोमाथरन	टीएनएसवीसी/591 1/15	न. एम-361, राघवेंद्र नगर, टीएनएचबी क्वार्टर, सेविलिमेडु डाक, कांचीपुरम- 631502, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	16.03.1993
1904	अनु भारथी वी.एस./श्री वी. सेल्वराज	टीएनएसवीसी/591 2/15	1/744, हजियार स्ट्रीट, भारथी नगर, कलेक्टरेट डाक, रामनाथपुरम-623503, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	26.01.1993
1905	अर्बना के./श्री एम. कोलांडईवेलु	टीएनएसवीसी/591 3/15	187/एनए, कंडियार स्ट्रीट, अम्बलापट्टूर नॉर्थ, ओराथनाडु, थंजावूर-614626, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	10.05.1993
1906	गोबीनाथन बी./श्री आर. बालासुब्रमण्यन	टीएनएसवीसी/591 4/15	4/164, नॉर्थ स्ट्रीट, मीनसुरुथी डाक, उदयारपलायम तालुक, अरियलूर जिला- 612903, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	15.09.1991

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1907	हरि आनंदन एस./श्री वी. सक्थिवेल	टीएनएसवीसी/591 5/15	अथानावूर, येलागिरि हिल्स, तिरुपट्टूर तालुक, वेल्लोर जिला-635853, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	15.01.1991
1908	मधुमथी पी./श्री पी. पोन्नुसामी	टीएनएसवीसी/591 6/15	32,पैनपलायथर स्ट्रीट, वडाकुपडु पलायम, उंजालूर वाया, इरोडे जिला-638152, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	05.02.1993
1909	कार्थिका आर./ श्री आर. राधाकृष्णन	टीएनएसवीसी/591 7/15	6सी,अलगप्पा स्ट्रीट, पेरावुरानी डाक एवं तालुक, थंजावूर जिला-614804, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	30.04.1993
1910	ईस्वरी एम./श्री पी. मनि	टीएनएसवीसी/591 8/15	117-7,नेहरुजी स्ट्रीट,कुमकुम उथमपलायम तालुक, थेनी जिला-625518, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	15.01.1992
1911	गोकुल आर./श्री एन. रवि	टीएनएसवीसी/591 9/15	2/215, माया बाजार स्ट्रीट, पम्परेडीपट्टी डाक एवं तालुक, धर्मापुरी जिला- 636905, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	15.01.1993
1912	राजामनिकम के./श्री पी. कंडासामी	टीएनएसवीसी/592 0/15	8/39, नमक्कल पलायम, चेन्नीमलई, इरोडे जिला- 638051, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	21.11.1992
1913	रामाकृष्णन ए./श्री ओ. अंगप्पन	टीएनएसवीसी/592 1/15	28/66, गांधीनगर, दूसरी स्ट्रीट, धर्मापुरी-636701, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	27.09.1992
1914	राज कुमार आर.ए./श्री आर. अंबू	टीएनएसवीसी/592 2/15	52 बी/2, दुरम रोड, कल्लाकुरिची, विल्लुपुरम- 606202, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	22.03.1993
1915	मोहन एम./श्री एम. मलया पेरुमल	टीएनएसवीसी/592 3/15	2-457, रोजा नगर, जुजुवाडी होसुर तालुक, कृष्णागिरि जिला-635109, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	12.09.1992
1916	नेथाजी एस./श्री के. सेकरन	टीएनएसवीसी/592 4/15	न-37, एस.एन.नगर, थेंडरल नगर, नडुकुथागई,थिरुनित्रावुर -602024, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	11.07.1992
1917	कविथा के./श्री एस. कन्नन	टीएनएसवीसी/592 5/15	पुराना न.: 1/57, नया न.: 1/62, बिग स्ट्रीट, संगीथामंगलम विल्लुपुरम- 605202, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	14.02.1992
1918	अबिनया पी./श्री एन. पेरियासामी	टीएनएसवीसी/592 6/15	8/232, विवासायी नगर, सेम्मादई, मनमंगलम डाक, करुर जिला-639006, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	15.07.1993
1919	प्रभाहरन एन./श्री एल. नंदगोपाल	टीएनएसवीसी/592 7/15	214, इरुर डाक, अलाथूर तालुक, पेराम्बलूर जिला- 621109, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	06.04.1984
1920	प्रभाहरन एस./श्री ए. सेल्वराज	टीएनएसवीसी/592 8/15	डोर न. 67/11, रोड न.-13, वी.नगर, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला-637408, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	02.08.1992
1921	महेंद्रन जे./श्री टी. जयरमन	टीएनएसवीसी/592 9/15	2-91, कलानी स्ट्रीट, कथुर डाक, अलाथूर तालुक, पेराम्बलूर जिला-621713, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	25.07.1993
1922	जैस्मिन आर./श्री एस. राजासिंघ	टीएनएसवीसी/593 0/15	न.-265, गंगई अम्मन कोइल स्ट्रीट, थिरुवनमियूर चेन्नई- 600041, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	11.05.1993
1923	मुनियासेल्वम के./श्री जी. कुंडुमलई	टीएनएसवीसी/593 1/15	2/165, साउथ स्ट्रीट, उलाकुडुडी, उलाकुडुडी डाक, थिरुचुली तालुक, विरुधुनगर जिला-626607, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	01.04.1993
1924	रामामूर्थि एम./ श्री ए.जी. मुथु	टीएनएसवीसी/593 2/15	पुराना न.-1/26 डी, नया न. 1/1, अचाराहल्ली, पेन्नाग्राम, धर्मापुरी जिला-636809, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	06.12.1992
1925	ईजीसाई आर./श्री आर. राधाकृष्णन	टीएनएसवीसी/593 3/15	7/125, येरापट्टी, ए.जेट्टीहल्ली डाक, धर्मापुरी- 636807, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	24.05.1993
1926	मदेश एम./श्री मुनियप्पन	टीएनएसवीसी/593 4/15	7/157 ए, ए.जेट्टीहल्ली, ए.जेट्टीहल्ली डाक, धर्मापुरी -636807, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	13.06.1993
1927	सुरेखा प्रियदर्शिनी एस./श्री ए. सुंदर	टीएनएसवीसी/593 5/15	दूसरी स्ट्रीट, पलानीपिल्लै नगर, तिरुकोइलूर मेन रोड, थियुआगडुरुगम, विल्लुपुरम जिला-606206, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	12.07.1993

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1928	हीरा बानू एस./श्री एस. सैयद कलाम शा	टीएनएसवीसी/593 6/15	न.-1/174, देसीयानेदुनसलाई अरुकिल, थेवइयूर डाक, पेराम्बलूर जिला-621115, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	08.06.1993
1929	इंधुमथी एस./श्री एम. विजयकुमार	टीएनएसवीसी/593 7/15	सिनेमा सैट रोड, पेरिया थम्बन स्ट्रीट, कोलाथूर डाक, मेट्टूर तालुक, सलेम जिला- 636303, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	15.06.1992
1930	अबिनय ए./श्री ए. आनंधन	टीएनएसवीसी/593 8/15	न. 6/1, एडीएस निवास, मेलापेरुमल कोइल स्ट्रीट, पेन्नाडम, कुडालूर जिला- 606105, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	11.08.1993
1931	राजा टी./श्री सी. थंगावेल	टीएनएसवीसी/593 9/15	3/3, सीरथम ग्राम, इलानथंगुली डाक, अलाथूर तालुक, पेराम्बलूर जिला- 321109, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	29.05.1993
1932	वेंकटवासन आर./श्री एस. रवि	टीएनएसवीसी/594 0/15	191/76, अम्बी डॉक्टर स्ट्रीट, टी. कोनगापडी डाक, ओमालूर तालुक, सलेम जिला-636502, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	7.02.1993
1933	बाबू पी./श्री एन. पलानीसामी	टीएनएसवीसी/594 1/15	5/99, के. पपीनाइकेनपट्टी, बोम्मपट्टी डाक, नमक्कल जिला-637212, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	4.06.1993
1934	पूर्ण चंदर आई./श्री वी. इंदिरन	टीएनएसवीसी/594 2/15	न.-9, दूसरी स्ट्रीट, सुंदरम नगर, बी.ओ. कार्यालय के सामने, मिंजूर, पोन्नेरी तालुक, तिरुवलूर जिला-601203, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	14.01.1993
1935	दिव्या टी./श्री वी. थंगारासू	टीएनएसवीसी/594 3/15	डी.न. 39/6, चौथी स्ट्रीट, सेनगुथापुरम, उदयारपलायम तालुक, अरियालूर जिला- 621802, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	15.04.1993
1936	अरिवुसेल्वन एस./श्री एस. सेंगामुथु	टीएनएसवीसी/594 4/15	अम्मानिकुट्टई स्ट्रीट, सिरुकडम्बूर, उन्जिनी डाक, सेंदुरई तालुक, अरियालूर जिला-621714, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	02.02.1993
1937	अमुथा के./श्री पी. कमला कन्नन	टीएनएसवीसी/594 5/15	144, बिग स्ट्रीट, इरुम्बी पल्लीपेट तालुक, थिरुवलूर जिला-631302, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	18.09.1992
1938	कीर्थना एस./श्री एम. सेकर	टीएनएसवीसी/594 6/15	2/142, साउथ स्ट्रीट, साउथ पमानी, पमानी डाक, थिरुथुरई पोंडी तालुक, थिरुवरुर, जिला-614711, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	10.06.1993
1939	हरिनी एस./श्री ए. सुब्बुरथिनम	टीएनएसवीसी/594 7/15	न.-9/8, पुंजई थोट्टाकुरिची करुर जिला-639113, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	21.09.1992
1940	विपिन मुरली पी./श्री एम. पोनराज	टीएनएसवीसी/594 8/15	1/638सी, थिरुकुमारन नगर, पलावनचिपलायम, तिरुपुर- 641604, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	29.03.1993
1941	सथीश एस./श्री टी. शानमुगम	टीएनएसवीसी/594 9/15	समान्दाहल्ली ग्राम, इलावडई डाक, हरुर तालुक, धर्मापुरी- 635305, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	04.04.1993
1942	सूर्या टी./श्री पी. थमिलवनन	टीएनएसवीसी/595 0/15	57, नॉर्थ स्ट्रीट, कुरुम्बालूर डाक, पेराम्बलूर जिला- 621107, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	10.06.1993
1943	प्रसांथ डी./श्री के. दुरई	टीएनएसवीसी/595 1/15	अम्बेडकर नगर, वेगुथुपट्टी, पम्पीरेडीपट्टी, धर्मापुरी- 635809, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	20.05.1991
1944	मनिवन्नन एस.जी./श्री वी. सदासिवन नायर	टीएनएसवीसी/595 2/15	7/9, वेदीकोट्टई, 1-क्रॉस, पापरापट्टी, डाक, पेन्नाग्राम तालुक, धर्मापुरी-636809, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	20.07.1991
1945	सुफीश एस.जी./श्री वी. सदासिवन नायर	टीएनएसवीसी/595 3/15	सरिजा भवन, वेनकांजी, कोल्लमकोडे, कन्याकुमारी जिला-629160, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	03.06.1992
1946	शानमुगनाथ सी./श्री पी. चंद्रसेखर	टीएनएसवीसी/595 4/15	4/111, ईस्ट स्ट्रीट, एन. कंदमपलायम डाक, पी.वेलूर तालुक, नमक्कल जिला- 637203, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	27.09.1992
1947	विवेकानंदन आर./श्री के. रंगाराजू	टीएनएसवीसी/595 5/15	न.2/1, थथियुअम पट्टी, 2-वार्ड, कमलापुरम डाक, ओमालूर तालुक, सलेम जिला-636609, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	22.05.1993

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1948	विग्नेश के./श्री आर. कासी	टीएनएसवीसी/595 6/15	सलावक्कम रोड स्ट्रीट, मारुथम ग्राम, उथिरामेरुर तालुक, कांचीपुरम जिला-603406, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	11.08.1993
1949	संकर जे./श्री एस. जेयाकुमार	टीएनएसवीसी/595 7/15	73/27, पेरुमल कोइल स्ट्रीट, सट्टनकुलम, ट्यूटीकोरिन -628704, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	10.03.1992
1950	रागवी के./श्री पी. कंडासामी	टीएनएसवीसी/595 8/15	91/1, को-ऑपरेटिव कॉलोनी, गांधी नगर, नमक्कल 7637001, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	03.09.1992
1951	निवेदिता आर./श्री के. राजेंद्रन कुमार	टीएनएसवीसी/595 9/15	न. 10-71, ए 3, कराविलगाम, नल्लूर, मार्थण्डम, कन्याकुमारी - 629165, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	03.09.1992
1952	प्रियादर्शिनी आर./श्री सी. रामदास	टीएनएसवीसी/596 0/15	158, नॉर्थ स्ट्रीट, मेलपुलियन गुडी, कट्टमन्नार कोइल तालुक, कुडालूर जिला- 608703, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	18.07.1993
1953	धनलक्ष्मी आर./श्री टी. राजा	टीएनएसवीसी/596 1/15	कुल्लानूर ग्राम, पोचमपल्ली, डाक एवं तालुक कृष्णागिरि जिला-635206, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	15.03.1993
1954	मोहनाप्रिया एम./श्री एस. मारीमुथु	टीएनएसवीसी/596 2/15	207/2, सिलुवनगडु, पुल्ला गौंडमपट्टी डाक, तिरुचेनगोडे तालुक, नमक्कल जिला-637202, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	01.05.1993
1955	नाधिया सी./श्री के. चिन्नासामी	टीएनएसवीसी/596 3/15	जदायमपट्टी, पोलायमपल्ली डाक, हरुर तालुक, धर्मापुरी जिला-635305, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	10.04.1993
1956	प्रेमा पी./श्री आर. पलानीसामी	टीएनएसवीसी/596 4/15	4/329, न्यू स्ट्रीट, ऐनधुपनाई कडाचनालूर डाक, तालुक तिरुचेनगोडे, नमक्कल जिला-638008, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	30.07.1993
1957	संगीथा एस./श्री सी. सक्थिवेल	टीएनएसवीसी/596 5/15	2/142, अम्बेडकर स्ट्रीट, क्रॉस-1, थाविट्टुपलायम, अंथियूर तालुक, इरोडे जिला-638501, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	04.12.1992
1958	रथिगा आर./श्री जी. रामामूर्थि	टीएनएसवीसी/596 6/15	19, राजाजी स्ट्रीट, पेराम्बलूर तालुक एवं जिला- 621212, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	08.11.1992
1959	दिव्या भारथी आर./श्री पी.एन. राजसेकरन	टीएनएसवीसी/596 7/15	डी.न.:147/6, अट्टूर मेन रोड, बीडीओ कार्यालय के पीछे, अयोधियापट्टिनम, सलेम-636103, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	10.01.1993
1960	परमेश्वरी एस./श्री एम. सेल्वराज	टीएनएसवीसी/596 8/15	21/6, कलियप्पा पिल्लै स्ट्रीट, सीथूर, राजापलायम तालुक, विरुधुनगर जिला-626121, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	03.05.1993
1961	सेल्वा रानी आर./श्री एम. राजाकनि	टीएनएसवीसी/596 9/15	अरासन इल्लम, सांगुरेडुडी पट्टी स्ट्रीट, अमाथूर, विरुधु नगर-626005, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	12.03.1993
1962	अरुल कुमार एस./श्री एम. सेल्वराज	टीएनएसवीसी/597 0/15	लक्ष्मनपुर ग्राम, कोरक्कावाड़ी डाक, तित्तागुडी तालुक, कुडालूर जिला-606303, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	02.06.1993
1963	सुधर्सन एम./श्री ए. मरिअप्पन	टीएनएसवीसी/597 1/15	50 डी, चोक्कानाथपुरम, सिवा सक्ति नगर, चिन्नामनूर, थेनी जिला-625515, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	21.04.1993
1964	विमलराज ई./श्री एम. इलांगोवन	टीएनएसवीसी/597 2/15	114/2, वेस्ट मेन रोड, अम्बेडकर नगर के सामने, पेन्नाडम डाक, तित्ताकुडी तालुक, कुडालूर जिला- 606105, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	09.08.1993
1965	शियामला एस./श्री ए. सिवाकुमार	टीएनएसवीसी/597 3/15	न.-173(3), थॉमस कॉलोनी, उधमपलायम, थेनी-625533, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	16.07.1993
1966	सिवारंजनी आर./श्री एम. रविचंद्रन	टीएनएसवीसी/597 4/15	62, वीरप्पापिल्लै स्ट्रीट, पोरयार, नागापिट्टनम जिला-609307, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	09.10.1992
1967	विनोदिनी पी./श्री एस. प्रभाकरन	टीएनएसवीसी/597 5/15	135/1, किलईमेडु, कोसावन पुडुर, ग्राम व डाक- कटपदी तालुक, वेल्लोर जिला-635803, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	20.09.1992
1968	थरन्या एस./श्री आर. सेल्वराज	टीएनएसवीसी/597 6/15	21/1, साउथ राजा स्ट्रीट, पेरुमल कोविल थोट्टम, उथुकुली, तिरुपुर जिला-638751, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएसवीएस/2015	29.06.1993

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1969	विग्नेश एस./श्री वी. सुंदरराज	टीएनएसवीसी/597 7/15	2/13, वेस्ट स्ट्रीट, अम्मापलायम डाक, पेरम्बलूर जिला-621101, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	23.06.1993
1970	कवियारासन डी./श्री एस. दुरईसामी	टीएनएसवीसी/597 8/15	73/2, वेटेरिनरी हॉस्पिटल रोड, पुराना बंगलौर रोड, होसूर-635109, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	18.06.1992
1971	मौहम्मद इस्माइल ए.एल./श्री अफज़ल हुसैन	टीएनएसवीसी/597 9/15	न.-1, 339/5, पल्लावन स्ट्रीट, विग्नेश्वर नगर, पोरुर, चेन्नई-600116, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	22.06.1993
1972	आरिफ बी./श्री के. बाबू	टीएनएसवीसी/598 0/15	डी.न. 51/140, अप्पासामी नायडू स्ट्रीट, कावेरीपटनम डाक, कृष्णागिरि तालुक एवं जिला-635112, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	25.12.1992
1973	कार्थिक एम./श्री एम. माधेश्वरन	टीएनएसवीसी/598 1/15	डोर न.:1/226, कडायमपट्टी ग्राम, थिप्पमपट्टी डाक, धर्मापुरी जिला, हरूर तालुक-635202, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	21.07.1992
1974	हेमलथा एस./श्री एस. शंकर नारायणन	टीएनएसवीसी/598 2/15	2/21, नॉर्थ स्ट्रीट, अलादी ग्राम, कुडालूर जिला-606115, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	15.06.1991
1975	सिवागुरी एम./श्री वी.ए. मुरुगन	टीएनएसवीसी/598 3/15	89(1), अप्पू मुधलियर स्ट्रीट, पौपरापट्टी डाक, पेन्नाग्राम तालुक, धर्मापुरी जिला-636809, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	11.05.1991
1976	अक्षय देवी एस./श्री पी. श्रीनिवासन	टीएनएसवीसी/598 4/15	101 ए, आदित्यम अपार्टमेंट, इलांगो नगर साउथ, वीरुगनमबक्कम चेन्नई-600092, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	22.12.1993
1977	दिनेश कुमार एस./श्री आर. सेल्वाराजू	टीएनएसवीसी/598 5/15	9ए, गनेशर स्ट्रीट, इरुमापट्टी डाक, नमक्कल जिला-637013, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	14.05.1993
1978	निवेधिता एस./श्री एम. श्रवनन	टीएनएसवीसी/598 6/15	करुप्पासामी कोविल स्ट्रीट, करुप्पना नादर स्ट्रीट, जे.के. पट्टी, बोदीनायकानूर, थेनी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	28.05.1992
1979	अहमद राजिन ए./श्री एस.ए. अनवर अली	टीएनएसवीसी/598 7/15	20/250, रहुमानिया नगर, नॉर्थ स्ट्रीट, किलाकरई-623517, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	26.05.1993
1980	थियागराजन एन./श्री वी. वीरा कुमार	टीएनएसवीसी/598 8/15	398, अवारंगडु पल्लीपलायम, थिरुचेनगोडे तालुक, नमक्कल जिला, इरोडे-638006, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	20.05.1989
1981	वेम्बु आर./श्री पी. राजेंद्रन	टीएनएसवीसी/598 9/15	कीला स्ट्रीट, इरुंगलूर वाया, लालगुडी तालुक, त्रिची जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	22.05.1991
1982	कुमार के./श्री के. कलईसेल्वम	टीएनएसवीसी/599 0/15	1/4654/5, आर.वी.आर. नगर, रोसलपट्टी, विरुधुनगर -626001, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	02.09.1990
1983	मौहम्मद जुवैर/श्री मौहम्मद नयीम	टीएनएसवीसी/599 1/15	न.-73 एच/7, एचआईजी टाउन, मनाली न्यू टाउन, चेन्नई-600103, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	17.05.1989
1984	कन्नाथासन के./श्री आर. कलियामूर्ति	टीएनएसवीसी/599 2/15	साउथ स्ट्रीट, सेम्बडेकुरिची वेगटमपेट डाक, संगारापुरम तालुक, विल्लुपुरम जिला-606207, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	02.06.1991
1985	विजीप्रिया पी./श्री पी. पेरियासामी	टीएनएसवीसी/599 3/15	6ए/1, थिरुवल्लुवर नगर, क्रॉस-1 स्ट्रीट, पलांगनथम, मदुरै जिला-625003, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	24.09.1988
1986	राधिका आर./श्री जी. रामाकृष्णन	टीएनएसवीसी/599 4/15	कलसानूर ग्राम, कोंगारापट्टी डाक, हरूर तालुक, धर्मापुरी जिला-635202, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	22.07.1990
1987	राजिथा डी./श्री सी. दुरईराज	टीएनएसवीसी/599 5/15	पुराना न. 63 ई 2, नया न.12, पेरियार नगर, थिरुवल्लुवर रोड, कीरामंगलम नॉर्थ, अलंगुडी तालुक, पुडुकोट्टई जिला-614624, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	20.05.1991
1988	फ्रेडज़ डब्ल्यू.एम./श्री सी. विल्फ्रेड जॉन	टीएनएसवीसी/599 6/15	न.-7-107/एनए, चेंडराविलासम, चेरुवल्लूर डाक, कन्याकुमारी जिला-629152, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	29.12.1989
1989	आरोन वेजले सी./श्री एस.ए. क्रिस्टोफर	टीएनएसवीसी/599 7/15	पलैट न. 3 बी/3, न्यू स्ट्रीट, करुक्कु, अम्बाट्टूर, चेन्नई-600053, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएयू वीएस/2015	05.08.1989

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
1990	दुरई एस./श्री एम. शानमुगम	टीएनएसवीसी/599 8/15	449, अथिपडी रोड, वनपुरम डाक एवं ग्राम, थंडारमपट्टू तालुक, थिरुवन्नामलई जिला-606753, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	05.07.1989
1991	नवीन कुमार आर./श्री ए. रविचंद्रन	टीएनएसवीसी/599 9/15	कुडंगल पट्टी, करुप्पुर डाक, करुर जिला-639108, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	03.04.1991
1992	सरथ कुमार ए./श्री ए. अंबालगन	टीएनएसवीसी/600 0/15	9/90 बी, एस. अलगापुरी, सपतुर डाक, पेरियूर तालुक, मदुरै जिला-625705, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	10.06.1992
1993	इलानथेंडरल एस./श्री एन. सुदरराजन	टीएनएसवीसी/600 1/15	कोडियालम, मुगईयूर डाक, चिदाम्बरम तालुक, कुडालूर जिला-608305, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	03.06.1992
1994	प्रसांथ जे./श्री एन. जयराज	टीएनएसवीसी/600 2/15	डी.न.: 2/291, लिंगानमपट्टी, कोप्पाकरई डाक, डेगनकोटई तालुक, कृष्णागिरि-635116, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	06.11.1992
1995	किशोर कार्थिकेयन आर./श्री आर. रामचंद्रन	टीएनएसवीसी/600 3/15	22ए, ब्राइट गार्डन, रामामूर्थि रोड, सेल्वापुरम, कोयम्बतूर-641026, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	03.11.1992
1996	पूर्णिमा अयास्वामी /श्री के.वी. अयास्वामी	टीएनएसवीसी/600 5/15	नया न.-33, पुराना न.-14, तीसरा मेन रोड, गांधी नगर, अदयार, चेन्नई-600020, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/पीयू/20 13	13.04.1987
1997	नागराजन जी./श्री आर. गोविंदसामी	टीएनएसवीसी/600 6/15	1/25, ईस्ट स्ट्रीट, बंगालोर पुडुर डाक, इरोडे जिला-638512, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएस वीएस/1996	21.06.1972
1998	सुमैया नाशीरा ए.एन./श्री ए.नवाब	टीएनएसवीसी/600 7/15	161/64-ए, जनरल बाजार स्ट्रीट, तेन्नूर, त्रिची-620017, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	19.11.1992
1999	प्रियंका जे./श्री ए. जयरमन	टीएनएसवीसी/600 8/15	121/3, चेल्लामल इल्लम, कलारामनि, मोदाचूर, गोबीचेट्टीपलायम-638476, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	02.01.1991
2000	करुनाकरन आर./श्री एम. रमन	टीएनएसवीसी/600 9/15	एच 81/ए/4, सीवार्ड रोड-1, वाल्मिकी नगर, थिरुवमियूर, चेन्नई-600041, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएस वीएस/1988	20.06.1966
2001	अरुनमोजी एन./श्री जी. नारायणसामी	टीएनएसवीसी/601 0/16	न.-9, स्टाफ क्वा., मद्रास वेटेरिनरी कॉलेज होस्टल कैम्पस, वेपेरी, चेन्नई-600007, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/पीयू/19 99	05.02.1977
2002	सथीश कुमार एन./श्री पी. नेहरु	टीएनएसवीसी/601 1/16	डी.न.:112, नेहरु कम्पाउंड, सिवागनी स्ट्रीट, कट्टाबोमन नगर, सेल्लूर, मदुरै-625002, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	18.04.1991
2003	प्रिस के./श्री एम.डी. कलईरासन	टीएनएसवीसी/601 2/16	45ए, उंजापलायम रोड, ए.आर.सी. स्कूल, सोमानूर के सामने, कोयम्बतूर-641663, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनएस वीएस/2015	31.05.1991
2004	सिवासंकर सी./श्री एस. चोकाळिंगम	टीएनएसवीसी/601 3/16	न.-4, श्री राम मातृका अपार्टमेंट, 28वां क्रॉस स्ट्रीट, इंदिरा नगर, अदयार, चेन्नई-600020, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएस वीएस/1985	18.04.1962
2005	मनिकावसागम जी. /श्री एम. गोपाल	टीएनएसवीसी/601 4/16	170/1, माउंट प्लैजेंट, जल बोर्ड कार्यालय के निकट, उधागामंडलम-643001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएस वीएस/1981	23.03.1956
2006	थिरुनवुककरासु एस./श्री ए.के. सुब्रह्मण्य थैवर	टीएनएसवीसी/601 5/16	969, पेरियार नगर, राजागोपाल पुरम, पुडुकोट्टई, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएस वीएस/1979	10.07.1948
2007	लीडिया जे./श्री अनियान चार्ल्स	टीएनएसवीसी/601 6/16	151, दूसरा मेन स्ट्रीट, नेसामोनी नगर, नगरकोइल-629001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएस वीएस/2005	03.11.1981
2008	संगीथा आर./श्री एम.के. रामचंद्रन	टीएनएसवीसी/601 7/16	न.-5/422, साई कॉम्प्लेक्स, वनपडी रोड, रानीपेट-623401, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/पीयू/19 99	08.09.1976
2009	थियागराजन सी./श्री के. चंद्रायन	टीएनएसवीसी/601 8/16	174, लक्ष्मी मिल्स कॉलोनी, पप्पानईकेन पलायम, कोयम्बतूर-641037, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएस वीएस/2000	07.05.1976
2010	काथीरेसन ई.आर./श्री ई. राजू	टीएनएसवीसी/601 9/16	248/1, थिरुनावुकरासु नगर, विनायगपुरम, नरसिंगपुरम डाक, अट्टूर तालुक, सलेम जिला-636108, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएस वीएस/1993	05.06.1970

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
2011	अपूर्वा देबबर्मा, पुत्र श्री बिरेंद्र देबबर्मा	त्रिपुराएसवीसी / 257 / 2015	ग्राम-कमलाचर, अम्बाशा, ढलई- 799289, त्रिपुरा	बीवीएससीएंडएच / त्रिपुरा विवि / 2014	24.05.1992
2012	प्रसेनजीत दास, पुत्र श्रीचंदन दास	त्रिपुराएसवीसी / 258 / 2015	ग्राम एवं डाक- लेम्बुचारा, थाना-लेफुंगा, सब.डिवी.- मोहनपुर-799210, त्रिपुरा	बीवीएससीएंडएच / सीएयू, इम्फाल / 2015	14.04.1991
2013	जयंता बानिक, पुत्र श्री सत्य रंजन बानिक	त्रिपुराएसवीसी / 259 / 2015	ग्राम- बनकुमारी, जोगेन्द्र नगर, नाथ पारा, पश्चिम त्रिपुरा-799004, त्रिपुरा	बीवीएससीएंडएच / सीएयू, इम्फाल / 2015	02.03.1992
2014	सुमंता देब बर्मा, पुत्र श्री कृष्ण रॉय देबबर्मा	त्रिपुराएसवीसी / 260 / 2015	ग्राम- रंगमाला, ओपी- बाजार, सेपाहीजल, त्रिपुरा- 799103, त्रिपुरा	बीवीएससीएंडएच / सीएयू, इम्फाल / 2015	05.01.1989
2015	स्वरूप देब रॉय / श्री हिमांशु सेखर देब रॉय	त्रिपुराएसवीसी / 261 / 2015	ओपी- कलाचरी, कमलपुर, ढलई, डाक- मानिक, भंडर- 799287, त्रिपुरा	बीवीएससीएंडएच / सीएयू, इम्फाल / 2015	22.05.1991
2016	धर्म साहू, पुत्र श्री बिशु देब साहू	त्रिपुराएसवीसी / 262 / 2015	ग्राम-एसबीसी नगर, बेलोनिया, दक्षिणी त्रिपुरा- 799135	बीवीएससीएंडएच / सीएयू, इम्फाल / 2015	25.10.1991
2017	हामारी देबबर्मा, पुत्री श्री नकुल च. देबबर्मा	त्रिपुराएसवीसी / 263 / 2015	ग्राम-चरगारिया बारी, डाक- बचाई बारी, खोवल- 799202, त्रिपुरा	बीवीएससीएंडएच / सीएयू, इम्फाल / 2015	07.12.1990
2018	अमिताव पॉल, पुत्र श्री अबावी पॉल	त्रिपुराएसवीसी / 264 / 2015	नागफुल, हलाहली, थाना- सलेमा ढाली- 799289, त्रिपुरा	बीवीएससीएंडएच / सीएयू, इम्फाल / 2015	06.10.1990
2019	उकयाचिग मोग, पुत्र श्री अनयागा मोग	त्रिपुराएसवीसी / 265 / 2015	द्वारा: अजीत देबबर्मा, बिजय कुमार, चौमुहानी, अगरतला- 799001, त्रिपुरा	बीवीएससीएंडएच / सीएयू, इम्फाल / 2015	19.02.1990
2020	सम्राट कलई, पुत्र श्री सुभाष कलई	त्रिपुराएसवीसी / 266 / 2015	ग्राम-मनकरई पारा, एन.के.आर., थाना- तेलियामुरा, खेवल, त्रिपुरा-799202	बीवीएससीएंडएच / सीएयू, इम्फाल / 2015	20.12.1990
2021	असीश जमातिया, पुत्री श्री गयासर, जमातिया	त्रिपुराएसवीसी / 267 / 2015	ग्राम-कराया मुरा, डाक- जितेंद्र नगर, उदयपुर, गौमती-799120, त्रिपुरा	बीवीएससीएंडएच / सीएयू, इम्फाल / 2015	26.04.1990
2022	चंद्र देबबर्मा, पुत्र श्री अशोक देबबर्मा	त्रिपुराएसवीसी / 268 / 2015	ग्राम-फटीक चारा, डाक- कमलघाट, मोहनपुर, त्रिपुरा पश्चिम- 799210, त्रिपुरा	बीवीएससीएंडएच / सीएयू, इम्फाल / 2015	16.02.1990
2023	कीर्ति / श्री सहदेव सिंह	यूपीएसवीसी / 6094 / 15	म.न.-ए-4, बालाजीपुरम, न्यू तंतूरा रोड, डाक-औरंगाबाद, जिला-मथुरा-281006, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / केवीएंडए फएसयू / बिदर / 2012	03.07.1990
2024	यूजया श्री / श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर	यूपीएसवीसी / 6095 / 15	ग्राम-करीमुद्दीनपुर, तहसील -मौहम्मादाबाद, जिला- गाजीपुर, उत्तर प्रदेश-233001	बीवीएससीएंडएच / एएजीआर एयू / 2000	07.08.1976
2025	ललित कुमार मौर्या / श्री गंगा प्रसाद मौर्या	यूपीएसवीसी / 6096 / 15	ग्राम-संता, डाक-उमरोरी, जिला-हरदोई, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	11.05.1988
2026	कृष्ण कुमार / श्री श्रीराम मोहन	यूपीएसवीसी / 6097 / 15	म.न.-90, ग्राम-अमारा, तहसील-मोठ, जिला-झांसी, उत्तर प्रदेश-284303	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एंडएएसयू / 2015	10.12.1987
2027	आशुतोष जादव / श्री करन पाल सिंह	यूपीएसवीसी / 6098 / 15	ग्राम-नागला नैमसुख, डाक- आर्या गुरुकुल सिरसगंज, जिला- फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश- 205151	बीवीएससीएंडएच / नचचकक नचबअअध2012	15.07.1988
2028	आनंद कुमार जायसवाल / श्री राम प्रताप जायसवाल	यूपीएसवीसी / 6099 / 15	म.न.-178, ग्राम-शाहजहांपुर जनौरा, जिला- फैजाबाद, उत्तर प्रदेश- 224123	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवी एंडएएसयू / 2015	26.07.1988
2029	कुलदीप नारायण सक्सेना / (स्व.) श्री जगदीश नारायण सक्सेना	यूपीएसवीसी / 6100 / 15	म.न.-104, चौहारी टोला, गार्गी विद्या मंदिर के निकट, जिला- सीतापुर, उत्तर प्रदेश- 261001	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयू एंडटी / 1983	08.06.1958
2030	नरेंद्र कुमार सिंह / श्री राम चंद्र विद्यार्थी	यूपीएसवीसी / 6101 / 15	म.न.:281, ग्राम-कोरारी, डाक -मुरवाज, थाना-बिसांदा, तहसील-बाबेरु, जिला-बांदा, उत्तर प्रदेश-210001	बीवीएससीएंडएच / सीएयू, इम्फाल / 2015	02.01.1989
2031	सतीश चंद्र / श्री राम कुंवारे	यूपीएसवीसी / 6102 / 15	ग्राम-पीर नसीरुद्दीन, डाक- राम नगर, जिला-बहराईच, उत्तर प्रदेश- 271865	बीवीएससीएंडएच / सीएयू, इम्फाल / 2015	10.01.1988
2032	संदीप यादव / श्री एन. आर. यादव	यूपीएसवीसी / 6103 / 15	100 / 10, श्यामा सदन, आचार्य द्विवेदी नगर, जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश- 229001	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	08.09.1986
2033	बृजेश कुमार सिंह / श्री इंद्र पाल सिंह	यूपीएसवीसी / 6104 / 15	ग्राम-धानसेखरा, डाक- असेपुर, जिला-इलाहाबाद- 22108, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	05.08.1981

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
2034	रानिश कटियार / श्री के. के. कटियार	यूपीएसवीसी / 6105 / 15	म.न.:117 / 334, पी-ब्लॉक, काकादेव, जिला- कानपुर- 208025, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	28.10.1990
2035	अंकित यादव / श्री राम खिलाड़ी यादव	यूपीएसवीसी / 6106 / 15	ग्राम-कासन, डाक- निजामपुर, थाना- बगवाला, जिला-एटा, उत्तर प्रदेश- 207001	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएण्डटी, फैजाबाद / 2015	07.02.1991
2036	राम अभिषेक सिंह / श्री रुप सिंह	यूपीएसवीसी / 6107 / 15	ग्राम एवं डाक- काशीपुरा, थाना-पुंछ, तहसील-मोठ, जिला-झांसी, उत्तर प्रदेश- 284306	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	01.01.1990
2037	शैलेंद्र सिंह / श्री राम चंद्र सिंह	यूपीएसवीसी / 6108 / 15	ग्राम-गनियावर, पुलिस स्टेशन के निकट, चक्रनगर, जिला- इटावा, उत्तर प्रदेश-206002	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	10.06.1987
2038	हेमंत सिंह / श्री राम बहादुर सिंह	यूपीएसवीसी / 6109 / 15	ग्राम एवं डाक- सिसई, जिला- गोंडा, उत्तर प्रदेश- 271401	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएण्डटी, फैजाबाद / 2015	05.06.1988
2039	विवेक कुमार / श्री रामदास	यूपीएसवीसी / 6110 / 15	66, न्यू पटेल नगर, कोर्च बस स्टैंड, जिला- ओरई (जालौन) -285001, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएण्डटी, फैजाबाद / 2015	03.07.1992
2040	जैनेंद्र प्रताप सिंह सागर / श्री एस.पी.एस. सागर	यूपीएसवीसी / 6111 / 15	म.न.: 236 / 9, नाथ सिविल लाइन, धरमपुरी, जिला- मुजफ्फर नगर, उत्तर प्रदेश- 251001	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएण्डटी, फैजाबाद / 2015	15.12.1986
2041	रमेश कुमार / श्री भगवती पटेल	यूपीएसवीसी / 6112 / 15	ग्राम-गरेरियापुर (भारसथ), डाक- गोपालपुर, जिला- जौनपुर-222137, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएण्डटी, फैजाबाद / 2015	09.07.1989
2042	उदित कुमार यादव / श्री शिव सिंह	यूपीएसवीसी / 6113 / 15	ग्राम- दरियापुर जीटा, डाक- कारा, जिला- कौशम्बी, उत्तर प्रदेश- 212205	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएण्डटी, फैजाबाद / 2015	09.09.1987
2043	आकाश कुमार गुप्ता / श्री केशर देव गुप्ता	यूपीएसवीसी / 6114 / 15	ग्राम एवं डाक- ताजपुर मंघा, तहसील-जमानिया, जिला- गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 232341	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएण्डटी, फैजाबाद / 2015	01.01.1988
2044	विनोद कुमार सिंह / श्री राम बहादुर सिंह	यूपीएसवीसी / 6115 / 15	ग्राम- सरसतपुर, डाक-पोत्ती, जिला-प्रतापगढ़- 230135, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	10.07.1981
2045	विश्वामिका पाठक / श्री बरमेश्वर पाठक	यूपीएसवीसी / 6116 / 15	ग्राम एवं डाक- छटकी सेरिया बांसडीह, जिला- बलिया, उत्तर प्रदेश- 277210, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएण्डटी, फैजाबाद / 2015	15.11.1988
2046	अंकित पाल / श्री राज पाल	यूपीएसवीसी / 6117 / 15	ग्राम-पोखर पुरवा, डाक- कोरिया, जिला- हरदोई, उत्तर प्रदेश-241001	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएण्डटी, फैजाबाद / 2015	16.05.1990
2047	जीतेंद्र कुमार राजपूत / श्री जगत सिंह राजपूत	यूपीएसवीसी / 6118 / 15	ग्राम एवं डाक-मसूदपुरा, जिला- महोबा, उत्तर प्रदेश- 210429	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एण्डटी / 2015	17.06.1988
2048	अरुण कुमार सिंह / श्री मान सिंह	यूपीएसवीसी / 6119 / 15	ग्राम एवं डाक-हिनौटा, तहसील-मनझनपुर, जिला- कौशम्बी, उत्तर प्रदेश-212207	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	30.04.1985
2049	आशीष कुमार / श्री सुनील कुमार	यूपीएसवीसी / 6120 / 15	ग्राम एवं डाक- बिंदकी, तहसील-बिंदकी, जिला- फतेहपुर, उत्तर प्रदेश-212635	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	23.06.1990
2050	आकिंग अख्तर / श्री खलील अहमद	यूपीएसवीसी / 6121 / 15	ग्राम-कुनेसला, डाक- विश्वनाथ गंज, जिला- प्रताप गढ़, उत्तर प्रदेश-230404	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए स्यू, जबलपुर / 2015	29.03.1989
2051	पारितोष मिश्रा / श्री महेश दत्ता मिश्रा	यूपीएसवीसी / 6122 / 15	ग्राम एवं डाक-गोंडवा गोनी, तहसील-संदीला, जिला- हरदोई, उत्तर प्रदेश-241203	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एण्डटी / 2015	12.08.1987
2052	आशीष कुमार वर्मा / श्री मातादीन वर्मा	यूपीएसवीसी / 6123 / 15	ग्राम-इमलिया, डाक-अजान, जिला- लखीमपुर खेरी- 262802, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएण्डटी, फैजाबाद / 2015	10.08.1990
2053	राहुल वर्मा / श्री आदित्य कुमार वर्मा	यूपीएसवीसी / 6124 / 15	ग्राम-गडईपुर, डाक-सदरुदीन पुर, तहसील-नवाबगंज, थाना -जहांगीराबाद, जिला-बाराबंकी उत्तर प्रदेश-225123	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएण्डटी, फैजाबाद / 2015	02.05.1990

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
2054	गौरव पांडे / श्री प्रमोद कुमार पांडे	यूपीएसवीसी / 6125 / 15	राम निवास-228, कोर्ट रोड, पल्टन बाजार, जिला- प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश- 230001	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएण्डटी, फैजाबाद / 2015	26.10.1991
2055	प्रीति पटेल / श्री राम नवल वर्मा	यूपीएसवीसी / 6126 / 15	ग्राम-हरपुर ब्राह्मीपुर, डाक- पराश कटुई, तहसील- जालापुर, तहाना-सतानापुर, जिला- अम्बेडकर नगर- 224155, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएण्डटी, फैजाबाद / 2015	01.01.1992
2056	विवेक वर्मा / श्री भगवान दीन	यूपीएसवीसी / 6127 / 15	ग्राम-समुददीनपुर, डाक- ज्ञानपुर, जिला-अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश-224122	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएण्डटी, फैजाबाद / 2015	13.04.1986
2057	हसीब अहमद / श्री नसीर मौहम्मद	यूपीएसवीसी / 6128 / 15	म.न.:920 / 1, शिवाजी नगर, जिला-झांसी-284001, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएण्डटी, फैजाबाद / 2015	15.04.1989
2058	सबीर अली उस्मानी / श्री मतलूब हुसैन	यूपीएसवीसी / 6129 / 15	ग्राम- नटवा डाक-बांशपुर बैजूली, जिला-महाराजगंज -273303, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएण्डटी, फैजाबाद / 2015	22.12.1988
2059	इशांत आनंद / श्री बाबू लाल	यूपीएसवीसी / 6130 / 15	0664, जेतपुर सुमेर सागर मौहल्ला, गायत्री निवास के सामने, जिला- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273001	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएण्डटी, फैजाबाद / 2015	03.10.1988
2060	पंकज कुमार गुप्ता / श्री चंद्र प्रकाश गुप्ता	यूपीएसवीसी / 6131 / 15	ग्राम-निबी, थाना-शहरतगढ़, जिला-सिद्धार्थनगर- 272205, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएण्डटी, फैजाबाद / 2015	05.06.1988
2061	अभिषेक कुमार / श्री जगदीश प्रसाद	यूपीएसवीसी / 6132 / 15	ग्राम एवं डाक-गौतरा, जिला-हरदोई, उत्तर प्रदेश- 241302	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएण्डटी, फैजाबाद / 2015	16.07.1990
2062	अभिषेक कटियार / श्री अरविंद कटियार	यूपीएसवीसी / 6133 / 15	ग्राम-मदनपुर, डाक- मुबारकपुर, जिला-कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश-209115	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएण्डटी, फैजाबाद / 2015	25.11.1988
2063	महेंद्र कुमार / श्री माता सरन पाल	यूपीएसवीसी / 6134 / 15	ग्राम एवं डाक- मीठेपुर, जिला-जौनपुर- 222161, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएण्डटी, फैजाबाद / 2015	12.08.1989
2064	मार्तंड सिंह / श्री लाल सुधाकर सिंह	यूपीएसवीसी / 6135 / 15	ग्राम-बेमरा, डाक-बेमरा, तह. -बारा,थाना-शंकरगढ़,जिला- इलाहबाद, उ.प्र.-212108	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए सयू, जबलपुर / 2015	15.03.1990
2065	अंकुर सिंह / स्व. श्री राधे मोहन	यूपीएसवीसी / 6136 / 15	म.न.:235 / 116, विजय नगर चौराहा, जिला-इटावा, उत्तर प्रदेश- 206001	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएण्डटी, फैजाबाद / 2015	11.09.1990
2066	राजेंद्र कृष्ण शुक्ला / श्री भवानी प्रसाद शुक्ला	यूपीएसवीसी / 6137 / 15	ग्राम-सेखुई, डाक-रामपुर बंधुसरा, जिला-बलरामपुर, उत्तर प्रदेश-271201	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएण्डटी, फैजाबाद / 2015	15.06.1990
2067	अनुज प्रताप सिंह / श्री मोती लाल सिंह	यूपीएसवीसी / 6138 / 15	ग्राम-चाक थम्बा, डाक- नारा, जिला-कौशम्बी, उत्तर प्रदेश -212217	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए सयू, जबलपुर / 2015	15.07.1989
2068	रीता भारती / श्री बंसीधर राजपूत	यूपीएसवीसी / 6139 / 15	ग्राम एवं डाक-बुडैरा, थाना- पनवारी, जिला-महोबा- 210429, उत्तर प्रदेश-210429	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए सयू, जबलपुर / 2015	20.12.1989
2069	जय कृष्ण पांडे / श्री लाल बहादुर सैनी	यूपीएसवीसी / 6140 / 15	ग्राम एवं डाक-सेहुरा कलां, थाना-रुधौली, जिला-बरती, उत्तर प्रदेश-272148	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएण्डटी, फैजाबाद / 2015	10.08.1992
2070	किरण पाल सिंह सैनी / श्री लाल बहादुर सैनी	यूपीएसवीसी / 6141 / 15	म.न.:133 / 39, श्याम सदन, आनंद विहार, न्यू कॉलोनी, जिला-फैजाबाद, उत्तर प्रदेश -224001	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएण्डटी, फैजाबाद / 2015	15.11.1987
2071	अमित कुमार कुशल / श्री आर.बी. सिंह	यूपीएसवीसी / 6142 / 15	कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के निकट, जिला-मैनपुरी, उत्तर प्रदेश- 205264	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएण्डटी, फैजाबाद / 2015	29.05.1988
2072	विजय प्रताप यादव / श्री बाबूलाल यादव	यूपीएसवीसी / 6143 / 15	ग्राम-उसारी बीजुर्ग, डाक- उसारी खुर्द, जिला-मऊ, उत्तर प्रदेश- 275301	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए सयू, जबलपुर / 2015	10.07.1989

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
2073	आशीष सिंह पटेल / श्री समरजीत सिंह	यूपीएसवीसी / 6144 / 15	ग्राम-लाडेगावां, डाक- लाडेगावां, जिला-फतेहपुर, उत्तर प्रदेश-212663	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	15.07.1991
2074	रविदीप सिंह / श्री मंगल सिंह	यूपीएसवीसी / 6145 / 15	ग्राम-तेलुपुरा, डाक-रामपुर मनिया, जिला-सहारनपुर, उत्तर प्रदेश-247451	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	16.12.1984
2075	विकास सिंह / श्री राम सिंह	यूपीएसवीसी / 6146 / 15	आदर्श विला, शक्ति नगर कॉलोनी, विल्ड्रेन अकेडमी, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273003	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	10.10.1991
2076	अनुज कुमार यादव / श्री देवचंद्र यादव	यूपीएसवीसी / 6147 / 15	ग्राम-ऐमतपुर, डाक- मनारा, जिला- फतेहपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	01.07.1991
2077	राज कुमार कनौजिया / श्री लाल चंद्रा	यूपीएसवीसी / 6148 / 15	ग्राम- हसिया, डाक-सरसरा, तहसील-मनियाहा, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222162	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	05.04.1984
2078	जगत सिंह प्रजापति / श्री भगवान दास प्रजापति	यूपीएसवीसी / 6149 / 15	एसबीआई बैंक के निकट, मुहाल जुगयाना, ग्राम-रथ, तहसील-रथ, जिला-हमीरपुर, उत्तर प्रदेश-210431	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	01.06.1992
2079	जितेंद्र सिंह / श्री नामवर सिंह	यूपीएसवीसी / 6150 / 15	ग्राम- फतेहपुर मानिकपुरा, डाक-सैधी, जिला-अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश-224122	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	16.07.1988
2080	अतुल कनौजिया / श्री सूरत सिंह कनौजिया	यूपीएसवीसी / 6151 / 15	लक्ष्मीगंज, सांडिला रोड, बंगारमऊ, जिला- उन्नाव, उत्तर प्रदेश-209801	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	08.02.1987
2081	बिरेन्द्र कुमार वर्मा / श्री प्रेम नारायण वर्मा	यूपीएसवीसी / 6152 / 15	ग्राम एवं डाक-जनझारा, तहसील-फतेहपुर, जिला- बाराबंकी, उत्तर प्रदेश- 225004	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	10.08.1985
2082	राजीव कुमार / श्री धरम चौधरी	यूपीएसवीसी / 6153 / 15	ग्राम एवं डाक-रथ, तहसील -रथ, जिला-हमीरपुर, उत्तर प्रदेश-210431	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	03.04.1987
2083	अविनाश वर्मा / स्व. श्री राम आशरे वर्मा	यूपीएसवीसी / 6154 / 15	ग्राम-उंचेगव गासपुर, जिला- अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश- 224122	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	05.07.1991
2084	रवि यादव / श्री वीरेंद्र यादव	यूपीएसवीसी / 6155 / 15	ग्राम- मौधार मंगल, डाक- खजनी, जिला- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273212	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	05.07.1989
2085	अजय कुमार सिंह / श्री ब्रह्मा नरेश सिंह	यूपीएसवीसी / 6156 / 15	ग्राम-पियारा, डाक-खंडेहिया, तहसील-मऊ, जिला- चित्रकूट, उत्तर प्रदेश-273212	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	25.09.1988
2086	शिवेंद्र प्रताप सिंह / श्री रमेश चंद्र वर्मा	यूपीएसवीसी / 6157 / 15	ग्राम-छंगीपुर, डाक-सूरतगंज, थाना-मोहम्मदपुर खाला, तह. -फतेहपुर, जिला-बाराबंकी, उत्तर प्रदेश-2253040	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	08.02.1990
2087	राजी देवी / श्री बाल चंद्र	यूपीएसवीसी / 6158 / 15	ग्राम व डाक-बौहर, तहसील घातमपुरम, जिला- कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-209209	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	03.07.1990
2088	अतुल प्रताप सिंह / श्री अजय कुमार	यूपीएसवीसी / 6159 / 15	ग्राम-कुइयनखेरा, डाक- कुनियनखेरा, जिला- फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश- 207503	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	12.05.1990
2089	अरविंद कुमार / श्री ओम प्रकाश	यूपीएसवीसी / 6160 / 15	ग्राम- नांगला दुर्गन, डाक- मनौरा मिधौली कलां, जिला- एटा, उत्तर प्रदेश- 207122	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	10.10.1985
2090	नीरज राजपूत / श्री चंद्र शेखर	यूपीएसवीसी / 6161 / 15	ग्राम एवं डाक-गुधा, तहसील-चर्खरी, जिला- महोबा, उत्तर प्रदेश-210421	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	14.02.1986
2091	राहुल यादव / श्री घन श्याम यादव	यूपीएसवीसी / 6162 / 15	मौहल्ला कश्मीरियां, डाक- टांडा, जिला- अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश-224190	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	28.11.1989

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
2092	चिराग सिंह / श्री चंद्र पाल सिंह	यूपीएसवीसी / 6163 / 15	393, संजय नगर, जिला- मेरठ, उत्तर प्रदेश-250001	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	08.09.1992
2093	आशू / श्री सुरेंद्र नाथ वर्मा	यूपीएसवीसी / 6164 / 15	ग्राम एवं डाक-बडगावोन, इब्राहीमपुर, जिला- अम्बेडकर नगर-224230, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	20.07.1985
2094	संतोष वर्मा / श्री राम कृष्ण वर्मा	यूपीएसवीसी / 6165 / 15	ग्राम- लमचवा, डाक- अमसीन, जिला-फैजाबाद, उत्तर प्रदेश-224141	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	30.10.1989
2095	संदीप कुमार सिंह / श्री सुभाष चंद्र सिंह	यूपीएसवीसी / 6166 / 15	ग्राम एवं डाक-खेडा, सियालजीत, तहसील-सरीला, जिला-हमीरपुर-210422, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	02.07.1992
2096	नेहा गुप्ता / स्व. श्री सी. एल. गुप्ता	यूपीएसवीसी / 6167 / 15	क्वा. नं.: 15, वीआईपी दुमरी खास, थाना-चौरी चौरा, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश -273202	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	20.05.1992
2097	विवेक कुमार गोंडा / श्री लक्ष्मी कांत	यूपीएसवीसी / 6168 / 15	ग्राम-बिगाही, डाक- डमवेलिया, जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	11.03.1990
2098	राहुल प्रसाद / स्व. श्री रमेश चंद्र	यूपीएसवीसी / 6169 / 15	ग्राम एवं डाक- इस्लामपुर, तहसील-सरीला, थाना- चिकाशी, जिला-हमीरपुर, उत्तर प्रदेश-210422	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	30.08.1992
2099	रमा कांत वर्मा / श्री महेश प्रसाद	यूपीएसवीसी / 6170 / 15	मौह.-मौहम्मदपुर, डाक- मल्लावन, जिला-हरदोई, उत्तर प्रदेश-241302	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	03.07.1986
2100	प्रतिभा सिंह / श्री डाल सिंगर सिंह	यूपीएसवीसी / 6171 / 15	आर्या प्रतिनिधि सभा कैम्पस, 5 मीरा बाई मार्ग, नरही, जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	01.07.1989
2101	रश्मि / स्व. श्री रामराज	यूपीएसवीसी / 6172 / 15	ग्राम-औघड़ नाथ गंज, डाक- मजारगंज, जिला-रायबरेली, उत्तर प्रदेश-229001	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	01.04.1990
2102	नेहा सिंह / श्री मनोज कुमार सिंह	यूपीएसवीसी / 6173 / 15	नयी बाजार, कालीजी प्लेस के निकट, जिला- बलरामपुर, उत्तर प्रदेश-271201	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	17.03.1988
2103	अश्विनी कुमार गौतम / श्री गंगा राम चंद्र	यूपीएसवीसी / 6174 / 15	ग्राम-सिंघरवा, डाक-सिंघरवा, तहसील-मलीहाबाद, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226017	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	24.07.1991
2104	अमित कुमार / श्री मनोहर लाल	यूपीएसवीसी / 6175 / 15	186, गंगा निवास, आज़ाद नगर, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश-243001	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	10.10.1985
2105	गौरव कुमार / श्री विजय सिंह	यूपीएसवीसी / 6176 / 15	349, न्सू पल्हकपुरा, जिला- उरई, जालौन, उत्तर प्रदेश- 285123	बीवीएससीएंडएच / एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	14.10.1990
2106	ज्ञानेश कुमार यादव / श्री सभाजीत यादव	यूपीएसवीसी / 6177 / 15	ग्राम-झील, डाक-जन्झाई, तह. -हंडिया, जिला-इलाहाबाद, उत्तरप्रदेश-212401	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए सयू, जबलपुर / 2015	28.07.1990
2107	अनुराधा गुप्ता / श्री महो चंद्र गुप्ता	यूपीएसवीसी / 6178 / 15	म.न.:1919, नई बस्ती, पुलिस स्टेशन कोतवाली, तहसील- शांसी, जिला-झांसी, उत्तर प्रदेश-284002	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए सयू, जबलपुर / 2015	22.09.1989
2108	बृजेश कुमार तिवारी / श्री दाता शंकर तिवारी	यूपीएसवीसी / 6179 / 15	ग्राम-छबि नाथ पुर, डाक- जिगना, जिला- मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश- 231313	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	05.10.1989
2109	राजेश कुमार वर्मा / श्री देवराज वर्मा	यूपीएसवीसी / 6180 / 15	ग्राम एवं डाक- बेठरा, जिला- सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश-228131	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	07.06.1986
2110	दिनेश कुमार कटियार / श्री संतोष कुमार कटियार	यूपीएसवीसी / 6181 / 15	ग्राम-तुतुई चांद, डाक- दोहरापुर, जिला-कानपुर देहात- 209101, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	02.02.1983

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
2111	छोटे लाल यादव / श्री राम धनी वर्मा	यूपीएसवीसी / 6182 / 15	ग्राम-खाडेरौ (तारा सागर), डाक- दुमरांव, जिला- मऊ, उत्तर प्रदेश-275101	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	21.05.1983
2112	कुलदीप सिंह / श्री अयोध्या प्रसाद	यूपीएसवीसी / 6183 / 15	ग्राम-कायमपुर, डाक- मोहिउद्दीनपुर, जिला- कौशम्बी, उत्तर प्रदेश-212216	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	01.07.1987
2113	यादव राजेश कुमार राजाराम / श्री राजाराम	यूपीएसवीसी / 6184 / 15	ग्राम-चकमजनु, डाक- निजामाबाद, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश-272606	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	31.01.1988
2114	बलवंत / स्व. श्री राम नरेश मौर्या	यूपीएसवीसी / 6185 / 15	ग्राम एवं डाक-रामपुर, रकाबा चोरी चौरा, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273201	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	01.10.1984
2115	दिलीप कुमार / श्री शंकर प्रसाद यादव	यूपीएसवीसी / 6186 / 15	ग्राम- भगवानपुर, डाक- मूसपुर, जिला- अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश-224143	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	15.03.1983
2116	अमित कुमार यादव / श्री राम धन यादव	यूपीएसवीसी / 6187 / 15	ग्राम-धरसन, डाक-कंठारापुर, जिला- आजमगढ़, उत्तर प्रदेश-276135	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	15.07.1984
2117	प्रभाकर यादव / श्री चंद्र भान यादव	यूपीएसवीसी / 6188 / 15	ग्राम- नौबर हरखपुर, डाक- देवरा जदीद किता जी, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश -276137	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	05.07.1987
2118	राजेश कुमार यादव / श्री राम नारायण सिंह यादव	यूपीएसवीसी / 6189 / 15	ग्राम- इब्राहीमपुर, डाक- भुखुरा, जिला- गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 275203	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	17.03.1983
2119	राजीव कुमार यादव / श्री पारस नाथ यादव	यूपीएसवीसी / 6190 / 15	ग्राम-जमुनीपुर, डाक- दरियागंज, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश-222001	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	10.10.1988
2120	गजेंद्र पाल सिंह / श्री यादराम सिंह	यूपीएसवीसी / 6191 / 15	ग्राम- नागला गरीबा, डाक- ब्रास कल्यानपुर, जिला- एटा, उत्तर प्रदेश-207301	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	30.11.1981
2121	सुदीप कुमार / श्री ओम प्रकाश	यूपीएसवीसी / 6192 / 15	ग्राम एवं डाक- ऐत, जिला- जालौन, उत्तर प्रदेश- 285201	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	30.04.1988
2122	अर्जुन सिंह / श्री महावीर सिंह	यूपीएसवीसी / 6193 / 15	ग्राम-निहालपुर, डाक- अगसौली, तहसील-सिकंदर राव, जिला- हाथरस, उत्तर प्रदेश-204210	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	10.07.1986
2123	रवि कांत सिंह / श्री बलवीर सिंह	यूपीएसवीसी / 6194 / 15	14-ए, सपन बाग, दयाल बाग, जिला- आगरा, उत्तर प्रदेश- 282005	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	19.09.1983
2124	नितिन कुमार / श्री चंद्र शेखर	यूपीएसवीसी / 6195 / 15	ग्राम-नागला पाठक, डाक- मुरही, तहसील-औरिया, उत्तर प्रदेश- 206247	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	26.12.1988
2125	बृजेश कुमार / श्री राम शंकर राम	यूपीएसवीसी / 6196 / 15	ग्राम-बारेपुर, डाक-रसूलपुर पचारसी, तहसील-सैदपुर, जिला-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश -233306	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	10.06.1985
2126	संजय प्रताप सिंह / श्री बाबू राम	यूपीएसवीसी / 6197 / 15	नई कॉलोनी, बंशी गोहरा, जिला- मैनपुरी, उत्तर प्रदेश- 205001	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	05.06.1989
2127	दिनेश मौर्या / श्री तिलकधन मौर्या	यूपीएसवीसी / 6198 / 15	ग्राम-कोडरा कलाम, डाक- दौलताबाद, जिला- अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश-224149	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	01.03.1986
2128	राम देव यादव / श्री छेदी लाल यादव	यूपीएसवीसी / 6199 / 15	ग्राम- कटुआर परवेजपुर, डाक-मौइमा, जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 212507	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	11.05.1988
2129	संतोष पाल / श्री चुन्नी लाल पाल	यूपीएसवीसी / 6200 / 15	ग्राम-समगरा, डाक-समगरा, जिला-बांदा, उत्तर प्रदेश -210001	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	15.07.1989
2130	सूनील कुमार सिंह / श्री धरम देव सिंह	यूपीएसवीसी / 6201 / 15	ग्राम-भटूली, डाक- बनई, जिला- देरिया, उत्तर प्रदेश- 274201	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	12.08.1987
2131	लाल बहादुर / श्री शिव राम	यूपीएसवीसी / 6202 / 15	ग्राम-कुधा केशवपुर, मांझा पुजारी का पुरवा, डाक- दर्शन नगर, जिला-फैजाबाद, उत्तर प्रदेश-224135	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	20.04.1986
2132	दीपांका / श्री वार्ड.एन. यादव	यूपीएसवीसी / 6203 / 15	डी-24, पुराना वेटेरिनरी कॉलेज कैम्पस, डीयू वीएएसयू, मथुरा, उत्तर प्रदेश-281001	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	02.07.1988
2133	त्रिवेनी कुमार / श्री जोगेश्वर दयाल	यूपीएसवीसी / 6204 / 15	मौहल्ला-मरजानपुर (औरैया के निकट), उत्तर प्रदेश -206122	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	24.07.1981

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
2134	वेद प्रकाश श्रीवास्तव / श्री पारस नाथ श्रीवास्तव	यूपीएसवीसी / 6205 / 15	ग्राम-गोपालपुर, डाक- लौकिया, तहसील-मारघा, जिला-बलरामपुर, उत्तर प्रदेश-271307	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	30.06.1987
2135	उषा बैस / श्री शिव कुमार बैस	यूपीएसवीसी / 6206 / 15	ग्राम-औरी, डाक-अनापारा, तहसील-ददाही, जिला- सोनभद्रा, उत्तर प्रदेश- 231216	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	10.10.1990
2136	प्रभात यादव / श्री राजबाबू यादव	यूपीएसवीसी / 6207 / 15	ग्राम-हजरतपुर, डाक- दयाल नगर, जिला- फतेहपुर, उत्तर प्रदेश-212631	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	10.03.1984
2137	संजय कुमार / श्री जयराम सरोज	यूपीएसवीसी / 6208 / 15	ग्राम एवं डाक-सराय मोहन, जिला- आजमगढ़, उत्तर प्रदेश- 276303	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	12.07.1985
2138	मनोज कुमार मौर्या / श्री हीरा लाल मौर्या	यूपीएसवीसी / 6209 / 15	ग्राम-सहिन्जना, डाक- सिंगाहा कलां, जिला- लखीमपुर, खेरी, उत्तर प्रदेश- 262905	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	28.06.1983
2139	देश दीपक / श्री अशोक कुमार	यूपीएसवीसी / 6210 / 15	म.न.-सी-2/3, पोस्ट- डी.डी.डी. फार्म, वेट. कॉलेज, तहसील-मथुरा, जिला-मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281001	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	15.07.1989
2140	अनिल कुमार सिंह / श्री अभिमन्यु सिंह	यूपीएसवीसी / 6211 / 15	ग्राम-करेहा, डाक-कचन्ना, जिला-इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश -212301	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	13.08.1987
2141	आनंद कुशवाहा / श्री कोमल सिंह कुशवाहा	यूपीएसवीसी / 6212 / 15	ग्राम-खुर्दपुर, डाक-फादनपुर, जिला- गाजीपुर, उत्तर प्रदेश -233001	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	31.12.1986
2142	हेमंत कुमार / श्री पटेल कुमार	यूपीएसवीसी / 6213 / 15	सिकंदरपुर (कोतवाल), डाक- कोटवा नारायणपुर, जिला- बलिया, उत्तर प्रदेश-277501	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	01.01.1991
2143	सोनिका ग्रेवाल / श्री कुलवीर सिंह	यूपीएसवीसी / 6214 / 15	ग्राम-माता वाली मलक, पकबारा, जिला-मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश-244001	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	01.01.1990
2144	राम सजीवन मौर्या / श्री राम राज	यूपीएसवीसी / 6215 / 15	ग्राम-पुरीचा, डाक-बिहारगंज, तहसील-अमेठी, जिला- अमेठी, उत्तर प्रदेश-227407	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	01.02.1986
2145	अनुराधा सिंह निरंजन / श्री सत्य प्रकाश निरंजन	यूपीएसवीसी / 6216 / 15	ग्राम-इमलूरी, डाक-खेरी, तहसील-कोंच, जिला- जालौन, उत्तर प्रदेश-285205	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	05.01.1989
2146	मनीश कुमार / श्री केशव राम	यूपीएसवीसी / 6217 / 15	सेक्टर-17/61, इंदिरा नगर, जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226016	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीए सयू, जबलपुर / 2015	12.04.1987
2147	कुलदीप सैनी / श्री बच्चू सिंह	यूपीएसवीसी / 6218 / 15	ग्राम एवं डाक-औरंगाबाद, जिला-मथुरा, उत्तर प्रदेश- 210501	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	31.03.1986
2148	मोहित कुमार सिंह भदौरिया / श्री बीर सिंह भदौरिया	यूपीएसवीसी / 6219 / 15	ग्राम-बेवन, तहसील-मौदाहा, जिला-हमीरपुर, उत्तर प्रदेश- 210501	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	03.08.1987
2149	विमलेश कुमार / श्री तेज शंकर	यूपीएसवीसी / 6220 / 15	ग्राम-नंदा खेर, डाक-नेवरना, तहसील-उन्नाव, जिला- उन्नाव, उत्तर प्रदेश-209025	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	08.07.1985
2150	देवेश सिंह / श्री विरेंद्र सिंह	यूपीएसवीसी / 6221 / 15	वीर सावरकर नगर कॉलोनी, मुरादाबाद रोड, चंदौसी, तहसील-चंदौसी, जिला- सम्भल, उत्तर प्रदेश-202412	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	01.07.1987
2151	लवीना / श्री बी.के. शर्मा	यूपीएसवीसी / 6222 / 15	22, रेलवे कॉलोनी, तहसील- शिकोहाबाद, जिला- फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश- 205135	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	12.09.1989
2152	अमित कुमार / श्री जवाहर लाल	यूपीएसवीसी / 6223 / 15	ग्राम-हरि का पुरवा, डाक- वैना, जिला-कानपुर देहात- 209115	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	07.08.1989
2153	सिकेश यादव / श्री चोब सिंह यादव	यूपीएसवीसी / 6224 / 15	सी-257, गुजैनी डबौली, रतन लाल नगर, जिला- कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208022	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	16.12.1988
2154	नरेश सिंह कुंतल / श्री तेज सिंह कुंतल	यूपीएसवीसी / 6225 / 15	ग्राम-धरी विसिया, डाक- पैनजा, जिला- मथुरा- 281502, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	25.08.1987
2155	कोयलेंद्र सिंह / श्री कान्ही सिंह	यूपीएसवीसी / 6226 / 15	ग्राम-इंदरपुर जयोटा, तहसील-फरुखाबाद, जिला- फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश- 209743	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	04.07.1992

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
2156	दिवाकर/श्री राम खेवल वर्मा	यूपीएसवीसी/6227 / 15	ग्राम-केवंचा, डाक- बेली, जिला- बाटी, उत्तर प्रदेश- 272302	बीवीएससीएंडएच/यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	08.03.1987
2157	मनोज कुमार वर्मा / श्री राम सुमेर वर्मा	यूपीएसवीसी/6228 / 15	ग्राम-सरेयाबुजुर्गा, डाक- कसौरा, थाना-कलवारी, तहसील-बस्ती, जिला-बस्ती, उत्तर प्रदेश-272301	बीवीएससीएंडएच/यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	01.01.1985
2158	तनवीर खानम/ श्री सबीर हुसैन	यूपीएसवीसी/6229 / 15	शाह मार्केट, भोगांव, जिला- मैनपुरी, उत्तर प्रदेश- 205262	बीवीएससीएंडएच/यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	22.02.1991
2159	इरशाद आलम/ श्री नूर मोहम्मद	यूपीएसवीसी/6230 / 15	ग्राम-रूपपुर, डाक-नाईपुर, जिला- गोंडा, उत्तर प्रदेश- 271129	बीवीएससीएंडएच/यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	04.06.1990
2160	आलोक सिंह/श्री उदय सिंह	यूपीएसवीसी/6231 / 15	172-सी, आजाद स्क्वेयर, साउथ मलका, जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211001	बीवीएससीएंडएच/यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	20.07.1987
2161	सुषमा यादव/श्री गंगा राम यादव	यूपीएसवीसी/6232 / 15	ग्राम- धावर, म.न.-9, डाक- बंकुनया, तहसील- बंसी, जिला-सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश-272153	बीवीएससीएंडएच/यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	10.01.1990
2162	अंजलि देवी/श्री विष्णु पाल	यूपीएसवीसी/6233 / 15	ग्राम-परादन, डाक-सेलोवोन, जिला- फतेहपुर, उत्तर प्रदेश -212657	बीवीएससीएंडएच/यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	15.04.1990
2163	उपेंद्र कुमार/श्री हरि शंकर	यूपीएसवीसी/6234 / 15	ग्राम- हसनपुर, डाक-बेहटा कलां, जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश-229201	बीवीएससीएंडएच/यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	26.12.1985
2164	ऋतु यादव/श्री जगरुप सिंह यादव	यूपीएसवीसी/6235 / 15	ग्राम-सिखमापुर, मौह.- सीखमपुर, तह.-भोगिनीपुर, जिला-कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश-209111	बीवीएससीएंडएच/यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	04.03.1991
2165	सुभाष कुमार/श्री राजेंद्र प्रसाद	यूपीएसवीसी/6236 / 15	161, इस्माइलपुर, डाक- सहसापुर, जिला-सीतापुर, उत्तर प्रदेश-261001	बीवीएससीएंडएच/एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	11.04.1990
2166	अनिल कुमार पांडे /श्री दिनेश चंद्र पांडे	यूपीएसवीसी/6237 / 15	ग्राम एवं डाक-काथर, थाना -भवरकोल, तहसील- मौहम्मदाबाद, जिला- गाजीपुर, उत्तर प्रदेश-233231	बीवीएससीएंडएच/एएयू असम/2015	16.06.1984
2167	आलोक कुमार/ श्री कृष्ण चंद्रा	यूपीएसवीसी/6238 / 15	ग्राम एवं डाक-कुरेभर, जिला-सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश- 228151	बीवीएससीएंडएच/यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	10.08.1989
2168	प्रीति सिंह/श्री सूर्य प्रताप सिंह	यूपीएसवीसी/6239 / 15	ग्राम-शेरीह, डाक-झूसी, तहसील-फूलपुर, जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211019	बीवीएससीएंडएच/यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	12.06.1990
2169	सरोज कुमार/श्री गिरिजा शंकर	यूपीएसवीसी/6240 / 15	ग्राम-लच्छी खेरा, डाक- बिजौली, जिला-फतेहपुर, उत्तर प्रदेश-212657	बीवीएससीएंडएच/यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	18.05.1981
2170	प्रतीक्षा श्रीवास्तव /श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव	यूपीएसवीसी/6241 / 15	153-ए/71-बी, कृष्णा नगर, किडगंज, जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211003	बीवीएससीएंडएच/यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	20.10.1990
2171	राम चंद्र यादव/ श्री लालता प्रसाद यादव	यूपीएसवीसी/6242 / 15	ग्राम-भाऊपुर, डाक-गोरा गनेशपुर, जिला-बस्ती, उत्तर प्रदेश-272001	बीवीएससीएंडएच/यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	05.05.1986
2172	धीरेंद्र कुमार/स्व. श्री राम शिरोमनि	यूपीएसवीसी/6243 / 15	ग्राम-बीबीपुर, डाक-केवल बुजुर्गा, तहसील-हंडिया, जिला-इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश -221502	बीवीएससीएंडएच/यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	04.04.1989
2173	आकांक्षा सिंह/श्री राजेंद्र प्रताप सिंह	यूपीएसवीसी/6244 / 15	ग्राम-इतौरी, डाक-सोनिकपुर, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222001	बीवीएससीएंडएच/यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	11.10.1990
2174	पुष्पेंद्र कुमार सिंह /श्री शिव पाल सिंह	यूपीएसवीसी/6245 / 15	ग्राम एवं डाक- खरेला, जिला-महोबा, उत्तर प्रदेश- 210425	बीवीएससीएंडएच/केवीएफ एसयू/2015	19.03.1986
2175	रवि शंकर तिवारी /श्री अदया प्रसाद तिवारी	यूपीएसवीसी/6246 / 15	ग्राम-पुरहानरु वजीरगंज, डाक- करनीपुर, जिला-गोंडा, उत्तर प्रदेश-271129	बीवीएससीएंडएच/एनडीयू ओएफएंडटी, फैजाबाद / 2015	25.05.1992
2176	मौह. युसुफ/श्री मौह. इब्राहीम	यूपीएसवीसी/6247 / 15	ग्राम- एकिया बदलू, डाक- दनोई, जिला-पीलीभीत, उत्तर प्रदेश-262001	बीवीएससीएंडएच/जीएडीवी एंडएएसयू/2015	05.06.1988
2177	सुनील कुमार/श्री रामकर राव	यूपीएसवीसी/6248 / 15	ग्राम-खांजो, डाक-तामा, तहसील-धनघाटा, ब्लॉक- हैनसर बाजार, जिला-संत कबीर नगर, उ.प्र.-272165	बीवीएससीएंडएच/जीएडीवी एंडएएसयू/2015	19.09.1990
2178	जितेंद्र कुमार/श्री महेंद्र पाल सिंह	यूपीएसवीसी/6249 / 15	333, केशव कुंज, नाविल रोड, नया बस स्टैंड, जिला-इटावा, उत्तर प्रदेश-206001	बीवीएससीएंडएच/जीएडीवी एंडएएसयू/2015	07.10.1991

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
2179	अमित कुमार / श्री हिरालाल	यूपीएसवीसी / 6250 / 15	ग्राम-कमलपुर, विजया गवान, डाक-कटरिया याकूबपुर, तह. -अकबरपुर, जिला- अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश-224122	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	24.07.1981
2180	संदीप कुमार चौधरी / श्री राम आशोष प्रसाद	यूपीएसवीसी / 6251 / 15	ग्राम-सेखवानिया बुजुर्ग टोला, मदरिया डाक, डाक- सेखवानिया, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश-274402	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	15.08.1990
2181	सजय सिंह / श्री राम प्रकाश राजपूत	यूपीएसवीसी / 6252 / 15	ग्राम-कौनिया, तह.-कुल्पाहाट, डाक-महुवा, जिला-महोबा, उत्तर प्रदेश- 210427	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	01.08.1992
2182	देश दीपक पांडे / श्री रवीन्द्र कुमार पांडे	यूपीएसवीसी / 6253 / 15	मौह.-कृष्णापुरी, आरएमपी डिग्री कॉलेज के निकट, जिला-सीतापुर, उत्तर प्रदेश-261001	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू ओएफएंडएफएस / 2015	02.06.1991
2183	अभिषेक प्रताप सिंह / श्री धर्मद प्रताप सिंह	यूपीएसवीसी / 6254 / 15	म.न.: -163, ग्राम एवं डाक- दाहुचरा, जिला-प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश-230137	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू ओएफएंडएफएस / 2015	07.10.1992
2184	सूर्य प्रताप सिंह परिहर / श्री जे.बी. सिंह परिहर	यूपीएसवीसी / 6255 / 15	आदर्श कॉलोनी, गोपालपुरा, डाक- शम्साबाद, जिला- आगरा, उत्तर प्रदेश-283125	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	29.03.1988
2185	विपिन कुमार / श्री कामराज सिंह	यूपीएसवीसी / 6256 / 15	ग्राम-नागला हरि सिंह, डाक - नागल गुलाल, जिला- फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश-283203	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	10.05.1991
2186	निशांत पांडे / श्री विद्याधर पांडे	यूपीएसवीसी / 6257 / 15	102 / 33के, चाक लाल, मौहम्मद नैवी, जिला- इलाहबाद, उत्तर प्रदेश- 211008	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	30.07.1988
2187	प्रद्युम्न पटेल / श्री बसंत पटेल	यूपीएसवीसी / 6258 / 15	ग्राम वडाक-बनकटिया, जिला -आजमगढ़, उत्तर प्रदेश- 276136	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 2015	05.04.1988
2188	आकाश कटियार / श्री रावेन्द्र कुमार कटियार	यूपीएसवीसी / 6259 / 15	म.न.: -152, ग्राम-बकोठी बिल्हावी, जिला-कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-209202	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 2015	21.03.1993
2189	पुष्पेंद्र सिंह / श्री सुरेश चंद्र सिंह	यूपीएसवीसी / 6260 / 15	ग्राम-पियारा, डाक-खारीडेहा, जिला-चित्रकूट, उत्तर प्रदेश- 210209	बीवीएससीएंडएच / एनडीयूए एंडटी, फैजाबाद / 2015	07.11.1986
2190	शिवम सिंह पटेल / श्री अनुरद्ध सिंह पटेल	यूपीएसवीसी / 6261 / 15	ग्राम-इमलिया, थाना-उल्डन, तहसील-रौली, जिला-झांसी, उत्तर प्रदेश-284001	बीवीएससीएंडएच / एलएलआरयू ऑफ वीएसएंड एस / 2015	30.10.1989
2191	दिलीप कुमार गुप्ता / श्री सुरेश प्रसाद गुप्ता	यूपीएसवीसी / 6262 / 15	ग्राम एवं डाक-कोठी बिरार, सिस्वा बाजार, जिला- महाराजगंज, उत्तर प्रदेश- 273303	बीवीएससीएंडएच / एलएलआरयू ऑफ वीएसएंड एस / 2015	03.07.1987
2192	दीपक मनि त्रिपाठी / श्री प्रयोग मनि त्रिपाठी	यूपीएसवीसी / 6263 / 15	ग्राम एवं डाक-बारपर, जिला -देवरिया, उत्तर प्रदेश- 274201	बीवीएससीएंडएच / एलएलआरयू ऑफ वीएसएंड एस / 2015	10.10.1987
2193	अग्निवेश शर्मा / श्री हरि नारायण शर्मा	यूपीएसवीसी / 6264 / 15	ग्राम-लच्छीपुर, डाक- भगानपुर, तहसील-कर्चना, इलाहबाद, उत्तर प्रदेश-212303	बीवीएससीएंडएच / एलएलआरयू ऑफ वीएसएंड एस / 2015	20.07.1985
2194	कृष्णा प्रताप सिंह / श्री दीप नारायण यादव	यूपीएसवीसी / 6265 / 15	म.न.: आवास विकास कॉलोनी, महादेव, झारखंडी कुनराघाट, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश -273008	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 2015	27.09.1989
2195	संतोष कुमार यादव / श्री बृज पाल यादव	यूपीएसवीसी / 6266 / 15	प्लॉट न.-96 / ए, ग्राम एवं डाक-उदपुर (सरकारी अस्पताल के सामने), जिला- आजमगढ़, उ.प्र.-276304	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 2015	01.09.1984
2196	ऋषि कुमार गुप्ता / श्री दामोदर प्रसाद गुप्ता	यूपीएसवीसी / 6267 / 15	प्लॉट न.-18, मौह.-हटवारा, ग्राम व डाक-तालबेहाट, जिला -ललितपुर, उ.प्र. -284126	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 2015	25.08.1988
2197	प्रमोद कुमार यादव / श्री राम सुंदर यादव	यूपीएसवीसी / 6268 / 15	ग्राम एवं डाक-मराह (बड़ा), जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222129	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा / 2015	05.04.1984
2198	राज कुमार राजपूत / श्री श्याम सिंह राजपूत	यूपीएसवीसी / 6269 / 15	ग्राम एवं डाक-कछवा कलां, जिला- हमीरपुर, उत्तर प्रदेश -210430	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	01.07.1984
2199	अविनाश चौधरी / श्री पीताम्बर सिंह	यूपीएसवीसी / 6270 / 15	ग्राम एवं डाक-बलदिया, जिला- बिजनौर, उत्तर प्रदेश -246726	बीवीएससीएंडएच / एसकेएन डीएयू गुजरात / 2015	08.12.1986

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
2200	विपिन सिंह/श्री देवेंद्र प्रताप सिंह	यूपीएसवीसी/6271 / 15	ग्राम व डाक-अमोला, बुजुर्ग (राकबा), जिला-अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश-224139	बीवीएससीएंडएच/एएयू आनंद /2015	10.09.1986
2201	मोजिबुर रहमान अंसारी/श्री मौह. शोएब	यूपीएसवीसी/6272 / 15	मौह.-डाकिनगंज, डाक-बहादुरगंज, जिला-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश-275201	बीवीएससीएंडएच/एएयू आनंद /2015	18.06.1988
2202	दीपक सिंह/श्री उदय शंकर सिंह	यूपीएसवीसी/6273 / 15	ग्राम एवं डाक-आजमगढ़, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश-276124	बीवीएससीएंडएच/एसकेएन डीएयू गुजरात /2015	22.10.1988
2203	आशीष कुमार त्रिपाठी/श्री कृष्ण प्रताप त्रिपाठी	यूपीएसवीसी/6274 / 15	ग्राम-बिस्तौली, डाक-बेलीपुर, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश -273001	बीवीएससीएंडएच/एमएंडए फएसयू/2015	03.05.1990
2204	योगेश कुमार/श्री राजेश कुमार	यूपीएसवीसी/6275 / 15	मौह. मेन बाजार, झेलारी, जिला-मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश- 244411	बीवीएससीएंडएच/एमएंडए फएसयू/2015	15.07.1989
2205	अंकित कुमार शुक्ला/श्री सशील कुमार शुक्ला	यूपीएसवीसी/6276 / 15	बस स्टॉप के निकट, मास्टर कॉलोनी, पूर्वी माहोली, जिला- सीतापुर, उत्तर प्रदेश- 231141	बीवीएससीएंडएच/एमएंडए फएसयू/2015	02.02.1988
2206	अभिषेक पांडे/श्री राम श्याम पांडे	यूपीएसवीसी/6277 / 15	ग्राम-रुकुनपुर (गोवरखान पुर) डाक-सुरहुपुर, जिला-अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश -224159	बीवीएससीएंडएच/एमएंडए फएसयू/2015	01.01.1988
2207	बालेंद्री सोनकर /श्री नारायण सोनकर	यूपीएसवीसी/6278 / 15	नगर-बरवा सुमेरपुर, जिला- हमीरपुर, उत्तर प्रदेश- 210502	बीवीएससीएंडएच/यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी, मथुरा /2015	07.11.1988
2208	पवन कुमार सिंह /श्री शिव प्रसाद सिंह	यूपीएसवीसी/6279 / 15	मौह.-मेहताब बाग, डाक-अमीनगंज, जिला- फैजाबाद, उत्तर प्रदेश- 224001	बीवीएससीएंडएच/सीएसकेए चपीकेवीवी /2015	10.08.1986
2209	सर्वोदय कुमार/श्री राकेश कुमार	यूपीएसवीसी/6280 / 15	ग्राम-फिरोजपुर, डाक-असलानपुर, तहसील-सिकंदरा, जिला- कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश-209301	बीवीएससीएंडएच/एमएंडए फएसयू/2015	01.09.1986
2210	सत्येंद्र कुमार/श्री जमुना दास	यूपीएसवीसी/6281 / 15	ग्राम-बासेला, डाक-बासेला, तहसील-रथ, जिला-हमीरपुर, उत्तर प्रदेश-210431	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीए सयू, जबलपुर /2015	01.04.1988
2211	अमित शेखर/श्री चंद्र शेखर	यूपीएसवीसी/6282 / 15	मौहल्ला आर्य नगर, दतरोला, जिला-बलरामपुर, उत्तर प्रदेश -271604	बीवीएससीएंडएच/छत्तीसगढ़ काम धेनुविवि /2015	20.04.1991
2212	नरेंद्र प्रताप सिंह/श्री अजय कुमार सिंह	यूपीएसवीसी/6283 / 15	ग्राम- बहरामपुर, डाक- चौबेपुर, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221101	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीए सयू, जबलपुर /2015	04.05.1985
2213	वैभव पुरवार/श्री ओम नारायण पुरवार	यूपीएसवीसी/6284 / 15	प्रेमगली, बैठबंज, जिला- जालौन, उत्तर प्रदेश-285123	बीवीएससीएंडएच/एलएलआरयू ऑफ वीएसएंड एएस/2015	01.06.1990
2214	रफत अली/श्री खादिम अली	यूपीएसवीसी/6285 / 15	मकानिया पुरा, जामा मस्जिद के निकट, जिला- महोबा, उत्तर प्रदेश-210427	बीवीएससीएंडएच/एमएंडए फएसयू/2015	04.02.1989
2215	वंदना यादव/श्री मुकेश यादव	यूपीएसवीसी/6286 / 15	म.न.: 1945-ए, राकेश टैंट हाउस, शंकरपुरी, शिकोहाबाद, जिला-फिरोज़ाबाद, उत्तर प्रदेश-283135	बीवीएससीएंडएच/एनडीवीए सयू, जबलपुर /2015	01.03.1992
2216	इमाद असगर/श्री हमीद हुसैन	यूपीएसवीसी/6287 / 15	म.न.: -195, जाफराबाद, डाक- जलालपुर, जिला- अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश-224149	बीवीएससीएंडएच/एएयू आनंद /2015	06.02.1988
2217	सुनील कुमार/श्री रामायन सिंह	यूपीएसवीसी/6288 / 15	ग्राम- अट्टारडीह, डाक- चंदरौता, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश-274401	बीवीएससीएंडएच/एएयू असम/ 2015	15.01.1987
2218	आशुतोष कुमार त्रिपाठी/श्री भगवान प्रसाद त्रिपाठी	यूपीएसवीसी/6289 / 15	ग्राम- तिवारीपुर, डाक- बारपुर, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273213	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	04.07.1989
2219	शुभम त्रिपाठी/श्री शारदा प्रसाद त्रिपाठी	यूपीएसवीसी/6290 / 15	ग्राम- दक्खिन गांव कयार, डाक- शुक्ल बाजार, जिला- अमेठी, उत्तर प्रदेश-227811	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	05.08.1988
2220	प्रेरित कुमार सिंह /श्री राजेंद्र सिंह	यूपीएसवीसी/6291 / 15	सुमेर सदन, पुरानी टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, कोर्ट रोड, जिला-मैनपुरी, उत्तर प्रदेश-205001	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	27.10.1988

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
2221	गिरजेश उपमन्यु/ श्री राकेश उपमन्यु	यूपीएसवीसी/6292 /15	7-बी, राजीव नगर, के.एच.एस.रोड, खंडारी, जिला- आगरा, उत्तर प्रदेश-222135	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	28.10.1990
2222	विवेक कुमार/ श्री अनिल कुमार चौरसिया	यूपीएसवीसी/6293 /15	ग्राम-चकशिव रामगीर, डाक- दमरुआ, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश-222135	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	20.02.1990
2223	शेर सिंह/ श्री राम विलास सिंह	यूपीएसवीसी/6294 /15	ग्राम एवं डाक- रातौती बाह, जिला- आगरा, उत्तर प्रदेश- 283113	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2014	11.10.1991
2224	विजय गौतम/ श्री अनिल गौतम	यूपीएसवीसी/6295 /15	अनुराग नगर, बालकेश्वर, जिला- आगरा, उत्तर प्रदेश- 282005	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2014	10.04.1990
2225	पवन कुमार/ श्री रुद्र सिंह	यूपीएसवीसी/6296 /15	बी-53, द्वारकापुरी, कनकली मंदिरख जिला- मथुरा, उत्तर प्रदेश-281004	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	17.11.1990
2226	राहुल यादव/ श्री भरत सिंह यादव	यूपीएसवीसी/6297 /15	म.न.-1629, शांति निकेतन गर्ल्स होस्टल के निकट, शिवाजी नगर, जिला- झांसी, उत्तर प्रदेश-284001	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2014	30.07.1987
2227	हेमेन्द्र लाल/ श्री कुमार लाल	यूपीएसवीसी/6298 /15	200 जी-10, गंगा एंक्लेव कॉलोनी, जिला- अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-202001	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	15.10.1989
2228	अलाउद्दीन अंसारी/ श्री मजिबुल्लाह अंसारी	यूपीएसवीसी/6299 /15	ग्राम-बरगाहन, डाक- नौरंगिया, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश- 274305	बीवीएससीएंडएच/एएयू असम/ 2015	07.05.1984
2229	अभय सक्सेना/ श्री सुनील कुमार सक्सेना	यूपीएसवीसी/6300 /15	रोडवेज बस स्टैंड के पीछे, गंगेश्वर कॉलोनी, जिला- कासगंज, उत्तर प्रदेश-207123	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	30.08.1990
2230	वीर बहादुर/ श्री मोहनन्दर सिंह	यूपीएसवीसी/6301 /15	ग्राम एवं डाक- धाना तेजा, जिला- मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281005	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	06.03.1990
2231	मुकेश कुमार/ श्री राज कुमार सिंह	यूपीएसवीसी/6302 /15	चित्रगुप्ता कॉलोनी, गंदा नाला, पुलिया न. -05, जिला- कासगंज, उत्तर प्रदेश-207123	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	28.12.1991
2232	जितेंद्र सिंह/ श्री हरि प्रसाद	यूपीएसवीसी/6303 /15	11डी/177, बालाजी नगर, श्री नगर कॉलोनी, जिला- आगरा, उत्तर प्रदेश-282001	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2014	18.06.1993
2233	अमित कुमार/ श्री अमर सिंह	यूपीएसवीसी/6304 /15	ग्राम-नागला मतीला, डाक- राजेंद्रनगर, जिला-फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश-209652	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2014	10.08.1992
2234	हरकेश सिंह अत्री / श्री ओमवीर सिंह	यूपीएसवीसी/6305 /15	ग्राम-कलाखुरी, डाक-जावा, जिला-बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश -203141	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2014	08.10.1987
2235	पायल गुप्ता/ श्री अनिल कुमार गुप्ता	यूपीएसवीसी/6306 /15	514, कैलाश नगर, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201001	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2012	15.06.1987
2236	अनुग्रह/ श्री अनित कुमार	यूपीएसवीसी/6307 /15	514, कैलाश नगर, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201001	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2011	14.12.1989
2237	भानु प्रताप वर्मा/ श्री सौवेश कुमार वर्मा	यूपीएसवीसी/6308 /15	ग्राम एवं डाक-दिलवरपुर, थाना-कोत, तह. -सदर, जिला -शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश-242001	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2014	15.01.1992
2238	विनीत सुरत/ श्री राम उग्रह यादव	यूपीएसवीसी/6309 /15	103/2, मिथिलापुरी, इज्जत नगर, जिला-बरेली-243001, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	18.06.1988
2239	मिराज महमूद आलम/ श्री महमूद अहमद	यूपीएसवीसी/6310 /15	436, कोतवाली रोड, चिप टिहरी, जिला- बांदा, उत्तर प्रदेश-201001	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	07.07.1987
2240	दीपक सारस्वत/ श्री आर.पी. सारस्वत	यूपीएसवीसी/6311 /15	सी-117, चंद्रपुरी, ढोली पलाऊ, मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281001	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2014	10.12.1989
2241	महेंद्र गुप्ता/ श्री राम कुमार गुप्ता	यूपीएसवीसी/6312 /15	ग्राम व डाक-मिर्जापुर, तह.- जलालाबाद, जिला-शाहजहां पुर, उत्तर प्रदेश-242221	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2013	11.07.1987
2242	तुषार सक्सेना/ श्री अजय कुमार सक्सेना	यूपीएसवीसी/6313 /15	द्वारा अजय कुमार सक्सेना, नोटरी एडवोकेट, एसडीएम कोर्ट, बिलासपुर, जिला- रामपुर, उत्तर प्रदेश-244921	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2012	31.12.1989
2243	केशव गंगवार/ श्री देवेंद्र कुमार गंगवार	यूपीएसवीसी/6314 /15	ग्राम एवं डाक- अगारास, तहसील-मीरगंज, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश-243005	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2015	12.11.1992

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
2244	आसिफ हुसैन / श्री असाहत हुसैन	यूपीएसवीसी / 6315 / 15	ग्राम-आरजी मेदी पट्टी, डाक -मेहा हरहानपुर, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश-277404	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	03.07.1987
2245	बेंकटेश्वर सिंह / श्री रामा सिंह	यूपीएसवीसी / 6316 / 15	ग्राम-पिंडरा, डाक-देवरिया, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश -274001	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	01.01.1987
2246	नीरज कौशिक / श्री एस. सी. शर्मा	यूपीएसवीसी / 6317 / 15	एफ / एफ-113, अक्षरधाम कॉलोनी, मोदीपुरम के निकट, जिला-मेरठ, उत्तर प्रदेश -250110	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2013	03.05.1988
2247	ब्रजेंद्र सिंह / श्री हरचरन	यूपीएसवीसी / 6318 / 15	ग्राम-बरगावन, डाक-मामना, तहसील-सरीला, जिला-मेरठ, उत्तर प्रदेश-2010432	बीवीएससीएंडएच / आनंद कृषि विवि, आनंद / 2015	13.05.1991
2248	विद्या भूषण सिंह / श्री राकेश कुमार सिंह	यूपीएसवीसी / 6319 / 15	ग्राम एवं डाक-कनैली, जिला-कौशम्बी, उत्तर प्रदेश -212216	बीवीएससीएंडएच / केवीएफ एसयू, बिदर / 2015	08.08.1993
2249	शबाना अंसारी / श्री मंजूर अंसारी	यूपीएसवीसी / 6320 / 15	ई-5090, सेक्टर-11, राजाजी पुरम, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2013	06.05.1986
2250	रोहित कुमार जायसवाल / श्री सुभाष चंद्र जायसवाल	यूपीएसवीसी / 6321 / 15	ग्राम- क्राइस्ट नगर, एसबीआई बैंक के सामने, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश -221002	बीवीएससीएंडएच / आनंद कृषि विवि, आनंद / 2015	09.07.1990
2251	अतुल दूबे / श्री शिव कुमार दूबे	यूपीएसवीसी / 6322 / 15	म.न.-112, ग्राम-सोखारी गोपीगंज, जिला-भदोही, उत्तर प्रदेश- 221303	बीवीएससीएंडएच / केवीएफ एसयू, बिदर / 2015	10.03.1989
2252	देव कृष्ण चौधरी / श्री राम ललित चौधरी	यूपीएसवीसी / 6323 / 15	ग्राम-करनपुर, डाक-समेरधानी, तहसील-ढांगा, जिला-संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश- 272165	बीवीएससीएंडएच / बीचाअअ 2015	20.09.1986
2253	रूप सिंह / श्री महेंद्र सिंह	यूपीएसवीसी / 6324 / 15	ग्राम-नेगलामरा, डाक- कृष्णा नगर, जिला- मथुरा, उत्तर प्रदेश-281004	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2012	03.03.1982
2254	पवन कुमार वर्मा / श्री लल्लू राम वर्मा	यूपीएसवीसी / 6325 / 15	ग्राम-मौलापुरा, डाक-पुरवा रेवन, तहसील-महूदाबाद, जिला-सीतापुर, उत्तर प्रदेश- 261233	बीवीएससीएंडएच / बिरसा कृ.विवि, रांची / 2015	05.11.1991
2255	विवेक सिंह / श्री मंदिरका सिंह	यूपीएसवीसी / 6326 / 15	एस 9 / 475-16, नईबस्ती, पांडेपुर, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221002	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	19.02.1983
2256	तरुण कुमार रवि / श्री नंद लाल	यूपीएसवीसी / 6327 / 15	एसएच 16 / 125, एम-10, कडीपुर शिवपुर, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221003	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	02.02.1989
2257	कुश कांत / श्री राकेश कुमार कुलश्रेष्ठ	यूपीएसवीसी / 6328 / 15	134, पांडे नगर, न्यू शाजगंज, जिला-आगरा, उत्तर प्रदेश- 282101	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	29.04.1990
2258	राखी चौहान / श्री रामेंद्र सिंह चौहान	यूपीएसवीसी / 6329 / 15	ग्राम-लक्ष्मनपुर, डाक-साम्फेर, जिला-औरैया, उत्तर प्रदेश- 206121	बीवीएससीएंडएच / एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	10.02.1988
2259	गौरव वशिष्ठ / श्री संतोष कुमार शर्मा	यूपीएसवीसी / 6330 / 15	ग्राम-नागौला, डाक-जावन, तहसील-कोइल, जिला- अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-202126	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2012	08.02.1990
2260	नितिन कुमार भारद्वाज / श्री गुड्डू कुमार शर्मा	यूपीएसवीसी / 6331 / 15	ग्राम- नागौला, डाक- जावा, तहसील-कोइल, जिला- अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-202126	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2014	03.04.1991
2261	यशपाल सिंह नटवर / श्री छितर सिंह	यूपीएसवीसी / 6332 / 15	ग्राम-गढ़ी नगर, डाक-सहाय, जिला- आगरा, उत्तर प्रदेश- 283105	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2011	09.06.1985
2262	सुनील कुमार / स्व. श्री रानाबोध पाल सिंह	यूपीएसवीसी / 6333 / 15	ग्राम-देहतोरा, डाक-देहतोरा, तहसील-सदर, जिला- आगरा, उत्तर प्रदेश-282001	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2012	12.03.1983
2263	अमित कुमार वर्मा / श्री रवि शंकर वर्मा	यूपीएसवीसी / 6334 / 15	ए-11, न्यू कॉलोनी, कासिमपुर पावर हाउस, जिला-अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-202001	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2012	13.11.1988
2264	कुलदीप सिंह / श्री लाल चंद्र	यूपीएसवीसी / 6335 / 15	ग्राम-लकडियामऊ, जिला- नमसर, तहसील-मिशरिख, जिला-सीतापुर, उत्तर प्रदेश- 261402	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	01.05.1991
2265	विनोद कुमार / श्री राम राज	यूपीएसवीसी / 6336 / 15	ग्राम-इब्राहीमबाद, डाक- सुल्तानपुर (घोसी), जिला- मऊ, उत्तर प्रदेश-275304	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2012	20.12.1982

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
2266	गरिमा श्रीनेत/ श्री दिलीप कुमार सिंह	यूपीएसवीसी/ 6337 / 15	ग्राम- हरपुर, डाक-पापेगंज, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश -273165	बीवीएससीएंडएच/ बिरसा कृ विवि / 2015	17.08.1989
2267	विप्लव सिंह/ श्री सत्येंद्र कुमार सिंह	यूपीएसवीसी/ 6338 / 15	156 ए, 10वीं लेन, सैनिक नगर, रायबरेली रोड, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001	बीवीएससीएंडएच/ आरएजेयू वीएस, बीकानेर/ 2015	26.08.1989
2268	मनोज कुमार गुप्ता/ श्री लालमनि गुप्ता	यूपीएसवीसी/ 6339 / 15	ग्राम-कोटवा भवन, मोरख, डाक- हातिमपुर, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश-274206	बीवीएससीएंडएच/ ओयूओए फएंडटी/ 2015	10.07.1982
2269	दीपक द्विवेदी/ श्री एस. एस. द्विवेदी	यूपीएसवीसी/ 6340 / 15	1354 / 2डी, ईसाई टोला, जिला- झांसी, उत्तर प्रदेश- 284003	बीवीएससीएंडएच/ पॉण्डीचेरी विवि / 2015	07.09.1989
2270	सुगंधा राज/ श्री डी.डी. सक्सेना	यूपीएसवीसी/ 6341 / 15	द्वारा श्री शशि रानी, सहा.प्रोफे. (इंग्लिश), डीम्ड यूनिवर्सिटी, आईवीआरआई, इज्जत नगर,	बीवीएससीएंडएच/ एसकेयूअ एफएएसएंडटी, जम्मू/ 2015	23.11.1991
2271	अजय पाल पाठक /स्व. श्री रामेश्वर पाठक	यूपीएसवीसी/ 6342 / 15	एपी-24, पल्लवपुरम, फेज-1, मोदी पुरम, जिला-मेरठ, उत्तर प्रदेश-250110	बीवीएससीएंडएच/ जेएनकेवी वी / 1970	25.12.1946
2272	बृजेश कुमार/ श्री राम लखन वर्मा	यूपीएसवीसी/ 6343 / 15	ग्राम-पकोलिया, डाक-मुबारक पुर, तहसील-टांडा, जिला- अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश- 224190	बीवीएससीएंडएच/ पॉण्डीचेरी विवि / 2015	03.05.1986
2273	करुण कांत कमल / श्री सरल राम	यूपीएसवीसी/ 6344 / 15	6 / 24, बाहर, सहारा एस्टेट, तारामंडल रोड के पास, जिला -गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 273008	बीवीएससीएंडएच/ टीएनवीएंड एएसयू/ 2015	15.01.1988
2274	दर्पण गोयल/ श्री पीयूष गोयल	यूपीएसवीसी/ 6345 / 15	बी-105, लोहिया नगर, जिला -गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201001	बीवीएससीएंडएच/ आरएजेयू वीएस, बीकानेर/ 2013	25.12.1990
2275	स्वप्न गहलोट/ श्री एन.के. गहलोट	यूपीएसवीसी/ 6346 / 15	ग्राम- शाहपुर जमाल, डाक- सुआवाला, जिला- बिजनौर, उत्तर प्रदेश-246747	बीवीएससीएंडएच/ एनडीवीएसयू, जबलपुर / 2015	12.01.1989
2276	अनुपम कुमार मिश्रा/ श्री रवि चंद्र मिश्रा	यूपीएसवीसी/ 6347 / 15	ग्राम- बरगोवोन, डाक- सराय ख्वाजा, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश-222001	बीवीएससीएंडएच/ टीएनवीएंड एएसयू/ 2015	01.07.1985
2277	श्याम मोहन/ श्री बृज किशोर	यूपीएसवीसी/ 6348 / 15	म.न.-259-ए, रामगंज, गुरसहाय गंज (डाक), जिला- कन्नौज, उत्तर प्रदेश-209722	बीवीएससीएंडएच/ टीएनवीएंड एएसयू/ 2015	12.04.1983
2278	नितिन कुमार/ श्री प्रकाश सिंह	यूपीएसवीसी/ 6349 / 15	156 / 9, विजय नगर, जिला- कानपुर, उत्तर प्रदेश-208005	बीवीएससीएंडएच/ टीएनवीएंड एएसयू/ 2015	13.02.1991
2279	प्रमोद कुमार/ श्री नन्हे लाल	यूपीएसवीसी/ 6350 / 15	361, के.डुगीपुर वेडगावोन, साहूजी महाराज पब्लिक स्कूल के निकट, तहसील- बिलासपुर, जिला-पीलीभीत, उत्तर प्रदेश-262201	बीवीएससीएंडएच/ टीएनवीएंड एएसयू/ 2015	18.05.1990
2280	दीपक वर्मा/ श्री सुरेश चंद्र वर्मा	यूपीएसवीसी/ 6351 / 15	ग्राम- पीपरा उदयन, डाक- टीकर, जिला- लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश-262701	बीवीएससीएंडएच/ टीएनवीएंड एएसयू/ 2015	05.07.1988
2281	हरीश चौधरी/ श्री अर्जुन देव चौधरी	यूपीएसवीसी/ 6352 / 15	ग्राम-बाबूराहा, डाक- गोविंदपुर, जिला-सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश-272192	बीवीएससीएंडएच/ टीएनवीएंड एएसयू/ 2015	15.01.1987
2282	दिनेश कुमार गुप्ता/ श्री राम कीर्ति गुप्ता	यूपीएसवीसी/ 6353 / 15	ग्राम एवं डाक-बिसकोहर बाजार, जिला- सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश-272192	बीवीएससीएंडएच/ टीएनवीएंड एएसयू/ 2015	27.07.1988
2283	पवन कुमार सिंह/ श्री अशोक कुमार सिंह	यूपीएसवीसी/ 6354 / 15	ग्राम-गोडौरा, डाक-किशनपुर, तहसील-खागा, जिला-फतेह पुर, उत्तर प्रदेश-212658	बीवीएससीएंडएच/ टीएनवीएंड एएसयू/ 2015	22.06.1982
2284	पंकज बुंदेला/ श्री इंद्र भवन सिंह	यूपीएसवीसी/ 6355 / 15	ग्राम-जसईपुर, थाना-टिंडवरी, तहसील-बांदा, जिला-बांदा, उत्तर प्रदेश-210128	बीवीएससीएंडएच/ टीएनवीएंड एएसयू/ 2015	03.04.1988
2285	इश्तियाक अहमद /स्व. श्री जुम्मा	यूपीएसवीसी/ 6356 / 15	ग्राम-डांग, डाक-डांग, थाना - जहानाबाद, उत्तर प्रदेश -231216	बीवीएससीएंडएच/ टीएनवीएंड एएसयू/ 2015	23.06.1990
2286	जितेंद्र कुमार/ श्री बिशेश्वर	यूपीएसवीसी/ 6357 / 15	ग्राम-पूर्णा, डाक- नाई बाजार, जिला- सोनभद्रा, उत्तर प्रदेश-231216	बीवीएससीएंडएच/ एसकेएन डीएयू/ 2015	02.03.1982
2287	संदीप कुमार पांडे / श्री विजय बहादुर पांडे	यूपीएसवीसी/ 6358 / 15	ग्राम एवं डाक-धाढोरपुर (कोइली), जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221305	बीवीएससीएंडएच/ एएफएएसयू, नागपुर/ 2015	01.10.1985

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
2288	कास गुप्ता/श्री संत लाल गुप्ता	यूपीएसवीसी/6359 / 15	ग्राम-मकसूदिया, डाक- अम्बारी, जिला-आज़मगढ़, उत्तर प्रदेश-223222	बीवीएससीएंडएच/टीएनवीएंडएएसयू/2015	01.08.1990
2289	प्रदीप कुमार/श्री अशोक कुमार	यूपीएसवीसी/6360 / 15	ग्राम-मकसूमगंज, डाक- मंगलासी, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश-224001	बीवीएससीएंडएच/टीएनवीएंडएएसयू/2015	05.06.1984
2290	रनवीर सिंह यादव/श्री समर बहादुर सिंह	यूपीएसवीसी/6362 / 15	ग्राम-फूलपुर (देहात), डाक- फूलपुर, जिला- आज़मगढ़, उत्तर प्रदेश-276304	बीवीएससीएंडएच/टीएनवीएंडएएसयू/2015	05.07.1989
2291	संजीव कुमार वर्मा / श्री इंदल प्रसाद	यूपीएसवीसी/6363 / 15	ग्राम एवं डाक- मनकापुर, जिला-गोंडा, उत्तर प्रदेश- 271302	बीवीएससीएंडएच/जीएडीवीएंडएएसयू/2015	16.01.1989
2292	संदीप कुमार/श्री सतय नारायण	यूपीएसवीसी/6364 / 15	ग्राम-सोनेपुर, डाक-करवी, जिला-चित्रकूट, उत्तर प्रदेश- 210205	बीवीएससीएंडएच/टीएनवीएंडएएसयू/2015	03.07.1990
2293	जीतेंद्र कुमार यादव/श्री राम निवास यादव	यूपीएसवीसी/6366 / 15	ग्राम-नागला बाइक, डाक- रिजोरे, जिला-एटा, उत्तर प्रदेश-207001	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि, तिरुपति / 2015	18.07.1986
2294	आशीष कुमार/श्री पारस नाथ उपाध्याय	यूपीएसवीसी/6367 / 15	म.न.-130/633, बिदा अस्पताल के निकट, देवा रोड मटियारी चिन्हट, जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि, तिरुपति / 2015	13.12.1987
2295	अमलेश कुमार सिंह/श्री शिव कुमार सिंह	यूपीएसवीसी/6368 / 15	नौनिहालगंज, संदीला रोड, बलमाऊ, जिला-उन्नाव, उत्तर प्रदेश-209868	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि, तिरुपति / 2015	02.06.1991
2296	दिनेश कुमार/श्री राम कुमार	यूपीएसवीसी/6369 / 15	ग्राम एवं डाक- छिबौली, तहसील-सरीला, जिला- हमीरपुर, उत्तर प्रदेश-210432	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि, तिरुपति / 2015	04.05.1990
2297	सुरेंद्र कुमार/श्री अयोध्या प्रसाद चौधरी	यूपीएसवीसी/6370 / 15	ग्राम-चमरीघया, डाक- माघवमीर, जिला-बस्ती, उत्तर प्रदेश-272002	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि, तिरुपति / 2015	10.09.1987
2298	सुशील कुमार यादव/श्री हुबलाल सिंह	यूपीएसवीसी/6371 / 15	ग्राम-बभनपुरवा, डाक-नारा, तहसील-मंझनपुर, जिला- कौशम्बी, उत्तर प्रदेश-212217	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि, तिरुपति / 2015	05.06.1989
2299	अंकित कुमार/श्री राम नरेश	यूपीएसवीसी/6372 / 15	ग्राम-हेरवाल, डाक-पुरबावन, जिला-हरदोई, उत्तर प्रदेश -241303	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि, तिरुपति / 2015	24.07.1991
2300	हरि शंकर/श्री राम चंद्र लाल	यूपीएसवीसी/6373 / 15	ग्राम- कासिमपुर, डाक- अमराकरुर, तहसील- बिसालपुर, जिला-पीलीभीत, उत्तर प्रदेश-262202	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि, तिरुपति / 2015	07.07.1988
2301	अनुराग आर्या/ श्री अनिल कुमार आर्या	यूपीएसवीसी/6374 / 15	ग्राम एवं डाक-फुलाट, तहसील-खतौली, जिला- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश- 251002	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2015	18.07.1985
2302	सैयद हाशमी/ श्री सैयद शौकत अली	यूपीएसवीसी/6375 / 15	वार्ड न.-3, डाकिनगंज, बहादुरगंज, जिला-गाज़ीपुर, उत्तर प्रदेश-275201	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि, तिरुपति / 2015	21.01.1985
2303	सफी-कुर- रहमान/श्री अजीज़-उर-रहमान	यूपीएसवीसी/6376 / 15	वेस्ट न्यू बस्ती, नवाब गंज, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश- 243406	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि, तिरुपति / 2015	21.02.1984
2304	जय प्रकाश/श्री बंशराज	यूपीएसवीसी/6377 / 15	ग्राम-देवपार, डाक-भगौसा, जिला- संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश- 272126	बीवीएससीएंडएच/टीएनवीएंडएएसयू/2015	06.09.1989
2305	संदीप कुमार पांडे/श्री रमा कांत पांडे	यूपीएसवीसी/6378 / 15	ग्राम-वस्ती, डाक-कंठारापुर, जिला- आज़मगढ़, उत्तर प्रदेश-276135	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि, तिरुपति / 2015	10.07.1981
2306	रत्नेश कुमार यादव/श्री रमेश यादव	यूपीएसवीसी/6379 / 15	ग्राम-दोहानी, डाक- बकुची, जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश- 274509	बीवीएससीएंडएच/टीएनवीएंडएएसयू/2015	17.02.1989
2307	सन्मत जैन/स्व. श्री पी. सी. जैन	यूपीएसवीसी/6380 / 15	म.न.-91, सेक्टर-15, वसुंधरा कॉलोनी, जिला- गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201012	बीवीएससीएंडएच/जेएनकेवी/2004	29.03.1980
2308	धन पाल/श्री लखन सिंह	यूपीएसवीसी/6381 / 15	म.न.-175, ग्राम-रिचोला किफायटोला, थाना-नवाबगंज जिला-बरेली, उत्तर प्रदेश- 243406	बीवीएससीएंडएच/श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि, तिरुपति / 2015	20.05.1990

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
2309	अमित सिंह विशेषन/ श्री वीरेंद्र सिंह	यूपीएसवीसी/6382 /15	विजयारी पुरवा, नई बस्ती, शयोरा, नवाबगंज श्याम, हरद्वारे मैनावती मार्ग, एनआर आई सिटी के निकट, जिला-कानपुर, उ.प्र.-208002	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2015	10.08.1990
2310	अभिषेक वर्मा/ श्री विजय पाल वर्मा	यूपीएसवीसी/6383 /15	ग्राम-सुमेरगंज, डाक- बंसा, जिला-हरदोई, उत्तर प्रदेश- 245207	बीवीएससीएंडएच/ श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि, तिरुपति /2015	25.07.1991
2311	सत्यवीर वर्मा/ श्री छोटे लाल	यूपीएसवीसी/6384 /15	ग्राम-खैरा, डाक-महमदपुर, जिला-प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश -230502	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2015	25.03.1990
2312	कपिल कुमार / श्री रामबीर सिंह	यूपीएसवीसी/6385 /15	ग्राम-मुक्तेश्वर, डाक- दतियान, जिला-हापुड़, उत्तर प्रदेश-245207	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2012	01.07.1985
2313	राहुल कुमार त्रिपाठी/ श्री उमेशचंद्र त्रिपाठी	यूपीएसवीसी/6386 /16	ग्राम एवं डाक-गिलौला, जिला- श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश -271835	बीवीएससीएंडएच/ श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि, तिरुपति /2015	09.07.1986
2314	विवेक कुमार/ ओंकार नाथ	यूपीएसवीसी/6387 /16	6/16, विकास नगर, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226022	बीवीएससीएंडएच/ श्री वेंकटेश्वर वेट यूनि, तिरुपति /2015	25.08.1986
2315	नईम अहमद/ श्री रियाजुल हक	यूपीएसवीसी/6388 /16	ग्राम- मलकपुर, डाक- फतेहपुर, जिला-मुरादाबाद- 202411, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/ जीएडीवी एंडएएसयू/2016	04.04.1978
2316	प्रदीप कुमार/ श्री बदले सिंह	यूपीएसवीसी/6389 /16	ग्राम एवं डाक-बाली, तहसील- बागपत, जिला- बागपत, उत्तर प्रदेश-20601	बीवीएससीएंडएच/ जीएडीवी एंडएएसयू/2016	01.02.1992
2317	संजय सिंह/ श्री भुवन सिंह	यूपीएसवीसी/6390 /16	ग्राम-कमलपुर, डाक- बल्ली, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश- 243505	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2016	10.05.1986
2318	अनूप कुमार सिंह/ श्री प्रमोद कुमार सिंह	यूपीएसवीसी/6391 /16	बी-1120, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226016	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2016	2.12.1992
2319	कुमार मंगलम यादव/ श्री गंगा प्रसाद यादव	यूपीएसवीसी/6392 /16	म.न.-569, बहादुर गंज, डाक-साहब गंज, जिला- फैजाबाद, उत्तर प्रदेश-224001	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2016	07.07.1990
2320	अश्विनी यादव/ श्री रामदास यादव	यूपीएसवीसी/6393 /16	ग्राम- नागला दीपा, डाक- अहिरवा, जिला-मैनपुरी, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2016	01.05.1990
2321	अश्विनी कुमार सिंह/ श्री मदन पाल सिंह	यूपीएसवीसी/6394 /16	127/658, डब्ल्यू-1, ब्लॉक साकेत नगर, जूही, जिला- कानपुर, उत्तर प्रदेश-208014	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2016	15.03.1991
2322	बनारसी मिश्रा/ श्री हरीश मिश्रा	यूपीएसवीसी/6395 /16	ग्राम-पारस शाह आलम, डाक -भीमापुर, जिला-सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश- 272207	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2016	15.02.1990
2323	सतेंद्र कुमार गौतम/ श्री योगेश गौतम	यूपीएसवीसी/6396 /16	34/52-ए-1/2, अनुराग नगर, बाल्केश्वर, दाल मिल के निकट, जिला-आगरा, उत्तर प्रदेश-282005	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2016	30.01.1993
2324	अर्जुन सिंह/ श्री राम पदार्थ सिंह	यूपीएसवीसी/6397 /16	ग्राम-पुरे कीरत, डाक- गोडवा, जिला-फैजाबाद, उत्तर प्रदेश-224126	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2016	01.07.1992
2325	शशांक भूषण/ श्री महावीर सिंह	यूपीएसवीसी/6398 /16	ब्लॉक कैम्पस, सिधपुरा, वेट. अस्पताल के निकट, जिला- कासगंज, उत्तर प्रदेश-207246	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2016	01.03.1991
2326	रूप किशोर/ श्री नाथू सिंह	यूपीएसवीसी/6399 /16	ग्राम-शालवाहन, डाक- लालेसर, जिला-एटा -207302, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2016	01.11.1989
2327	जुगेंद्र पाल सिंह / श्री किशन सिंह	यूपीएसवीसी/6400 /16	ग्राम-शालवाहन, डाक- लालेसर, जिला-एटा -207302, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2016	08.07.1988
2328	रवि कांत सिंह पिपल/ श्री ठाकुर दास	यूपीएसवीसी/6401 /16	11-डी/8-ए, बालाजी नगर, श्रीनगर कॉलोनी, जिला- आगरा, उत्तर प्रदेश-282006	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2016	01.10.1988
2329	दानिश खान/ श्री आर.यू. खान	यूपीएसवीसी/6402 /16	5/102, हवेली कबीर खान, नाई की मंडी, जिला-आगरा, उत्तर प्रदेश- 282010	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2016	12.07.1987
2330	सुशील कुमार चौधरी/ श्री नारायण चौधरी	यूपीएसवीसी/6403 /16	ग्राम-तेनुवा, डाक-मझुवा मीर, जिला-बस्ती, उत्तर प्रदेश-272002	बीवीएससीएंडएच/आरएजेयू वीएस, बीकानेर/2016	05.01.1990

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
2331	दिनेश कुमार यादव / श्री गोविंदसिंह यादव	यूपीएसवीसी / 6404 / 16	ग्रामव डाक-घड़न (बैदवाली), वाया-मरडाह, जिला- गाजीपुर, उत्तर प्रदेश-233226	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2016	10.02.1988
2332	हरेश कुमार सिंह / श्री विजय पाल सिंह	यूपीएसवीसी / 6405 / 16	ग्राम-नागला लाले, डाक- अगवार आत्मदपुर, जिला- आगरा, उत्तर प्रदेश-283202	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2016	12.08.1985
2333	शहनवाज़ आलम / श्री मौह. आलम	यूपीएसवीसी / 6406 / 16	म.न.-634, मौह.-गांधीनगर, कस्बा-सिधौली, डाक- सिधौली जिला-सीतापुर -261303, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / टीएनवीएंडएएसयू / 2015	15.11.1987
2334	विजेंद्र यादव / श्री करन सिंह	यूपीएसवीसी / 6407 / 16	ग्राम-तपुआ, डाक-अलीगंज, जिला-एटा, उत्तर प्रदेश- 207247	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2016	10.01.1993
2335	सैलेंद्र सिंह / श्री करन सिंह	यूपीएसवीसी / 6408 / 16	ग्राम-तपुआ, डाक-अलीगंज, जिला-एटा, उत्तर प्रदेश- 207247	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2016	20.06.1990
2336	मुश्ताक अहमद / श्री मौहम्मद नसीम	यूपीएसवीसी / 6409 / 16	ग्राम एवं डाक-अशरफपुर बेवा, जिला-अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश-224151	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2016	15.07.1993
2337	अभिनव गंगवार / श्री देवेन्द्र पाल	यूपीएसवीसी / 6410 / 16	मौह.-सुरभी कॉलोनी, डाक- पीलीभीत, जिला- पीलीभीत, उत्तर प्रदेश-262001	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2016	01.04.1991
2338	योगेश कुमार शर्मा / श्री कृष्ण स्वरूप	यूपीएसवीसी / 6411 / 16	मौह.-महादेव पुरम, डाक- बेहेरी, जिला-बरेली, उत्तर प्रदेश-243201	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2016	02.07.1988
2339	सुमित कुमार / श्री राज कुमार	यूपीएसवीसी / 6412 / 16	ग्राम एवं डाक- डंगरूल, जिला-शामली, उत्तर प्रदेश- 247776	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2016	30.12.1990
2340	शैलेंद्र कुमार सिंह / श्री मुरली लाल यादव	यूपीएसवीसी / 6413 / 16	मौह0-नवीन बस्ती, डाक- विधुना, जिला-औरैया, उत्तर प्रदेश- 206243	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2011	20.12.1984
2341	समरपाल चौरसिया / श्री राम चौरसिया	यूपीएसवीसी / 6414 / 16	ग्राम- पगारा, परसिया, डाक- पिपरपती, जिला- देवरिया-274001, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2016	08.10.1993
2342	यश राज कुमार / श्री राम लगन सिंह	यूपीएसवीसी / 6415 / 16	मौह.-सरस्वती नगर, चित्तपुर खास, बी.एच. यू. थाणे-लंके, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश -221001	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2016	02.05.1990
2343	सुरेंद्र कुमार / श्री पुरुषोत्तम	यूपीएसवीसी / 6416 / 16	ई-91, बड़ा वर्ल्ड बैंक कॉलोनी, जिला-कानपुर, उत्तर प्रदेश-208027	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयू एंडटी, कानपुर / 1993	10.08.1968
2344	जितेंद्र कुमार / श्री काशी प्रसाद	यूपीएसवीसी / 6417 / 16	ग्राम-मुरलीपुर, डाक- रार, जिला-कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-209206	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयू एंडटी, कानपुर / 1984	10.11.1958
2345	शिवानी सिंह / श्री रघुनाथ सिंह	यूपीएसवीसी / 6418 / 16	म.न.-876, प्रोफेसर कॉलोनी, शिकोहाबाद, जिला- फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2016	31.01.1991
2346	राजेश कुमार अग्रवाल / स्व.श्री एच.एच. सरन अग्रवाल	यूपीएसवीसी / 6419 / 16	म.न.-89, शिवपुरम, सिविल लाइन, जिला- रामपुर, उत्तर प्रदेश-244901	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 1990	02.12.1966
2347	प्रणय कुमार श्रीवास्तव / श्री एम.एल. श्रीवास्तव	यूपीएसवीसी / 6420 / 16	---, ब्लॉक-क्यू, शारदा नगर, जिला-कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208025	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयू एंडटी, कानपुर / 1980	22.07.1978
2348	आनंदिता श्रीवास्तव / श्री अश्विनी श्रीवास्तव	यूपीएसवीसी / 6421 / 16	म.न.-268, संजय मेडिकल स्टोर के सामने, डाक-सदर, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश -273001	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2016	30.06.1991
2349	पुष्कर शर्मा / श्री उमेश चंद्र शर्मा	यूपीएसवीसी / 6422 / 16	ग्राम एवं डाक-दल्लातपुर खुर्द, दिवई, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश-202392	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएस, बीकानेर / 2016	13.11.1992
2350	देवेन्द्र सिंह / स्व. श्री रणविजय सिंह	यू वीसी / 711 / 2015	द्वारा डॉ. राकेश नौटियाल, मोठोरवाला कैंट एरिया, देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2010	25.03.1984
2351	दीपंकर बिष्ट / श्री एल. एस. बिष्ट	यू वीसी / 712 / 2015	वार्ड न.-6, पुरानी तहसील के निकट, मेन बाजार, कालाडुंगी, जिला-नैनीताल, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	29.12.1991
2352	सप्रिया यादव / श्री राम प्रकाश सिंह	यू वीसी / 713 / 2015	द्वारा एल.बी. यादव, ए.आर.बी. बाबूगढ़ के सामने, विकास नगर, देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	11.01.1992

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
2353	अर्चना सराफ / श्री अशोक सराफ	यू वीसी / 714 / 2015	26, मूलचंद एंक्लेव, माजरा शिमला बाईपास, देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	08.08.1992
2354	रमनप्रीत सिंह संधु / श्री जी.एस. संधु	यू वीसी / 715 / 2015	बरेली रोड, सुनहरी मस्जिद के सामने, किच्छा, यू.एस.नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	09.01.1991
2355	आलोक खंडूरी / श्री बल्लभ खंडूरी	यू वीसी / 16 / 2015	ग्राम-शिवपुर, हरिद्वार रोड, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	06.07.1992
2356	कंचन सिंह / श्री मंगल सिंह	यू वीसी / 717 / 2015	ग्राम-गौतम नगर, मलधान चौर न. -5, तहसील-रामनगर, जिला-नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	29.10.1992
2357	प्रियंका संतोषी / श्री सतीश चंद्र संतोषी	यू वीसी / 718 / 2015	बड़ा बाजार, देवप्रयाग जिला, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	15.05.1992
2358	पुष्पा / श्री रामावधेश	यू वीसी / 719 / 2015	240 / 160, फूल बाग, सेंटर प्रतनगर, यू.एस.नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	12.06.1990
2359	फरहीन ताहिर / श्री मौहम्मद ताहिर	यू वीसी / 720 / 2015	ग्राम-सिरोली कलां, डाक- किच्छा, जिला-यू.एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	24.07.1992
2360	प्रज्ञा जोशी / श्री जी.बी. जोशी	यू वीसी / 721 / 2015	गोविंद पुरम, बिठोरिया न.-1, जीआईसी नारायण नगर, इंटर कॉलेज, कुसुमखेड़ा, हलद्वानी जिला, नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	06.10.1992
2361	मेघा वर्मा / श्री बलबीर सिंह	यू वीसी / 722 / 2015	ग्राम / डाक-जौलीग्रंट, आर्य समाज भवन के निकट, देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	14.06.1991
2362	सुनील पंथ / श्री निर्मल पंथ	यू वीसी / 723 / 2015	सिविल लाइंस, खटारी, राम नगर जिला, नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	15.07.1991
2363	नमित मोहन / श्री मनीराम बिजलवान	यू वीसी / 724 / 2015	ग्राम-इडक (बनाल), डाक- गडोली बरकोट, उत्तरकाशी, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	04.05.1992
2364	मनीश पांडे / श्री मोहन चंद्र पांडे	यू वीसी / 725 / 2015	नवाबी रोड, गली न.-8, प्रगति विहार, हलद्वानी, जिला-नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	17.03.1993
2365	आकश उनियाल / श्री शिव प्रसाद उनियाल	यू वीसी / 726 / 2015	ग्राम-पनसूट, पट्टा-ऑन, तहसील-प्रतापनगर, जिला- टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	21.02.1992
2366	निशा बिष्ट / श्री भूपाल सिंह बिष्ट	यू वीसी / 727 / 2015	म.न.: 5-493 / 119, गंगा कॉलोनी मल्ला, गोरखपुर, तिकोनिया, हलद्वानी, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	27.08.1990
2367	गरिमा पांडे / श्री घनश्याम पांडे	यू वीसी / 728 / 2015	राम मंदिर कॉलोनी, ग्राम- कोरटा, डाक- काठगोदाम, हलद्वानी, जिला-नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	19.01.1992
2368	कनिका तिवारी / श्री एस.सी. तिवारी	यू वीसी / 729 / 2015	टेलीफोन एक्सचेंज, तहसील रोड, ग्राम-डागरो, ज्वाला देवी वार्ड, बागेश्वर, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	13.02.1992
2369	मयंक मैथानी / श्री प्रभाकर मैथानी	यू वीसी / 730 / 2015	ग्राम / डाक-नैनी (नौटी), कर्ण प्रयाग, जिला-चमोली, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	27.02.1990
2370	ज्योत्सना भट्ट / श्री दिनेश चंद्र भट्ट	यू वीसी / 731 / 2015	ए-494 / 6, ईडब्ल्यूएस, आवास विकास कॉलोनी, होली चौक के पास, रुद्रपुर, यू.एस.नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	24.04.1992
2371	मोनू कारकी / श्री के.एस. कारकी	यू वीसी / 732 / 2015	द्वारा के.एस. कारकी, बहदे पट्टी-धनियाकोट, तहसील-कोशियाकुटोली, नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	30.11.1991
2372	आकांक्षा तिवारी / श्री कमल किशोर तिवारी	यू वीसी / 733 / 2015	99 / 2, गंगा विहार, हरिद्वार रोड (स्टेट रोडवेज वर्कशॉप के पीछे), देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	21.03.1992
2373	कोमल बिजलवान / श्री एस.एल. बिजलवान	यू वीसी / 734 / 2015	ग्राम-इडकी पट्टी-बनाल, तहसील-बारकोट, जिला- उत्तरकाशी, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	09.07.1992
2374	सुनीता / श्री गंगा राम	यू वीसी / 735 / 2015	द्वारा आनंदी जैसर, ईश्वर स्टील्स के पीछे, नागपाल बजाज के निकट, टल्ली हलद्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	09.07.1986

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
2375	मौहम्मद खालिद / श्री अब्दुल रशीद	यू वीसी / 736 / 2015	ग्राम+डाक-लालपुर, तहसील रुद्रपुर, जिला-यू.एस.नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	01.06.1985
2376	शोफाली बोरा / श्री किशोर सिंह बोरा	यू वीसी / 737 / 2015	म.न.: -18, पानुदियार, अल्मोड़ा, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	01.06.1991
2377	बिशन सिंह / श्री राजेंद्र सिंह	यू वीसी / 738 / 2015	ग्राम- गोना, डाक- गडोली, जिला- उत्तरकाशी, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	01.07.1989
2378	पल्लवी देओल / श्री रामेश्वर देओल	यू वीसी / 739 / 2015	सुभाष नगर, आवास विकास के निकट, काशीपुर, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	06.01.1991
2379	पल्लवी जायसवाल / श्री सुभाष चंद्र जायसवाल	यू वीसी / 740 / 2015	98, हिल व्यू कॉलोनी, इंदिरा नगर, देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	08.06.1992
2380	शिखा टमटा / श्री एम. एल. टमटा	यू वीसी / 741 / 2015	विद्या भवानी विहार, बड़ी मुखानी, हलद्वानी, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	05.11.1991
2381	गीतिका गरिया / श्री दलीप सिंह गरिया	यू वीसी / 742 / 2015	ग्राम-किशनपुरा, सकुलिया, डाक-मोटाहलू (हलद्वानी), जिला-नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	30.06.1987
2382	रेनुकर पांगटे / श्री बी. एस. पांगटे	यू वीसी / 743 / 2015	मेडिकल चौकी, हलद्वानी, बेली रोड, नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	08.03.1992
2383	आनंद कुमार सिंह / रमाकांत सिंह	यू वीसी / 744 / 2015	4 / 851, झा कॉलोनी, पंत नगर, यू.एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	02.04.1993
2384	प्रतिभा जोशी / श्री आर. ओ. जोशी	यू वीसी / 745 / 2015	ग्राम-जोला, पटवारी चेत्रा, ग्वालदम, तहसील-थराली, जिला-चमोली, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	09.12.1992
2385	अंकित मलिक / श्री अनिल कुमार मलिक	यू वीसी / 746 / 2015	म.न.: 117, गली नं.-3, मोहनपुरा, लक्ष्मी नगर, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	16.11.1991
2386	सुरेश चंद / श्री सब्बल सिंह	यू वीसी / 747 / 2015	ग्राम- काफलोग, डाक- नेलदा, धारमंडल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	14.06.1990
2387	पंकज गुनावत / श्री एम. एन. गुनावत	यू वीसी / 748 / 2015	राम मंदिर कॉलोनी, काठ गोदाम, डाक- काठगोदाम, नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	26.10.1990
2388	प्रमोद भूटानी / श्री जी. एस. भूटानी	यू वीसी / 749 / 2015	मैसर्स घनश्याम जनरल स्टोर, लखनपुर, राम नगर, नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	15.08.1989
2389	लक्षिता आज़ाद / श्री तिलक राज आज़ाद	यू वीसी / 750 / 2015	ग्राम-कांडे, तहसील- द्वारहाट, जिला- अल्मोड़ा, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	30.12.1991
2390	आश्विना मधवाल / डॉ. बी.पी. मधवाल	यू वीसी / 751 / 2015	सी-58, नेहरू कॉलोनी, धरमपुर, देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	20.02.1992
2391	मौहम्मद जावेद / श्री सकील अहमद	यू वीसी / 752 / 2015	ग्राम-भनूसा (पचपेडा), डाक- झंकाट, तहसील-खातिमा, जिला-यू.एस.नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	15.07.1989
2392	विनोद सोनी / श्री प्रेम सोनी	यू वीसी / 753 / 2015	सोनी भवन, मसीहा दिलासा स्कूल के पीछे, तिलोट, उत्तरकाशी, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	04.09.1983
2393	सौरभ भट्ट / श्री हीरा बल्लभ भट्ट	यू वीसी / 754 / 2015	सरस्वती विहार कॉलोनी, जी.आई.सी., डाक-डिग्री कॉलेज, पिथौरागढ़, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	27.07.1984
2394	रामकृष्ण राना / श्री तरेपन सिंह राना	यू वीसी / 755 / 2015	ग्राम-पलार पट्टी, ठकराल, तहसील-बरकोट, जिला- उत्तरकाशी, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	20.04.1987
2395	नीरज भट्ट / श्री पी.सी. भट्ट	यू वीसी / 756 / 2015	गोपाल निवास, अवालाकोठ, डाक-कोटाबाग, जिला- नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	04.02.1975
2396	देवेंद्र सिंह राना / श्री एम.एस. राना	यू वीसी / 757 / 2015	ग्राम- मतीहा, तहसील- सितारगंज, जिला-यू.एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	25.12.1991
2397	अविनाश कुमार कटारिया / श्री रघुवीर सिंह कटारिया	यू वीसी / 758 / 2015	एन-140, फेज़-3, शिवालिक नगर, भेल, हरिद्वार, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	31.08.1989
2398	विजय कुमार / श्री गणेश लाल	यू वीसी / 759 / 2015	सिनेमा लाइन डाक, शिवालय, जिला-पिथौरागढ़, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	10.02.1992

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
2399	अतुल उनियाल / श्री अजीत प्रसाद उनियाल	यू वीसी / 760 / 2015	अपर सुंदरवाला, लालपुर, डाक- रायपुर, देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	25.02.1991
2400	अंकुर चौधरी / श्री मुनेश पाल	यू वीसी / 761 / 2015	ग्राम- बसेरी खादर, लकसर, हरिद्वार, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	10.03.1993
2401	सुयश जायसवाल / श्री रामेश्वर जायसवाल	यू वीसी / 762 / 2015	ग्राम-बगवाला, तहसील- किच्छा, जिला-यू.एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	06.12.1991
2402	आलोक मिश्रा / श्री राजदेव मिश्रा	यू वीसी / 763 / 2015	गवर्नमेंट वेटरिनरी हॉस्पिटल, चालिथी, तानापुर, चम्पावत, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2010	31.07.1982
2403	सचिन कुमार शाण्डिल्य / श्री सुधीर कुमार शाण्डिल्य	यू वीसी / 764 / 2015	म.न.-62, शिवपुरी कॉलोनी, लकसर जिला, हरिद्वार, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	09.10.1985
2404	सतीश चंद्र गंगवार / श्री लाल राम गंगवार	यू वीसी / 765 / 2015	म.न.-2, लेन न.-2, एकता विहार, सहस्त्र धारा रोड, देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / केवीएंड एफएसयू बिदर / 2013	15.08.1984
2405	अर्चना भदौरिया / श्री पी. एन. शर्मा	यू वीसी / 766 / 2015	द्वारा राजेंद्र विक्रम सिंह, 53, ठाकुर निवास, सिविल लाइन, नरेंद्र नगर, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेव ीवी, जबलपुर / 2005	30.12.1979
2406	सरिता नेगी / श्री कमल सिंह नेगी	यू वीसी / 767 / 2015	ग्राम-बचेला डांड्रिम, जिला- पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2015	04.04.1991
2407	बिमल भट्ट / श्री बालगोविंद भट्ट	यू वीसी / 768 / 2015	ग्राम-सिलवलगांव, प्रताप नगर, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएएसयू / 2012	24.07.1990
2408	अनुज कुमार / श्री सुखपाल सिंह	यू वीसी / 769 / 2015	180 / 1, चारु मंडी, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 2009	13.08.1986
2409	वरुण कुमार / श्री घनश्याम दास	यू वीसी / 770 / 2016	म.न.-39, प्रकाश लोक, डाक- मजारा, देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / सीएसएसयू ऑफएंडटी / 2000	25.02.1976
2410	रोहित कुमार / श्री श्याम लाल	यू वीसी / 771 / 2016	गली न.-13, कृष्णा नगर, रुड़की जिला, हरिद्वार, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / आरएजेयू वीएएसयू / 2016	22.08.1990
2411	बिधान चंद्र मोंडल / स्व. श्री विपिन बिहारी मोंडल	यू वीसी / 772 / 2016	बी-3, जेएलएन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / बिधान कृवि वि / 1991	06.08.1968
2412	नायर मिथिला विजय कुमार / श्री विजय कुमार	यू वीसी / 773 / 2016	म.न.-3, डी-ब्लॉक, लेन न.-04, अमन अपार्ट. के सामने, अमन विहार, सहस्र धारा रोड, देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू, नागपुर / 2012	30.11.1988
2413	बलविंदर सिंह / श्री एस. जागीर सिंह	यू वीसी / 774 / 2016	1312 / 5, टीए कॉलोनी, पंत नगर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / पंजाब कृवि वि, पंजाब / 1987	27.03.1962
2414	रोजेन मैत्रा / श्री रनजीत मैत्रा	डब्ल्यूबीवीसी / 3602 / 15	ग्राम-माझेर ग्राम, डाक- गंगसाराथाना-गंगापुर, जिला -नादिया-741233, प.बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	06.01.1990
2415	बिक्रमजीत चक्रबोर्ती / श्री बामदेब चक्रबोर्ती	डब्ल्यूबीवीसी / 3603 / 15	बंगालपुर पूर्वा पारा, ग्राम एवं डाक-बंगालपुर, थाना- बगनान, जिला- हावड़ा-711 303, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	05.04.1990
2416	अरिंदम सामंता / श्री असोक कुमार सामंता	डब्ल्यूबीवीसी / 3604 / 15	ग्राम-चाक, दुर्गाबासन, डाक -दक्षिण दामोदरपुर, थाना- नंदकुमार, जिला-पूरबा, मेदिनी पुर-721652, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	04.05.1993
2417	सुब्रत चौधरी / श्री मधुसूदन चौधरी	डब्ल्यूबीवीसी / 3605 / 15	दालमदल रोड, प्रोफेसर कॉलोनी, डाक-बिष्णुपुर, जिला बंकुरा-722122, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	05.11.1991
2418	अर्कप्रभा शी / श्री अरबिंदा शी	डब्ल्यूबीवीसी / 3606 / 15	ग्राम-बरांडला, डाक-कानपुर, थाना-मोटेश्वर, जिला-बर्धमान -713422, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	14.05.1992
2419	सांतनु घोरई / श्री सक्ति पदा घोरई	डब्ल्यूबीवीसी / 3607 / 15	ग्राम-अबाश, डाक-अबाश, जिला-पश्चिमी मेदिनीपुर- 721652, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	01.08.1992
2420	राहुल टुडु / श्री द्विजेंद्र नाथ टुडु	डब्ल्यूबीवीसी / 3608 / 15	ग्राम-डोमजुरी, डाक- अगुईबिल, थाना-बोरो, जिला -पुरुली-723129, प. बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	08.04.1992

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
2421	पलाश बिस्वास / श्री बैद्य नाथ बिस्वास	डब्ल्यूबीवीसी / 3609 / 15	ग्राम-माशरा, डाक- तातला, थाना-चकदाहा, जिला-नाडिया -741222, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	26.02.1989
2422	सेख यासिन / श्री सेख जमाल बक्स अली	डब्ल्यूबीवीसी / 3610 / 15	के-35, मंघनाद साहा पल्ली, ग्राम-कृष्णापुर, डाक- राजबाती, जिला- बर्दवान -713104, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	01.03.1993
2423	पपिया बिस्वास / श्री प्रभाष चंद्र बिस्वास	डब्ल्यूबीवीसी / 3611 / 15	ग्राम एवं डाक-रासखोवा, थाना-करानडीह, जिला-उ.दिनाजपुर, पिन-733201, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	17.06.1989
2424	संतु पाहन / श्री जगदीश पाहन	डब्ल्यूबीवीसी / 3612 / 15	उत्तर गोबिंद पुर, डाक एवं थाना-काकविप, जिला-द. 24 परगना, पिन-743347, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	17.02.1991
2425	इंद्रनील पहाड़ी / श्री भक्ति पाद पहाड़ी	डब्ल्यूबीवीसी / 3613 / 15	जी-4, प्रधान अपार्टमेंट, स्टेशन रोड, किरानीटोला, मिदनापुर टाउन, जिला- पश्चिम मिदनापुर-721101, पश्चिमी बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	24.07.1992
2426	अनिरुद्ध बनर्जी / श्री मानोतोश बनर्जी	डब्ल्यूबीवीसी / 3614 / 15	प्रद्योत नगर, धर्मा डाक, मिदनापुर एच.पी. ओ., जिला- पश्चिम मेदिनीपुर-721101, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	21.11.1989
2427	मलय दास / श्री नील माधव दास	डब्ल्यूबीवीसी / 3615 / 15	52 / 5 / 1, श्री राम ढांग रोड, साल्किया थाना, मालीपंचघोरे, जिला-हावड़ा-711106, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	05.11.1991
2428	अभ्रदीप मजुमदार / श्री अमल कुमार मजुमदार	डब्ल्यूबीवीसी / 3616 / 15	9, वृजीर चौधरी रोड, थाना- उल्टाडांगा, दासपारा, डाक- उल्टाडांगा, कोलकाता-700067, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	24.03.1991
2429	सयांतम सरकार / श्री हिरेंद्रनाथ सरकार	डब्ल्यूबीवीसी / 3617 / 15	न्यू टाउन, हरिश्वा बाईलेन, डाक एवं जिला-कूचबिहार-736101, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	17.02.1991
2430	मौह.अजीज शेख / श्री मौह. बाबूल शेख	डब्ल्यूबीवीसी / 3618 / 15	ग्राम-गोबिंदपुर, डाक-पुरंदर पुर थाना-कंडी, जिला- मुर्शिदाबाद-742171, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	11.01.1991
2431	अनुज कुमार यादव / श्री कुलदीप प्रसाद यादव	डब्ल्यूबीवीसी / 3619 / 15	श्याम सुंदरपुर कोलियरी, पूर्वी शीतलपुर, डाक-उखरा, थाना-अंडाल, जिला-बर्दवान -713363, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	25.02.1987
2432	सगुन सरेंन / श्री पूर्ण चंद्र सरेंन	डब्ल्यूबीवीसी / 3620 / 15	सिधु कनु पल्ली, निमतार, वार्ड न.-5, थाना-पुरुलिया टाउन, डाक एवं जिला- पुरुलिया-723101, प.बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	02.05.1993
2433	मनोरमा साहा / श्री बिद्युत साहा	डब्ल्यूबीवीसी / 3621 / 15	रामपुर, मनोहरजाल, डाक एवं जिला-बंकुरा-722101, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	16.10.1991
2434	दीपांजन जाना / श्री दीपक कुमार जाना	डब्ल्यूबीवीसी / 3622 / 15	ग्राम-बसंतपुर, डाक-चेंचुआ, गोबिंदनगर, जिला-पश्चिमी मेदिनीपुर-721146, प. बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	07.03.1992
2435	सुप्रिया भट्टाचार्य / श्री प्रवट भट्टाचार्य	डब्ल्यूबीवीसी / 3623 / 15	ग्राम एवं डाक-हरिरामपुर, थाना-दासपुर, एस.डी.घटाल, जिला-पश्चिमी मेदिनीपुर-721211, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	25.08.1990
2436	राया सरकार / श्री रणजीत कुमार सरकार	डब्ल्यूबीवीसी / 3624 / 15	मुंसेफ पारा, बसीरहाट-जिला, उत्तरी 24 परगना-743411, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	06.05.1992
2437	प्रीतम सरकार / श्री परिमल सरकार	डब्ल्यूबीवीसी / 3625 / 15	द्वारा: मोनोतोष तालुकदार, गुरु सदय दत्ता रोड, भारत नगर (उ.), डाक-रबीन्द्र सरनी, सिलिगुड़ी, जिला-दार्जिलिंग -734006, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	27.03.1991
2438	कृष्णेंदु पॉल / श्री कुरन चंद्र पॉल	डब्ल्यूबीवीसी / 3626 / 15	द्वारा के.सी. पॉल, निबेदिता पल्ली, वार्ड न.-1, डाक-सूरी, जिला-बीरभूम, पिन-731101, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	03.10.1991
2439	सुनुष्णा बसु / श्री सुकुमार बसु	डब्ल्यूबीवीसी / 3627 / 15	ग्राम एवं डाक-सक्तिगढ़, जिला-बर्दवान, पिन-713149, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	20.02.1991

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
2440	सत्यकी चक्रबोर्ती / श्री सुभाशीष चक्रबोर्ती	डब्ल्यूबीवीसी / 3628 / 15	ग्राम-पुरुलापुर, डाक-दक्षिण बरासात, थाना-जॉयनगर, जिला-दक्षिणी 24-परगना- 743372, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	26.01.1992
2441	लामेला ओझा / डॉ. प्रकाश रंजन ओझा	डब्ल्यूबीवीसी / 3629 / 15	23 / 29, आइंस्टीन एवेन्यू, बी-जोन, दुर्गापुर-5, जिला- बर्दवान, पिन-713205, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	27.04.1991
2442	रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता / श्री तपन सेनगुप्ता	डब्ल्यूबीवीसी / 3630 / 15	जी / ए पंचानन अपार्टमेंट, मानिकपुर, मिदनापुर, कोतवाली, जिला-पश्चिम मिदनापुर-721101, प.बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	04.03.1991
2443	अचिंता महतो / श्री ब्रज किशोर महतो	डब्ल्यूबीवीसी / 3631 / 15	भाटबंध पारा, विलकॉक्स रोड, वार्ड न.-4, जिला-पुरुलिया- 723101, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	03.03.1991
2444	बिपाशा त्रिपाठी / श्री ससांक सेखर त्रिपाठी	डब्ल्यूबीवीसी / 3632 / 15	ए-9, कल्याणी, जिला- नाडिया, पिन-741235, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	28.11.1991
2445	रामा मैती / श्री हृषिकेश मैती	डब्ल्यूबीवीसी / 3633 / 15	ग्राम-टेंगरामारी, डाक-बोधरा रामनगर, जिला-पुरबा, मेदिनी पुर-721423, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	25.04.1992
2446	क्षौनी खान / श्री पृथ्विश खान	डब्ल्यूबीवीसी / 3634 / 15	ग्राम-खरकीबाढ़, डाक- कोर्टई, जिला-पुरबा, मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	20.05.1992
2447	गीतांजलि थापा / श्री सूर्य कुमार थापा	डब्ल्यूबीवीसी / 3635 / 15	टी.एन.रोड, नव बिकाश ग्राम, अपर टूंगसूंग, जिला- दार्जिलिंग, पिन-734101, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	14.11.1991
2448	अजुस्विता देब रॉय / श्री प्रबीर कुमार देब रॉय	डब्ल्यूबीवीसी / 3636 / 15	विजॉय कॉम्प्लेक्स, प्लेट न.- डब्ल्यू/ए, तीसरी मंजिल, ईस्ट स्टेशन रोड, अगरपारा, कोलकाता-700109, प.बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	09.06.1991
2449	गौरब सामंता / श्री गौतम सामंता	डब्ल्यूबीवीसी / 3637 / 15	56, नरसिंघा एवेन्यू, कोलकाता-700074, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	30.07.1991
2450	मितम कुमार हल्दर / श्री शंभु कुमार हल्दर	डब्ल्यूबीवीसी / 3638 / 15	ग्राम-इंद्रनगर, डाक-दफाहत, जिला-मुर्शिदाबाद-742224, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	26.02.1991
2451	मैनाक डे / श्री बाबुल कृष्णा डे	डब्ल्यूबीवीसी / 3639 / 15	34 / 2ई, जे.के. मित्रा रोड, कोलकाता-700037, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	08.07.1990
2452	श्रावनी मुकर्जी / श्री दुर्गापद मुकर्जी	डब्ल्यूबीवीसी / 3640 / 15	डोलताला-पाठकपारा, डाक एवं जिला- बंकुरा, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	05.08.1988
2453	अमित कुमार पात्रा / श्री जुगल पात्रा	डब्ल्यूबीवीसी / 3641 / 15	74बी, एम्हरेस्ट रो, कोलकाता -700009, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	25.03.1990
2454	जिशु मंडी / श्री सम्भु नाथ मंडी	डब्ल्यूबीवीसी / 3642 / 15	ग्राम-बामडा, डाक- झरग्राम, जिला-पश्चिमी मेदिनीपुर, पिन-721507, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	25.12.1990
2455	हिमाद्री बौरी / श्री पसुपति बौरी	डब्ल्यूबीवीसी / 3643 / 15	देशबंधु रोड, बाईलेन, शिव कॉलोनी, जिला- पुरुलिया- 723101, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	01.03.1993
2456	सुभाशीष नसकर / श्री सुंदर नसकर	डब्ल्यूबीवीसी / 3644 / 15	पूर्वगबताला, 36 न. हाट, कुल्लली, जिला-दक्षिणी 24- परगना-743338, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	14.03.1987
2457	अरुनवा साहा / श्री अजीत कुमार साहा	डब्ल्यूबीवीसी / 3645 / 15	विवेकानंद स्ट्रीट, पुराने हाउ. बोर्ड के पास, थाना-कोतवाली, डाक व जिला-कूच बिहार- 736101, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2015	16.11.1991
2458	श्रीजिता घोष / श्री संकर मुखर्जी	डब्ल्यूबीवीसी / 3646 / 15	शारोन, पियरसन पल्ली, सांतिनिकेतन, जिला-बीरभूम- 731235, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2012	10.10.1984
2459	हीरालाल बछार / श्री बंशी चंद्र बछार	डब्ल्यूबीवीसी / 3647 / 15	अस्ताना रोड, डाक एवं थाना -बशीरहाट, जिला-उत्तरी 24-परगना-743411, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 2013	14.04.1988
2460	बोनटिना जी. मोमिन / श्री दोनुश एम.संगमा	मेघएसवीसी / 326 / 15	सम्पालगे तुरा, पश्चिमी गारो हिल्स, मेघालय- 794002	बीवीएससीएंडएच / सीएयू / 2015	09.01.1989

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अहर्ताएं	जन्मतिथि
2461	साल्जरांग जी. मोमिन / श्री इमेनुअल डब्ल्यू. मारक	मेघएसवीसी / 327 / 15	लोअर वाडनांग, पश्चिमी गारो हिल्स, तुरा-794002, मेघालय	बीवीएससीएंडएच / सीएयू / 2015	24.10.1990
2462	केरियस पासह / श्री रापलांग लांगबांग	मेघएसवीसी / 328 / 15	न्यू हिल, जोवाई, पश्चिमी जयन्तिया हिल्स- 793150, मेघालय	बीवीएससीएंडएच / सीएयू / 2015	10.06.1989
2463	सीबोकलांग बुआम / श्री पाइला खोंघट	मेघएसवीसी / 329 / 15	मुक्तापुर, पश्चिमी जयन्तिया हिल्स- 793109, मेघालय	बीवीएससीएंडएच / सीएयू / 2015	03.08.1991
2464	लिलियाना बसालची जी. मोमिन / श्री लिउश लुलु च. संगमा	मेघएसवीसी / 330 / 15	तुरा, पश्चिमी गारो हिल्स- 794002, मेघालय	बीवीएससीएंडएच / सीएयू / 2015	09.09.1989
2465	रियानोन सनेरा एम. संगमा / श्री जेफ्री डी. संगमा	मेघएसवीसी / 331 / 15	तुरा, पश्चिमी गारो हिल्स- 794002, मेघालय	बीवीएससीएंडएच / सीएयू / 2015	08.12.1992
2466	बिकी सेंगचोन ए. संगमा / श्री लेनाश के. मारक	मेघएसवीसी / 332 / 15	मात्वाकोल्से, तुरा-794001, मेघालय	बीवीएससीएंडएच / सीएयू / 2015	26.04.1993
2467	शैकी सिनाह / श्री क्माइबेत सुचियांग	मेघएसवीसी / 333 / 15	नाँगक्रिन्ह ग्राम, पश्चिमी जयन्तिया- 793150, मेघालय	बीवीएससीएंडएच / सीएयू / 2015	26.12.1990
2468	अपबोरलांग एम. उमलॉंग / श्री लुइस वारलारपिह	मेघएसवीसी / 334 / 15	मौउलई उम्थलॉंग, शिलॉंग- 793017, पूर्वी खासी हिल्स जिला, मेघालय	बीवीएससीएंडएच / सीएयू / 2015	15.04.1992
2469	हेंकिल आर.मारक / श्री क्लीमेंट बी.संगमा	मेघएसवीसी / 335 / 15	विलियम नगर-794111, पूर्वी गारो हिल्स, मेघालय	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 2015	25.05.1992
2470	इदोरेसिया टी.चेन / श्री के. खारलोर	मेघएसवीसी / 336 / 15	जोवाई लानसोनालेन, शिलॉंग -793002, मेघालय	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 2015	12.03.1993
2471	सेंगबसल ए. संगमा / श्री निनेड्रिक्सन डी. संगमा	मेघएसवीसी / 337 / 15	चिटोकटाक, तुरा-794002, मेघालय	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 2015	13.12.1991
2472	फर्टाइल क्रिस्टल जी. डिएंगडोह / श्री चेरिश स्टारफील्ड थांगखियू	मेघएसवीसी / 338 / 15	किंटोन मसार, मौउलई- 793022, मेघालय	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 2015	09.04.1992
2473	प्रिंगचिरा के. संगमा / श्री थ्रिंगसन जी. मोमिन	मेघएसवीसी / 339 / 15	पिनधोरुमखराह, शिलॉंग- 793001, मेघालय	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 2015	28.10.1989
2474	उत्तम तमो च. संगमा / श्री प्रोतुश जी. मारक	मेघएसवीसी / 340 / 15	बारेंगपारा, पश्चिमी गारो हिल्स- 794103, मेघालय	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 2015	14.03.1993

VETERINARY COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2019

F.No.10-7/2019-VCI.—Whereas the Veterinary Council of India in pursuance of sub-section (1) of Section 23 of Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) is required to maintain a register known as Indian Veterinary Practitioners Register which shall contain the names of all persons who possess the recognised veterinary qualification and who are for the time being enrolled on State/UT Veterinary Council of the State to which this Act extends.

Now, in exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 23 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) the Secretary, Veterinary Council of India, directs that Supplement to Indian Veterinary Practitioners Register, 2016 shall be published in the Gazette of India for general information.

Dr. BASUDEV SUNANI, Secy, VCI (Addl. Charge)

[ADVT.-III/4/Exty./313/2019]

Indian Veterinary Practitioner's Register, Supplement-2016

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1	Vadathala Venkateswara R/Sh Vadathala Anandha Reddy	APSVC/6051/15	Kathivandiapalli, Gunnikuntla(V), Sambepalli(M), YSR Kadapa, Andhra Pradesh-516269	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	15.07.1990
2	Naresh Puthuru/Sh Puthuru Prabhakar	APSVC/6052/15	Basavarajupalem(P), Atmakur(M), SPSR Nellore Dt-524307, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	25.06.1989
3	Marripudi Madhu/Sh Malyadri	APSVC/6053/15	H.No.2-60, Chakalakonda(Vill),(PO) Vinjanur(Mdl), SPSR Nellore Dt - 524221, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	08.06.1990
4	Mohammed Nizam Hussain/Sh Mohammed Nazeer Hussain	APSVC/6054/15	H.No.4-149/1, Zaffar Nagar, Mancherial Adilabad, Andhra Pradesh-504208	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	01.01.1991
5	I.A.Shantha Latha/Sh I.A.S. Babu	APSVC/6055/15	H.No.6-2-312, A.C.Guards, Hyderabad-500004, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	03.01.1992
6	Deepa.P/Sh Venkatarama Chowdary	APSVC/6056/15	15-49/1D, Iind Cross Padmavathi Nagar, Tirupathi, Chittoor Dt-517502, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	16.06.1989
7	Surasura Naga Suvama/Sh Surasura Naganna	APSVC/6057/15	D.No.26/922-1-1, Nagendra Nagar, Proddature, Kadapa Dist-516360, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	01.11.1990
8	Shakera Fathima/Sh Mohd Mahmood Ali	APSVC/6058/15	H.NO.5-2-64/3, Jalal Bagh Colony, Sanga Reddy, Medak Dist-502001, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	17.03.1990
9	Vutukuru Ramya/Sh Vutukura Ramana Reddy	APSVC/6059/15	H.No.26/196-12, Nethji Nagar Road No.-2, Bangaraiiah Kottalu, Rameshwaram, Proddature, Kadappa Dt-516360, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	18.07.1992
10	Janga Prakash Babu/Sh Janga Satyanarayana	APSVC/6060/15	D.NO.2-33/1, Prasanthi Nagar, Narsipatnam, Visakhapatnam-531116, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	18.06.1989
11	Anakali Vamsi Krishna/Sh A.C.Nageswara Rao	APSVC/6061/15	H.No.22/52(B)1, Near Water Tank, Pagidyala Raod, Nandikotkur(PO)&Mdl, Kurnool Dist-518401, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	04.05.1990
12	Vuyyala Ramu/Sh Vuyyala Anjaneyulu	APSVC/6062/15	Door NO.3-157, S.T.Colony, Allurivaripalem, Ikkurru(Post), Narasaarepet, Guntur Dist-522601, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	13.07.1991
13	D.Surya Narayana Reddy/Sh D. Ramana Reddy	APSVC/6063/15	32-455-1, Dharmavaram(M), Anathapuram Dt Pin 515671, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	02.06.1990
14	P.Sathyanarayana Nayak/Sh P.Balu Nayak	APSVC/6064/15	H.NO.5-7/636, S.A.P.Camp Nagar, Bellary Chowrasta, Kurnool Dist, Andhra Pradesh-518003	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	01.06.1990
15	Shaik Taha Ansari/Sh Shaik Ansar	APSVC/6065/15	D.No.19-3-17, Near Small Mosque Sangadigunta, Gutur - 522003, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	02.08.1991
16	Praveen Kumar Kurella/Sh Rama Rao	APSVC/6066/15	Kurella Nilayam, Puritipenta New Colony, Gajapathinagaram(Mdl), Vinzagaram Dist-535270, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	05.08.1990
17	Baireddy Srikanth Reddy/Sh Thulasi Reddy	APSVC/6067/15	D.No.1/56, Peddayammanur(Vil) Vyalawada (Mdl), Kurnool Dist-515155, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	02.06.1990
18	Gummadi Vinay Kumar/Sh Gummadi Ramanaiah	APSVC/6068/15	Velicharle(PO), Allur(Mdl), SPSR Nellore Dist-524315, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	15.06.1989

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
19	Gali R Atchuta Siva Srinivas/Sh Gali Nageswara Rao	APSVC/6069/15	Door No.67-4-4,Parvathi Sri Nilayam Ashok Nagar,Kakinada-533003,East Godavari Dist,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	05.03.1991
20	Mohana Rao Tivanana/Sh Satyamu	APSVC/6070/15	Main Road, Merakamudidem(Vill&Post &Mdl), Vizianagaram Dt-535102,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	18.05.1989
21	Laveti Pradeep Kumar/Sh Laveti Kalidasu	APSVC/6071/15	Bhadrachalam(Vil),Domta(Post & Mdl), Vizianagaram Dist-535102,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	28.05.1990
22	B.Vijaya Laxmi/ Sh B.Ramulu	APSVC/6072/15	H.No.1-107,Shanti Nagar Colony, Kodangal Mandal, Mahabubnagar, Dt- Telangana-509339	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	03.07.1991
23	Gaddam Uday Kumar/Sh G.Balaganganna	APSVC/6073/15	D.No.1-48,Enumylavaripalli(V), Mudigubba(M),Anantapur Dist-515511,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	27.04.1990
24	Siddula Nischala/Sh Siddula Pavan Kumar	APSVC/6074/15	Plot No-116,H.No.12-18,Phase-III, Venkatadri Township,Chowdaryguda, Hyderabad -500088, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	22.10.1990
25	Mohd.Abdul Basith/Sh Mohd Mahmood Ali	APSVC/6075/15	#5-2-64/4,Jalal Bagh Colony, Sanga Reddy, Medak Dist -502001,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	22.08.1990
26	Paka Pavani / Sh Paka Sarangapani	APSVC/6076/15	H.No.1-280,Sri Ramanilayam, Indra Nagar, Angadi Road, Narsampet, Warangal-506132,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	06.01.1991
27	Maddibonia Subbarayudu/Sh M.Subbarayudu	APSVC/6077/15	Daddireddypalli(P)(V),Kamalapur am(Mdl),Kadapa Dist-516289,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	20.06.1989
28	Siddi Ravindra Reddy/Sh S.Chinna Govinda Reddy	APSVC/6078/15	Arakatavemula(Vill&PO), Rajupalam(Mdl), Kadapa Dist-516359,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	10.07.1988
29	Bandela Bala Sampath Kumar/Sh Bandela Arjunudu	APSVC/6079/15	D.No.3-20, Appanaramunilanka, A.V.Palem Post, Sakhinetipalli-533252,East Godavari Dist, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	04.08.1991
30	Bhuma Deepa Kumari/ Sh Bhuma Prathapa Reddy	APSVC/6080/15	D.No.2-400, Chakarajuvemulu(Vill), Dornipadu(Mdl), Kurnool Dist-518135,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	01.03.1991
31	Santhoshini Chinta/Sh Satyanarayana	APSVC/6081/15	H.No.5-1-300, C/o Satya Sri Screens,Nr Teachers Club Rd, Korutla,Karimnagar, Dt-Telangana Dt-505326	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	05.07.1990
32	Thallapalli Sukanya/Sh Thallapalli Prabhakar	APSVC/6082/15	Manikypur(Vil), Bheemadevarpalli(Mdl), Karimnagar, Dt-505497, Telangana	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	14.04.1992
33	Gaddam Radhika/Sh Gaddam Yadhagiri	APSVC/6083/15	H.No.2-78/2,Dharmasagar Vill& Mdl Warangal Dsit-506142,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	22.12.1990
34	Mulla Hussaion Basha/Sh Mulla Meeran Saheb	APSVC/6084/15	H.NO.5-198,Kothapeta Street,Betamacherla, Kurnool Dist-518599, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	09.08.1990

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
35	Ersavadla Rajaraviteja/Sh Ersavadla Narayana	APSVC/6085/15	H.No.3-9-676,C/oSamma Reddy Yadav Nagar,New Reddy Colony,Hanamkonda Warangal Dt-506011,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	10.01.1990
36	Ganji Vishweshwar Kumar/Sh Ganji Shambulingam	APSVC/6086/15	Plot No.64, Veerabadhranagar, Hayathnagar, Ranga Reddy, Dt-Telangana-501501	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	11.11.1992
37	Boga Pruthviraj/Sh Boga Vishnu	APSVC/6087/15	H.No.7-3/1, M.G.Road,B.Pochampally, Nalgonda Dt, Telangana-508284	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	03.07.1990
38	Gouru Raju/Sh Gouru Laxma Reddy	APSVC/6088/15	H.No.1-97, Ankushapoor(Vil), Madipally(PO), Jammikunta Mdl, Karimnagar Dist -505122, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	15.06.1991
39	Pottabathula Mallesh/Sh Pottabathula Ramulu	APSVC/6089/15	H.No.19-166/1, Pannalagudem(V&M), Nalerekal , Nalgonda Dist-508211, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	24.05.1991
40	Kontham Sampath/Sh Kontham Rajaiah	APSVC/6090/15	H.,NO.2-19, Vill&PO-Ponnaram, Mandamarri Mdl, Adilabad Dt-504216. Telangana	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	12.04.1989
41	Muduru Mahesh Babu/Sh Muduru Narsimha Swamy	APSVC/6091/15	H.No -3-169, Konapuram(Vill), Kothaguda(M), Warangal Dist-506135, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	19.08.1991
42	Kotkoori Yugendhar Reddy/Sh Katkoori Rathnakar Reddy	APSVC/6092/15	H.NO.7-27/1,Vill- Yellareddypally,Dharmaraopet, Md Ghanpur Mdl, Warnagal Dt-506345,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	11.02.1992
43	Poornima Nara/Sh Venkata Subbaiah.N	APSVC/6093/15	Vidya Nagar Colony, Prem Nagar, Pedda Mandyam (Mdl&Post), Chittoor Dist -517297,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	20.07.1990
44	Ranga Swamy.K/Sh Maddileti K.P	APSVC/6094/15	Yadadinne(Vill&Post),Aiza (Mdl),Mahabubnagar Dist-509135,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	11.08.1987
45	K.Sirisha/Sh K.Santhi Sekhar	APSVC/6095/15	H.No.3-13,Vadapally,Dhamaracherla Mandal,Nalgonda Dst -508355, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	19.02.1988
46	Polusani Sripriya/Sh Polusani Srinivasa Rao	APSVC/6096/15	H.No.2-121, Hanumanthunipet(Vill), Peddapally Mdl, Karimnagar Dist-505174, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	03.06.1992
47	Dasharathi Madhu/Sh D.Divakar	APSVC/6097/15	H.No.11-151,Vinayaka Nagar Colony,Achampet,Mahaboob Nagar Dt-509315,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	08.06.1988
48	Ramireedy Bhuvanewari/Sh R.Mallikarjuna Reddy	APSVC/6098/15	D.No.1/15,Raghava Raju Puram,Railway Kodur, Kadapa-516101,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	06.04.1991
49	Valluru Swetha/Sh V.Krishna Reddy	APSVC/6099/15	D.NO.1/106,Shanthi Nagar, Akkaya Palli, Kadapa Dist-516003,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	20.03.1990
50	C.Ganga Bhavani/Sh Chittiboyina Kudalaiah	APSVC/6100/15	H.No.4-7-99,SBI Colony, 1st Lane Pulivendula, Kadapa Dist -516390, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	07.08.1989
51	Soppa Supriya/Sh S.Sreenivasulu	APSVC/6101/15	D.No.27/38,Vasanthapeta, Rameshwaram Road, Proddature, Kadapa Dit-516360, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	28.09.1989
52	Madineni Siva Jyothi/Sh M.Sankaraiah	APSVC/6102/15	D.No.7-1-718,NGO Colony,Siddavatam Road, Court	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni	14.08.1988

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			Backside Badvel Kadapa Dist-516227, Andhra Pradesh	/2013	
53	P.Sivanadha Reddy/Sh.P.Venkata Rami Reddy	APSVC/6103/15	38/6332, Achari Colony, Chinna Chowk, Kadapa-516002, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	06.04.1989
54	Thotamalla Sankeet/Sh T.Venkati	APSVC/6104/15	H.NO.5-3-535, Plot No.188, Vijayapuri Colony, Phadse- II, Vanasthalipuram, Hyderabad- 500070, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	09.06.1991
55	Nallabothula Lakshmi/SH N.Thirupalu	APSVC/6105/15	80-132, D-4-A, Venkatadri Nagar, B-Camp Post Kurnool- 518002, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	12.03.1989
56	Vamshi Krishna Reddy.N/Sh Raghava Reddy.N	APSVC/6106/15	Nagireddypalli(Village), Nagal Kadmoor(Post), Nalwa (Mandal), Mahaboobnagar -509130, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	15.08.1990
57	Pasupula Bhaskar/Sh Pasupala Balanna	APSVC/6107/15	H.No.5-3/A, Kothapalli(V)(M), Atmakur(Taluk), Kurnool Dist-518502, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	09.06.1990
58	Mutttey Naveen/ Sh M.Narasanna	APSVC/6108/15	H.NO.28/1245/B3, Sri Nivarthipuram, Noonepalli, Nandyal(M)Kurnool Dist-518002, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	28.06.1990
59	Annapureddy Balavenkata/Sh A.Samanna	APSVC/6109/15	H.NO.4-1, Main Road, Bheemavaram(Vil), Nadhya (Mdl), Kurnool Dist- 518523, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	06.07.1987
60	Keelu Ashok Kumar/Sh K.Prabhakar	APSVC/6110/15	H.NO.4-4-3, Near Nasir Masjid, Balaji Nagar, Kurnool Dist- 518006, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	10.07.1989
61	Shamshad Begum.S/Sh Mohammed Rafi.S	APSVC/6111/15	H.No.50/827, Deva Nagar, Kurnool-518002, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	15.08.1990
62	P.Sandhya Rani/Sh P.Thimmappa	APSVC/6112/15	H.No.9/2232-1, Teachers Colony, Yemmanur, Kurnool Dist-518360, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	07.06.1989
63	Swarnalatha Bolli/Sh Krushnudu.B	APSVC/6113/15	H.NO.2-56, Brahmanakotkur(V), Nandhikotkur(M), Kurnool (Dist)-518432, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	01.07.1989
64	P.Radhika/Sh P.Kameswara Rao	APSVC/6114/15	Door No.A/575, BDL Bhanur, Medak Dist- 502305, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	10.09.1991
65	Mahesh Pingula/Sh Mariya Das Pingula	APSVC/6115/15	T.Ch.R.Palem(Post), Lingapallem(Mdl), West Godavari Dist- 534462, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	08.06.1990
66	Ramya Narmeta/Sh Manohar Narmeta	APSVC/6116/15	H.No.1-9-856, Postal Colony, Hanamkonda, Warangal Dt, Telangana-506001	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	28.02.1990
67	Sriram Divya/Sh Sriram Srinivas	APSVC/6117/15	H.No.2-33, Vil-Anajipur, Mdl- Bhongir, Via- Tekulasomarum, Nalgonda Dt-508285, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	04.09.1992
68	Praveen Kumar Nooli/Sh Neelaiah.N	APSVC/6118/15	H.NO.18-90/1A, L.M.Compound , Koilkuntla(Mdl), Kurnool Dist-518134, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	15.07.1990
69	K.Arunachala Siva Kumar Reddy/Sh Kutagulla Chandra Sekhara Reddy	APSVC/6119/15	17-1-43, Manikanta Apartments, Near Sai Baba Temple, Venugopal Nagar, Anantapur-515005, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	12.09.1991

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
70	Rasamalla Suresh/Sh Rasamalla Odelu	APSVC/6120/15	H.No.2-52, Vill-Lingala, Mdl-Regonga, Dt-Warnagal-506348,	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	24.08.1991
71	Shaik Asifa/Sh Yakubali	APSVC/6121/15	H.No.8-73/1, Jani Medical Shop,Noothankal (Vill&Mdl), Nalgonda Dt, Telangana State-505221	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	25.08.1990
72	Bellamkonda Mahendrababu/Sh Tirupathaiiah	APSVC/6122/15	Nedurupalli Village &Post - Podalakur(Mdl),Nellore Dist-524309,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	16.04.1987
73	Shaik Jahangeer Peera/Sh Shaik Khasim Peera	APSVC/6123/15	Near Pamula Palli Gate, Oil Mil Colony,H.NO.8-17-110/15,4B,Giddalur,Prakasham Dist-523357,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	27.08.1991
74	Abdul Muzeer Shaik/Sh Gouse.S.M	APSVC/6124/15	D.No.15-7-58,Islampet,SPP Road,Ponnur (Mdl),Guntur Dt, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	18.08.1992
75	Molugu Shylaja/Sh Molugu Mysaiah	APSVC/6125/15	M.Shylaja,Vill-Elabotharam, Mdl - Saidhapoor, Dist- Karimnagar-505468,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	28.03.1991
76	N.Nethaji/Sh N.Narsimulu	APSVC/6126/15	4-63, Nr Nazar Lingamaiah Neelikula Weedi, Shankarampet, Medak dt- 502271	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	15.07.1989
77	K.Venkata Sai Raghavamma/Sh Kotipalli Kameswara Rao	APSVC/6127/15	C/o Harsha Enclave,G-2,Dr.NO. 7-10-12/B,Kavari Street, Anakapalli,Visakhapatnam-531001,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	30.06.1989
78	Nandagari Swetha/Sh Nandagari Sankaraiah	APSVC/6128/15	H.NO.28-774A2,NGO's Colony,Nandyal Kurnool Dist-518501,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	15.05.1991
79	Katta Jyothsna/Sh Katta Yadaiah	APSVC/6129/15	H.No.5-28/4, Mothkur (PO&Mandal&Vill), Nalgonda Dt, Telangana State-508277	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	10.09.1989
80	Suvvari L Surya Sraavan /Sh S. Varaha Narasimbam	APSVC/6130/15	D.No.39-18-77,Madhavadhara, Visakapatnam-530007,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	05.08.1989
81	Kotte Shiva Prasad/Sh Kotte Shankaraiah	APSVC/6131/15	Q.NO.2467,Nagarjuna Colony, Naspur, Mancheria(M), Adilabad Dist-504302,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	10.12.1988
82	Ponnam Ramakrishna/Sh Ponnam Bhoomaiah	APSVC/6132/15	D-120,Ramnagar, A-Zone, Ramakrishna Pur, Mandamarri, Adilabad -504301,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	14.03.1990
83	Golla Pavan Kumar/Sh G.Shivaraj	APSVC/6133/15	Plot No. 271,Adarsh Nagar Colony, Zaheerbad, Medak Dt, Telangana-502318	BVSc&AH/KVA&FSU, Bidar/2014	22.08.1990
84	Balajinaveenkumar.K/Sh Kamanna Kanikaram	APSVC/6134/15	D.NO.9/578/2,Bypass Road,Kadiri Anantapur-515591,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	23.08.1988
85	U.Shiva Krishna/Sh Shivarajaiah	APSVC/6135/15	H.No.4-5-146, Barakathpura, Kamareedy-503111, Nizamabad,Telagana	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	29.01.1986
86	Vipparthi P Naga Lakshmi/Sh Vipparthi Satyanarayana	APSVC/6136/15	D.No.5-20/1,Varamsettivaripalem, Bheemamanpalli, Uppalaguptam, Mandalam East Godavari Dist-533222,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	30.04.1989
87	Banavath Venkateswara Rao Naik/Sh Banavath Krishna Naik	APSVC/6137/15	1-116, L.B.Palem(Village), Thumuluru(Post), Kollipara(Mdl), Tenali(Taluk),Guntur Dist-522304,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	10.08.1990
88	Sagar Srigadi/Sh Sathish	APSVC/6138/15	H.No.28-187,Near Water Tank, Gopalwada,Mandalam East Godavari Dist-533222,Andhra	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	19.03.1990

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			Pradesh		
89	Ravikiran Reddy Tavisala/Sh Siva Reddy.T	APSV/6139/15	C/o P.Sathya Narayan Naik, H.No.57-636,S.A.P.Camp, Near Bellary Chowrastha,Kurnool Dist- 518001,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	12.06.1990
90	Yemche Mahesh Kumar/Sh Y.Shankar Rao	APSV/6140/15	H.NO.1-55,Vill-Hunsa,Mdl : Bodhan, Dist- Nizamabad- 503185,Andhra Pradesh	BVSc&AH/MA&FSU,N agpur/2014	05.08.1989
91	Swami Jagdish Nagnath/Sh Swami Nagnath	APSV/6141/15	2-87, Takli M-Mudhole, Dt- Adilabad-504101, Teleangana	BVSc&AH/MA&FSU,N agpur/2009	28.03.1985
92	Parthasarathi B.C/Sh B.Chandrasekhar	APSV/6142/15	Dr.NO.28-934/4,Dharmaraj Temple Street, Tenabanda Road,Chittoor-517004, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	06.06.1988
93	Gujja Pavan Kumar/Sh Lingaiiah	APSV/6143/15	H.NO.2-200,Linegadda, Chennur(Vill&Mdl), Dist- Adilabad-504201,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	04.10.1989
94	S.Ghousiya Begum/Sh S. MD Yusuff	APSV/6144/15	D.NO.12/400,Ghavamatt, Tadipathri Road, Bukkaraya Samudram,Anantapur- 515701,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	23.11.1989
95	Katam Sunitha/Sh K.Babu	APSV/6145/15	D.No.14/460-D,Murthipally Road, Kadiri,Ananthapuramu Dt- 515591,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	11.07.1989
96	G.Jayasree/Sh G.Venkata Chalapathi	APSV/6146/15	Door No.14/210 D, Karanam Street, Madakasira(P&M),Anantapur Dt- 515301,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	06.06.1989
97	Naga Sireesha Y/Sh Siviah Y	APSV/6147/15	Velegacjh(Post),Penagalur(Mdl),Y .S.R. Kadapa Dist, Andhra Pradesh-516127,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	23.07.1990
98	Palem Kishore/Sh P.Sreenivasulu	APSV/6148/15	D.NO.2-21, Marthadu(Vil), Mudigubba(Mdl), Ananthapuram Dist, Andhra Pradesh-515511	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	05.06.1989
99	P.Mallikarjuna/Sh P.Nageswar Murthy	APSV/6149/15	D.NO.14/114,Sydapuram,Kadiri(M),Ananthapuramu Dist-515591.	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	01.06.1988
100	Palla Mahesh/Sh P.Siva Narayana	APSV/6150/15	D.No.6-63,Beside Post Office, Narasapuram(Vil&Post),Via- Yadika,Anantapuramu Dist- 515408,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	20.06.1989
101	Srinath Pariki./Sh Eliya	APSV/6151/15	H.No.3-114,Vil-Mondrai, Mdl- Sangem,Warangal Dsit - 506331,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	13.05.1988
102	Kandarpalle Anil Vaijanathrao/Sh Kandarpalle vaijanath	APSV/6152/15	H.No.1-108,Hanuman Wada, Mogha Mandal,Madnooe, Dist- Nizamabad -503309,Andhra Pradesh	BVSc&AH/MA&FSU,N agpur/2015	04.05.1988
103	Ashok Perumandla/Sh Sree Anantha Rao	APSV/6153/15	H.No.1-105,Mahamoodpatnam (Vill), Kesamudram(Mdl),Warangal Dt - 506112,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	21.07.1989
104	Polapally Vijayasarithi/Sh Pollapally Venkateswarlu	APSV/6154/15	H.NO.6-65,Padmashali Veedi,Ingurthy,Kesamudram Warangal Dt-506112,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	14.11.1988
105	Patnala Jyosna Priya/Ramana Prasad	APSV/6155/15	D.No.9-125,Gopi Krishna Colony, Toorangi, Kakinada(Rural), East Godavari Dt-533106,	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2015	13.03.1991

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			Andhra Pradesh		
106	Burela Nagabau/Sh B.C.Govindapa	APSVC/6156/15	H.NO.10A/315,Near Vegetable Market,Kalyandurg,Ananthapur Dist-515761,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2015	15.07.1992
107	Varipelli Naresh/Sh Varipelli Uppalaiah	APSVC/6157/15	H.No.1-160, Nellikuduru(V&Mdl),Warangal Dsit-506368,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	15.07.1991
108	VVN Surekhagayathidevi/Sh Nagasatyanarayana Chakka	APSVC/6158/15	7-4-51/8C,Amanchivarri Street, Opp Bashyam Public School,Anakapalli,Visakha Dt-531001,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2015	20.06.1990
109	Dhulipudi Kalyana Sailaja/Sh Dhulipudi V.V.Satya Surya Prasad	APSVC/6159/15	D.No.1-10,Main Road, P.Mallavaram,Tallarevu Mandal East Godavari Dt-533464, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2015	08.12.1990
110	Kuncham Siva Naga Prasad/Sh Kuncham Veera Raghavulu	APSVC/6160/15	1-179,Neelapalli East Godavari Dist, Andhra Pradesh-533464	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2015	02.07.1991
111	Satti Bullivenkataramanamurthy/Sh Satti Satyanarayana Murthy	APSVC/6161/15	D.NO.2-20,Ambhedkar Bomma Vadda, Yedurlanka, I.Polvaram Mandal East Godvari, Andhra Pradesh-533464	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2015	21.08.1991
112	Sayeeb Bin Ali Masqati/Sh Ali Bin Ibrahim Masqati	APSVC/6162/15	22-24-470,Alijah Kotla, Charminar, Hyderabad-500002,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	27.06.1989
113	Joruge Nagarjuna Deepak/Sh Manikya Rao	APSVC/6163/15	Door No.3-160/10,24th Ward Bhavapuri Colony, Bapatla Guntur Dist, Andhra Pradesh-522101	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2015	16.04.1990
114	Thota Naveen/Sh Ranga Rao	APSVC/6164/15	3-84/13,Thotavari Street,P.Vemavaram,Samarlakota (Mandal),East Godavari-533434,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	20.04.1990
115	Karukola Kishor/Sh Ramachandra Rao	APSVC/6165/15	Tellavaripeta(Vil),Priyagraharam (Post),Polaki(Mdl),Srikakulam Dt-532430,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	17.06.1990
116	Vudikala Narasinga Rao/Sh Vudikala Rambabu	APSVC/6166/15	D.No.3-11-33/1,Chinnavedhi Recharle Peta, Kakinada East Godavari Dist-533003, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2014	07.06.1991
117	Matli Krishna Kanth/Sh Matli Ananda Reddy	APSVC/6167/15	17-2,Balijpali West,Bhakarapet, Chittoor Dist Andhra Pradesh-517194	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	04.07.1993
118	Panuganti Krishnaveni/Sh P.Muralidhar	APSVC/6168/15	H.No.3-48, Kasolla Street, Chagalamam, Allagadda, Kurnool Dist-518553, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	05.06.1991
119	Naspuri Srikanth/ Sh Naspuri Sathaiah	APSVC/6169/15	H.NO.1-15,1925, 1, Balaji Nagar,Kaghaz Nagar, Adilabad-504296, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	17.11.1989
120	Talari Gangadhar/SH Talari Anand	APSVC/6170/15	H.No.1-29, New Pochampad(Village), Nirmal(Mandal), Adilabad-504106, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	20.08.1990
121	Vemuri Spurthi/Sh Vemuri Abrahamraju	APSVC/6171/15	Kodurupadu,Bapulupadu Mandalam,Krishna Dt-521110,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	24.05.1991
122	Venkata Prudhvi Reddy Sukka/Sh S.V.S.Dharmendra Rao	APSVC/6172/15	58-16-52,Shanti Nagar,NearMunicipal Park, N.A.D.Kotha Road, Visakhapatnam-530009,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	09.08.1990

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
123	Nandi Venkata Ramana Ganesh/Sh Nandi Srinivasa Rao	APSVC/6173/15	D.No.8-12-77/A,Nagojipeta, Near S.P.Bungalow, Vizinagaram-535003,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	08.01.1992
124	Priyadarshini Mandangi/Sh Lakkaiah	APSVC/6174/15	D.No.2-307/3,Balaji Nagar,Opp 3rd BN APSP Qtrs,Kakinada-533005,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	21.12.1989
125	Koyyana Uday Shankar/Sh Koyyana Nageswara Rao	APSVC/6175/15	D.No.43-106-52A,USR Road,Nandamur Nagar,Ajit Singh Nagar, Vijayawada Krishna Dt-520015,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	12.06.1992
126	Gunda Ravikanth/Sh Gunda Murali Krishna	APSVC/6176/15	D.No.3-136,P.P.Road,Near Rama Temple,Veevasaram(V&M),West Godavari Dt-534245,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	16.04.1991
127	Kumbha Siva Kumari/Sh Kumbha Krishna	APSVC/6177/15	S.T.Colony,Tallacheruvu(V),Achempeta(Mdl),Guntur Dist-522409,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	05.01.1992
128	Madada Lalitha/Sh Madada Nageswara Rao	APSVC/6178/15	C/o Gosala Appa Rao, Thatiyakulapalem, Ontimamidi (Post), Thondangi (Mandal),East Godavari-533408, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	16.08.1990
129	B.Mounika Yadav/Sh B.Venakatesh	APSVC/6179/15	D.No.2-157,Plot No.-34, T.T.D.Plots,M.R.Pali, Tirupati-517502,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	04.04.1993
130	Avireddy Anil Kumar/Sh Avireddy Adhinarayana	APSVC/6180/15	C/o A.S.Chandra Rao,D.No.45-46-19/1,Srinivasa Nagar,80 Feet Road,Akkayyapalem,Visakhapatnam-530016,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	03.01.1992
131	Duppala Bala Muralidhara Raju/Sh Duppala Raja Rao	APSVC/6181/15	Gokarnapalli(Vill&PO),Ponduru (Mdl),Srikulam Dt-532168, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	14.07.1991
132	Gurugubelli Ava Raju/Sh Gurugubelli Dali Naidu	APSVC/6182/15	Gokarnapalli(Vill&PO),Ponduru (Mdl),Srikulam Dt-532168, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	04.08.1990
133	Venkata Rao A.N.Goasina/Sh Baburao Gopasina	APSVC/6183/15	H.NO.6-86/B,AT-AP Palem,Mediwada Post, Ravikamatam Mandal, Visakhapatnam Dt -531025,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	13.05.1988
134	Tantepudi Deepak Daniel/Sh Tantepudi Nireekshana Rao	APSVC/6184/15	D.NO.44-10-7,Pullarao Street,Gunadala, Vijayawada Krishna Dt-520004,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	28.01.1991
135	Shaik Abdul Kareem/Sh Shaik Khasim Saheb	APSVC/6185/15	D.V.Palem(Vil),Pamur (Mdl),(Post),Prakasham Dt-523108,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	25.07.1992
136	Koundinya U/Sh U.Malyadri	APSVC/6187/15	H.No.49-440/2/A,Bapunagar,Chintal Hyderabad-500054, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	08.05.1992
137	Kamalapuram Ashok Kumar/Sh Kamalapuram Rangaswamy	APSVC/6188/15	H.NO.1/1556,Gandhi Nagar,Yemmiganur,Kurnool Dt-518360,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	07.07.1991
138	Harshavardhan Devandla/Sh Narasaiah	APSVC/6189/15	9-13/A,Nehru Nagar,6th Line Near Kalki Temple, Kandulapuram,Cumbum Prakasam Dt-523333,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	02.08.1989
139	Korada Balasandeep/Sh Korada Pentayya	APSVC/6190/15	H.No.1-311,SC&ST Colony,K.L.Puram(V), Vizianagaram (M)&Dt-	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	15.07.1992

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			535333,Gokarnapalli(Vill&PO), Ponduru(Mdl),Srikulam Dt- 532168,Andhra Pradesh		
140	Mohammed Abdul Raheem/Sh Shaik Mahaboob	APSV/6191/15	H.No.3-47, Tadkal(V),Kangti(M), Medka Dt -502287, Telangana	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	24.07.1991
141	Borra Venkatabalaeswararaju/S h Borra Avulaiah	APSV/6192/15	5-102.Opp Govt College, Main Road,Komarole (V,P&M),Prakasam Dt- 523327,Gokarnapalli(Vill&PO), Ponduru(Mdl),Srikulam Dt- 532168,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	10.07.1991
142	Kanukulu Raju/Sh Kanukulu Yellaiah	APSV/6193/15	H.No.3-14- 252,Yadavnagar,Hanamkonda Warangal- 506001,Gokarnapalli(Vill&PO), Ponduru(Mdl),Srikulam Dt-532168,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	05.04.1992
143	Bulusu Subhash Chandra/Sh Bulusu V Bhaskara Rao	APSV/6194/15	Dr.No.26-134,Rly Station, Beside Uma Bharathi ITI College, Srungavarapukota, Vizianagaram Dt-535145,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	08.08.1992
144	Dirisala Venkata Sivaji/Sh Dirisala Venkateswarlu	APSV/6195/15	4-42,Pata Nagi Reddy Palle,Chintala Cheruvu(P), Guntur Dt-522659,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	30.08.1993
145	Baddula Srinivasa/Sh Baddula Rajakomuraiah	APSV/6196/15	H.No.3-46, Yadavnagar, Huzurabad(V&M), Karimangar- 505468,T.S	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	19.03.1990
146	Bathula Rama Chandra Reddy/Sh Bathula Chandra Mouli Reddy	APSV/6197/15	4-81,Rental(V),Rentachintala(M), Guntur Dt- 522421,Gokarnapalli(Vill&PO),Po nduru(Mdl),Srikulam Dt- 532168,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	20.05.1992
147	Guguloth Ramesh/Sh G.Samal	APSV/6198/15	Kataram(V),Kataram(M), Karimangar Dt-505503,T.S.	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	10.06.1991
148	MedidhaRenuka/Sh Medidha Raji Reddy	APSV/6199/15	H.No.2-234,Gopalapuram(V), Durshed(P), Karimangar(M) &DT- 505001 (T.S)	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	10.02.1992
149	G.Jeevitha/Sh G.Venkateswarlu	APSV/6200/15	Madhavani Pally, Amrabad Mahaboobnagar Dt-509204, T.S	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	15.04.1991
150	Boddu Yamini/Sh Boddu Thirupathiah	APSV/6201/15	H.No.6-8-244/1,Kameshwar Rao Colony, Shviajinagar, Nalgonda- 508001, T.S	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	15.08.1992
151	Yelmeti Raveema/Sh Yelmeti Rajanna	APSV/6202/15	H.No.14-28,Opp Town Church,SBH Colony,Zaheerabad Medak Dt-502220,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	04.08.1991
152	R.Swathi/Sh R.Gangya	APSV/6203/15	Mall(V),Nallaveely X Road, Yacharam(M),Ranga Reddy Dt- 501509,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	05.04.1991
153	Vangala Divya Bharathi/Sh Vangala Chennakistaiah Chary	APSV/6204/15	H.No.5-4-85/F/15/6,Tayyam Nagar, Near One Town Police Station, Mahaboobnagar- 509001,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	06.02.1991
154	Srujana Vadlakunta/Sh Jeevarathnam Vadlakunta	APSV/6205/15	H.NO.7-1-227,Dwaraka Nagar,Gattiah Centre, Khamman Dt-507002,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	27.08.1989
155	Masu Sujatha/Sh Masu Laxmaiah	APSV/6206/15	H.No.17-56,26th Ward Old Mancherial,Mancherial (M),Adilabad Dt-504208,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	26.08.1991

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
156	Sappogu Pranitha/Sh S.Jayaprabhu	APSVC/6207/15	1/1819-1A,Gandhinagar,Yemniganur,Kurnool Dt-518360,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	15.04.1990
157	Poojari Prameela/Sh Poojari Sathyanarayanachary	APSVC/6208/15	H.No.,5-1-87,Vallabnagar Colony,One Town Police Station, Mahaboobnagar,Mahaboobnagar Dt-509001,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	30.05.1992
158	Thauti Swathi/ShThauti Venkataiah	APSVC/6209/15	H.NO.1-96,Gangapur(V),Gurralagondi(P), Chinnakodur(M), Medak - 502276,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	16.03.1992
159	N.Venumadhav/Sh N.Satyanarayana	APSVC/6210/15	H.NO.11-59,Guntoorpalli(V),Bommaka(P), Karimnagar(M)&Dt-505001,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	22.02.1989
160	Katravath Ravi/Sh Katravath Nanu	APSVC/6211/15	H.No.3-72,K.K.Kunta,Champapet Saroor Nagar(M),Hyderabad-500079,R.R.Dt,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	16.05.1989
161	Gunti Shireesha/Sh Gunti Gnanasundar Rao	APSVC/6212/15	B/806,Hill Colony,Nagarjunasagar, Pedavoor(M),Nalgonda Dt-508202,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	18.01.1991
162	Peddagoni Swapna/Sh Peddagoni Anjaiah	APSVC/6213/15	H.No.6-3-265,Nr Geetha Vignana High School,Ramagiri Nalgonda-508001,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	12.06.1992
163	Y.Bhuvaneshwari/Sh Y.Swami Das	APSVC/6214/15	MPDO Office,Manopad(V&M),Alampur (T),Mahaboobnagar Dt-509128,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	10.07.1992
164	Mohammed Nousheen/Sh Mohammed Arun Rasheed	APSVC/6215/15	H.No.9-69/1,APGVB Bank Lane,Mybelli Bazar,Thorrrur(M),Warangal Dt-506163,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	24.03.1993
165	Digumarthi Susan Kessy/Sh D.Living Stone	APSVC/6216/15	H.No.8-2-684/132/5/D,N.B.T.Nagar,Banjara Hills Road No.-12,Hyderabad-500034,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	04.06.1992
166	Kethavath Hathiram/Sh Kethavath Ramjya	APSVC/6217/15	H.NO.1-89/3,Moktha Venkatapur(V),Choudapur(P), Kulkacherla(M),Rangareddy-509340,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	06.06.1990
167	Rathlavath Ramesh/Sh Rathlavath Mohan	APSVC/6218/15	H.No.5-10,Yacharam(V),Gandhari(M), Yelareddy(T),Nizamabad-503145,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	13.06.1990
168	Kolli Yamuna Gandhi/Sh K.Rajasekhar	APSVC/6219/15	12-89/1,Behind SVITC,Chintelpeta,Gannavaram Krishna Dt-521101,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	18.05.1992
169	G.Thejaswini/Sh G.Bhaskar Reddy	APSVC/6220/15	Plot No.198,Gopal Nagar,Hyder Nagar(V),Balanagar(M), Hyderabad-500049, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	17.10.1992
170	Manupadu Anjaneyulu/Sh Manupadu Yellaiah	APSVC/6221/15	H.No.35-25,Vallabhanagar,14th Street, Wanapathy(V&M), Mahabubnagar Dt-509103, T.S	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	24.08.1992
171	Adirendia Sruvan Kumar/Sh Adirendia Lingaiah	APSVC/6222/15	H.No.5-99,Cherkupalli(V),Kethepalli (M), Nalgonda Dt- 508211, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	11.03.1992
172	S.Srinivas/Sh Narayan Naik	APSVC/6224/15	H.No.1-5-33/6, Teachers Colony, Narayanapet (V&M),	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni	07.02.1991

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			Mahabubnagar Dt-509210, Andhra Pradesh	/2015	
173	Perka Vasanthkumar/Sh Perka Saraiah	APSVC/6225/15	H.NO.2-69, Kannur (V&M), Kamalapur(M), Karimnagar Dt-505101, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	15.06.1991
174	Golle Ashok/Sh Golle Kishtaiah	APSVC/6226/15	H.NO.4-76/1, Mallannapally(V), Katnapally (P), Choppadandi(M), Karimnagar Dt-505531, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	16.05.1989
175	ShivaKumar.S /Sh Lokendar	APSVC/6227/15	H.No.11-1, Hanuman Street, Boath (V&M), Adilabad-504304, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	02.12.1989
176	Pittala Anil/Sh Pittala Ellaiah	APSVC/6228/15	H.No.1-15, Mootapelly(V), Raikal(M), Karimnagar Dt-505460, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	18.06.1989
177	Kalakotla Vishwas/Sh Kalakotla Yakub	APSVC/6229/15	H.No.19-9-372/B., Behind Andhra Bank Shambhuni Pet, Warangal-506002, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	07.08.1991
178	D.Ravinder/Sh D.Narsaiah	APSVC/6230/15	H.NO.1-113, Mothkuraopet(V), Govindaram(P), Medipally(M), Karimnagar Dt-505306, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	15.05.1990
179	Gandle Srujan Kumar/Sh Gandla Narsaiah	APSVC/6231/15	H.NO.10-64, Soan(V), Soan(P), Nirma(M), Adilabad Dt-504105, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	07.09.1991
180	Arabati Shivaji/Sh Arabati Sambaiah	APSVC/6232/15	H.No.1-9, Ganeshpally(V), Peddakomatipally(P), Mogallapally(M), Warangal Dt-506366, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	14.05.1991
181	Jupaka Shashank/ Sh Jupaka Ilaiah	APSVC/6233/15	H.NO.4-105, Dandepally(V), Elkathurthy(M), Karimnagar Dt-505101, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	25.08.1991
182	Naini Muthyamreddy/ Sh Naini Kistareddy	APSVC/6234/15	H.No.1-97/1, Sangameshwar(V), Domakonda(M), Nizamabad Dt-503123, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	14.08.1991
183	Janagam Ramesh/Sh Janagam Lingaiah	APSVC/6235/15	H.No.1-62/A, Netakani Wada, Elkathurthi(V&M), Karimnagar Dt-505476, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	20.03.1990
184	Bommu Venkatesh/Sh Yadaiah	APSVC/6236/15	H.No.2-3, Amloor(V), Gurrapode(M), Nalgonda-508256, T.S	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	07.07.1990
185	Poolapally Srinivas/Sh Pollapally Sathyanarayana	APSVC/6237/15	Kamaram (V), Shankarampet.R (M), Medak Dt-502248, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	06.07.1992
186	Ratnavath Nagendrababu/Sh Ratnavath Sreenivas	APSVC/6238/15	M.G.Nagar, Thanda(V), Kuda Kuda (P), Chivemla (M), Nalgonda Dt-508213, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	15.06.1991
187	Appani Shirisha/Sh Appani Nageshwar	APSVC/6239/15	H.No.3-33, Kothapally(V), Bheemadevarapally(M), Karimnagar Dt-505497, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	29.06.1992
188	Shivarchakam Pavan Kalyan/Sh Shivarchakam Veeraiah	APSVC/6240/15	Vankeshwaram(V), Amrabad(M), Mahaboobnagar Dt-509201, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	02.02.1990
189	Bellamkonda Monica Reddy/Sh Bellakonda Ravinder Reddy	APSVC/6241/15	H.No.10-3/4, Sripuram Colony, Karimnagar-505001, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	28.11.1991
190	Guduru Ramya/Sh Guduru Umamaheshwar	APSVC/6242/15	H.No.7-8-147, Beside Thousand Pillar Temple, Machili Bazar, Hanamkonda, Warangal	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	25.07.1991

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			Dt- 506011,Andhra Pradesh		
191	Medi Deepthi/Sh Medi Suresh	APSVC/6243/15	#2-8-109,Indira Nagar, Bhongir,Nalgonda Dt-508116,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	20.07.1992
192	Vengala Sravanthi/Sh Vengala Narsaiah	APSVC/6244/15	H.No.1-11-63,Weavers Colony,Jangaon, Warangal Dt-506167,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	04.05.1991
193	Karra Yashaswini/Sh Karra Johar Reddy	APSVC/6245/15	H.No.1-7-1203,B2,Maniteja Towers,Advocates Colony,Hanamkonda,Warangal Dt-506002,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	22.02.1992
194	N.Swapna/ Sh N.Pradeep	APSVC/6246/15	H.No.7-5-48/1,Venkateshwara Colony,Mahaboobnagar-509001,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	12.08.1992
195	Manda Abhilash/Sh Manda Ravinder	APSVC/6247/15	H.No.3-86/2, Koppur(V), Bheemadevarapally(M),Karimnagar Dt-505497,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	23.07.1992
196	Naini Anil Reddy/Sh Naini Ramreddy	APSVC/6248/15	H.No.1-98/3,Sangameswar(V), Domakonda(M), Nizamabad-503123,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	02.07.1991
197	Rasamalla Shrivankumar/Sh Rasamalla Yakaiah	APSVC/6249/15	H.No.18-65,Gudur(V),Gudur(M),Warangal Dt-506104,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	15.05.1991
198	Gandepalli Priyanka/Sh Gnadepalli Venkata Trinadha Murthy	APSVC/6250/15	D.No.27-260, Appannapalem,Pachayat Colony,Pendurthi(M),Vepagunta, Visakhapatnam Dt-530047, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	04.05.1993
199	Bandaru Keerthi/Sh Bandaru Venkata Satyanarayana	APSVC/6251/15	H.No.306,Chillies Mansion, Opp Reddy College, Nallapadu Road, Mirchi Yard, Guntur Dt-522005,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	01.05.1992
200	Hanumanthu Ramesh/Sh Hanumanthu Rama Murty Dora	APSVC/6252/15	D.No.3-17-6,Adharsnagar Park, Balajipeta,Rajamundry, East Godavari Dt-533101, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	02.05.1992
201	Veerapaneni Bhavana/Sh V.Venakat Subbarao	APSVC/6253/15	J.D.Towers Block II, Flat NO.242,Opp-Autonagar Gate,Patamata,Vijayawada Krishna Dt-520010, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	31.01.1992
202	Tata Anamika/Sh Tata Ramesh Babu	APSVC/6254/15	D.No.14/161-2,Station Road,Gudivada-521301, Krishna Dt,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	25.08.1993
203	Ramakurthi Himaja/Sh Ramakurthi Trimurthulu	APSVC/6255/15	D.No.2-159/5,Anjenyanagar, Opp 3APSP Road NO.-3,Kakinada-533005,East Godavari Dt, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	18.10.1991
204	Varikuti Deepika/SH Varikuti S.R.K.Varaprasad	APSVC/6256/15	D.No.4-13,Hospital Street,Vanapalli Kothapeta (M),East Godavari Dt-533225,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	12.05.1992
205	Eslavath Sri Hari Naik/Sh E.Thirupal Naik	APSVC/6257/15	Gopalapuram(V),Velichalamala(P),N.P.Kunta(M),Kadiri(T),Anantapur Dt-515581,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	17.08.1991
206	V.Ashok Kumar/SH V.Venkata Ramana	APSVC/6258/15	Thudumaladinne(V&P),Khajipet(M),Kadapa Dt-516203,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	05.04.1991
207	Andela Bhadraraiyah/Sh	APSVC/6259/15	D.NO.3/9,Pathajangampalli,Polime rapalli(P),Chinagolla	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni	05.06.1990

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Andela Nagaraja		Palli(V),T.Sundupalli(M),Kadapa Dt -516130,Andhra Pradesh	/2015	
208	Busi Brahmaiah/Sh Busi Purnachandra Rao	APSVC/6260/15	Peddagarla Padu (V), Brahmna Palli (P),Dachepalli(M),Guntur Dt-522414,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	10.07.1992
209	Mallena Tarakeswara Rao/Sh Mallena Abbayi	APSVC/6261/15	Mallena Vari Peta(V),Haripuram(P),Srikakulam Dt- 532243,AndhraPradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	02.02.1991
210	Nemala Gopi/Sh Nemala Pamparaju	APSVC/6262/15	G.Musalayyapeta,Krishnapuram(P),Thondangi(M),East Godavari Dt-533408,AndhraPradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	03.01.1991
211	Kella Bhargavisathya/Sh Kella Ravikumar	APSVC/6263/15	H.No.9-72,NearMarket Kondrothu Peta, Undi, West Godavari Dt-534199,AndhraPradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	09.08.1992
212	Eluri Ashok S/o Sh Eluri Anjaiah	APSVC/6264/15	GandhiNagar,5th Line,Medarametla(P),Korisapadu (M),Prakasam Dt-523212	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	28.05.1989
213	M.Nirosha/Sh M.Purushotham	APSVC/6265/15	D.No.7-77,Padmavathi Puram,Tiruchannor Road, Tirupati-517507,Chittoor Dt- Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	25.02.1992
214	Shaik Mohammed Younus/Sh Shaik Mahaboob Basha	APSVC/6266/15	D.No.10/517-1,D.C.S.R.Colony,Proddatur, Kadapa Dt-516360, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	16.06.1991
215	Guru Varalakshmi /Sh Goru Narasinga Rao	APSVC/6267/15	Door NO.16-7-62,Devangula Veedhi,Fazulbeg Peta (P),Srikakulam-532001, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	30.07.1993
216	Dasari Sai Bhavani/Sh Desari Srinivas	APSVC/6268/15	Door No.12-66-4,Lakamsanivari Street,Old Town,Ward No.-2,Tanuku-534211,West Godavari Dt,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	19.06.1993
217	Muddada Deepthi/ Sh Muddada Janardhana Rao	APSVC/6269/15	D.NO.7-114,Sainagar, Near Sowbhagya Lakshmi Kalyana Mandapam, Narasannapeta, Srikulam Dt-532421, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	21.06.1992
218	Sarikonda Sai Satish Raju/Sh Sarikonda Saidam Raju	APSVC/6270/15	D.No.21-24-11/1,Rajula Colony,Ramalingeswara Pet,Tenali Guntur Dt-522201,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	02.06.1993
219	Arisetty Bhavya Santhi/Sh Arisetty Sreenivasarao	APSVC/6271/15	D.NO.24-19-62,Naliacheruvu,Workers Colony,9th Lane, Guntur-521003,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	05.08.1992
220	Jajula Chintaiyah/Sh Jajula Anjaneyulu	APSVC/6272/15	11/98-A,Varala Street, Gudivada,Krishna Dt - 521301,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	31.12.1990
221	Billa Poorna Charan/Sh B.V.Ravindranath	APSVC/6273/15	Qtr No.P-224/3, Type-III,Nad Colony,NAD(P),Vishakhapatnam-530009,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	16.04.1992
222	Metta Abhishek/Sh Metta Krishna Chandra Rao	APSVC/6274/15	46-13-12/6,Mandavari Street,Dondaparthi, Visakhapatnam-530016, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	23.08.1991
223	Kancharana Srigdha/Sh Kancharana Chinna Babu	APSVC/6275/15	D.NO.23-3-227/A,Rotary Nagar,Palasa(M),Srikakulam Dt-532222,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	05.07.1991
224	Telidevara Satya Venkata Anil/Sh	APSVC/6276/15	Flat No.102, Shirdi Sai Apartments,Vuyyuru, Totlavalluru	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni	10.07.1993

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Telidevara S.V. Kameswara Rao		Road, Krishna Dt-521165, Andhra Pradesh	/2015	
225	Ganta Radhika/Sh Ganta Satyanarayana	APSV/6277/15	D.No.43-110,Agraharam Street,Bobbili Vizianagaram Dt- 535558,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	01.07.1993
226	Koyyana Deepika/Sh Koyyana Suryanarayana Rao	APSV/6278/15	Guravam(V),Rajam(M),Srikulam Dt-532127,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	12.06.1991
227	Eadi Sumathi Rani/Sh Eadi Venkata Rao	APSV/6279/15	D.No.60/27/89,Industrial Colony,Malkapuram, Visakhaopatnam-530011, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	15.04.1992
228	Lokavarapu Phanikumar/Sh Lokavarapu Appalanaidu	APSV/6280/15	D.No.20-1-122, Saradha Nagar(4thLine) Nr Water Tank,Balighatham(V),Narsipatnam (M),Visakhapatnam Dt-531116,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	20.05.1991
229	Jami Jagadesh/Sh Jami Tata Rao	APSV/6281/15	Vadanarasapuram(V),Rambilli(M), Visakhapatnam-531061, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	14.08.1990
230	Polinaidu Potnuru/Sh Pakiru.P	APSV/6282/15	Door No. 6-13,Opp Ramalayam,Cheera Street,Kotturu(V&M),Srikakulam- 532455,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	10.07.1990
231	T.Usha/Sh T.K.Anjaneyulu	APSV/6283/15	Plot NO.183,Flat No.202, Venkataramana Nivas, New Maruthi Nagar,Malkaigiri, Hyderabad-500040, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	07.05.1990
232	Pulijala Swapna/Sh Pulijala Ramalingaiah	APSV/6284/15	Chillapuram (V),Thugnaphad(P),Miryalaguda (M),Nalgonda Dt-508207, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	10.06.1991
233	Boorela Bharath/Sh Boorela Satyananda Rao	APSV/6285/15	T-3,3-16C-35/1,Tangirala Residency,Shanti Nagar, Kakinada-533003,E.G.Dist, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	01.06.1991
234	Nalla Priyanka/Sh Nalla Ananda Rao	APSV/6286/15	H.NO.8-24-30,Subbarao Street,Gandhinagar,Kakinada -4, E.G.Dt,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	14.07.1991
235	Bijjam Pushpalatha/Sh Bijjam Nageswar Reddy	APSV/6287/15	Anjineyakottalu(V&P),Khajipet (M),Karimnagar -505153,m Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	04.06.1993
236	Bukya Pushpalatha/Sh Bijjam Nageswara Reddy	APSV/6288/15	Kottuvari Palli (V),Amadagur(M),Anantapuram Dt-515556,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	10.12.1991
237	Bandharapu Kranthi/Sh Bandharapu Shankar	APSV/6289/15	Mirzampet,Kalvasriampoor(M), Karimnagar-505153, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	02.07.1992
238	Azmeera Swathi/Sh Azmeera Raju	APSV/6290/15	Gangirenigudem(V),Shayampet (M),Warangal Dt-506640, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	16.06.1993
239	Pedada Padmavathi/Sh Pedada Satyanarayana	APSV/6291/15	Gokamapalli(Vill&PO),Ponduru (Mdl) Srikakulam Dt- 532168,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	24.07.1991
240	Kottakuna Anita/Sh Kottakuna Surya Rao	APSV/6292/15	Door No.1-97, Jarjangi(V&P), Kotabommali(M), Srikakulam Dt-532195,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	16.08.1991

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
241	Gudia Priyanka/Sh Gudia Tatananda Reddy	APSV/6293/15	Door No. 53-18-33/1, Maddilapalem Near Samajikha Bhavan, Sivalayam Street, P&T Colony(P), Visakhapatnam-530013, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	01.08.1991
242	Annepu Rajeswari/Sh Annepu Ramu	APSV/6294/15	Dharamapuram(V&P), S.M.Puram (Via), Ponduru(M), Srikakulam Dt-532402, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	06.08.1992
243	Ugripalli Vinod/Sh Ugripalli Somanadham	APSV/6295/15	Pedhaveedhi (S), Haripuram(V&P), Mandasa(M), Srikakulam Dt- 532243, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	20.12.1991
244	Hanna Kumari Maddila/Sh Maddila Sanjeeva Raju	APSV/6296/15	D.NO.20-5-38, Ambedkar Nagar, Gavrapalem, Anapakalli, Visakhapatnam Dt-531002, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	08.11.1990
245	Paluchuri Venkatramana/Sh Paluchuri Sanjeeva	APSV/6297/15	C/o P.Venkata Chalpathi, Door No.10-258, Teachers Colony, Proddatur, Y.S.R. Kadapa Dt-516360, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	10.06.1989
246	Aavula Sreeja/Sh Aavula Sudhakar Goud	APSV/6298/15	H.No.8-6-77, Padmavathi Colony, Mahabubnagar-509002, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	09.04.1992
247	Sasi Verma Godavarthi/Sh G.Mohanrao	APSV/6299/15	Door NO.39/329-3, Nandigama Krishna Dt-521366, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	01.12.1991
248	M.Naveen Kumar Reddy/Sh M.Siva Reddy	APSV/6300/15	H.No.4-117/A, Mandlem(V), Jupadu Banglow(M), Nandikotkur(T), Kurnool Dt-518401, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	10.06.1990
249	Nalla Bothula Sivanand/Sh Nalla Bothula Venkata Naidu	APSV/6301/15	H.No.1-210, Chabolu(V), Nandyal(M), Kurnool Dt-518502, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	16.04.1992
250	P.Vinod Kumar/Sh P.Chenna Krishnaiah	APSV/6302/15	6-64, Padmavathipuram, Tiruchanoor Road, Tirupati Chittoor Dt -517503, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	14.03.1989
251	Manga Anil/Sh Manga Beeraiah	APSV/6302/15	H.NO.20-25, R/O Gollagudem, Gudur(V&M), Warangal Dt-506134, H.No.1-210, Chabolu(V), Nandyal(M), Kurnool Dt-518502, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	05.08.1991
252	Tulabandula Navya/Sh Tulabandula Srinivasa Rao	APSV/6304/15	H.No.3-36, Gudiwada(P), Tenali(M), Guntur Dt -522307, H.No.1-210, Chabolu(V), Nandyal(M), Kurnool Dt-518502, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	11.02.1991
253	Karri Sunnel Gandhi/Sh Karri Gandhi	APSV/6305/15	40-15-2, Sai Krishna Chiviri Veedhi, Mangalavarapu Peta, Rajahmundry, East Godavari Dt-533101, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	23.10.1990
254	Tellapati Sudharsan/Sh Tellapati Chenchiah	APSV/6306/15	D.No.8/5, Navabharathi School Street, Kaluvoya(V,P&M), SPSR Nellor Dt-524343, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	28.07.1991
255	Kunta Prashanth Kumar/Sh Kunta Semmaiah	APSV/6307/15	H.No.4-69/55/6, Vidyaranyaपुरi-2, Opp- Apollo Reach Hospital, Karimnagar M 7Dt-505001, H.No.1210, Chabolu (V),	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	12.07.1991

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			Nandyal(M), Kurnool Dt-518502, Andhra Pradesh		
256	Pranay Kumar.K/Sh Allam Prabhu	APSVC/6308/15	H.No.1-66/5/B.NTR Colony, Dharpally (V), Dharpally(P&M),Nizamabad Dt- 503165,TS	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	30.11.1991
257	Penda Ganeshkumar/Sh P.Anjaiah	APSVC/6309/15	1-75/1,Nagireddypalle ,Pothareddypally, Kohir(M), Medak Dt-502210, T.S	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	10.07.1990
258	Macharla Manohar Kumar/Sh Macharla Venkatesham	APSVC/6310/15	H.NO.1-1-1455,Venkatadri Nagar, Kazipet, Warangal-506003,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	06.09.1990
259	Katakam Rajavardan/Sh Katakam Shankar	APSVC/6311/15	H.No.5-1-371,LIC, lane,Rathalapump Street,Korutla,Karimagar Dt- 505326,T.S	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	11.04.1991
260	Modalavalasa Tarun/ Sh Modalavalasa Chandra Mohana Rao	APSVC/6312/15	D.No.3-32, Kesavaraopeta(V),S.M.Puram(P), Etcherla(M),Srikakulam Dt- 532402,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	01.08.1992
261	Maneri Swarnalatha/Sh M.B.Kailasapathy	APSVC/6313/15	D.No.1-90.Boya Veedhi, BukkarayaSamudram (V&M),Anantapur Dt - 515701,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	05.06.1991
262	Dudala Srinivas/Sh D. Venkata Suryanarayana	APSVC/6314/15	D.No.11-2,Yanam Road, Kasinadhampuram, Turangi, Kakinada(Rural),East Godavari Dt-533016,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	22.04.1993
263	Mohan Vamsi Duvvu/Sh Prabhakar Rao	APSVC/6315/15	P.N.Colony,First Lane,Opp MIG- 68,Srikakulam-532016,H.No.1- 210,Chabolu(V),Nandyal(M),Kurn ool Dt-518502,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	19.02.1992
264	Budiredla Gireesha/Sh Budiredla Rama Lingeswara Rao	APSVC/6316/15	Marlava,Peddapuram(M),East Godavari Dt-533437,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	23.04.1992
265	Chinta Kiranmai/Sh Chinta Ravi Kumar	APSVC/6317/15	D.No.1-391/2,SRMT Colony,Beside CTC Church,Rayudupalem,Kakinanda East Godavari Dt-533005,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	04.08.1992
266	Devarapalli Srikala/Sh Devarapalli Venkata Rami Reddy	APSVC/6318/15	Door No.1-100, Ramachandrapuram(V&P), Koilkuntla(Taluq), Dornipadu(M), Kurnool Dt- 518135,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	19.08.1992
267	Shabeena Sulthana Shaik/Sh Gouse Basha Shaik	APSVC/6319/15	Door No.19-38/A, Dabba Centre,Vinukonda,Guntur Dt- 522647,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	19.04.1993
268	Y.Pradeep Kumar Reddy/Sh Y.Narasimha Reddy	APSVC/6320/15	Malakatipalli(V),Vontimitta(M),K adapa Dt-516216,Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	25.08.1990
269	Pulimi Vishnuvardhan Reddy/Sh Pulimi Lakshma Reddy	APSVC/6321/15	Zarugumalli (V.P. &M), Prakasam Dt-523274, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	17.08.1991
270	Lankipalli Reddy Bhavya/Sh Lankipalli Subramanyam	APSVC/6322/15	18-1-469/2, Bhavani Nagar, Near Silver OAK's School, Tirupati- 517501, Chittoor Dt.	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	31.05.1991
271	Akuthota Lakshmi parvathi/ Sh A. Gangi Reddy	APSVC/6323/15	2-10, Suryappakasam(V), Gajulamandyam(P), Renigunta(M), Chittoor Dt-517520,	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	20.08.1993

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			Andhra Pradesh		
272	R. Shivakumar/Sh R. Sudarshan	APSVC/6324/15	H.No.11-128/1, Market Road, Gandhinagar, Kalwakurthy, Mahabubnagar Dt-509324, T.S	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	10.08.1990
273	Kuruva Venketesh/Sh K. Sreenivasulu	APSVC/6325/15	H.No.2-23, Bodepadur(V), Thippapur (P), Gonegandia(M), Kurnool Dt-518463, Andhya Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	13.05.1990
274	Mulla Mahammad Ali/Sh M. Akbar Vali	APSVC/6326/15	H.No.2-34, Laddagiri(V), Kodumur(M), Kurnool Dt-518468, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	10.06.1990
275	Gopalaiah Venkatesan Nagagowthami/Gopalaiah Venkatesan	APSVC/6327/15	10/47, K.V. Colony, Barathi Nagar, Chandragiri, Chittor Dt-517101, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	28.05.1991
276	Palavalasa Surya Rao/Sh Palavalasa Lakshumu	APSVC/6328/15	Gokamapalli(V&P), Ponduru(M), Srikakulam Dt-532168, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	05.05.1990
277	Uchuluri Chandra Sekhar/Sh Uchuluri Narasimha Rao	APSVC/6329/15	D.No.8-104, before R&B Banglaw, Singarayakonda, Prakasam Dt-523101, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	10.08.1991
278	Munukutla Sai Bhaskar/Sh Munukutla Siva Rama Krishna	APSVC/6330/15	Pedarayavaram, Rangampeta(M), East Godavari Dt-533291, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	29.03.1992
279	Badukonda Suresh Kumar/Sh Badukonda Appala Naidu	APSVC/6331/15	Gunupurepeta(V), Denkada(M), Vizianagaram Dt-535006	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	18.05.1991
280	Bhoopathi Goutham/Sh Bhoopathi Satyanarayana	APSVC/6332/15	C/o Branch Library, Buchireddy Palem, SPSR Neelore Dt-524006, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	14.08.1993
281	Sikha Harmya Sri/Sh Sikha Subbaiah	APSVC/6333/15	35-3-68(36),Hill Towers, Sitharampuram, Ongole, Prakasam Dt-523001, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	14.04.1992
282	Yagati Uma Maheswari/Sh Yagati Mukhalingam	APSVC/6334/15	D.No.40-13-69, Dharmanagar, Near Kanchrapalem, Visakhapatnam-530008	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	31.05.1991
283	Mothukuri Prashanth/Sh Mothukuri Shanker	APSVC/6335/15	H.No.68/487, Iind Zone, Mandamarri, Adilabad Dt-504231, T.S.	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	11.08.1992
284	Davuluri Tulasi/Sh Davuluri Venkatanarasimha Buchi Babu	APSVC/6336/15	H.No.6-28, Velvadam, Mylavaram(M), Krishna Dt-521230	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	03.08.1993
285	Geddamm Vijaya Durga/Sh Geddamm Ramachandra Murthy	APSVC/6337/15	D.No.5-2, Vydyanagar-3, APSP Backside, Vakalapudi, Kakinadda-533005, E.G. Dt. Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	24.05.1993
286	Dhan Priyanka/Sh Dhan Bahadur	APSVC/6338/15	Door No.3-24/27/14, Pedda Cheruvu, 9th Line, Narasaraopeta, Guntur Dt-522601, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	26.08.1991
287	Munigonda Venkata Sahitya/Sh Munigonda Sreenivasulu	APSVC/6339/15	Flat No.303, Sai Srinivas Paradise, Srinagar 7/7th Line, Guntur-522003, Guntur Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	19.10.1991
288	Adapala Thirumala Priyadarshini/Sh Adapala Thirumala Venkataramana	APSVC/6340/15	H.No.6/861, Sankarapuram, Kadapa-516002, YSR Kadapa Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	26.05.1992

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
289	Boya Sunil Kumar, Sh Boya Sreenivasulu	APSVC/6341/15	H.No.211, Pallepadu(V), Manavapadu(M), Mahabubnagar Dt-509128, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	12.06.1992
290	Amudam Abhilash/Sh Amudam Ramulu	APSVC/6342/15	H.No.2-6-135, Sanjivayya Nagar, Sircilla, Karimnagar Dt-505301, T.S.	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	21.05.1991
291	Penupothula Sony/Sh Penupothula Nagarjuna Rao	APSVC/6343/15	D.No.70-17-27/2, NFCL Road, Thyagaraya Nagar, Kakinada- 533003, East Godavari Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	29.01.1993
292	Kaigala Rama Mohana Rao/K. Murali Krishna	APSVC/6344/15	C/o R.S.R. Krishna Rao (Retd.JVO), Door No.16B-11-7, Thangellamudi, Near Ramalayam, Eluru, West Godavari Dt-534005, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	21.07.1992
293	Palaparthi Ganesh Kumar/Sh Palaparthi Koteswararao	APSVC/6345/15	Door No.3-23-13/3, Peddacheruvu 12th Line, Narasaraopet-522601, Guntur Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	25.08.1990
294	Nakka Aiswarya/Sh Nakka Jayaprakasham	APSVC/6346/15	Door No.10-76/9, Gurreddy Complex, Banaganapalli, Kurnool Dt-518124, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	08.07.1992
295	Palli Sagarika/Ch S P. Venkata Ramana	APSVC/6347/15	UD/LD-626, New 'B' Colony, VTPS, Ibrahimpatnam, Krishna Dt-521456, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	06.02.1992
296	Chakali Eresha/Sh Chakali Venkatesh	APSVC/6348/15	H.No.7/105, Chakali Veedi, Nandavaram(V,P&M), Yemmiganur (T), Kurnool Dt.- 518124, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	06.04.1991
297	Mandla Suman/Sh Mandla Devadan	APSVC/6349/15	H.No.4-44,B, Thandrapadu (V&P), Kurnool (M&Dt)-518007	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	23.03.1991
298	Vemuri Santhosh/Sh Vemuri Buchaiah	APSVC/6350/15	H.No.10-48-A, Giriprasad Colony, Laxmidevipalli, Kothagudem(M), Khammam Dt-207101, T.S.	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	29.11.1989
299	Madhavam Swathi Krishna/Sh M. Ramakrishna	APSVC/6351/15	Flat No.103, Sri Satya Sai Enclave, Opp:RTC Busstand, Kadapa- 516001, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	26.08.1990
300	Bhukya Madhu/Sh Bhukya Vasya	APSVC/6352/15	Chennaipalem(V), Wardhapuram(P), Mattampally(M), Nalgonda Dt- 508204, T.S.	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	10.01.1991
301	Vangipurapu Sai Poornima/Sh Vangipurapu Veera Brahmachari	APSVC/6353/15	D.No.61-23-2/8A, K.P. Rao Street, R.L. Nagar, Vijayawada-520013, Krishna Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	15.04.1993
302	Kunreddy Mahendar Reddy/Sh Kunreddy Linga Reddy	APSVC/6354/15	Vaddireddy Gudem(V), Gurrampode(M), Nalgonda Dt- 508243, T.S.	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	15.08.1991
303	Pittela Chandra Babu/Sh Pittela Jeedaiah	APSVC/6355/15	H.No.88, Pothi Reddy Pally (V), P.A. Pally (P&M), Nalgonda Dt- 508243, T.S.	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	01.04.1990
304	Kethavath Subash Chander/Sh K. Babu Naik	APSVC/6356/15	H.No.20-60/1, Gandhi Nagar, Devarakonda, Nalgonda Dt- 508248, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	23.08.1990
305	Sabavath Jaipal Singh/Sh Sabavath Peerya	APSVC/6357/15	H.No.3-60, Maqdumpoor, Nizamsagar(M), Nizamabad Dt- 503187, T.S.	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	24.04.1990
306	Jadhav Vijay/Sh Jadhav Parushuram	APSVC/6358/15	Ranapoor(V), Chincholi-B(P), Sarangapoor(M), Adilabad Dt- 504110, T.S.	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	14.08.1991
307	Pravallika Batchu/Sh B.	APSVC/6359/15	11-06-221/1, Pochambagh, Besides	BVSc&AH/Sri	04.03.1991

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Ramachandraiah		L.B. Nagar MCH, Saroornagar, Hyderabad-500035, T.S.	Venkateswara Vety Uni /2015	
308	D. Rajesh Kumar/Sh D. Vankataiah	APSVC/6360/15	Masigumdlapally(V), Midjil(M), Mahabubnagar Dt-509357	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	10.06.1989
309	Bandela Raju/Sh Bandela Shankar Reddy	APSVC/6361/15	H.No.3-36/5, Keshireddy Pally(V), Bachannapet(M), Warangal Dt-506221, T.S.	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	12.07.1991
310	Jakkula Srinivas/Jakkula Rajamouli	APSVC/6362/15	H.No.7-46/1, Mulkanoor(V), Bheemavarapally(M), Karimnagar Dt-505471, T.S.	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	12.01.1992
311	Ananthula Venkanna/Sh Ananthula Satthaiah	APSVC/6363/15	Wardhamanukota(V), Jajireddy Gudem(M), Nalgonda Dt-508279, T.S.	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	11.12.1990
312	Harsha M/Sh Gnana Prakash M	APSVC/6364/15	3-3-76/80, Chaitanya Vilas Colony, Hyderguda, Attapur-500048, Hyderabad	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	09.02.1991
313	Prasanthi Sulagunti/Sh Muragaiah S.	APSVC/6365/15	D.No.4-102, Brahmin Street, Karveti Nagaram-517582, Chittor Dt. Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	09.09.1989
314	Munigadapa Ajay Kumar/Sh Munigadapa Veeraiah	APSVC/6366/15	H.No.1-3-731/D, Gollapeta, Nirmal, Adilabad Dt-504106, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2013	24.04.1989
315	A. Divya/Sh A. Venkataswamy	APSVC/6367/15	K. Patnam(V&P), Thavanam Palle(M), Chittor Dt-517131, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	12.03.1991
316	Boddu Sireesha/SH Boodu Nooka Raju	APSVC/6368/15	Bengapudi, Near Annavaram, Thondangi(M), East Godavari Dt-533406, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	26.07.1992
317	Challangi Chalini/Sh Challangi Krishna Rao	APSVC/6369/15	Back of GCC Office, Sainagar, Chintapalli(P&M), Visakhapatnam Dt-531111, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	23.03.1990
318	Kasparaju Mamatha/Sh Kasparaju Laxmaiah	APSVC/6370/15	H.No.1-137, Gandhinagar(V), Suryapet(M), Nalgonda Dt-508248, T.S.	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	15.06.1992
319	Gorikapudi Prabhukishore/Sh Gorikapudi Rajarao	APSVC/6371/15	D.No.8/6/10, Balaji Rao Pet, Tenali-522201, Guntur Dt. Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	06.08.1990
320	Porandla Divyasree/Sh Porandla Prabakar	APSVC/6372/15	H.No.3-7-265/4, Sri Venkateshwara Nagar, Gudibandal, Hanamkonda, Warangal Dt-506011, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	04.06.1993
321	Dubba Nagaraju/Sh Dudumaiah	APSVC/6373/15	Gattu Eppaloo Pally(V), Talakonda Pally(M), Mahaboobnagar Dt-509320, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	20.07.1988
322	Kothinti Busa Ashok Kumar Reddy/Sh Kothinti Busa Raghunanth Reddy	APSVC/6374/15	Nakkalapalli(V), Itikyall(M), Alampoor(Tq), Mahaboobnagar Dt-509128, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	06.06.1991
323	Vasam Saikartheek/Sh Vasam Kotaiah	APSVC/6375/15	2-124/2, Bayyaram(V&M), Khammam Dt-507211, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	19.06.1990
324	B. Venkatesh/Sh B. Chinnaiah	APSVC/6376/15	SRT Q.No.7, Near C.E.R. Club, Mandamarry(V&M), Adilabad Dt-504231, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	21.02.1989
325	Sripathi Govardhan/Sh Sripathi Guravaiah	APSVC/6377/15	D.No.25-2-1405, 11th Street, A Block, Pragathi Nagar, Podalakur Road, Nellore-524004, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	04.08.1991
326	P. Yaswanth/Sh P. Sada	APSVC/6378/15	5-40-12/A, Sri Krishna Nagar,	BVSc&AH/Sri	23.10.1991

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Sivaiah		M.R. Palli, Tirupati-517502, Chittoor Dt, Andhra Pradesh	Venkateswara Vety Uni /2015	
327	Mulakala Bharath Kumar/Sh Mulakala Nagabhushanam	APSV/6379/15	D.No.6-2-388, Kovur Nagar, Ananthapur-515001, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	01.06.1992
328	Potla Manjunath/Sh Potla Shivasankar	APSV/6380/15	Yankal(V), Jeethakal(P), BG Palli(SO), Brahasamudram(M), Anantapur Dt-515763, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	22.11.1989
329	Gujanti Shiva Rama Krishna/Sh Gujanti Veeresham	APSV/6381/15	H.No.8-2-85, Kattarampur, Karimnagar Dt-505001, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	06.09.1990
330	Batna Vasudevarao/Sh Batna Satyanarayana	APSV/6382/16	S.S. Valasa(V), Alicam(P), Srikakulam(M), Srikakulam Dt-532185, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	29.08.1992
331	D. Navyasri/Sh D. Eswaraiiah	APSV/6383/16	Door No.5-100, Balajinagar, C.T.M. Road, Madanapalle, Chittoor Dt-517325, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	19.04.1992
332	Ponnekanti Karunya Sindhu/Sh Ponnekanti Ankamma Rao	APSV/6384/16	D.No.18-88/1, Kalakalur(V), Tenali(M), Guntur Dt-522307, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	01.06.1992
333	Inani Kesavulunaidu/Sh Ineni Reddepanaidu	APSV/6385/16	Battavandla Palli, Guttapalli, Sambepalli, Kadapa Dt-516215, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	15.06.1990
334	Golconda Mahitha Tej/Sh G. Uma Sankar	APSV/6386/16	11-1-192/B, Santhinagar, 1st Line, Kovur-524137, SPSR Nelloor Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	15.06.1990
335	Dara Prasanthi/Sh Dara Jaya Raju	APSV/6387/16	Rajupothepalli(V), Thedlem(P), T. Narasapuram(M), West Godavari Dt-534467	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	25.12.1989
336	Aakula Naresh/Sh Aakula Venkataiah	APSV/6388/16	Wardhamanukota(V), Jajireddy Gudem(M), Nalgonda Dt-508279, T.S.	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	06.05.1992
337	Banavath Ravi/Sh Banavath Seetya Naik	APSV/6389/16	H.No.85, Chervuthanda(V), Janpahad(P), Neredcherla(M), Nalgonda Dt-508, T.S.	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	06.05.1991
338	Vadada Mamadha Rao/Sh Vadada Ramana	APSV/6390/16	Door No.2-12, Baanala (St.), Patrivalasa(V), Srikakulam (M) & Dt-532401, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	10.10.1992
339	Dudekula Moulali Basha/Sh Dudekula Basha	APSV/6391/16	H.No.3-321, Main Road, Enugumarr(V), Peapully (M), Kurnool Dt-518211, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	21.06.1990
340	Shaik Saleem Shabaz/Sh Shaik Mohammad Hussain	APSV/6392/16	Door No.10/89, L.R. Street, Vayalpad-517299, Chittoor Dt. Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	05.07.1990
341	Marthala Bharathi/Sh Marthala Bhairava Konda Reddy	APSV/6393/16	D.No.5/18, Potladurthi(V), Yerragutla(M), Kadapa Dt-516360, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	07.05.1991
342	Dudekulachennuru Hussaini/Sh Dudekula Peedahussaini	APSV/6394/16	H.No.1-1, M. Thimmapuram(V&P), Mahanandi(M), Kurnool Dt-518512, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	16.05.1992
343	Balagondla Saileela/Sh B. Kondaiah	APSV/6395/16	H.No.3/99, Yapedinne(V&P), Leeja (M), Mahabubnagar Dt-509135, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	01.06.1990
344	Somapalli Rahika/Sh Somapali Reddepanaidu	APSV/6396/16	D.No.38-105/4, Tirupati Naidu Colony, Opp. Govt. Degree Cologe, Rayachoty, Kadapa Dt.-	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	11.06.1991

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			516269, Andhra Pradesh		
345	Gedam Suresh Babu/Sh Geedam Venkata Ramana	APSVc/6397/16	D.No.1-75, Neelandrapeta, Neelapalle(P), Thallarevu(M), East Godavari Dt-533464, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2015	12.11.1990
346	Krishna Chaitanya V./Sh Raghav V.V	APSVc/6398/16	18-1-710F, Bhavaninagar, Tirupathi-517501, Chittor Dt. Andhra Pradesh	BVSc&AH/KVAFSU,Bidar/2014	31.05.1988
347	Mellam Venkata Ramana/Sh M. Pedal Balayogi	APSVc/6399/16	D.No.4-40, Neelapalli, Mokavaripeta, Tallarevu(M), East Godavari Dt-533464, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2015	15.12.1990
348	P. Ramu/Sh Chinnaiah	APSVc/6400/16	H.No.1-10-262/9, Priyadarshini Colony, Metpally(V), Metpally(M), Karimnagar Dt-505325, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2015	22.12.1988
349	Dappawar Maheshwarreddy Krishnareddy/Sh Krishna Reddy	APSVc/6401/16	H.No.1-15, Baswapur(P), Jukkal (M), Nizamabad Dt-503305, Andhra Pradesh	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni /2011	09.05.1987
350	Manoj Ram S/o Sri Vishnudeo Ram	Bihar SVC/3726/15	Vill-Kjakkhi Bigha,PO-Dalmiya Nagar,P.S-Dehri,Sub-Dvi-Dehri,Dist-Rohtas,Pincode-821305,Bihar	BVSc&AH/Birsa Agril Uni,Ranchi/2014	11.03.1980
351	Rajni Kant Kumra S/o Sri Khela Nand Raut	BiharSVC/3727/15	Vill-Narurar,PO-Naruar,P.S.-Bhairavasthan,Sub-Div-Jhanjharpur,Dt-Madhubani-847407,Bihar	BVSc&AH/Birsa Agril Uni,Ranchi/2014	01.05.1987
352	Sampurna Nand Yadav S/o Sri Bindeswar Yadav	BiharSVC/3728/15	Vill-Jariso, PO-Jariso,P.S-Bahera,Sub-Div-Benipur,Dt-Darbhanga-847201,Bihar	BVSc&AH/Assam Agril Uni/2013	29.12.1988
353	Kumari Chandrakala D/o Sri Rajendra Prasad	BiharSVC/3729/15	Vill-Jhour,PO- Kochgaon,P.S-Warisaliganj,Sub-Div-Nawada-805130,Bihar	BVSc&AH/Birsa Agril Uni,Ranchi/2012	15.05.1982
354	Bagish Mishra S/o Sri Kunj Bihari Mishra	BiharSVC/3730/15	Vill-Rahamganj,PO-Laheriyarai,P.S-Laheriyasarai,Sub-Div-Darbhanga Sadar, Dt-Darbhanga,Bihar	BVSc&AH/Sri Venkateswar Uni,Tirupati/2015	01.01.1982
355	Gyandev Singh S/o Sri Kamal Pd Singh	BiharSVC/3731/15	Assistant Prof-Cum-Junior Scientist,Bihar Vety College, BVC Campus,Patna-800014,Bihar	BVSc&AH/GBPUA&T/2004	15.09.1977
356	Sona Lal S/o Sri Yugul Kishore	BiharSVC/3732/15	Vill-Jajiyapr,Ward No.-10,PO-Gopalganj,P.S-Gopalganj,Sub-Div-Gopalganj,Dt-Gopalganj-841428,Bihar	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	16.08.1989
357	Navneet Kumar Pandey S/o Sri Triyugi Nath Pandey	BiharSVC/3733/15	Touring Vety Offcer,Class-I,Vety Dispensary-Cum-Vety Residence,Vill+PO+PS+Block-Mairwa,Sub Division-Siwan,Dt-Siwan, Bihar	BVSc&AH/UAS,Bangalore/2004	30.04.1981
358	Raushan Kumar Singh S/o Sri Om Prakash Singh	BiharSVC/3734/15	Vill-Mudwa Khash,PO-Gamhariya, P.S-Ishuapur,Sub-Div,Dt-Saran-841421,Bihar	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2013	10.08.1987
359	Anjani Kumar SinghS/o Sri Sudhanshu Kr Singh	BiharSVC/3735/15	Vill-Kharia,PO-Kharia,P.S-Bariyarpur,Sub-Div-Munger Sadar,Dt-Munger-811211,Bihar	BVSc&AH/OUAT,Bhubaneswar/2015	07.01.1987
360	Ravi Kumar S/o Sri Jagdish Panjiyara	BiharSVC/3736/15	Vill-Assarganj,PO&P.S-Assarganj, Sub-Div- Tarapur,Dt-Mungar-813201,Bihar	BVSc&AH/OUA&T,Bhubaneswar/2015	01.12.1987
361	Abhinav KumarS/o Sri Umesh Chandra Jha	BiharSVC/3737/15	Vill-Hardwar,PO-Palli, P.S-Ghanshyampur,Sub-Div-Viroul,	BVSc&AH/WBUofA&FS/2015	04.04.1989

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			Dist-Darbhanga-847427,Bihar		
362	Manish Kumar S/o Late Suresh Kumar	BiharSVC/3738/15	Vill-Kurji Balupar,Digha,Shivajinagar,PO&P S-Digha,Sub-Div-Patna Sadar,Dt-Patna-800011,Bihar	BVSc&AH/Birsa Agril Uni,Ranchi/2015	04.10.1987
363	Diwakar Prasad S/o Sri Bharat Sah	BiharSVC/3739/15	Vill-Chamtha Numbbar,PO-Barkhut Chamtha,PS- Bachhwara, Sub-Div-Teghra,Dt-Begusarai-851111,Bihar	BVSc&AH/Birsa Agril Uni,Ranchi/2015	01.03.1979
364	Kusum Lata D/o Sri Chaturbhuj Thakur	BiharSVC/3740/15	Vill-Andauli,PO-Awari,P.S-Saharghat,Sub-Div-Benipatti, Dt-Madhubani-847308,Bihar	BVSc&AH/Birsa Agril Uni,Ranchi/2015	05.03.1991
365	Nitu Kumari D/o Sri Bir Bahadur Singh	BiharSVC/3741/15	Vill-Naulakkha,PO-Safiabad,P.S-Qasim Bazar,Dt-Munger -811214,Bihar	BVSc&AH/Birsa Agril Uni,Ranchi/2014	29.05.1987
366	Ankush Bharti S/o Sri Dharendra Kumar	BiharSVC/3742/15	Vill&PO-Khaira,P.S-Haweli Kharagpur, Sub-Div-Haweli Kharagpur,Dt-Munger-811213,Bihar	BVSc&AH/WBUofA&F S/2015	27.02.1991
367	Prabhakar Jha S/o Late Nitya Nand Jha	BiharSVC/3743/15	Vill-Gorgama,PO&PS-Tarapur,Sub-Divisin-Tarapur,Dt-Mungar-813221,Bihar	BVSc&AH/MAFSU,Na gpur/2014	28.09.1991
368	Vijay Kumar Yadav S/o Sri Chandra Yadav	BiharSVC/3744/15	Vill-Chakka,PO-Garoul,P.S-Manigachi,Sub-Div-Darbhanga Sadar,Dt-Darbhanga-847423,Bihar	BVSc&AH/LLRUofVA S,Hisar /2015	23.06.1987
369	Sumit Kumar Suman S/o Sri Chandeswari Pd Singh	BiharSVC/3745/15	Vill-Laxmipur Girdhar,PO-Laxmipur Girdhar,P.S-Rupouli,Sub-Div-Dhamdaha,Dt-Putmos-853204,Bihar	BVSc&AH/MAFSU,Na gpur/2015	30.11.1981
370	Sumant Kumar S/o Sri Suresh Kumar	BiharSVC/3746/15	Vill&PO-Bajjnathpur,P.S-Sourbazar,Sub-Div-Saharsa Sadar,Dt-Saharsa-852201,Bihra	BVSc&AH/MAFSU,Na gpur/2015	11.10.1986
371	Navin Kumar S/o Sri Dharm Lal Mandal	BiharSVC/3747/15	Vill-Kataiya Rahi,PO-Kataiya Mahe,P.S-Pipra, Sub-Div-Supaul,Dt-Supaul-852131,Bihar	BVSc&AH/MAFSU,Na gpur/2015	27.06.1985
372	Rahul Kumr S/o Sri Manik Lal Sah	BiharSVC/3748/15	Vill&PO-Soha,P.S-Sonbarsha Raj,Sub-Div-Saharsa,Dt-Saharsa-852129,Bihar	BVSc&AH/WBUofA&F S/2015	02.02.1989
373	Ashok Kumar S/o Sri Yugeshwar Pd Singh	BiharSVC/3749/15	Vill-Chandkura,PO-Daha Bigha,P.S- Khanpura Khirimor,Sub-Div-Paliganj,Dt-Patna-804426,Bihar	BVSc&AH/OUAT,Bhub aneswar/2015	04.03.1986
374	Prabhat Shankar S/o Sri Satyendra Sharma	BiharSVC/3750/15	Vill&PO-Mouri,P.S-Khanpura Khirimor, Sub-Div-Paliganj,Dt-Patna-804426,Bihar	BVSc&AH/RAJVASU/2015	08.07.1989
375	Ravi Ranjan Ray S/o Sri Bhairav Rai	BiharSVC/3751/15	Vill-Sirisiya,PO-Belwa,P.S-Sathi,Sub-Div-Narkatiyaganj,Dt-West Champaran-845449,Bihar	BVSc&AH/LLRUofVA S,Hisar /2015	12.07.1987
376	Kumar Gaurav S/o Sri Santosh Kumar	BiharSVC/3752/15	Vill-Viajipur,PO-Akothi,P.S-Mairwa,Sub-Div-Siwan,Dt-Siwan-841239,Bihar	BVSc&AH/TNV&ASU, Chennai /2015	02.01.1990
377	Rakesh Kumar Roshan S/o Sri Ramanand Roy	BiharSVC/3753/15	Vill&PO-Bhimpur,P.S-Bhimpur,Sub-Div-Triveniganj,Dt-Supaul-854339,Bihar	BVSc&AH/Sri Venkateswar Uni,Tirupati/2015	06.08.1988
378	Vijay Kumar/Sri Bindeshwari Pd Purvey	BiharSVC/3754/16	Shikshak Colony,Vill-Rani Ganj,PO&PS-Rani Ganj,Sub-Div-Farbisganj, Dt-Araria-854334,Bihar	BVSc&AH/Birsa Agril Uni,Ranchi/2005	22.01.1980
379	Snehlata Kumari D/o Sri Bhneswar Ram	BiharSVC/3755/16	Touring Vety officer, Vill-Marwagulni,PO+Block+Sub-Division-Pakribaranwa,Dt-	BVSc&AH/Birsa Agril Uni,Ranchi/2003	30.06.1979

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			Nawada,Bihar		
380	Praveen S/o Sri Kaushlendra Pratap Singh	BiharSVC/3756/16	Vill-Indrapuri, House No.-25, Road No.-10, PO-Keshrinagar,P.S-Patliputra,Sub-Div-Patna Sadar,Dt-Patna-800024,Bihar	BVSc&AH/Birsa Agril Uni,Ranchi/2005	23.11.1978
381	Tajesh Kumar S/o Sri A.K.Yadav	BiharSVC/3757/16	Vill-Khaira Koskapur,PO- Khaira Koshkapur,P.S-Narpatganj,Sub-Div-Farbisganj,Dt-Araria-854318,Bihar	BVSc&AH/Sri Venkateswar Uni,Tirupati/2015	12.12.1987
382	Vinod Kumar Kushwaha S/o Late Ramlakhan Prasad	BiharSVC/3758/16	Vill-Kanhai Nagar, PO-Nawada,P.S-Nawada,Sub-Div-Nawada Dt-Nawada-805110,Bihar	BVSc&AH/Birsa Agril Uni,Ranchi/1981	12.09.1955
383	Archita Singh D/o Sri Rajendra Pd Singh	BiharSVC/3759/16	Vill-Chowdhary Basantpur,PO&PS-Pirpaiti,Sub-Div-Kehalgaon, Dt-Bhagalpur-813209,Bihar	BVSc&AH/Sri Venkateswar Uni,Tirupati/2015	01..01.1993
384	Arvind Kumar S/o Sri Brijmohan Pd Singh	BiharSVC/3760/16	Vill-Wajidpur Toal Daya Bigha, PO&PS-Belanganj, Sub-Div-Gaya, Dt-Gaya,- 804403,Bihar	BVSc&AH/Bihar Agricultural Uni, Bhagalpur/2016	05.01.1981
385	Surendra Kumar Paswan S/o Sri Nand Lal Paswan	BiharSVC/3761/16	Vill-Mehse,PO-Laukaha,PS-Laukaha, Sub-Div-Phulparas,Dt-Madhubani-847421,Bihar	BVSc&AH/Bihar Agricultural Uni, Bhagalpur/2016	20.08.1988
386	Awadhesh Kumar S/o Sri Chhedi Choudhary	BiharSVC/3762/16	Vill-Paharpura,PO&PS-Biharsharif ,Sub-Div-Biharsharif,Dt-Nalanda-803101,Bihar	BVSc&AH/Bihar Agricultural Uni, Bhagalpur/2016	01.03.1983
387	Ashish Kumar S/o Sri Awadhesh Kumar Sharma	BiharSVC/3763/16	Vill-Anupam Nagar, Behind Polsan, PO-Digha Ghat, PS-Digha,Sub-Div-Patna Sadar, Dt-Patna -800011	BVSc&AH/Bihar Agricultural Uni, Bhagalpur/2016	03.09.1986
388	Kislay Kumar S/o Sri Sonelal Singh	BiharSVC/3764/16	Vill-Rupauli,PO-Koily,PS-Bathanaha,Sub-Div-Sitamarhi Sadar,Dt-Sitamarhi-843302,Bihar	BVSc&AH/Bihar Agricultural Uni, Bhagalpur/2016	03.08.1988
389	Babul Kumar S/o Sri Yogendra Prasad	BiharSVC/3765/16	Vill-Choti Chataiya,PO-Ekchari Diara,PS- Ekchari, Sub-Div-Hilsa,Dt-Nalanda-801301,Bihar	BVSc&AH/Bihar Agricultural Uni, Bhagalpur/2016	07.09.1990
390	Ravi Ranjan Kumar S/o Sri Arun Prasad	BiharSVC/3766/16	Vill-Makhadumpur,PO-Parthu,P.S-Ekangarsarai,Sub-Div-Hilsa,Dt-Nalanda-801301,Bihar	BVSc&AH/Bihar Agricultural Uni, Bhagalpur/2016	11.11.1982
391	Shashi Shekhar S/o Sri Balmiki Singh	BiharSVC/3767/16	Vill-Lakho,PO-Lakho,PS-Muffasil,Sub-Div-Begusarai, Dt-Begusaria-851129,Bihar	BVSc&AH/Bihar Agricultural Uni, Bhagalpur/2016	05.02.1988
392	Shambhu Sharan S/o Sri Dharendra Yadav	BiharSVC/3768/16	Vill-Chanmana,PO-Lalpur Shivram,PS-Baheri, Sub-Div-Darbhanga Sadar, Dt-Darbhanga-847101,Bihar	BVSc&AH/Sri Venkateswar Uni,Tirupati/2015	02.06.1988
393	Chandra Kiran Gayakward / Sh Narayan Prasad Gayakward	CHHSVC/754/2015	Gram-Kasahi, PO-Gujar,The-Patna, Durg,Chhattisgarh	BVSc&AH/Chhattisgarh Kamdhenu Viswavidyalaya/2015	23.01.1991
394	Mamta Sahu/ Sh B.P.Sahu	CHHSVC/755/2015	Rangmuch Ke Pass Baba Kuti, Shargarh, Dt-Raigarh,Chhattisgarh-496445	BVSc&AH/Chhattisgarh Kamdhenu Viswavidyalaya/2015	08.01.1991
395	Jharana Chandrakar/Sh Ramkrishna Bhardwaj	CHHSVC/756/2015	Panchratan Bhawan,Ward No-54,New Adarsh Nagar,Durg ,Dt-Durg,Chhattisgarh-491001	BVSc&AH/Chhattisgarh Kamdhenu Viswavidyalaya/2015	19.04.1992
396	Ekta Rana/Sh Ranjeet Kumar Rana	CHHSVC/757/2015	H.No.491, Model Town,Gayatri Mandir Ke Pichya,Dt-Durg,Chhattisgarh-490020	BVSc&AH/Chhattisgarh Kamdhenu Viswavidyalaya/2015	16.12.1989
397	Arati Marskole /Sh Virendra Maraskole	CHHSVC/758/2015	Ekta Nagar, Delkhoward Kangera,Dt-Kangera,Chhattisgarh-494445	BVSc&AH/Chhattisgarh Kamdhenu Viswavidyalaya/2015	08.08.1991
398	Komal Chandrakar/Sh	CHHSVC/759/20	Emle Bhata Ward No.-10,Near	BVSc&AH/Chhattisgarh	08.08.1991

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Dileep Kumar Chandrakar	15	Shiv Mandir, Mahasumndar, Chhattisgarh-493445	Kamdhenu Viswavidyalaya/2015	
399	Neetu Rani Jangadhe /Sh Rajkumar Janggade	CHHSVC/760/20 15	Gram Post- Pamgarh, Dt-Jahagir, Champa, Chhattisgarh-495554	BVSc&AH/Chhattisgarh Kamdhenu Viswavidyalaya/2015	15.10.1990
400	Savita Kumari Patel / Sh Santram Patel	CHHSVC/761/20 15	Gram-Sardamal, PO- Nanddeli, Dt-Raigarh, Chhattisgarh-496001	BVSc&AH/Chhattisgarh Kamdhenu Viswavidyalaya/2015	08.04.1991
401	Gangdhalal Banjare /Sh Chetan Ram Banjare	CHHSVC/762/20 15	Gram-Ganyari, PO- Pahdor Vikas Khand, Tah-Patna, Dt-Durg, Chhattisgarh -491007	BVSc&AH/Chhattisgarh Kamdhenu Viswavidyalaya/2015	29.04.1974
402	Shailendra Kumar Thakur /Sh Vishlesal Thakur	CHHSVC/763/20 15	H.NO.425, Kailash Vihar, Jamni Palli, Korba, Chhattisgarh-495684	BVSc&AH/Chhattisgarh Kamdhenu Viswavidyalaya/2015	10.01.1991
403	Bhubaneswar Pal Singh Kanwar / Sh Pathar Singh Kunwar	CHHSVC/764/20 15	Gram-Ragbhari, PO-Balko, Dt-Korba, Chhattisgarh-495684	BVSc&AH/Chhattisgarh Kamdhenu Viswavidyalaya/2015	17.04.1985
404	Dimple Pakra/ Sh S.P.S.Pakra	CHHSVC/765/20 15	132/33 Near V.Power House, Kunwar Para Vishnu Pur, Ambikapur, Dt-Sarguja, Chhattisgarh-497001	BVSc&AH/Chhattisgarh Kamdhenu Viswavidyalaya/2015	14.03.1990
405	D.Suryam Dora/Sh Milan Dora	CHHSVC/766/20 15	Gram PO- Tikar Para, Teh - DevBhog, Dt-Gariyaband, Chhattisgarh-493890	BVSc&AH/Chhattisgarh Kamdhenu Viswavidyalaya/2015	07.12.1989
406	Shiv Kumar/ Sh J.P.Chandan	CHHSVC/767/20 15	MIG-2/46, R.P.Nagar, Phase-2, Housing Board Colony, Dt-Korba, Chhattisgarh-495677	BVSc&AH/JLNKVV/1997-98	12.06.1972
407	Rajendra Prasad Tiwari/ Late Sh Sudarshan Prasad Tiwari	CHHSVC/768/20 15	HIGI/123, Main Road, Borei Colony, Durg -491001	BVSc&AH/JLNKVV/1982-83	01.07.1960
408	Vivek Patel/Sh Ghanshyam Patel	CHHSVC/769/20 15	Gram-Pachara, PO-Tarapur, Teh - Pushora, Dt-Raigarh, Chhattisgarh-496001	BVSc&AH/RUV&ASU/2013	25.12.1987
409	I.P.Singh /Sh Dandand Singh	CHHSVC/770/20 15	Awadhपुरी Colony Parishar, Jashpur Dist, Jashpur, Chhattisgarh-496331	BVSc&AH/JLNKVV/1987	05.10.1962
410	Sanjeev Kumar Roy S/o Sh Ramadhar Roy	CHHSVC/771/20 15	Pashu Chikitsalya Parishar, Jashpur Dt, Jashpur, Chhattisgarh-496331	BVSc&AH/IGKVV/1991-92	25.02.1968
411	Rineeta Roy S/o Sh Mahendra Pal Singh	CHHSVC/772/20 15	Pashu Chikitsalya Parishar, Jashpur Dt, Jashpur, Chhattisgarh-496331	BVSc&AH/TNV&ASU/1995	20.03.1972
412	Anita Jain S/o Sh Roopchand Jain	CHHSVC/773/20 15	C/o Padam Jain, 369/5, Avanti Vihar, Raipur, Chhattisgarh-492006	BVSc&AH/IGKVV/1997	21.05.1966
413	Sarita Singh S/o Sh Sadan Singh	CHHSVC/774/20 15	Gram-Sakola, PO-Kotmikala, Pendra Road, Vilashpur, Chhattisgarh-495224	BVSc&AH/NDVSU/2014	17.3.1987
414	Anshuk Sharam S/o Sh Prem Kumar Sharma	CHHSVC/775/20 15	Ward N.-4, Azad Nagar, Vila, Vilashpur, Chhattisgarh-495224	BVSc&AH/Chhattisgarh Kamdhenu Viswavidyalaya/2014	15.11.1990
415	Paratiksha Mishra S/o Sh Ramji Mishra	CHHSVC/776/20 15	Mishra Colony, Sarana Toli, Jashpur Nagar, Chhattisgarh-496331	BVSc&AH/RUV&ASU/2014	13.09.1990
416	Mahendra Kumar Panday S/o Late Sh Vidyadhar Pandey	CHHSVC/777/20 16	Shikari Road, Bori Para, Ambikapur, Dt-Sarguja, Chhattisgarh-497001	BVSc&AH/JLNKVV/1985-86	21.06.1963
417	Amund Singh Marvi S/o Sh Tanuram Marvi	CHHSVC/778/20 16	Madhuban Para, Raigarh, Dt-Raigarh, Chhattisgarh-496001	BVSc&AH/JLNKVV/1995-96	15.05.1968
418	Laxmi Narayana Patel / Late Sh Jeevan Lal Patel	CHHSVC/779/20 16	Gram Post- Kunkuri, Dt-Jashpur, Chhattisgarh-496225	BVSc&AH/JLNKVV/1991-92	04.07.1969
419	Dhaniram Pradhan / Sh	CHHSVC/780/20	HIG-516, Deen Dayal Puram Phase -1, Near T.V.Tower, Raigarh,	BVSc&AH/JLNKVV/19	15.06.1964

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Lala Ram Pradhan	16	Chhattisgarh-496001	91-92	
420	Meenu Dubey/Sh S.J.Kashyap	CHHSVC/781/20 16	Panchsheel A Street-13,Plot No. B/2, Borsai Durg, Chhattisgarh - 491001	BVSc&AH/JLNKVV/19 94-95	06.01.1972
421	Vinod Kumar Agarwal/Late Sh Ramanand Agarwal	CHHSVC/782/20 16	184-C ,Krishna Vihar Colony,Raigarh,Chhattisgarh-496001	BVSc&AH/JLNKVV/19 96-97	02.04.1971
422	Manoj Kumar Awasthi/Late Sh Shiv Prasad Awasthi	CHHSVC/783/20 16	B-16,Adarsh Nagar, Durg,Dt-Durg, Chhattisgarh-491001	BVSc&AH/JLNKVV/19 84-85	19.11.1963
423	Shardha Barjeibhe/Sh Vijay Kr Barjeibhe	CHSVC/726	Sonu Photo copiers Sai Mandir Key Pass Tehsil Chowk, Bagicha, Dt-Jashpur, Chhattisgarh-496224	BVSc&AH/Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyala/2014	21.02.1988
424	Sunil Kumar Bhatt /Sh Hirday Nath Bhat	DVC/0783/15	57,Sangam Apartments,Paschim Vihar,New Delhi-87	BVSc&AH/Rajendra Agil Uni/1982	07.04.1957
425	Kumud Kalita/Sh Bangshi Dhar Kalita	DVC/0784/15	Flat No.431,Deep Apartment, Sector- A-9, Pocket-1,Narele, Delhi-40	BVSc&AH/Assam Agil Uni/1996	10.11.1971
426	S.Sudharshan/Sh Sambasivam Chinnathambi	DVC/0785/15	84,Jagriti Apartments Capt.Satish Marg,Rani Bagh, Pitampur,New Delhi-34	BVSc/TNAU,Chennai/1 997	21.03.1973
427	Krishna Kumar Gupta/Sh Ashok Kumar Gupta	DVC/0786/15	C/o Mr.Rajkumar 1 Floor,H.No.100,Channa Wali Gali, Yusuf Sarai, New Delhi-16	BVSc&AH/Sri Vekateswara Uni, Triupati/2011	09.09.1980
428	Ankur/Sh Satyendra Kumar	DVC/0787/15	E-2/176,Shastri Nagar,Delhi-52	BVSc&AH/NDVSU,Jab alpur/2015	24.10.1992
429	Surendra Kumar Pandey/Sh Mohan Chandra Pandey	DVC/0788/15	H.No.101,Pocket-4,Sector-24, Rohini, Delhi-85	BVSc&AH/GBUA&T/1 991	28.06.1966
430	Deeraj Kumar Singh/Sh Dharmnath Singh	DVC/0789/15	WZ-36/A/4,Gali No-17,Near MRV School,Krishna Nagra, Extn Tilak Nagar,Delhi-18	BVSc&AH/UPPDDUPC VV/2015	12.05.1987
431	Pitamber Singh/Sh Ramswarup Singh	DVC/0790/15	H.No.99, Pocket-II, Sector-22, Rohini, Delhi-85	BVSc&AH/CSAKEP VV/1979	21.11.1955
432	Sunaina Gupta/Sh S.J.Gupta	DVC/0791/15	D-110,Defence Colony,New Delhi-24	BVSc&AH/RAJUVASU /2012	14.10.1989
433	Mitin Chanana/Sh A.K.Chanana	DVC/0792/15	179/D-12,Sector-7,Rohini, Delhi-85	BVSc&AH/RAJUVASU /2011	23.01.1989
434	Geeta/Sh Raghbir Singh	DVC/0793/15	S-1,SIF, Shivaji Park,West Punjabi Bagh, New Delhi-26	BVSc&AH/CCSHAU/20 01	28.08.1977
435	Piyush Shastri/Sh Suresh Shastri	DVC/0794/15	51-D, A-11, Surya Apartment, Kalkaji Extension, New Delhi-19	BVSc&AH/RAJUVASU /2011	17.11.1987
436	Sophia Rana/Sh Pradeep Rana	DVC/0795/15	7/3, Kalkaji Extention, New Delhi-19	BVSc&AH/KVA&FSU, Bidar/2015	15.01.1992
437	Rekha Kumar/Sh Anil Toppo	DVC/0796/15	F-18/51,Ist Floor, Sector-15, Rohini, Delhi-89	BVSc&AH/Birsa Agil Uni/2015	29.12.1986
438	Shreya Dang/SH Vijay Dang	DVC/0797/15	32/45,West Punjabi Bagh,New Delhi-26	BVSc&AH/MA&FSU/2 015	20.08.1992
439	Baidya Nath Mandal/Sh Satya Narayan Mandal	DVC/0798/15	105 Krishi Niketen Paschim Vihar, New Delhi-63	BVSc&AH/WBUof A&FS/2007	17.01.1980
440	Deepak Saraswat/Sh R.P.Saraswat	DVC/0799/15	A-126, Harinagar, Ashram, New Delhi	BVSc&AH/RAJUVASU /2015	10.12.1989
441	Akaash Barotia/Sh Prakash Chand Barotia	DVC/0800/15	A-126, Harinagar, Ashram, New Delhi	BVSc&AH/RAJUVASU /2015	04.02.1990
442	Preeti Bhatia/Sh Sudeep Bhatia	DVC/0801/15	Pocket B-6, H.No.96, Sector-7, Rohini, Delhi-85	BVSc&AH/RAJUVASU /2011	23.09.1987
443	Archana/Sh Ramswarup Tripathi	DVC/0802/15	Flat No.110, Tilak Apartment, I.P.Extension, Patparganj, Delhi-92	BVSc&AH/CCSHAU/20 06	11.07.1981
444	Malay Kumar Vishwakarma/Sh Durga	DVC/0803/15	41/9,Kishangarh,Vasant Kunj, New Delhi-70	BVSc&AH/GBUA&T/2 009	05.03.1983

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Prasad				
445	Deepesh Kumar/Sh Satish Kumar	DVC/0804/15	Govt Veterinary Hospital, Bhalaswa Dairy Colony, Delhi-110042	BVSc&AH/CSAKEPVV /2003	30.08.1980
446	Jameel Ahmed Gazi/Sh Gazi Ahmed Sheikh	DVC/0806/15	2/3, Subhash Nagar, Rajori Garden, New Delhi	BVSc&AH/OUA&T/2008	17.08.1983
447	Vineeta Thusoo/Sh M.L. Thusoo	DVC/0808/15	E-418, GK-II, New Delhi-48	BVSc&AH/OUA&T/2009	24.04.1984
448	Basant Dubey/Sh Dwaraka Prasad Dubey	DVC/0809/15	14, Naval Apartment Vasundhara Enclave, New Delhi-96	BVSc&AH/JNKVV/2006	20.12.1978
449	Jagtap Swapnil Pandurang/Sh Jagtap Pandurang Vithoba	DVC/0810/15	Flat No-228, Pocket-A, Sarita Vihar, New Delhi-76	BVSc&AH/MA&FSU/2008	01.03.1983
450	Ishu Agarwal/Sh Yogesh Chandra Agarwal	DVC/0811/15	New Delhi Veterinary Clinic Shop No.-48, Ajit ARCADE, Kailash Colony, New Delhi-48	BVSc&AH/GBUA&T/1997	04.10.1983
451	Satya Dev Gangwar/Sh Ram Prasad Gangwar	DVC/0812/15	D-1 B/IC, SFS Flats Janak Puri, New Delhi-58	BVSc&AH/GBUA&T/1986	01.07.1963
452	Abhishek Gupta/Sh Yogesh Gupta	DVC/0813/16	B-3, Third Floor, Block-B, Rt-Side Portion Sardar Nagar, Rana Pratap Nagar, Near Shadipur Metro Station, Delhi	BVSc&AH/JNKVV/2009	03.03.1984
453	Jay Prakash Pandey/Sh Bhagwan Pandey	DVC/0814/16	Patel Nagar Pet Clinic M-27, (G.F) West Patel Nagar, Near Shadipur Metro Station Delhi	BVSc&AH/Anand Agil Uni/2013	06.02.1978
454	Satish Kumar/Sh Dharma Chand	DVC/0815/11	D-451, Palam Extension, Sector-7, Dwarka, New Delhi-45	BVSc&AH/RAJUVASU /2011	15.07.1984
455	Gaurav Gupta/Sh Ram Niwas Gupta	DVC/0816/06	Govt. Veterinary Hospital, Patparganj, Delhi	BVSc&AH/NDUA&T, F aizabad/2007	10.05.1980
456	Vijay Pal Singh/Sh Gagan Singh	DVC/0817/16	M-26, Phase-4, Prem Nagra, Najafgarh, Delhi-43	BVSc&AH/Gujarat Agril Uni/1995	01.02.1972
457	Rajan Thapar (Col)/ Sh Vidya Sagar Thaper	DVC/0818/16	Directorate Gen RVS, West Block-III, OMG's Branch, R.K. Puram, New Delhi-66	BVSc&AH/Kerala Agril Uni/1986	18.06.1961
458	Deshmukh Pramod Bhagwantrao (Col)/ Sh D. Bhagwantrao. M	DVC/0819/16	Commanding Officer 48 Mil Veterinary Hospital, Delhi Cantt, New Delhi-10	BVSc&AH/Punjabrao Krishi Vidyapeeth, Akola/1986	01.08.1963
459	M. V. Silpa/Mr. M. P. Vela yudhan	GoaSVC/191/15	H.NO.887/9(2), Kamat Nagar, Succor Porvorim, Bardez, Goa -403501	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2015	05.05.1993
460	Silveira Maria Sera/Mr. Virgilio Silveira	GoaSVC/192/15	H.No.172, 2nd Daddi, Navelim, Salcette, Goa-403707	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2015	27.07.1993
461	Deepika Prabhakar/Mr. Prabhakar	GoaSVC/193/15	T-4, Golden Hill Apts., Magor Hills, Vasco-de-Gama, Goa	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2015	29.07.1992
462	Barros Gail Matilda/Mr. Marcos Barros	GoaSVC/194/15	H.No. 217, Barros Ward, Velim, Salcete, Goa	BVSc&AH/MAFSU/2015	24.01.1993
463	Govind/Mr. A. C. Sankara narayan	GoaSVC/195/15	E3, G-2, Navelcar Estate, Bainguinium, Old Goa, Goa	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2015	15.02.1993
464	Harne Ranjeet Dattatraya/Harne Dattatraya Bhagwanji	GoaSVC/196/15	C/o Datta Naik, Om Shri Sai Apts., F2 Damodar Nagar, Curti, Ponda, Goa	BVSc&AH/MAFSU/2015	30.11.1988
465	Meena Madhukar Kale/Mr. Madhukar Sadashiv Kale	GoaSVC/197/15	C/o Vincent De Souza, Opp Bar Antonio, Dongao, Karnibhat, Marcel, Goa	BVSc&AH/MAFSU/2008	30.07.1984
466	Sandhip Vishnu Ther/Sh Vishnu Dalpat Ther	GoaSVC/198/15	C/o Vincent De Souza, Opp Bar Antonio, Dongao, Karnibhat, Marcel, Goa	BVSc&AH/MAFSU/2008	06.09.1983
467	Queenie Candice Fernandes/Mr. Cruz	GoaSVC/199/15	Filomena Colony, H.Np.500/18, Alto Santa,	BVSc&AH/KVA&FSU, Bidar /2015	26.01.1992

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Fernandes		Tiswadi, Goa -403202		
468	Adrian Acacio Camara/Mr.Alan Acacio Camara	GoaSVC/200/15	H.No.223,AC Pacheco Road, Borda, Margao,Goa	BVSc&AH/MAFSU/201 5	05.03.1992
469	M.V.Jithin/Mr.M.P.Vela yudhan	GoaSVC/200/15	H.No.887/9(2),Kamat Nagar,Succorro, Porvorim,Bardez,Goa-403501	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2010	22.05.1988
470	Pardeshi A. Subhash/Mr.Subash Budha Pardeshi	GoaSVC/201/15	Vrindavan Building,Tonca Junction, Caranxalem, Gao-403002	BVSc&AH/MAFSU/200 9	14.02.1986
471	Jagruti Bathini/Mr.Bathini Jagruti	GoaSVC/202/16	H.No.111-E/3,Govind Nagar, Karaswada, Mapusa, Goa	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2015	21.09.1992
472	Solomon Rajkumar/Mr.R.Davind Raju	GoaSVC/203/16	D-12,ICAR Residential Complex, Old Goa -403402	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2005	17.02.1983
473	Susitha Rajkumar/Mr.Narayama n.K	GoaSVC/204/16	D-12,ICAR Residential Complex, Old Goa -403402	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2005	28.09.1982
474	Singh Ratndeept/ Sh Singh Gangaprasad	GujSVC/2678/16	C-9,KVK Staff Qtrs., Deesa-Patna Highway,Nr Deepak Hotel, Deesa- 385535,Dt-Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/200 6	17.09.1991
475	Devi Sarita / Sh Lal Chand	GujSVC/2680/16	C-9,KVK Staff Qtrs., Deesa-Patna Highway,Nr Deepak Hotel, Deesa- 385535,Dt-Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/200 5	03.01.1983
476	Achanta Alekhya Praveen/Sri Subbarayudu	GujSVC/3778/15	Y-103,Shivabhi Luxuria, Opp-Jiji Mataji Mandir, Maneja Cross Road, Maneja, Vadodara,Dt- Vododara, Gujarat	BVSc&AH/Sri Venkateswara Uni/2012	04.02.1989
477	Vishnudeo Kumar/ Sh Brajnandan Pd Sah	GujSVC/3779/15	Academic Qtrs NO-5,Type- B/1,JAU Campus,Junagadh- 362001,Dt- Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/MA&FSU/2 005	05.01.1979
478	Binod Kumar/ Sh Shyamanand Mehta	GujSVC/3780/15	Asstt.Prof.,Dept of Vety Parasitology, COVSc&AH,JAU,Junagadh- 362001,Gujarat	BVSc&AH/Sri Venkateswara Uni/2008	03.01.1982
479	Maharana Biswas Ranjan/Sh Baikunthanath Maharana	GujSVC/3781/15	Asstt.Prof.,Dept of Vety Parasitology, COVSc&AH,JAU,Junagadh- 362001,Gujarat	BVSc&AH/OUA&T/200 6	11.07.1981
480	Anil Sharma/ Sh Gandharv Sharma	GujSVC/3782/15	Asstt.Prof.,Dept of Vety Parasitology, COVSc&AH,JAU,Junagadh- 362001,Gujarat	BVSc&AH/JNKVV/200 8	15.02.1983
481	R.Lakshmi/ Sh Ramani M.V	GujSVC/3783/15	No.17/196,Parishram Apartments, Near Jeevan Bima Nagar, Satellite Road, Ahmedabad-380015,Gujarat	BVSc&AH/PU/1999	16.11.1976
482	Atara Viralkumar/ Sh Bharatbhai	GujSVC/3784/15	At PO- Bilpudi(Atara Faliyu),Taluk-Dharampur, Dt- Valsad, Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	22.11.1991
483	Balwani Jitendra/Sh Mukeshkumar	GujSVC/3785/15	Sancha Gali Near Nutan Girls High School, Upsatirs to Ganesha Traders, Devgadha Baria, Dt- Dahod, Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	14.04.1993
484	Chaudhari Hasmukhbhai/Sh Premubhai	GujSVC/3786/15	At-Luheri Nighal Faliyu,At- Luheri,PO-Kangvi, Taluk- Dharampur,Dt-Valsad, Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	20.06.1992
485	Chaudhari Sonalben/Sh Vishnubhai	GujSVC/3787/15	Chaudharivas, At-Amudh, Ta- Unja, Dt-Mehsana-384170,Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	10.08.1992
486	Chaudhary Mahesh Kumar/Sh Mulajibhai	GujSVC/3788/15	204 Chaudhary was, At: Katara, PO-Kathi-Katara, Ta-Harij,Dt-	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	11.03.1991

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			Patan-384240,Gujarat		
487	Maru Ajit/ Sh Pranlal	GujSVC/3789/15	55,Milan Park Society,Nr Sandesh Press, Opp-Ahmedabad Haat, Vastrapur, Ahmedabad, At-Ahmedabad - Taluk,Dt-Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/APAU/1978	21.05.1955
488	Chauhan Ashish / Sh Vitthal Bhai	GujSVC/3790/15	Vankarvas, At- Post-Untava, Taluka- Kadi, Dt-Mahsana, Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	26.02.1993
489	Choudhary Komal/Sh Rameshvarlal	GujSVC/3791/15	34, J.B.Raw House, Kim Charrasta, Ta-Mangarol, Dt-Surat-394111,Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	07.07.1992
490	Chevelikar Pratikkumar /Sh Rameshchandara	GujSVC/3792/15	Plot NO.125/2, Sector-14,At-Gandhinagar, Dt-Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	01.12.1991
491	Desai Dhruv/ Sh Nitinkumar	GujSVC/3793/15	Home No-6,"Sai Kunj",Sant Krupa Soc,Nr Dharmin Nagar, Grid Rd,Kabilpore, Navsari-396424,Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	24.12.1992
492	Desai Sanjaykumar/Sh Prabhatbhai	GujSVC/3794/15	15,Kuber Nagar Society,Ahmedabad Highway Road, Palanpur, Dt-Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	01.05.1992
493	Gondaliya Ravi/ SH Bhandas	GujSVC/3795/15	81-Sant Tukaram Society, Part-2, Palanpur, Jakatnaka Surat, Ta-Choryasi,Dt-Surat, Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	20.12.1992
494	Goswami Mayank/Sh Manigii	GujSVC/3796/15	55,Ronakpark, Near Shastrinagar, Dt-Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	01.06.1993
495	Joshi Nirav/Sh Hasmukhkumar	GujSVC/3797/15	B/10,Jaldarshan Apartment,At-Vavol, Taluka- Gandhinagar,Dt-Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	19.01.1983
496	Makwana Ravi/Sh Bipinchandra	GujSVC/3798/15	Jayhind Leather Compound, Near Sutharvas, Kalyanpura, Kalol, Dt-Gandhiangar-382721,Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	03.12.1991
497	Bhuria Nareshkumar/Sh Rameshbhai	GujSVC/3799/15	At-PO- Jalat Mavi Faliya, At-Jalat, Taluka-Dahod, Dt-Dahod,Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	05.03.1992
498	Nayak Chintankumar/Sh Nayankumar	GujSVC/3800/15	A/2,irrigation colony,Chhapariya,Opp to Radhya Sweet Mart, At-Himmatnagar, Dt-Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	07.02.1992
499	Sheikh Nurjahaben/Sh Abdulkaiyum	GujSVC/3801/15	Hausaini Society, Near Jamait Masjid,Sevaliya(Pali), Galteshwar, Dt-Kheda-388245,Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	13.12.1992
500	Pandya Harsh/Sh Hasamukhbhai	GujSVC/3802/15	38, Ambedkar Nagar Society, Kamalpur Road, Opp Palak Party Plot, Vadnagar,Dt-Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	06.09.1991
501	Patel Arpitkumar/Sh Jagdishbhai	GujSVC/3803/15	410,Umanagar,At-Unchha,Taluka-Prantij,Dist-Sabarkantha,Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	10.08.1993
502	Patel Bhavikkumar/Sh Mukheshkumr	GujSVC/3804/15	Patel Street, At: Mali,Taluka-Himmatnagar, Dt-Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	23.12.1992
503	Patel Dhavalkumar/Sh Bhailalbhai	GujSVC/3805/15	N-17,Sahvas App, Nr Ravinagar School, Jivrajpark, Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	03.07.1993
504	Patel Hiteshkumar/Sh Kantilal	GujSVC/3806/15	2-26, Utara Faliya, Pipalkhed,Ta-Vansda, Dt-Navsari-396580,Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	27.05.1993

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
505	Patel Nikunj Kumar/Sh Prakashbhai	GujSVC/3807/15	Sarad Faliya, Village, Bodvank, Ta- Chikhali, Dt-Navsari, Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	10.04.1993
506	Patel Rekhankumar/Sh Kashubhai	GujSVC/3808/15	F-8-161, Nirman Road, At-Vansda, Taluka-Vansda, Dt-Navsari, Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	28.04.1991
507	Patel Yashkumar /Sh Rambhai	GujSVC/3809/15	At-PO- Mindhabari (Upala Faliya), At-Mindhabari, Taluka- Vansda, Dt-Navsari, Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	25.11.1992
508	Pawar Vallabhbhai/Sh Dasharubhai	GujSVC/3810/15	29, Hadol Asan Na Mal Faliyu, Gramya Vistar, At-Hadol, Taluka-Subir, Dt-Danges, Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	01.04.1991
509	Prajapati Jigneshkumar/ Sh Popatlal	GujSVC/3811/15	117, Prajapatifali, Nava, At- Nava, Taluka-Himatnagar, Dt- Sarbarantha, Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	06.10.1992
510	Thakor Prakashji/Sh Babubhai	GujSVC/3812/15	Khodiyanagar Society, At- Shankheshwar, Taluka- Shankheshwar, Dt-Patan, Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	01.06.1992
511	Solanki Bhoomi/Sh Ajaykumar	GujSVC/3813/15	Block NO--663/8, Rajpur Hirpur Railway Colony, Siddhivinayak Hospital, Maninagar, At- Ahmedabad, Dt- Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	17.02.1993
512	Vaghashiya Bhaskar/Sh Jaysukhbhai	GujSVC/3814/15	To: Ishvariya (Rupavati), At- Ishvariya, Taluka-Visavadar, Dt- Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	23.09.1993
513	Shaikh Hasanjahangir/Sh Gulamastgir	GujSVC/3815/15	E-203, AI-burooj Society Makarba Road, At-Ahmedabad, Taluk- Ahmedabad, Dt- Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	06.09.1990
514	Swami Shreeja/Sh Piyushkumar	GujSVC/3816/15	Yamuna Park, Anand, Dt- Anand, Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	14.10.1991
515	Vyas Sagar/Sh Rameshkumar	GujSVC/3817/15	78-Kulin Tenament, Vasne Barage Road, Vasna Ahmedabad, Dt- Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/Navsari Agril Uni/2015	18.07.1992
516	Chauhan Vipulbhai/Sh Batukbhai	GujSVC/3818/15	At-Dudana, Taluka- Kodinar, Dt- Gir Somnath, Gujarat	BVSc&AH/Junagadh Agril Uni/2015	24.04.1993
517	Patel Rahul Kumar/Sh Kanubhai	GujSVC/3819/15	93, Shantinagar Society, Mahavir Nagar, Himmatnagar, Dt- Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/Junagadh Agril Uni/2015	04.12.1991
518	Solanki Vipul/Sh Lakhmanbhai	GujSVC/3820/15	At: Ajotha Madhav Provision Store, Bus Stand, Taluka-Veraval, Dt-Gir Somnath-362268, Gujarat	BVSc&AH/Junagadh Agril Uni/2015	10.4.1993
519	Raval Saurabkumar/Sh Rameshchandra	GujSVC/3821/15	Block No-112, Sector-25, Sahkar Colony (GHB), At- Gandhinagar, Dt- Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/Junagadh Agril Uni/2015	01.04.1992
520	Keshariya Desur/Sh Kesurbhai	GujSVC/3822/15	At-Bhadthar, Ta-Jam Khambhaliya, Dt-Dwarka, Gujarat	BVSc&AH/Junagadh Agril Uni/2015	01.04.1992
521	Goswami Manishgiri/Sh Babugiri	GujSVC/3823/15	Gayatri Krupa Bunglows, At- Dhadusiya Math, Post- Bayad, Taluk-Bayad, Dt- Arvalli, Gujarat	BVSc&AH/Junagadh Agril Uni/2015	07.02.1993
522	Dobariya Kalpeshkumar/Sh Nagjibhai	GujSVC/3824/15	At- Bambhaniya, Taluka-Kukavav Vadiya ,Dt-Amreli, Gujarat	BVSc&AH/Junagadh Agril Uni/2015	01.06.1991
523	Desai Ketankumar/Sh Nagjibhai	GujSVC/3825/15	Rabarivas, At-Post Indrad, Taluka- Kadi, Dt-Mahsana, Gujarat	BVSc&AH/Junagadh Agril Uni/2015	17.10.1992
524	Chaudhary Jagdishkumar/Sh Mafabhai	GujSVC/3826/15	At-Kuvata, Ta-Deodar, PO-Paladi, Dt-Banaskantha-385330, Gujarat	BVSc&AH/Junagadh Agril Uni/2015	10.07.1993
525	Galchar Ramesh/ Sh	GujSVC/3827/15	At-Panchasiya, Ta- Wankaner, Dt-	BVSc&AH/Junagadh	14.05.1990

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Karshanbhai		Morbi,Gujarat	Agril Uni/2015	
526	Jadav Jayesh/Sh Jayantilal	GujSVC/3828/15	At-Akhodar, TQ-Keshod, Dt-Junagadh -362220,Gujarat	BVSc&AH/Junagadh Agril Uni/2015	24.03.1992
527	Tank Jatin/Sh Kishor	GujSVC/3829/15	To- Anjar Khatry Chowk, Opp-Ismail Khatry Shope, Turia, Wad,Anjar, Ta- Anjar, Dt-Kutch,Gujarat	BVSc&AH/Junagadh Agril Uni/2015	27.09.1994
528	Gohel Rahulkumar/Sh Harsukhbhai	GujSVC/3830/15	Amrutnagar,Opp Madhuram Bus Stop,Nr Maruti Complex,"Rahul"Junagadh, Dt-Junagadh,Gujarat	BVSc&AH/Junagadh Agril Uni/2015	24.03.1991
529	Khatariya Mithunkumar/Sh Devdanbhai	GujSVC/3831/15	To-Keshod, Airport Road,Manglam Soc,B/No-08,Taluk-Keshod, Dt-Junagadh,Gujarat	BVSc&AH/Junagadh Agril Uni/2015	09.08.1993
530	Vaniya Rahulkumar/ Sh Pravinbhai	GujSVC/3832/15	Kharaghoda(Junagam),Taluka-Patdi,Dt-Surendranagar, Gujarat	BVSc&AH/Junagadh Agril Uni/2015	07.02.1991
531	Padher Radhaben/ Sh Ramubhai	GujSVC/3833/15	Barada-Faliya, At-Kavdej,Ta-Vansda,Dt-Navsari-396580,Gujarat	BVSc&AH/Junagadh Agril Uni/2015	23.11.1990
532	Chatrabhuji Brinda/Sh Bipinbhai	GujSVC/3834/15	Dipanjali 1, Opp-Gayatri School, Vraj, At-Junagadh-362001,Dt-Junagadh,Gujarat	BVSc&AH/Junagadh Agril Uni/2015	25.10.1991
533	Pandavadara Chandaniben/Sh Najabhai	GujSVC/3835/15	At-Post Porbandar,Shyam Park,Plot No-47,Nr Arya Samaj Mandir,Behind Rokadiya Hanuman Temple,At-Porbandar,Dt-Porbandar,Gujarat	BVSc&AH/Junagadh Agril Uni/2015	05.02.1991
534	Aagza Diptesh/Sh Chandravadan	GujSVC/3836/15	27-Rahshya Society,Opp-Navinchandra Park,Vitthalnagar Cross Road, Civil Camp Road, Sahibaug,Ta-Asarva,Ahmedabad-380004,Dt-Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	24.06.1992
535	Vineet Kumar/Sh Rahul Pd Singh	GujSVC/3837/15	Assistant Professor,Dept of VetySurgery & Radiology, COVSc&AH,JNU,Junagadh-362001,Dt-Junagadh,Gujarat	BVSc&AH/KVA&FSU/2008	01.03.1978
536	Bhoraniya Abidhusen/Sh Gulambhai	GujSVC/3838/15	At Post Rasulpur, At-Rasulpur, Taluka-Kheralu, Dt-Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	24.06.1991
537	Chaudhary Pareshkumar/Sh Ishwarbhai	GujSVC/3839/15	At-Adhagam,PO-Changa, Ta-Kankrej,Dt-Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	06.05.1992
538	Chaudhary Maheshbhai/Sh Punjabhai	GujSVC/3840/15	At-Rampura,PO-Eta,Taluk-Suigam,Dt-Banaskantha,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	21.04.1990
539	Chavda Himali/Sh Sanjaybhai	GujSVC/3841/15	B-11,Jilla,Panchayat Staff Qtrs,Opp-S.T.Colony, G.D Modi College Road, At-Palanpur, Dt-Banaskantha,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	05.02.1993
540	Chavda Nirajsinh/Sh Kiritsinh	GujSVC/3842/15	Block No-140/3359,Gujarat Housing Board, Meghaninagar,At-Ahmedabad,Dt-Ahmedabad,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	23.07.1991
541	Damor Pankajkumar/Sh Adesinh	GujSVC/3843/15	A-101,Jivan Jyot Socity, Nr Malhotra Mill Road Odhav Ahmedabad, Dt-Ahmedabad.Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	10.11.1989
542	Damor Vinaykumar/Sh Maganbhai	GujSVC/3844/15	At-Chhitadara,Po-Navagam.Taluka-Meghraj, Dt-Aravalli,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	27.01.1992

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
543	Sawarkar Surendra/Sh Wamanrao	GujSVC/3845/15	Associate Prof &Head,Dept of Vety &AH Extension, COVSc&AH,JAU,Junagadh-362001,Dt-Junagadh,Gujarat	BVSc&AH/Dr.Panjabrao Krishi Vidyapeeth/1995	01.01.1971
544	Gadhavi Negidan/Sh Shambhudan	GujSVC/3846/15	At-Koreti, Taluka-Suigam,Dt-Banaskantha,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	21.06.1993
545	Garasiya Vinodbhai/Sh Khatubhai	GujSVC/3847/15	At- Padimadhudi, PO- Jhalod, Tah-H=Jhalod,	BVSc&AH/SKDAU/2015	05.01.1991
546	Ghasura Gazala/Sh Sikandarkhan	GujSVC/3848/15	38-A,New Aman Park Society,Sukhbag Road,Palanpur,Dt-Banaskantha,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	29.01.1992
547	Chand Sagar/Sh Ishwar Dass	GujSVC/3849/15	Department of LPT,COVS&AH,JAU,Junagadh,T aluak-Junagadh,Dt-Junagadh,Gujarat	BVSc&AH/CSKHPKV V/2009	10.09.1985
548	Joshi Axaykumar/Sh Babulal	GujSVC/3850/15	286/B,Brahmanvas, At-Shikariya,Taluka-Dantiwada,Dt-Banaskantha,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	29.04.1992
549	Joshi Krupa/ Sh Rajendra Kumar	GujSVC/3851/15	B-34,Sarthinagar Society,Chansma Highway,Nr Santhiniketan Highschool, Patan, Dt-Patan,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	28.07.1992
550	Joshi Vidhi/Sh Vijaykumar	GujSVC/3852/15	27,Gurukrupa Socity, Akesan Road,Ahmedabad Highway,At-Palanpur,Dt-Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	10.03.1992
551	Kala Jitendrakumar/Sh Kashirambhai	GujSVC/3853/15	6/23,Ambedkarnagar, At&Post-Dhima,Taluka WAV, Dt-Banaskantha,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	23.11.1990
552	Kapdi Aratiben/ Sh Jayantilal	GujSVC/3854/15	17,Bhaktinagar, At Post-Thara,Taluka-Kankrej,Dt-Banaskantha,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	10.01.1993
553	Khatri Sunil/Sh Bhomaram	GujSVC/3855/15	Dhebar Road, Nr Soni Bazar,Deesa, Bansaskantha, At-Deesa, Taluka-Deesa, Dt-Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	21.02.1993
554	Limbachiya Nirav/Sh Mukehkumar	GujSVC/3856/15	42,Greenicity, Patan Highway Road, Deesa, Dt-Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	12.07.1992
555	Modh Ronak/Sh Hasmukhlal	GujSVC/3857/15	Outside Gathaman Gate,Near Petrol Pump,At-Palanpur, Dt-Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	13.09.1991
556	Modi Rajanikant/Sh Champaklal	GujSVC/3858/15	Dhundhiyawadi,Near Railway Colony,Tajpura Road, Ghemarpura Naka, At-Palanpur,Dt-Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	16.08.1991
557	Nalwaya Shihirkumar/Sh Bharatsinh	GujSVC/3859/15	42,Akashdip Society,Dahod Town,Dahod--12-389151,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	19.01.1991
558	Rathwa Nehalkumari/Sh Bhavsinh	GujSVC/3860/15	F/56,Sharnam Tenament,Near Swaminarayan Gurukul,Waghodiya Ring Road, Vododara-390019,Dt-Vododara, Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2016	30.09.1992
559	Parmar Arvindkumar/Sh Babulal	GujSVC/3861/15	Old F 32/6,Sardar Krushinagar,Dantiwada Agricultural Univeristy,Dantiwada, Taluka-Dantiwada,Dt-Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	20.06.1992
560	Parmer Girishbhai/Sh Ambabhai	GujSVC/3862/15	Near to Senghvai Temple,Harijan Plot, At-Post-Tadav,Tawav,Dt-Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	05.02.1992

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
561	Patel Ajaykumar/Sh Ganapatbhai	GujSVC/3863/15	41,Raghuvir Society,Behind Umiya Mata Temple, Unjha,Taluka-Unjha, Dt-Mahesana, Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	23.04.1993
562	Patel Brijeshkumar/Sh Pravinbhai	GujSVC/3864/15	51,Tirupati Park Society, At-Vijaypur,Dt-Mehsana-382870,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	16.03.1992
563	Patel Brijeshkumar/ Sh Rameshbhai	GujSVC/3865/15	Sardar Society,Hasnapur, Taluka-Vijaypur, Dt-Mahesana,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	15.01.1992
564	Patel Jankeeben/Sh Kantilal	GujSVC/3866/15	"Veerkrupa Farm House",B/H-Krishna Residency,Ambaji Highway Charrasta,Palanpur,Taluka-Palanpur,Dt-Banaskantha,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	06.12.1992
565	Patel Jaydipkumar/Sh Ramanbhai	GujSVC/3867/15	Navuparu, At- Bajipura, Post-Kuvasana, Ta-Visnagar Dt-Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	12.06.1991
566	Patel Kajalben/Sh Somabhai	GujSVC/3868/15	B/8,Shaktinagar Society,behind S.T.Workshop,Becharpura,Palanpur, Taluka-Palanpur, Dt-Banaskantha,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	11.12.1991
567	Patel Maulikkumar/Sh Govindbhai	GujSVC/3869/15	Ishwarnagar(Madhuparu),At-Kamli,Taluka-Songadh,Dt-Tapi,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	03.08.1992
568	Patel Niravkumar/Sh Gamanlal	GujSVC/3870/15	3A/187,Sector-4.Patharda Colony, At: Ukai, Taluka-Songadh, Dt-Tapi,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	31.12.1991
569	Patel Pratikkumar/Sh Vinodbhai	GujSVC/3871/15	C-15,Rajkamal Society, Near Shantiniketen School, Chanasma Highway, Patan, Dt-Patan,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	07.10.1991
570	Patel Rajkumar/ Sh Kanubhai	GujSVC/3872/15	C/20 Tirupati Township,Dharoi Colony Road,Visnagar,Taluka-Visnanagar, Dt-Mahesana,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	08.07.1992
571	Patel Ronakumar/ Sh Kanubhai	GujSVC/3873/15	Nr New Vahanvatima Temple, Laxmipura(Nandasana), Ta-kadi,Dt-Mahesana,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	01.09.1992
572	Pavar Jayeshbhai / Sh Parsotbhai	GujSVC/3874/15	Esurada, At&Post-Hanmatmal,Taluk-Dharampur, Dt-Valsad,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	12.03.1993
573	Prajapati Bhavesh/ Sh Manubhai	GujSVC/3875/15	At-Salempura,PO-Kumbhasan, Ta-Palanpur, Dt-Banaskantha,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	30.07.1993
574	Prajapati Khushbooben/Sh Kirtiben	GujSVC/3876/15	Prajapativas, At-Kumbhasan,Taluka-Palanpur, Dt-Banaskantha,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	26.12.1992
575	Prajapati Ranabhai/ShKanjibhai	GujSVC/3877/15	At: Lorwada,PO- Jamda,Taluka-Tharad,Dt-Banashkantha,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	01.06.1991
576	Rathod Anjaliben/Sh Sureshbhai	GujSVC/3878/15	287, Antiyavas, At-Gadh, Taluka-Palanpur,Dt-Banaskantha,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	03.08.1993
577	Ratnu Devanginiba/Sh Aniruddhasinha	GujSVC/3879/15	9-Shivam Bunglows, B/H-Reliance Petrol Pump,Mehsana Highway Becharaji, Ta- Becharaji, Dt-Mehsan-384210,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	01.01.1993
578	Raval Dishben / Sh Yogeshkumar	GujSVC/3880/15	A/1, Viratnagar, Berna Road, Himmatnagar,Dt-Sabarkantha-383001,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	13.06.1993
579	Saksena Hardikkumar/Sh Yashvantbhai	GujSVC/3881/15	At-Post-Rajpur(Vad),At-Rajpur,Taluk-Vadnagar,Dt-Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	30.07.1992
580	Shaikh Parvez/Sh Ejaz	GujSVC/3882/15	4,Chinar Park,Nr Memon Hall, Juhapura,Sharkhej Road,Ahmedabad-380055,Taluk-	BVSc&AH/SKDAU/2015	21.09.1992

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			Ahmedabad		
581	Soni Tanviben/Sh Mahendrakumar	GujSVC/3883/15	48,Modinagar Society, Gobari Road, Palanpur,Dt-Banaskantha-385001,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	23.11.1992
582	Trivedi Vijayakumar/Sh Rameshbhai	GujSVC/3884/15	At:-Lunal, Taluka-Tharad,Dt-Banaskantha,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	03.04.1993
583	Vaghela Rudabhai/Sh Bhalabhai	GujSVC/3885/15	At:- Jetda, Taluka-Tharad, Dt-Banaskantha,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	11.06.1991
584	Varsat Ashvinkumar/Sh Ramajibhai	GujSVC/3886/15	At-Sajapur,PO-Rajendranagar, Taluka-Himmatnagar,Dt-Sabarkantha,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	08.06.1991
585	Asari Dhavalsinh/Sh Dilipsinh	GujSVC/3887/15	At& PO-Khalwad, Taluka-Bhiloda,Dt-Aravalli,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	01.06.1991
586	Bhabhor Ashvinkumar/Sh Punjabhai	GujSVC/3888/15	Chauhan Faliyu,Dhamarda, At-Dhamarda, Taluka-Dahod, Dt-Dahod,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	30.06.1987
587	Bodar Jaimin/Sh Bhurjibhai	GujSVC/3889/15	A/9, Bansidhar Society,Mahavirnagar,At-Himatnagar, Dt-Sabarkantha,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	07.08.1990
588	Chaudhari Ashok/Sh Devjibhai	GujSVC/3890/15	At-Ankliyara, Ta-Satlasana, Dt-Mehsana-384330,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	06.10.1988
589	Chaudhari Niteshkumar/Sh Jerambhai	GujSVC/3891/15	At-Pandhharmal,Post- Kalibel, Taluk-Waghai,Dt-Dang-Ahwa,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	02.08.1990
590	Jayswal Ravikumar/ Sh Bhikhalal	GujSVC/3892/15	At:-Lakhtar, Ta-Lakhtar,Dt-Surendranagar-382775,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	07.06.1991
591	Kharadi Ravi/Sh Hiralal	GujSVC/3893/15	Block No.-25/5, "CH" Type Sec-29,Gandhinagar-382029,Dt-Gandhinagar,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	30.10.1988
592	Makwana Dharmeshkumar/Sh Bipinbhai	GujSVC/3894/15	Ambica Street, Bhatiel, Ta-Petlad,Dt- Anand,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	14.05.1990
593	Paraghi Sanjaykumar/Sh Lembabbhai	GujSVC/3895/15	230,Dabhi Fali, Khunia, Ta-Amirgardi, Dt-B.K.-385130,Dt-Banaskantha,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	15.01.1989
594	Parmar Mohsinkha/Sh Liyakatkhan	GujSVC/3896/15	E-402,AI-Burooj Flates,Opp-Makarba Police Station,S.G.Highway,Ahmedabad, At-Sarkhej,Dt-Ahmedabad,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	07.01.1991
595	Patel Sachinkumar/Sh Vishnubhai	GujSVC/3897/15	Umiyaparu, At-Sevala,Taluka-Chanasma,Dt-Patan,Gujarat	BVSc&AH/SKDAU/2015	04.09.1990
596	Chaudhary Parth/Sh Jesingbhai	GujSVC/3898/15	Near by PO, At- Takatuka, Taluka-Bhiloda, Dt-Aravalli,Gujarat	BVSc&AH/AAU,Anand /2015	03.05.1993
597	Chhatraliya Jayshreeben/Sh Jayantibhai	GujSVC/3899/15	L/5,Block No-8,Room No.230,Shastrinagar,Naranpura, At-Ahmedabadm	BVSc&AH/AAU,Anand /2015	02.05.1992
598	Chitariya Jhanvi/Sh Mahendrakumar	GujSVC/3900/15	41, Mahalaxmi Society,Near GIDC, Mansa-382845,At-Mansa, Taluka-Mansa, Dt-Gandhinagar,Gujarat	BVSc&AH/AAU,Anand /2015	15.04.1993
599	Dangar Prabhatkumar/Sh Bijalbhai	GujSVC/3901/15	Bavji Sheri Plot, At-Neshda, Taluka-IDAR, Dt-Sabarkhanthan,Gujarat	BVSc&AH/AAU,Anand /2015	22.04.1993
600	Chavda Dhavalkumar/ Sh Pravinbhai	GujSVC/3902/15	At Po- Bhadreser, At-IDAR, Taluk-IDAR, Dt-Sabarkhantha,Gujarat	BVSc&AH/AAU,Anand /2015	10.04.1992
601	Ghiyad Arun/ Sh Jagabhai	GujSVC/3903/15	"Arun",6- Wankaner Housing Society,Jamnagar Road, Rajkot, At- Rajkot, Taluk-Rajkot, Dt-Rajkot,Gujarat	BVSc&AH/AAU,Anand /2015	09.09.1990

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
602	Gori Harishbhai/ Sh Punjabhai	GujSVC/3904/15	At&PO-Godhar(W),Ta-Santarampur,Dt-Mahisagar-389230,Gujarat	BVSc&AH/AAU,Anand /2015	01.06.1989
603	Gondaliya Vaishali/Sh Laljibhai	GujSVC/3905/15	At&Post-Sultanpur,Vasani Plot, Ta-GondalmDt-Rajkot,mGujarat	BVSc&AH/AAU,Anand /2015	06.11.1992
604	Jadav Rahulbhai/Sh Valjibhai	GujSVC/3906/15	Janta Colony, At-Kothamba, Taluka-Lunawada, Dt-Mahisagar,Gujarat	BVSc&AH/AAU,Anand /2015	26.06.1992
605	Joshi Nayankumar/Sh Harishankar	GujSVC/3907/15	"Avadkrupa"152-A,Nr Jain Derasar,Darshan Society,Ahmedabad Highway, At-Shihor,Taluka-Shihor,Dt-Bhavnagar,Gujarat	BVSc&AH/AAU,Anand /2015	15.06.1992
606	Kalaswa Sachinkumar/Sh Mavjibhai	GujSVC/3908/15	422,Kalaswa-Thakarda Fali, Lilchha Patiya,At&PO-Khalvad, Vill-Khalvad, Ta-Bhiloda, Dt-Aravalii-383245,Gujarat	BVSc&AH/AAU,Anand /2015	16.12.1992
607	Karkaria Tushna/Sh Sarosh	GujSVC/3909/15	E/3,Prarthana, Alok, Nr H.L, College, Navrangpura, At-Ahmedabad,Taluka- Ahmedabad, Dt- Ahmedabad,Gujarat	BVSc&AH/AAU,Anand /2015	01.04.1991
608	Kodiyatar Madhuri/Sh Dilipkumar	GujSVC/3910/15	Jalaram Nagar-1, Plot No.-17, Nr Rajiv Nagar Area, B/H Narsang, Tekri PO- GIDC Porbandar-360577,Gujarat	BVSc&AH/AAU,Anand /2015	21.05.1991
609	Kumar Radhika/Sh Ratheesh	GujSVC/3911/15	405 Ashwa Megh, App. Opp- Irma Gate Anand -388001,Gujarat	BVSc&AH/AAU,Anand /2015	02.04.1992
610	Manvar Nikunj Kumar/ Sh Bhagvanjibhai	GujSVC/3912/15	At:-Navda, Ta-Vanthali, Dt-Junagadh, At-Navda, Taluka-Vanthali, Dt-Junagadh,Gujarat	BVSc&AH/AAU,Anand /2015	18.05.1992
611	Mistry Urvish/Sh Pravinbhai	GujSVC/3913/15	1,Triveni Park,Opp-Kaira CanQtrs., Kailash Farm Road, Ganesh Chowkdi,At-Anand, Taluka-Anand, Dt-Anand,Gujarat	BVSc&AH/AAU,Anand /2015	09.12.1992
612	Sangada Noordas/Sh Maganbhai	GujSVC/3914/15	12 Tapnapor, At-Anvarjapura, Taluka-Jhalod, Dt-Dahod,Gujarat	BVSc&AH/AAU,Anand /2015	15.12.1991
613	Pandya Shailee/Sh Manishkumar	GujSVC/3915/15	5-Sambhavnath Society, Gayatri Mandir Road, Mahavir Nagar,At_Himmatnagar, Taluka-Himmatnagar, Dt-Sabarkantha,Gujarat	BVSc&AH/AAU,Anand /2015	15.05.1993
614	Parmar Chiragkumar/Sh Chandulal	GujSVC/3916/15	Home No.173, Harijanwas, At &PO- Takatuka, Ta- Bhiloda,Di-Aevalli-383246,Gujarat	BVSc&AH/AAU,Anand /2015	10.05.1992
615	Prajapati Ashokumar/Sh Ramanlal	GujSVC/3917/15	At-Post-Rakhiyal,At-Rakhiyal,Taluka-Modasa, Dt-Arvalli,Gujarat	BVSc&AH/AAU,Anand /2015	05.04.1992
616	Prajapati Atulkumar/Sh Dahyabhai	GujSVC/3918/15	At &Post- Dhanpura, Taluka-Vijapur, Dt-Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/AAU,Anand /2015	03.11.1992
617	Prajapati Kaushal/Sh Babulal	GujSVC/3919/15	D-405, Samarpan Residency, Opp-Sindbad Hotel, Highway Road, At-Kalol, Taluka- Kalol, Dt-Gandhiangar, Gujarat	BVSc&AH/AAU,Anand /2015	10.11.1991
618	Patel Akash/Sh Vinodbhai	GujSVC/3920/15	Block No.229/2,Kishannagar Sector-26,Ghandinagar-382026,Gandhinagar,Gujarat	BVSc&AH/AAU,Anand /2015	10.04.1992
619	Patel Bhaumik/ Sh Narendrabhai	GujSVC/3921/15	4,Narayanpark Society,B/H H.L Commerce College, Opp-Red Rose Hotel, Navarangpura, Ahmedabad,Dt-Ahmedabad,Gujarat	BVSc&AH/AAU,Anand /2015	13.04.1993

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
620	Patel Bipinkumar/Sh Kanubhai	GujSVC/3922/15	At- Narana Muvada, Patel Faliyu, Taluka- Kapadvanj, Dt- Kheda, Gujarat	BVSc&AH/AAU, Anand /2015	10.06.1992
621	Patel Maulikkumar/Sh Arvindbhai	GujSVC/3923/15	68, Vachalu Faliyu, Salawada, PO- Charangam, Taluka-Lunawada, Dt- Mahisagar, Gujarat	BVSc&AH/AAU, Anand /2015	22.04.1993
622	Patel MayankKumar/Sh Kanaiyalal	GujSVC/3924/15	B/77, Tirupati Township, Near Dharoi Colony, At-Visnagar, Taluka-Visnagar, Dt- Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/AAU, Anand /2015	21.05.1992
623	Patel RahulKumar/Sh Chandulal	GujSVC/3925/15	At&Post- Sangal, Taluka- Meghraj, Dt- Arvalli, Gujarat	BVSc&AH/AAU, Anand /2015	04.08.1992
624	Patel Shvetababen/Sh Naginbhai	GujSVC/3926/15	At&Post- Kesharganj, Ta- Vadali, Dt-Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/AAU, Anand /2015	22.06.1993
625	Pateliya Dipakkumar/Sh Shamjibhai	GujSVC/3927/15	215, Dayapark Society, Near Jayambe School, L.H Road, Varachha Road, Surat, Dt- Surat, Gujarat	BVSc&AH/AAU, Anand /2015	23.03.1993
626	Rathod Ashokbhai/Sh Manubhai	GujSVC/3928/15	Near Milk Dairy, At: Olak, Taluka-Lakhatar, Dt- Surendernagar, Gujarat	BVSc&AH/AAU, Anand /2015	30.10.1992
627	Rathod Rajeshkumar/Sh Chandubhai	GujSVC/3929/15	229, Opp to navjivan Vidhyalay, Rathod Vas, At- Patnakuva, Taluka-Dehgam Dt- Gandhiagar, Gujarat	BVSc&AH/AAU, Anand /2015	04.08.1992
628	Shah Bansari/Sh Rohitkumar	GujSVC/3930/15	Kalptaru-16, Radhika Park, B/H, Akroti Nagar, Jitodiya Road, Anand-388001, Dt- Anand, Gujarat	BVSc&AH/AAU, Anand /2015	22.08.1992
629	Shah Jimisha/Sh Govindkumar	GujSVC/3931/15	212/213, Welcome Flat, Nr MIG Flat, Opp-Buddhdev Colony, Karelibaug, At- Vododara, Taluka-Vododara, Dt- Vododara, Gujarat	BVSc&AH/AAU, Anand /2015	09.09.1992
630	Solanki Dignesh/Sh Purushottam Bhai	GujSVC/3932/15	H/103, Parmukh Oasis, Near Sargasan Chokdi, At- Gandhinagar, Taluk- Gandhinagar, Dt- Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/AAU, Anand /2015	21.10.1991
631	Vaghamshi Bipinkumr/Sh Gabhrubhai	GujSVC/3933/15	At:- Vekariya, Near Ram Mandir, Taluka-Visavadar, Dt- Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/AAU, Anand /2015	07.04.1992
632	Vaghamashi Dilipkumar/Sh Ghusabhai	GujSVC/3934/15	Vaghamashi Ghusabhai Samatbhai, Khodiyar Mata Na Mandir Pase, At-Vijapadi, Taluka- Savar Kundala, Dt- Amreli, Gujarat	BVSc&AH/AAU, Anand /2015	31.12.1992
633	Visani Hirenkumar/Sh Ramjibhai	GujSVC/3935/15	303, Sopan Apartment, Nirmala Convent Road, Opp -Dr. Kamal Doshi's Hospital, At-Rajkot, Dt- Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/AAU, Anand /2015	05.05.1992
634	Yadav Anjukumari/Sh Jagdishbhai	GujSVC/3936/15	7, Dhanlaxmi Park, Jitodia Road, At-Anand, Dt- Anand, Gujarat	BVSc&AH/AAU, Anand /2015	01.01.1992
635	Zala Bhaveshbhai/Sh Hirabhai	GujSVC/3937/15	Hirabhai Mavjibhai Zala, At- Gujarada, Taluka-Gariyadhar, Dt- Bhavnagar, Gujarat	BVSc&AH/AAU, Anand /2015	09.05.1991
636	Sedhiya Milap/ Sh Gautambhai	GujSVC/3938/15	7, Dev Darshan Bungalows, Nr Somnath Mahadev Temple, Tareti Road, Mehsana-1, Dist- Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/AAU, Anand /2015	02.11.1991
637	Makwana Dixitakumari/Sh Mehulkumar	GujSVC/3939/15	D/87, Prangan Society Near M.G.M School, New Sama Road, At- Vododara, Dt- Vododara, Gujarat	BVSc&AH/AAU, Anand /2015	18.02.1991

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
638	Bhinsara Dharmeshkumar/Sh Babubhai	GujSVC/3940/15	H.No-495, Bhinsra Faliya, At-Nanapondha, Taluka- Kaprada, Dt-Valsad, Gujarat	BVSc&AH/AAU, Anand /2015	28.10.1991
639	Bhoye Ashishkumar/Sh Ramanbhai	GujSVC/3941/15	11, Mamleshwarpark, Kabilpore, Motichovisi, B/H Kanbiwad-396427, Taluka-Navsari, Dt-Navsari, Gujarat	BVSc&AH/AAU, Anand /2015	24.10.1991
640	Goswami Kunjalgiri/Sh Gopalgiri	GujSVC/3942/15	B/21, Rajchandra Soc, Naroda-Kathwada Road, New Naroda, At-Ahmedabad, Taluk-Dashkroi, Dt-Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/AAU, Anand /2015	14.07.1991
641	Malivad Anand/ Sh Kalsingbhai	GujSVC/3943/15	A/28, Kailsahkunj Society, Nanachiloda, Opp-Pushkar Bunglows, Ahmedabad, Taluka-Ahmedabad, Dt-Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/AAU, Anand /2015	15.06.1992
642	Panchal Jaykumar/ Sh Vasantlal	GujSVC/3944/15	Omnagar Society, Modasa Road, Malpur, Dt-Aravalli, Gujarat	BVSc&AH/AAU, Anand /2015	02.02.1992
643	Pandya Prashant/Sh Fatehkumar	GujSVC/3945/15	401, Dwarkesh Residency, Nr Bakrol Gate, Vallabh Vidyanaagar, Dt-Anand, Gujarat	BVSc&AH/AAU, Anand /2015	15.03.1984
644	Rathod Rahul/ Sh Ishvarbhai	GujSVC/3946/15	269 K Chorapa Vistar, At:Nava Vaghaniya, Taluka-Bagasara, Dt-Amreli, Gujarat	BVSc&AH/AAU, Anand /2015	01.04.1991
645	Rathwa Kaushikkumar/Sh Bhavanbhai	GujSVC/3947/15	A/20 Yamuna Nagar, BSNL Telephone Exchange, Dabhai, Taluk-Dabhai, Dt-Vododara, Gujarat	BVSc&AH/AAU, Anand /2015	06.11.1990
646	Barde Anil / Sh Dayaram	GujSVC/3948/15	A/4, Satellite Dairy, Undel Anand, Gujarat-388640, Dt-Anand, Gujarat	BVSc&AH/Dr.PRDKVP, Akola/1998	24.08.1974
647	Patil Shrikant/ Sh Soma	GujSVC/3949/15	Asst. Professor, Department of Animal Nutrition, CVSci, Junagadh Agril Uni, Junagadh, Dt-Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/MA&FSU/2002	22.08.1980
648	Rajesh Kumar/ Sh Ram Sinhasan Singh	GujSVC/3950/15	Assistant Prof. Veterinary College, JAU, Junagadh-362001, Dt-Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/MA&FSU/2007	08.11.1980
649	Marandi Santosh/ Sh Daso Marandi	GujSVC/3951/15	C-3, Type D, Staff Qtrs Junagadh Agril Uni Campus, Motibag Road, Junagadh-362001, Dt-Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/WBUA&FS, Kolkata/2005	19.10.1982
650	Joice P. Joseph/ Sh P.V. Joseph	GujSVC/3952/15	Asstt Prof. COVSc, Junagadh Agril Uni, Junagadh-362001, Gujarat	BVSc&AH/Kerala Agril Uni/2009	13.05.1985
651	Singh Jogendra/Sh Prem Singh	GujSVC/3953/16	Veterinary Hospital, At-Avidha, Near Gram Panchayat, Ta-Jhagadiya, Dt-Bharuch, Gujarat	BVSc&AH/RAJUVASU, Bikaner/2015	05.06.1990
652	Vinay Kant/Sh Vijay Kumar Gupta	HarSVC/2507	#Dept of Vety Pharmacology & Toxicology, LUVAS, Hisar, Haryana	BVSc&AH/CSKHPKV/2006	21.05.1984
653	Ankit Magotra/Sh Kuldeep Raj Mangotra	HarSVC/2508	# Dept of Animal Genetics & Breeding LUVAS, Hisar, Haryana	BVSc&AH/OUAT/2007	15.03.1985
654	Vijay Singh Beniwal/Sh Jay Kishan	HarSVC/2509	#733 VPO Kharia, Teh- Rania, Sirsa, Haryana	BVSc&AH/HAU/2008	25.12.1980
655	Vikas Jyani/Sh Mahender Singh	HarSVC/2510	# VPO Shamsukh, Hisar, Haryana	BVSc&AH/KVA&FSU, Bidar/2015	16.08.1991
656	Sunil Kumar/Sh Babu Lal	HarSVC/2511	#VPO Kairu, Bhiwani, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	10.02.1991
657	Rajbir/Sh Sadhu Ram	HarSVC/2512	#Vill Dhani Thakriya, PO-Hansi, Hisar, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	10.07.1989

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
658	Sanjeev Kumar Nain/SH Baljinder Singh Nain	HarSVC/2513	#2401, Sector 9-11,Hisar, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra /2015	23.03.1992
659	Praveen Kumar/Sh Kapoor Singh	HarSVC/2514	# VPO Rohrai, Rewari, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	11.01.1992
660	Surjeet Singh/ Sh Shri Ram	HarSVC/2515	#VPO Bhirdana,Fatehabad, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	06.09.1990
661	Chhotu Ram/Sh Het Ram	HarSVC/2516	# VPO Jhanwari Teh- Tosham, Bhiwani, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	04.05.1989
662	Sweety/Sh Inder Pal	HarSVC/2517	# 1618 , W.No.-7, Tosham, Bhiwani, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	03.12.1990
663	Sonu/Sh Jaswant Singh	HarSVC/2518	#Vill- Hansawas, Kalan Teh- Badhra, Bhiwnai, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	14.04.1990
664	Sumit/Sh Sham Sunder	HarSVC/2519	# 188, W.No.-12, Ram Nagar Colony, Mandi Dabwali, Sirsa Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	25.02.1991
665	Ambika/Sh Surender Mall	HarSVC/2520	#19 Bisnoi Colony, Hisar, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	24.12.1991
666	Kapishwar/Sh Lal Chand	HarSVC/2521	# Village Bhagwanpur, PO- Kanwal Rewari, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	12.04.1990
667	Umeel/Sh Pradeep Yadav	HarSVC/2522	# 784 VPO Bhanwar, Rewari, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	21.01.1992
668	Dinesh Gulia/Sh Subhash Gulia	HarSVC/2523	#VPO Mehrana Jhajjar, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	20.05.1991
669	Yajesh Kumar/Sh Rajender Singh Mallik	HarSVC/2524	#1562/31, Chhotu Ram, Col.2, Gohaan Road, Opp-Santosh Petro Pump, Sonapat, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	06.08.1992
670	Shahkool /Sh Kasim	HarSVC/2525	# Vill- Sakras Teh - Firozpur Zhirka, Mewat, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	10.04.1988
671	Ajit Verma/ Sh Mahabir Prasad	HarSVC/2526	# VPO Gudha, Mahendragarh, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	13.03.1991
672	Sandeep Joon/Sh Kanwar Singh	HarSVC/2527	# VPO Samchana, Rohtak ,Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	07.11.1988
673	Sumit Kumar/ Sh Jagbir Singh	HarSVC/2528	# 25-B, Adarsh Colony, Hisar Cantt. Hisar,Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	28.08.1992
674	Rahul Brar/ Sh Bhag Mal	HarSVC/2529	# Vill- Bilaspur,PO- Shahzadpur, Teh- Naraingarh, Ambala, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	05.07.1991
675	Rajesh Dalal/Sh Sumer Singh	HarSVC/2530	#VPO Kumbha, Hisar,Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	25.04.1991
676	Rahul/Sh Kashmir Singh	HarSVC/2531	#VPO Bathera,Jhajjar, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	12.12.1991
677	Aman Kamboj/Sh Kashmir Lal	HarSVC/2532	# VPO Neza Della, Khurd Sirsa, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	11.05.1991
678	Neeraj Sharma/Sh Annand Sharma	HarSVC/2533	#VPO- Pali, Mahendragarh, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	03.07.1991
679	Lakshay/Sh Satvir Singh	HarSVC/2534	# 68, Meghdoot Apartments Sector-10 A,Gurgaon, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	23.05.1990
680	Parveen Kumar Ahlawat /Sh Suresh Kumar Ahlawat	HarSVC/2535	# Vill Azad Nagar, PO- Chhuchhakwas, Jhajjar, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	26.09.1990
681	Naveen Kumar/Sh Ram Singh	HarSVC/2536	# Ram Nagar Colony, Gali No-2, Opp Housing Board Nasibpur, Narnaul, Mahendragarh, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	04.10.1991
682	Anil Kumar/ Sh Vijay Singh	HarSVC/2537	# 802 Dhabi Kalan, Fatehabad, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	07.10.1988
683	Priyanka/ Sh Harish Kumar	HarSVC/2538	#160 VPO Kosli, Rewari, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	15.08.1991
684	Manoj/Sh Kamal Singh	HarSVC/2539	# 13/851, Khairpur Colony Hisar Road, Sirsa, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	10.03.1991
685	Hardeep Kalkal/Sh Shri	HarSVC/2540	# VPO Imlota Teh Ch Dadri,	BVSc&AH/KVA&FSU,	12.12.1992

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Bhagwan Kalkal		Bhiwani, Haryana	Bidar/2015	
686	Vikrant Singh/Sh Surjeet Singh	HarSVC/2541	# 682/3, Attari Colony,Nr. Community Centre, HUDA-1, Shahabad ,Kurukshetra, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	22.01.1992
687	Pratibha Maun/Sh Mahavir Singh Maun	HarSVC/2542	# 805, Sector-13, Hisar, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	19.08.1992
688	Naveen Prabha/Sh Balraj Singh	HarSVC/2543	# VPO Jevra, Hisar, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	26.12.1991
689	Ruby Singyh/Sh Rajendra Singh	HarSVC/2544	1677/7, Jawahar Nagar, Duhan Cottage, Patiala Chowk, Jind, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	22.08.1991
690	Sneh Lata Chauhan/Sh Vijay Singh Chauhan	HarSVC/2545	113 Vijaya Colony Society Chowk Jawahar Nagar, Hisar, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	04.08.1991
691	Rauna K Bhardwaj/Sh Somdutt Bhardwaj	HarSVC/2546	W.No.-18, Moh-Kashevass Ch Dadri, Bhiwnai , Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	25.08.1990
692	Kavita /Sh Krishna Kumar	HarSVC/2547	1263/1-A New Mahavir Colony, Hisar, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	27.05.1992
693	Rajpal Kaur/Sh Gurdev Singh	HarSVC/2548	Vill-Bhangu Sirsa ,Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	06.03.1990
694	Pooja/Sh Balwan Singh Kundu	HarSVC/2549	4411 Defence Colony, Jind Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	12.08.1991
695	Rishi Pal/Sh Ram Pal	HarSVC/2550	Railway Colony Line Par Kalanaur, Rohtak, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	04.01.1984
696	Sumit Sardana/ Sh Janak Raj Sardana	HarSVC/2551	134- B, W.NO. 17, Toor Nagar, Tohana, Fatehabad, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	19.12.1988
697	Vikas/ Sh Ved Parkash	HarSVC/2552	Vill-Basra, Hisar, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	15.06.1991
698	Aryan Bhim Sein/Sh Bhagwan Sng	HarSVC/2553	Vill-Bheri, Akbarpur, Teh- Uklana, Hisar,Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	03.04.1989
699	Monika /Sh Ved Prakash Lohan	HarSVC/2554	834/1, Sector -25, Panchkula, Haryana	BVSc&AH/LUVAS,His ar /2015	15.01.1993
700	Jyoti Beniwal/Sh Rajender Singh Beniwal	HarSVC/2555	150 Sector -23, HUDA , Bhiwani, Haryana	BVSc&AH/LUVAS,His ar /2015	22.01.1992
701	Sarita/Sh Kushi Ram	HarSVC/2556	#179, VPO Ramgarh, Nr Govt, School Ramgarh, Rewari, Haryana	BVSc&AH/LUVAS,His ar /2015	07.01.1992
702	Nitin Raheja/Sh Ramesh Chand	HarSVC/2557	352/6, Bhagat Colony,Indri Road, Ladwa, Kuruskhetra, Haryana	BVSc&AH/LUVAS,His ar /2015	23.08.1991
703	Vimal Prakash/ Sh Om Prakash	HarSVC/2558	VPO-Surani (Saray),Teh- Narnaul, Mahendragarh, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	05.03.1991
704	Ramesh Kumar/Sh Munshi Ram	HarSVC/2559	114. W.No.9, Siwani Mandi, Bhiwani, Haryana	BVSc&AH/RUofV&AS, Bikaner /2014	07.12.1989
705	Yadvender Singh /Sh Satender Kumar	HarSVC/2560	Vill-Mumtajpur, Teh- Nahar, Rewari, Haryana	BVSc&AH/RUofV&AS, Bikaner /2014	07.01.1992
706	Sapna Soni/ Sh Subhash	HarSVC/2561	VPO- Kherki Daula, Gurgaon, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	13.07.1992
707	Anuradha Verma/ Sh Amar Singh Verma	HarSVC/2562	VPO-Dharson , Teh - Narnaul, Mahenragarh, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	17.11.1991
708	Vinay Kumar/Sh Dharmvir Singh	HarSVC/2563	VPO-Chhappar Teh - Ch Dadri, Bhiwani, Haryana	BVSc&AH/RUofV&AS, Bikaner /2014	15.10.1992
709	Mukesh Kumar/ Sh Bhoop Singh	HarSVC/2564	Kothi No.-6, Market Committee Complex Nr CMK Girls Clg, Sirsa, Haryana	BVSc&AH/RUofV&AS, Bikaner /2014	19.08.1989
710	Robin/ Sh Ramesh Kumar	HarSVC/2565	111/26,Subhash Nagar,Rohtak Road, Jind, Haryana	BVSc&AH/RUofV&AS, Bikaner /2014	09.02.1991
711	Garima Sharma/ Sh Ramdutt Sharma	HarSVC/2566	40 Sector-5, Gurgaon, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	10.01.1991
712	Baljeet Narwal/Sh Raj Mal	HarSVC/2567	328/29, Model Town, Rohtak, Haryana	BVSc&AH/RUofV&AS, Bikaner /2014	10.02.1986

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
713	Aman Kumar/ Sh Joginder Rana	HarSVC/2568	W.No.-7, ZaildarPatil, Kalayat Kaithal, Haryana	BVSc&AH/RUofV&AS, Bikaner /2014	10.06.1990
714	Amanjot Singh /Sh Jagdish Singh	HarSVC/2569	VPO- Shahpur Begu, Sirsa, Haryana	BVSc&AH/RUofV&AS, Bikaner /2014	07.07.1991
715	Ravinder Saini/ Sh Ratan Lal Saini	HarSVC/2570	VPO-Sardehri, Teh - Barva, Ambala, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	01.04.1992
716	Vikramjeet Singh/Sh Naphesingh	HarSVC/2571	VPO- Chakkan, Teh- Rania, Sirsa Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	23.05.1988
717	RamVir/Sh Chand Ram	HarSVC/2572	1378/3, Gali No. -6, Rajiv Nagar, Gurgaon, Haryana	BVSc&AH/RUofV&AS, Bikaner /2014	02.04.1983
718	Aman Bishla/ Sh Satpal	HarSVC/2573	W.No. 15- Shiv Colony, Safidon, Jind Haryana	BVSc&AH/RUofV&AS, Bikaner /2013	09.09.1991
719	Vikas /Sh Banwari Lal	HarSVC/2574	VPO=Behal , Teh- Loharu, Bhiwnai ,Haryana	BVSc&AH/RUofV&AS, Bikaner /2014	02.06.1992
720	Pardeep Kumar/ Sh Ram Kumar	HarSVC/2575	VPO-Sherla, Teh - Loharu, Bhiwani, Haryana	BVSc&AH/RUofV&AS, Bikaner /2014	05.08.1992
721	Jasveer/ Sh Devender Kumar	HarSVC/2576	VPO-Khaspur, PO- Dublana, Teh-Narnaul, Mahendragarh, Haryana	BVSc&AH/RUofV&AS, Bikaner /2014	01.01.1991
722	Anand Kumar Pandey/ Sh Ram Pd Pandey	HarSVC/2577	TVCC,COVS, LUVAS, Hisar, Haryana	BVSc&AH/JNKVV /2004	05.07.1980
723	Puneet Pal Singh /Sh Nirmal Singh	HarSVC/2578	A-133, National Daily, Researah Institute Karnal, Haryana	BVSc&AH/SKRAU,Bik aner/2010	31.01.1986
724	Karan Goyal/ Sh Bhoj Raj Goyal	HarSVC/2580	1044/12, Indira Colony, Nr Bus Stand., Tohana, Fatehabad, Haryana	BVSc&AH/RUofV&AS, Bikaner /2014	06.03.1990
725	Deepshikha Singh/Sh Sudhri Kumar Chauhan	HarSVC/2581	F-450 (G.F.)Sushant Lok-II, Sector-57,Gurgaon, Haryana	BVSc&AH/RUofV&AS, Bikaner /2014	01.11.1990
726	Nalini Prajapati/Sh Hanuman Pd Prajapati	HarSVC/2582	W.No.-5,Dabwali Road, Kumhar Colony, Ellenabad Sirsa, Haryana	BVSc&AH/IGKVV,Rai pur /2009	09.09.1983
727	Harpreet Singh/Sh Paramjeet Singh	HarSVC/2583	Gill Hospital Uklana, Hisar, Haryana	BVSc&AH/RUofV&AS, Bikaner /2014	08.08.1989
728	Sukhdeep Vohra/Sh Sat Pal Vohra	HarSVC/2584	Dept of Vety Parasitology, COVS, LUVAS,Hisar, Haryana	BVSc&AH/PAU,Ludhia na/1998	16.10.1973
729	Anita Ganguly/ Sh Om Prakash	HarSVC/2585	D-3, NBAGR,Karnal, Haryana	BVSc&AH/PAU,Ludhia na/1999	04.01.1974
730	Amit Dahiya/Sh Ram Pal Dahiya	HarSVC/2586	VPO-Kidholi ,Teh - Kharkhoda, Sonapat, Haryana	BVSc&AH/RUofV&AS, Bikaner /2015	17.06.1988
731	Sushil Dahiya /Sh Ran Pal Dahiya	HarSVC/2587	VPO-Kidholi, Teh- Kharkhoda, Sonapat, Haryana	BVSc&AH/RUofV&AS, Bikaner /2015	27.12.1990
732	Shrikant/Sh Pawan Kumar	HarSVC/2588	1911 Sector -14, Hisar, Haryana	BVSc&AH/RUofV&AS, Bikaner /2011	04.10.1987
733	Rakesh Rana/ Sh Dharamjeet Rana	HarSVC/2589	VPO-Pakasma, Rohtak, Haryana	BVSc&AH/Pondi Uni /2015	28.11.1990
734	Vaibhav Prajapat/ Sh Tej Prajapat	HarSVC/2590	313, Sabga Vill- Saha, Ambala, Haryana	BVSc&AH/KVA&FSU, Bidar/2015	20.10.1992
735	Ekta/ SH Randhir Singh Mallik	HarSVC/2591	997/20, Aya Nagar Colony, Hansi, Hisar, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2015	14.10.1990
736	Dinesh Bisht/ Sh Kewal Singh Bisht	HarSVC/2592	P-505,Tulip Offrs Enclave, EBS, Hisar, Haryana	BVSc&AH/APAU,H'bad /1996	18.10.1971
737	Sanjay Malik/ Sh Risal Singh	HarSVC/2593	534 Sector -17, Faridabad, Haryana	BVSc&AH/HAU,Hisar/ 1988	11.09.1964
738	Ravi Girdhar/ Sh Ghander Prashad Girdhar	HarSVC/2594	534 Sector -17, Faridabad, Haryana	BVSc&AH/HAU,Hisar/ 1988	14.04.1965
739	Sandeep Singh Kashypa/Sh Ranbir Singh	HarSVC/2595	QT 360, Vijay Rattan Vihar, Sector 15-II, Gurgaon, Haryana	BVSc&AH/PAU,Ludhia na/1985	18.03.1962
740	Ashish Sharma/ Sh Ishwer Singh	HarSVC/2596	Vill-Mahrana, PO-Beri, Jhajjar Haryana	BVSc&AH/KVA&FSU/ 2015	24.08.1990

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
741	Hiteshwar Singh Yadav/Sh Rajender Singh Yadav	HarSVC/2597	150 Vill-Rampura, Rewari, Haryana	BVSc&AH/RUofV&AS, Bikaner /2015	26.12.1991
742	Suman Bishnoi/Sh Krishan Kumar	HarSVC/2598	VPO- Sadalpur, Teh- Mandi Adampur, Hisar, Haryana	BVSc&AH/LUVAS, Hisra/2013	19.08.1991
743	Surender Kumar/Sh Churiya Ram	HarSVC/2599	VPO- Matloda Hisar, Haryana	BVSc&AH/GADV&AS U /2015	30.06.1987
744	Narender Sharma/Sh Suresh Chand	HarSVC/2600	VPO-Nangal Choudhary, Teh-Narnaul, Mahendragarh, Haryana	BVSc&AH/GADV&AS U /2015	13.12.1989
745	Patil Chandra Shekhar Santosh/ShPatil Santosh Hari	HarSVC/2601	Dept of Animal Genetics & Breeding LUVAS,Hisar, Haryana	BVSc&AH/MA&FSU, Nagpur /2009	03.10.1984
746	Soni Richa W/o Sh Sanjay Soni	HarSVC/2602	Flat -208, Block-G, Rail Vihar, Gurgaon, Haryana	BVSc&AH/MA&FSU, Nagpur /2013	31.01.1989
747	Surender Pal Sharma/ Sh Hari Singh Sharma	HarSVC/2603	M-10, Indrapasth Colony, Sonapat Road, Rohtak, Haryana	BVSc&AH/PAU,Ludhiana/1969	01.11.1947
748	Jadhav Vijay Jayawant/Sh Jadhav Jayawant Bacharam	HarSVC/2604	10B/2,New Campus, CCS HAU,Hisar, Haryana	BVSc&AH/KKVP/1998	13.06.1976
749	Suresh Kumar Bhardwaj/Sh Rishi Lal Bhardwaj	HarSVC/2605	VPO- Dalamwala,Jind ,Haryana	BVSc&AH/HAU,Hisar/1986	30.09.1964
750	Vikas Khichar/Sh Bhagirath Mal	HarSVC/2607	V.S.I/C,G.V.H Dhab Dhani, Bhiwani, Haryana	BVSc&AH/RAU, Bikaner/ 2009	29.09.1982
751	Samar Singh/ Sh Maharaj Singh	HarSVC/2608	Flat No.106,The castle Apartment Plot No. 36-A, Sector-56, Gurgaon, Haryana	BVSc&AH/GBP&T/1985	14.11.1961
752	Ankush Sihag/Sh Joginder Singh Sihag	HarSVC/2609	# 123/23,Village Haibetpura, Jind, Haryana	BVSc&AH/RAJUVASU, Bikaner/2016	06.05.1991
753	Jugnu Singh/Sh Suresh Kumar	HarSVC/2610	VPO,Gubhana Teh- Bahadurgarh, Jhajjar, Haryana	BVSc&AH/RAJUVASU, Bikaner/2016	17.12.1992
754	Ravinder Phuliya/Sh Ramphal Phuliya	HarSVC/2611	VPO-Urlana Kalan, Teh-Madloda, Panipat, Haryana	BVSc&AH/RAJUVASU, Bikaner/2016	22.04.1992
755	Manjeet Sharma/Sh Kuldeep Sharma	HarSVC/2612	Vill-Harsaru,PO-Garhi, Harsaru, Gurgaon, Haryana	BVSc&AH/RAJUVASU, Bikaner/2016	01.11.1990
756	Arvinder/ Sh Sham Lal	HarSVC/2613	VPO-Nissing(Nr Post Officer), Karnal Haryana	BVSc&AH/RAJUVASU, Bikaner/2016	01.05.1982
757	Yogender Singh/Sh Om Prakash	HarSVC/2614	VPO-Nilaheri Block ,Salhawas, Jhajjar, Haryana	BVSc&AH/RAJUVASU, Bikaner/2016	02.03.1992
758	Dharmendra Chharang/Sh Sushil Kumar	HarSVC/2615	# GVH Tigra, Narnaul, Dist-Mahendragarh, Haryana	BVSc&AH/RAU,Bikaner /2002	02.01.1976
759	Divya Agnihotri/ Sh R.K.Agnihotri	HarSVC/2616	1338, Urban Estate-II, Hisar, Haryana	BVSc&AH/HAU, Hisar /1999	25.10.1975
760	Vikas Verma/ Sh Mahavir Verma	HarSVC/2617	276-P, MGA, Sec 21-P, Mill Gate, Hisar, Haryana	BVSc&AH/RUofV&AS, Bikaner /2016	24.05.1990
761	Correia Salisha Whitney/Sh Correia	HarSVC/2618	Flat No-4, S 20-21, DLF Phase-II,I, Gurgaon, Haryana	BVSc&AH/KVA&FSU, Bidar /2014	19.10.1989
762	Satvir Singh (Lt.Col)/Sh Girdhari Lal	HarSVC/2619	CO 42, Military Vety Hospital , Chandimandir, Panchkula,Haryana	BVSc&AH/CCSHAU, Hisar /1995	30.08.1968
763	Paras/ Sh Mangtu Ram	HarSVC/2620	GVH Village Ottu, Block Rania, Dt-Sirsa, Haryana	BVSc&AH/MAFSU, Nakgpur /2011	04.07.1987
764	Jasjeet Josan/Sh Lt Sh Jaswant Singh Josan	HarSVC/2621	423 First Floor, Sec -23, Huda, Gurgaon, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU, Hisar /1994	25.07.1971
765	Ankita /Sh Virender Singh	HarSVC/2622	V.S. GVH Ranoli, Rewari, Haryana	BVSc&AH/HAU, Hisar /2008	27.11.1984
766	Yogender Kumar Yadav/Sh Hem ChanderYadav	HarSVC/2623	GVH Dulhera Tehsil Bahadurgarh, Dt-Jhajjar, Haryana	BVSc&AH/PAU, Ludhiana/2001	06.08.1976

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
767	Joshi Vinay Ganeshrao/Sh Joshi Ganesh Laxmanrao	HarSVC/2624	10/88, New Campus, CCSHAU Hisar, Haryana	BVSc&AH/MAFSU, Nagpur/2007	14.10.1984
768	Babu Lal Jangir/Sh Bhagirath Mal Jangir	HarSVC/2625	Q.No. 118/72, Old Cmapus, ECS HAU, Hisar, Haryan	BVSc&AH/MAFSU, Nagpur/2007	05.04.1982
769	Kunal Pandit/Sh Chaman Lal	HPSVC/1047/15	Vill-Arnyana, PO- Kotli, Tehsil- Kotli, Dt-Mandi, Himachal Pradesh -175003	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	4.9.1991
770	Deepak Sobti/Sh Subhash Sobti	HPSVC/1048/15	Vill-Baroi, PO-Paddar, Tehsil- Dharmashal, Dt-Kangra, Himachal Pradesh -176052	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	14.07.1992
771	Vinay Singh/Sh Ashok Kumar	HPSVC/1049/15	Vill-Kaswar, PO- Baliah, Tehsil- Barsar, Dt-Hamirpur, Himachal Pradesh -174305	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	11.05.1991
772	Manish Kharwal/ Sh Om Parkash Kharwal	HPSVC/1050/15	H.No.-2, Behind Sr. Sec Govt. School, Ram Chowk, Palampur Dist, Kangra, Himachal Pradesh- 176001	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	28.12.1991
773	Aditya Sharma/ Sh Pyare Lal	HPSVC/1051/15	Vill&PO-Gahar, Teh - Ghumarwin, Dt-Bilaspur, Himachal Pradesh- 174027	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	08.03.1991
774	Pallvi Sharma/ Sh Jagdish Sharma	HPSVC/1052/15	Vill-Kalehri, PO-Bhaderwar, Teshil- Sarkaghat, Dt- Mandi, Himachal Pradesh-175049	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	09.06.1993
775	Jyotsna Chauhan/ Sh M.R.Chauhan	HPSVC/1053/15	Vill-Banaru, PO- Bari Gumanu, Tehsil-Sadar, Dt-Mandi, Himachal Pradesh-175001	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	28.03.1992
776	Tushar Sood/Sh Kulbhushan Sood	HPSVC/1054/15	Block-3, Set No. B-4, H.P.Housing Colony, Strawberry Hill Chotta Shimla-171002, Himachal Pradesh	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	02.04.1991
777	Ankush Kumar/Sh Dharam Chand	HPSVC/1055/15	Vill&PO-Bhatt Samula, Tehsil- Palampur, Dt- Kangra, Himachal Pradesh-176064	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	13.06.1991
778	Pranshu Sharma/ Sh R.P.Sharma	HPSVC/1056/15	Vill-Kotli, PO- Bharwain, Tehsil- AMB, Dist- UNA, Himachal Pradesh -177109	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	14.12.1991
779	Ashish Kumar Sharma/Sh Kamal Dev Sharma	HPSVC/1057/15	Vill-Joh, PO- Chamboh, Tehsil- Bhoranj, Dt-Hamirpur, Himachal Pradesh-177601	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	30.01.1991
780	Rajat Dutta/ Sh Ashwani Dutta	HPSVC/1058/15	Vill-Lower Arniala, PO-Kotla Kalan, Dist-UNA, Himachal Pradesh-174303	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	08.02.1993
781	Patil Rajendra Damu/Sh Patil Damu Govinda	HPSVC/1059/14	Assistant Professor, Deptt. of Veterinary Pathology, COVAS, CSK, HPKV, Palampur, Himachal Pradesh -176062	BVSc/Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri/99	08.08.1977
782	Rohit Kumar/Sh Shyam Singh	HPSVC/1060/15	Vill&PO-Kolar, Tehsil- Paonta- Sahib, Dt- Sirmau, Himachal Pradesh-173001	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	19.10.1992
783	Preeti Rana/ Sh Parveen Rana	HPSVC/1061/15	Vill-Baskehar, PO-Daroh Tehsil- Palampur Dt- Kangra, H.P -176092	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	13.02.1993
784	Ruchi Malhotra/Sh Dhruv Chand Malhotra	HPSVC/1062/15	Vill-Dhar-Darumka, PO- Kachhera, Teh-Jaising pur, Dist- Kangra, Himachal Pradesh - 176072	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	18.08.1989
785	Tejender Kumar/ Sh Baldev	HPSVC/1063/15	Vill-Kanoun, PO-Nihri, Tehsil- Sunder Nagar, Dist- Mandi, Himachal Pradesh-175038	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	15.05.1991
786	Manvi Chaudhary/ Sh Nek Lal Chaudhary	HPSVC/1064/15	Happy Niwas Lower-11, Panthaghatti, Kasumpti Shimla, Himachal Pradesh-171009	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	11.11.1991

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
787	Yavnika Kashyap/Sh K.L. Kashyap	HPSVC/1065/15	H.No.163/5,Polytechnic College, Haripur Colony,Dundernagar, Mandi, Himachal Pradesh-175018	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	19.01.1993
788	Brij Vanita/Sh Mohinder Paul	HPSVC/1066/15	H.No.294/3,New Colony,Rasmian,, PO-Chatrokhari, Mandi, Himachal Pradesh -175018	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	06.05.1992
789	Monika Sharma / Sh Brij Lal Sharma	HPSVC/1067/15	Vill-Talhar, PO-Nagwain, Tehsil - Aut, Dt- Mandi, Himachal Pradesh-175121	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	18.03.1992
790	Neelam/Sh Pritam Singh	HPSVC/1068/15	Vill-Bhadroun,PO-Chail Chowk,Tehsil-Chachyot,Dt-Mandi,Himachal Pradesh-175028	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	25.02.1992
791	Takshi Rehalia/Sh Vas Dev Rahalia	HPSVC/1069/15	Vill-Kawari,PO&Tehsil-Nagrota Bagwan, Dt- Kangra,Himachal Pradesh -176047	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	02.05.1991
792	Rajeev Kumar Kundal / Sh Baldev Singh	HPSVC/1070/15	Vill&PO-Kachhiari,Tehsil &Dt-Kangra,Himachal Pradesh-176001	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	06.09.1988
793	Sharaya Thakur/ Sh Biri Shing	HPSVC/1071/15	Ward No-5, H.No 48/14,Vill Upper Chhal, PO- Jhaniara, Dt-Hamirpur, Himachal Pradesh-177001	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	07.09.1991
794	Hemlata Gautam/Sh Saligram Gautam	HPSVC/1072/15	Ram Niketan Niwas,Sandal Chakkar,Shimal, Himachal Pradesh-171005	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	03.06.1991
795	Anurag Sharma/Sh Ved Parkash Sharma	HPSVC/1073/15	Vill-Boni,PO- Bhapral,Tehsil-Ghumarwin, Dt-Bilaspur,Himachal Pradesh	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	24.03.1991
796	Neeraj Thakur/ Sh Pawan Thakur	HPSVC/1074/15	Vill-Dhar, PO-Darpa,Tehsil-Sarkaghat, Dt- Mandi, Himachal Pradesh-175042	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	17.09.1992
797	Roshan Lal/Sh Kanshi Ram	HPSVC/1075/15	Vill&PO- Anni(Jadi Deori),Tehsil-Anni Dt- Kullu,Himachal Pradesh-172026	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	26.08.1990
798	Swati Sharma/Sh Purshotam Dass Sharma	HPSVC/1076/15	Vill-Seola, Tehsil-Sadar, Jukhala,Dt-Bilaspur, Himachal Pradesh	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	08.07.1992
799	Shilpa Thakur/Sh Jagir Singh	HPSVC/1077/15	Vill- Patera, PO- Didwan, Tehsil-Barsar, Dt-Hamirpur,Himachal Pradesh-177401	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	20.05.1992
800	Nirdeshika Chaudhary/Sh Tilak Raj Chaudhary	HPSVC/1078/15	Vill-Tangroti,PO-Ramah Tehsil Dharmashala, Dt-Lkangra,Himachal Pradesh-176062-	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	30.10.1990
801	Shagun Mahajan/ Sh Anil Kumar Mahajan	HPSVC/1079/15	Near H.P.State Co-Operative Bank, Ghumarwin, Tehsil-Ghumarwin,Dt-Bilaspur,Himachal Pradesh-174021	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	22.10.1991
802	Deepa Garpha/Sh Tasi Anrup Garpha	HPSVC/1080/15	Vill-Khaknal,Tehsil-Manali,Dt-Kullu, Himachal Pradesh-175143	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	20.08.1990
803	Ashmit Anand/Sh Prem Lal	HPSVC/1081/15	Vill-Dobha,PO-Bran, Tehsil - Manali, Dt- Kullu, H.P-175131	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	22.02.1991
804	Bril Lal/Sh Harda Ram	HPSVC/1082/15	Vill-Harwani, PO-Upper Belhi,Tehsil- Sunder Nagar, Dt-Mandi,H.P-174401	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	20.05.1970
805	Nishant/ Sh Ram Chand	HPSVC/1083/15	Vill-Sapreai,PO-Shiva, Tehsil-Sadar, Dt-Mandi, H.P -175121	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	07.06.1991
806	Vishwjeet Singh Chandel/Sh Vijay Singh Chandel	HPSVC/1084/15	Vill-Kot,PO-Sajaopiupl,Tehsil-Sarkaghat, Dt-Mandi, H.P-175025	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	04.07.1992
807	Sugam Sharma/Sh Sudershan	HPSVC/1085/15	Vill&PO-Raisari,Tehsil & Dt-UNA,H.P-174303	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	09.12.1989

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
808	Naresh Pundir/Sh Vijay Singh	HPSVC/1086/15	Vill&PO-Devamanal Sub,Tehsil-Nohradhar, Dt-Sirmaur,HP-173104	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	20.12.1986
809	Indu Bala/Sh Ravin Singh	HPSVC/1087/15	Vill-Paplog,PO- Sadhot ,Tehsil-Sarkaghat Mandi, HP-176062	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	24.02.1992
810	Shambhavi/Sh Shamsher Singh	HPSVC/1088/15	House No.7/11, Tarna Hills, Mandi, H.P-175001	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	16.12.1991
811	Prince Chauhan/Sh M.S. Chauhan	HPSVC/1089/15	House No.7/11, Tarna Hills, Mandi,HP-175001	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	10.10.1990
812	Swali Mili Kamlesh/Sh Kamlesh J.Swali	HPSVC/1090/15	Lobsang Thubcho, Tibet charity, Animal Care Section, Tengal Wood TCV Handi Crafts Cantt,Dharmashala,Dt-Kangra, H.P-176216	BVSc&AH/MAFSU/2015	01.11.1991
813	Akshay Sharma/Sh Kishore Chand Sharma	HPSVC/1091/15	Vill-Ghuggar,PO-Palampur,Dt-Kangra, H.P-176061	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	23.01.1992
814	Santosh Kumar/Sh Tej Singh	HPSVC/1092/15	Vill-Lot,PO-Birtungal, Teh-Sadar Dt, Mandhi, HP -175001	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	27.07.1990
815	Rahul Gandhi/Sh Randeep Singh	HPSVC/1093/15	Vill-Bhanra,Tehsil-Nohradhar, Dt-Sirmour, H.P-173104	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	28.02.1988
816	Gaurav Ratika/Sh Ravinder Ratika	HPSVC/1094/15	Vill-Barara,PO-Arhal, Tehsil-Rohroo, Dt-Shimla,HP-171207	BVSc&AH/CSKHPKV, Palampur/2015	26.11.1990
817	Surinder Kumar/Sh Roop Chand	HVC/2489	VPO-Jatwar, Teh-Naraingarh, Dist-Ambala, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/94	18.12.1970
818	Renu/Sh Suresh Kumar	HVC/2500	# 1722, Sector-14 P, Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/99	27.09.1977
819	Jitendra Singh/Sh Rajendra Singh	HVC/2502	448, Defence Colony, Hisar, Haryana	BVSc&AH/Rajasthan Agril Uni/2002	15.03.1976
820	Dinesh Mittal/Sh Harbans Lal Mittal	HVC/2505	Asstt.Professor, College Central Laboratory COVS,LUVAS,Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/2001	23.05.1976
821	Tarun Kumar/Sh Pawan Dev	HVC/2506	Deptt of Veterinary Medicine, TVCC, LUVAS,Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/2007	17.09.1983
822	Shreenath Honhaga S/o Sri Kunj Bihari Honhaga	JVC/766/15	Tulsi Niwas Tasar Farm, Madkam Hatu Chaibasa, W.Singhbhum, Jharkhand-833201	BVSc&AH/BAU/2015	10.11.1989
823	Abhishek Yadav S/o Late Rajdeo Yadav	JVC/767/15	Manoharpur, Chakardharpur, W.Sinhbhum, Jharkhand-833104	BVSc&AH/BAU/2015	02.02.1989
824	Kundan Kumar S/o Sri Priyabrat Singh	JVC/768/15	Nirmala Nilayam,Raveeta Collony,MGM,Karandih, Dhalbhum,E.Singhbhum,Jharkhand-831018	BVSc&AH/BAU/2015	15.12.1989
825	Leena Kumari D/o Shri Bhedey Munda	JVC/769/15	Kharta,Kairo,Lohardaga,Jharkhand-835301	BVSc&AH/BAU/2015	09.02.1989
826	Hare Ramjee Dinker S/o Shri Damodar Pd Mandal	JVC/770/15	Jyantigram,Mahadevganj, Sahibganj,Jharkhand-816109	BVSc&AH/BAU/2015	02.06.1989
827	Sneha Verma D/o Shri Jitendra Kumar Verma	JVC/771/15	Q.No.E/21/Sector-II,HEC,Dhurwa,Jagarnathpur,Ranchi,Jharkhand-834004	BVSc&AH/BAU/2015	17.06.1991
828	Saroj Kerketta D/o Sri Pankrecius Kerketta	JVC/772/15	Bakrakona,Tongo Chainpur,Gumla,Jharkhand-835206	BVSc&AH/BAU/2015	02.06.1990
829	Navin Kumar S/o Sri Kanhai Ram	JVC/773/15	Rajwadih,Daltonganj,Palam,Jharkhand-822118	BVSc&AH/BAU/2015	16.02.1992
830	Ravi Gyan Suman S/o Sri Sunil Prasad	JVC/774/15	Pandarpalla,B.Polytechnic, Bank More, Dhanbad, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/2015	26.01.1988
831	Ragini Sinku D/o Sri Lalit Kumar Sinku	JVC/775/15	Kansalapos Toli Rugudsai,Jagannathpur,W.Singhbhum, Jharkhand -833203	BVSc&AH/BAU/2015	26.12.1984
832	Navin Kumar S/o Sri	JVC/776/15	Nawtoli Near Gianta Club, Medini	BVSc&AH/BAU/2015	02.12.1988

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Chandreshwar Prasad Singh		Nagar, Palamau, Jharkhand-822101		
833	Geetanjali Kachhap D/o Sri Bale Kachhap	JVC/777/15	Sulanki,Hatia,Jagarnathpur,Namkum,Ranchi, Jharkhand-834003	BVSc&AH/BAU/2015	19.03.1988
834	Dhiraj Kumar S/o Late Maharaj Kumar	JVC/778/15	Pandarpala Bank More, Sadar Dhanbad, Jharkhand-823130	BVSc&AH/BAU/2015	04.02.1982
835	Manisha D/o Sri Sunil Kumar	JVC/779/15	C/o Sri Basant Tirkey,Chauli,Gudu,Ratu, Ranchi, Jharkhand -835222	BVSc&AH/BAU/2015	02.08.1989
836	Tanveer Akhtar S/o Late Naushad Ali Ansari	JVC/780/15	Patra Toli (Lower Lane),R.V.C.Kanke, Ranchi,Jharkhand -834006	BVSc&AH/BAU/2003	05.01.1980
837	H.N. Srinivasa/ S/o H.N Narasimaiah	KarSVC/5244	No.827/6 8th A main Road, Vidyaranyapuram, Bangalore, Tq-Bengalure, Karnataka	20/07/1959	BVSc/UAS Bangalore/1982
838	Muhammed Shiyad K.K/ S/o P. Basheer Ahammed	KarSVC/5246	Flat No.101, No. 4/1, First Floor, Anjum Residency, J.P Nagar, 5th Phase, Bangalore 560078,Karnataka	03.08.1985	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/ 2011
839	Sadiqulla.G.A/ S/o Amaanulla. S.A	KarSVC/5247	No. 1276, 9th ward, B. Block, Gudibande, Tq- Chiekkabalapur, Gudibande-561209,Karnataka	04.02.1991	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2014
840	Padmalaya Das/ D/o Visweswararao Rayala	KarSVC/5248	No.S1, 2nd Floor, Goldwood Apartments, Rahat Bagh, C.V Raman Nagar post, Tq- Bengalure Urban Dt, Bangalore 560093,Karnataka	10.02.1976	BVSc&A.H/AN GRAU/2000
841	Santhosh Gowda.N/ S/o Nijalingappa.L	KarSVC/5249	Jadekunte Village, Challakere, Tq-Chitradurga, Jadekunte-577522,Karnataka	15.12.1989	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2012
842	Swathi.B/ S/o Dr. B.S. Naik	KarSVC/5250	No.857, Hosamane Extension, Chikmagalur 577101, Tq-Chikmagalure, Dt-Karnataka	27.05.1990	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2014
843	Abhilash. H.R/ S/o Ramesh. H.M	KarSVC/5251	I st Cross, Behind PWD Compound, K.H. Nagar, Maddur, Tq- Mandya, Karnataka	22.02.1990	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2013
844	Gajendra Kumar. P.K/ S/o Krishna Murthy. P.H	KarSVC/5252	Tekaavatti, , Holalkare, Tq-Chitradurga, Tekalavatti-577526,Karnataka	15.04.1981	BVSc&AH/UAS Dharwar/2004
845	Basavaraju.K.G/ S/o K.B. Gurubasappa	KarSVC/5253	Chetana, 5th Cross, Ashokanagar,Ashikangar, Tumkur, Tq-Tumkur, Dt-Karnataka	02.01.1941	BVSc/ University of Mysore/1965
846	S.S. Ananda/ S/o S.B. Siddalingappa	KarSVC/5254	Shirangala Village and Post, Kushalnagar Hobli, Somwarapet tq,Shirangala Vill, Somwarpet, Tq-Kodagu, Dt- Karnataka	22.07.1961	B.V.Sc/UAS/ 1984
847	Nagaraja.T.M/ S/o Muniyachari	KarSVC/5255	No.SB5, Bandematta, Kommaghatta main road, Kengeri Satelite Town, Bangalore 560060,Karnataka	10.07.1979	BVSc&AH/ U.A.S.Bangalore/ 2002
848	H.K.Siddalinga Murthy/ S/o Kanchilingaiah	KarSVC/5256	Halasahalli Village, Malavalli, Dhanagur 571430, Malavalli, Tq-Mandya, Karnataka	22.07.1963	B.V.Sc/ UAS.Bangalore/ 1988
849	Vinay.B.A/ S/o Ashok. B.V	KarSVC/5257	No.97, Bhatrahalli Village, Shillergere Post, Bharahalli 563103, Kolar, Tq- Kolar, Dt-Karnataka,	27.04.1990	BVSc&A.H/ KVAFSU Bidar/2012
850	Ballappa.R.Athani/ S/o Rammappa Athani	KarSVC/5258	M-91, Sector-61, Navanagar, Bagalkot 587103, Tq- Bagalkot, Karnataka	23.05.1961	B.V.Sc/ UAS Bangalore/1984
851	Harish.H.P/ S/o Puttanna	KarSVC/5259	Hadinaru Village, Post Hadinaru	23.03.1979	BVSc&AH/UAS,

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			Villa 571301, Najungud, Tq- Mysore, Dt- Karnataka		Bangalore/2003
852	Khade Prasad Sadashiv/ S/o Khade Sadasiv	KarSVC/5260	No.1583/3, New Naik Galli, Khanapur, Belgaum 591302, Belguam, Tq &Dt- Belgaum,Karnataka	16.04.1985	BVSc&A.H/ MAFSU Nagpur/2008
853	Prithviraj/ S/o Shivaraj Kamble	KarSVC/5261	Badarpur, Bhalki, Badarpur 585328, Bhalki, Tq-Bidar, Karnataka	01.10.1985	B.V.Sc&A.H/KV AFSU Bidar/2008
854	Bhishaja Murthy/ S/o Late Ramachandra Murthy	KarSVC/5262	Badavanahalli, Madhugiri 572112, Tq- Tumkar, Dt- Tumkur, Karnataka	25.03.1980	BVSc&AH/U.A. S.Bangalore/2004
855	Kiran.T.S/ S/o Late T. Shivanna	KarSVC/5263	C/o Shruthi Nilaya, 2nd Main, Krishnagar, Kyathsandra Post,Tq &Dt -Tumkur 572104, Karnataka	20.07.1970	B.V.Sc/UAS,Ban galore/1994
856	RajashekharS Mudabagil/S/oSiddarama ppB.Mudabagil	KarSVC/5264	1st Main, Nilakanteshwar Nilaya, 1st Main D Cross, Umashankar Nagar, Ranibennur, Haveri 581115,Karnataka	22.07.1975	BVSc&AH/U.A. S.Bangalore/2000
857	Channa Reddy.C/ S/o Channarayana Reddy	KarSVC/5265	No.151, behind Maralusiddeswara temple, M.G Road, Jaibheemanagar, 8th ward, Chickkabalapu 562101,Karnataka	21.03.1947	BVSc/UAS.Bang alore/1973
858	G.V. Murali Krishna/ S/o Late.G Venkatappa	KarSVC/5266	No.104/2, Shakthi Ganapathi Street, Thanamma Layout, Bilekahalli, Bangalore, Tq- Bengalure Urban Dt, Karnataka	19.07.1964	B.V.Sc/ U.A.S.Bangalore/ 1990
859	Naveen Kumar.V.S/ S/o Sannaiah.V.N	KarSVC/5267	Chennangi Village, Chennayana kote post, Pollibeta, Virajapet Chennaangi 571215, Virajapet, Tq- Kodagu, Karnataka	17.12.1980	BVSc&AH/U.A. S.Bangalore/2004
860	V.V.Bhaskara Rao/ S/o. Pushpa Rao	KarSVC/5268	SIRI, No.1401, 3rdCross, 1st Stage, 2nd Phase, Chandra Layout, Vijayanagar, Bangalore 560040,Karnataka	30.06.1956	BVSc/Andhra Pradesh Agril, Uni/1986
861	K.N.Manjunatha/ S/o Nagappa	KarSVC/5269	No.302, 6th main, 7th Cross, Gokulam, 3rd Stage, Mysore,Karnataka	08.07.1968	BVSc/UAS.Bang alore/1995
862	Dharmappa Rathod/ S/o Bhimappa Rathod	KarSVC/5270	At post, Lingadalli, Muddebihal, Bijapur,Muddebihal- 586116,Bijapur, Tq- Bijapur, Dt- Karnataka	01.06.1980	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2008
863	Divya. N D/o Suresh Reddy C	KarSVC/5271	C/o. No.684, Sri sai krupa, Poorna Pragna Nagar, Banashankari, Bangalore 560061,Karnataka	14.05.1991	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2014
864	Manjunatha B.P/ S/o Nagaraj B.P	KarSVC/5272	No. 98, Prakrthi, 3rd Cross, Bhuvaneshwari Nagar HAF Post 560024,Tq- Bengalure Urban Dt, Karnataka	01.03.1970	BVSc/UAS, Bangalore/1992
865	N.L.Gangadhar/ S/o Sri.N.C.Lingannaiah	KarSVC/5273	No.6, 6th Temple Street, 15th Cross, Malleshwaram Bangalore 560003, Tq- Bengalure Urban Dt, Karnataka	08.11.1945	BVSc/UAS, Bangalore/1968
866	C.S Srinivas/ S/o Late A.Shamanna	KarSVC/5274	No. 74, Pragathi Nilaya, T,B narayanappa, Layout, opp. KEB Office, Doddaballapura, Bangalore 561203, Tq-Bengalure Rural Dt, Karnataka	12.07.1965	BVSc/UAS, Bangalore/1989
867	Bijuprasad.M S/o Late. V.K Manian	KarSVC/5275	No.15, City Residency, Near Sai Temple, Navanagar 580025, Hubli, Tq-Dharwad, Karnataka	27.09.1983	BVSc&AH/ Kerala Agricultural Uni/2008

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
868	Ravi.S.SaligoudarS/o Shivana Gouda Salidgoudar	KarSVC/5276	No.7th Cross, Kalyan Nagar, Dharwar, Kalyan Nagar 580007, Tq- Dharwad, Karnataka	18.12.1969	BVSc/U.A.S Dharwar/1992
869	H.G. Sreenivasa S/o Gajanana Bhatta	KarSVC/5277	At.4.Post, Haniya, Hosanagar 577418, Haniya, Tq- Shimoga, Karnataka	17.08.1964	BVSc/UAS. Bangalore/1988
870	Ravikiran.D S/o Late.K.G. Dakshinamurthy	KarSVC/5278	No.80,G-2,Sai Raghavendra Residency,4th Cross,5th Main, Amarjyothi layout Sanjaynagar-94,Karnataka	29.05.1969	BVSc/UAS. Bangalore/1993
871	Yashavantha.K.L S/o Lakshme Gowda	KarSVC/5279	No.401, 1st Main, 12th Cross, Soundarya Nagar, Nagasandra 560073,Banglore North, Tq- Bengalure Urban Dt, Karnataka	04.01.1968	BVSc/UAS, Bangalore/1992
872	M.K.Venkatesh Hegde S/o Late. M.K.Krishnappa Hegde	KarSVC/5280	No.32, Laxmana Modilia street, ShivajiNagara, Bangalore 560001,,Banglore, Tq-Bengalure Urban Dt, Karnataka	18.02.1942	BVSc/UAS, Bangalore/1968
873	S.Muninarayana/ S/o Sonnappa	KarSVC/5281	No.344 Banagarpet circle, O.T.F Extension, Kolar 563101, Tq- Kolar, Karnataka	12.07.1954	BVSc/UAS. Bangalore/1985
874	Jayaram.M.Chavan/ S/o Motilal Chavan	KarSVC/5282	No.605/86, Pooja Plaza, Anjaneya Badavane, Anjenya Temple, 3rd main, Davangere 577004,,Banglore North, Tq- Bengalure Urban Dt, Karnataka	01.06.1968	BVSc/UAS Dharwar/1992
875	Jaya.S.B/ S/o Sunil Raj.R	KarSVC/5283	B-1303, Mantri Elegance, Bannerghatta Main Road, N.S. Palaya Bangalore 560076,,Banglore,Tq-Bengalure Urban Dt, Karnataka	27.05.1971	BVSc&AH/ Kerala Agri Uni/1995
876	Anil Kumar.B/ S/o C.C. Bette Gowda	KarSVC/5284	No.2296, 2nd Croos, Gandhinagara, Mandya, Gandhinagara 571401,Mandya, Tq-Bengalure Urban Dt, Karnataka	09.04.1977	BVSc&AH/U.A. S. Banglore/2000
877	Ravindranath.S.Sarkar/ S/o Subalchandra	KarSVC/5285	No.7-1-226/A, Valabellary Road, PWD Camp, Sindhanur 584128,Sindhanur, Tq- Raichur, Karnataka	01.06.1966	BVSc/U.A.S Dharwar/1991
878	Manoja.V S/o Venkataravanappa	KarSVC/5286	Billandhalli Village, Kadadanamari Post, Chintamani Kadadanamari 563125, Chinatamani, Tq-Chickballapura, Dt-Karnataka	21.07.1991	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2014
879	Varadaraju. B.R/ S/o Rangaswamy. B.K	KarSVC/5287	Shantimarga, II nd Crosss, Maruthinagara, 5th Block, Arasikere 573103,Arasiker, Tq- Hassan, Dt -Karnataka	05.02.1981	BVSc&AH/ U.A.S, Bangalore/2004
880	Rani Chako W/o Arun roy Antony	KarSVC/5288	416, Asset aura, Gunjar Village, Varthur hobli, Bangalore east, Gunjar Village, 560087, B'lore East, Tq-Bengalure Urban Dt, Karntaka	23.05.1984	BVSc&AH/KVA &VSU/2008
881	Manohara. B.M/ S/o Mallikarjuna Swamy. B.S	KarSVC/5289	Blank, Belakavadi Malavalli, Belakavadi 571417,Malavalli, Tq- Mandya, Dt- Karnataka	20.07.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
882	Arun.R.T/ S/o Thammaiah. R.S	KarSVC/5290	R.G Koppalu, Kadur, Chickamagalore, R.G. Koppalu 577548,Kadur, Tq- Chickmagalure, Dt- Karnataka	04.06.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
883	Prithviraj. M.S/ S/o Sathyanarayana. M.K	KarSVC/5291	Vani Compound, Lakshmi pura, Arasikere Hassan Arasikere	31.05.1993	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			573103,Arasiker, Tq- Hassan, ,Banglore North, Tq-Bengalure Urban Dt, Karnataka		
884	Surendra.A.G/S/o Govindegowda	KarSVC/5292	No.5913, Anakanahally, K.R. Nagar, Mysore, Anakanahally 571604, K.R.Nagar, Tq- Myosre, ,Banglore North, Tq-Bengalure Urban Dt, Karnataka	01.06.1991	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
885	Shravya.G.S/ S/o Shankar Reddy. G.C	KarSVC/5293	No.2, Imarakunte, Srinivasapura, Kolar, Imarakunte 563135,Srinivasapur, Tq-Kolar, Karnataka	23.05.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
886	Meghashree C.S/ Subrahmanya Bhat C.H	KarSVC/5294	Ganga Sadana, Vidayanagara, Vittal, Bantwal Dakshina Kannada Vittal 574243, Bantwal, Tq- Dakshina Kannada, Dt- Karnataka	24.09.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
887	Nethravathi B.T/ S/o ThimmeGowda H.T	KarSVC/5295	No.693-1, ward No.13, Bhovi Colony, Birur, Kadur Chickmagalore Birur 577116,Kadur, Tq-Chickmagalur, Dt-Karnataka	29.09.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
888	Sahana.M/ S/o Manjunath. E	KarSVC/5296	No.23/370, 1st floor, Bhramaramba extension, 4th Cross, Chamarajanagar, 571313, Tq-Chamarajnagar- 571313,Karnataka	22.02.1993	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
889	Syeda Sumaiya/ S/o Syed Habeebulla	KarSVC/5297	No.510/1, 12th Cross, 3rd Main, K.T.J Nagar, Davangere 577002, Tq- Davanagare, Dt-Karnataka	24.03.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
890	Swetha Reddy.R.V/ S/o Venugopala ReddyRT	KarSVC/5298	No.38, Ramachandrapura, Chikkakurugodu, Gouribidanur 561208,Gouribidanur, Tq- Chickballapura, Dt-Karnataka	09.09.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
891	Biradar Parikshit Baburao/ S/o Baburao Biradar	KarSVC/5299	Wanmarpalli, Aurad, Bidar Aurad 585326,Aurad, Tq- Bidar, Karantaka	10.06.1992	BVSc&AH/MAF SU Nagpur/2014
892	Satbige Ajay Suryakant/ S/o Suryakant	KarSVC/5300	9-10-129, Rampure Colony, Gumpa road, Bidar 585403, Tq- Bidar, Karnataka	18.10.1988	BVSc&AH/MAF SU Nagpur/2012
893	Tarini.N.K/ S/o N.K Kempaiiah	KarSVC/5301	No.821, 2nd Cross, 3rd Phase, 4th Stage, Vijayanagar, Mysore 570018,Tq- Mysore, Karnataka	30.09.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
894	Yashadithya.T.P/ S/o Prabhakaraiah	KarSVC/5302	Thimmanahally, Chikkanayakanhally, Tumkur, Chikkanayakan 572228, Tq- Tumkur, Karnataka	16.12.1990	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
895	Lalith Kumar.J.M/ S/o Manjunatha.J.M	KarSVC/5303	High School Road, Jangmakote, Siddlaghatta, Jangamakote 562102, Tq- Chickballapur, Dt- Karnataka	26.03.1993	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
896	Rajashekhara.S/ S/o Somashekarappa	KarSVC/5304	No. 40, Papenahalli Village, Rayannanahalli Post, Chitradurga 577502, Tq- Chitradurga, Karnataka	05.04.1991	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
897	Chetan B.C/ S/o Chinnaswamy	KarSVC/5305	146, Srirama temple, Bevinally post and village, Bevinally 571402, Tq- Mandya, Dt- Karnataka	19.07.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
898	Roopesh MP/ S/o Prabhuswamy M/S/o Prabhuswamy M	KarSVC/5306	143, Cauvery road, Mullur village and post, Mullur Village- 571442,Kollegal, Tq- Chamarajanagar, Dt- Karnataka	11.06.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
899	Hemanth Kumar M/ S/o Manje Gowda A	KarSVC/5307	140, 1st Phase, 4th stage, Vijayanagara, Mysore,	25.08.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			Vijaynagara, Mysore, Vijayanagara,M, Tq- Mysore, Karnataka		
900	Anantha Naik S/ S/o Somla Naik	KarSVC/5308	144. Tharalaghatta, Chikkajogihally post, 577214,Shikaripura, Tq- Shimoga, Dt-Karnataka	20.06.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
901	Vasanthkumar H G/ S/o Gangadharappa HM	KarSVC/5309	Shree Shivalya, Halenally, Halkurke post, 572201, Shikaripura, Tq-Shimoga, Dt- Karnataka	25.03.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
902	Geetha N/ D/o Nigappa M	KarSVC/5310	Aralahally Village, 577527, Hosadurga, Tq- Chitradurga, Karnataka.	23.02.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
903	Vanitha H D/ D/o Devappa S G	KarSVC/5311	C/o Mallappa Araberalin, Hiranyagiri 563236,Yalaburga, Tq- Koppal, Dt-Karnataka	01.06.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
904	KrishnaPrasad G.Koorse/S/o Ganapathi K Koorse	KarSVC/5312	95/A2. Om Beach road, Bandikeri Oni, Near Danish bungalow Gokarna 581326,Kumta, Tq- Uttarqa Kannada, Dt-Karnataka	20.03.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
905	Chetan Gowda U C/ S/o Chandrashekhara	KarSVC/5314	Tank Street, Ummadahalli at post, Ummadahalli 571404,Mandya, Tq- Mandya, Dt-Karnataka	04.04.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
906	Raju PB/ S/o Puttanna BR	KarSVC/5315	034, Main road, Heggere, 577522,Challakare, Tq- Chitradurga, Dt-Karnataka	03.08.1991	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
907	Deeraj Prakash G/ S/o Girish G	KarSVC/5316	35, ward no.1 Hosayalanadu, 577599,Hiriyur, Tq-Chitradurga, Dt-Karntaka	10.12.1991	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
908	Kamalesh Kumar K S/ S/o Sannappa Naik M	KarSVC/5317	Sri Mylareshwara Sadana, near water tank, 5th cross, Gadikoppa 577204,Shimoga, Tq- Shimoga,Karnataka	01.06.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
909	Chaitrashree R S/ D/o Sree Ramappa D	KarSVC/5318	Chaitra Nilaya, K T Mundiappa Badavane, BH road, Kadur 577548, Kadur, Tq- Chickmagalure, Dt-Karnataka	19.05.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
910	Tejaswini K G/ D/o Giridhara K M	KarSVC/5319	Madilu, 148/2, Manganahalli cross, Ullal, Bangalore, Bengalure Urban Dt, Karnataka	23.11.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
911	Savitha R Kashappanavar/ D/o Rudrappa	KarSVC/5320	1476/A, Old Post Office Road, Haveri 581110, Haveri, Tq- Haveri, Tq-Haveri, Karnataka	07.10.1991	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
912	Bharath K R S/o Rajanna H	KarSVC/5321	05, Kuntanahally, Aralumallige Post, Doddaballapur tq, Kuntanahally, 561203,Doddaballapur Tq, Bengalure Rural Dt, Karnataka	18.02.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
913	Bhargavi Prakash D/o Prakash B.S	KarSVC/5322	499/2, B block 3rd Stage, Vijaya nagar, Mysore 570017, Tq- Mysore, Karnataka	25.07.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
914	Chaithra shree A R/ D/o Ramegowda	KarSVC/5323	MIG/11-333, Sumuka Nilaya, KHB layout, Opp Hassan Public School, Sathyamangala, Tq- Hassan, Dt-Karnataka	29.05.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
915	Ananth K/ S/o Krishnamurthy L	KarSVC/5324	121, 2nd F main road, Koramangala 8th block, Bangalore, 560095, Tq- Bengalure Urban Dt, Karnataka	03.11.1991	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
916	Manjunatha BH/ S/o	KarSVC/5325	New Extension, Baragur at	16.06.1992	BVSc&AH/KVA

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Hanumantharayappa		post,Baragur Post, Sira, Tq-Tumkur, Dt- Karnataka		&FSU/ 2015
917	Rajesh S/ S/o Shriamappa N	KarSVC/5326	011, Yennaguru Village, Ngamangala post 562102,Shidlaghatta, Tq-Chickmagalure, Dt-Karnataka	11.06.1991	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
918	Palaksha G M/ S/o Manohara G	KarSVC/5327	466, main road, Issur, Shikaripur tq, 577514, Tq- Shimoga, Dt-Karnataka	26.06.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
919	Pavithra C/ S/o Chandrashekhara G	KarSVC/5328	2/2855, Cowdareddy palya, 2nd cross, Chintamani, 563125,Tq-Chickballapura, Dt-Karnataka	19.12.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
920	Veeresh HB/ S/o Basappa	KarSVC/5329	17/121, Udaya layout, Mangalanahally, Bangalore North, Tq-Bengalure Urban Dt, Karnataka	03.03.1989	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
921	Poornachandra K T/ S/o Thukkoki rao P	KarSVC/5330	458/2, 2nd cross, 2nd ward, Vinayaka extension, K R Nagar Town, 571602, K.R.Nagar, Tq-Mysore, Dt-Karnataka	22.02.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
922	Lohith T S/ S/o Shivaswamy M S	KarSVC/5331	Siddarameshwara nilaya, near Nataka mane, city club, near Sira gate, Tumkur 572106, Tq-Tumkar,Dt-Karnataka	10.11.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
923	Aditi Handa/ D/o Ajay Handa	KarSVC/5332	BD2, 302, White house apartments, 6th main, 15th cross, RT nagar, Beng 560032,Bengaluru, Tq-Bengalure UrbanDt, Karnataka	01.12.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
924	Vinay S S/ S/o Shekarappa T C	KarSVC/5333	Gowdru beedi, Shivani, 577549, Tarikere, Tq-Chickmagalur, Dt-Karnataka	02.10.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
925	Abdul Mateen Wallibhai/ S/o Khajameen Wallibhai	KarSVC/5334	L/301, Madina nagar, Kalkeri, Sindagi Tq, Tq-Bijapur, Karnataka	22.07.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
926	Nijamuddin Kumsagi I/ S/o Alladdin Kumsagi	KarSVC/5335	318, Laxmi temple street, Kokatanur, Sindagi tq,586115,Sindagi Tq., Bijapur, Dt-Karnataka	31.07.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
927	Arun Kumar T R/ S/o Ramakrishne Gowda T M	KarSVC/5336	89, Thinnali, Hogalagere post, Hogal 563138,Srinivasapur, Tq-Kolar, Dt-Karnataka	08.05.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
928	Mahesh M Kumbarki/ S/o Mahantesh S Kumbarki	KarSVC/5337	7th cross, Pampa nagar, Hunashikatti road, Ranebennur, 58115,Tq-Haveri, Dt-Karnataka	09.12.1991	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
929	Balraj. S/ S/o Siddappa S	KarSVC/5338	Matha Pithru nilaya, near Malu Sleepers ltd, Rajajinagar, Birur, 577116,Kadur, Tq-Chickmagalur, Dt-Karnataka	22.04.1993	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
930	Raghuveere D M/ S/o Mallikarjuna DT	KarSVC/5339	290, Uppar thota, Durgavara village and post 577522,Challakere, Tq-Chitradurg, Dt- Karnataka	18.09.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
931	Ajith M C S/o Chandrashekhara Gowda. M	KarSVC/5340	2-180-A, Korambatta, Nadugallu 574218,Sullia, Tq- Dakshina Kannada, Dt- Karnataka	06.07.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
932	Thejas K S/ S/o Siddappa K M	KarSVC/5341	Hosakadajetty village and post, Hosakadajetty-571315, Sullia, Tq-Dakshina Kannada Dt, Karnataka	16.05.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
933	Chennaveerappa/ S/o Sharanappa P Patil	KarSVC/5342	Teggin Oni, Somanal, Chellur post, 583229,Gangavathi, Tq-Koppal, Dt- Karnataka	08.07.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
934	Raghavendra Yelival/ S/o Lokanna	KarSVC/5343	G B Shankar rao nagar, Rattihally 581116, Hirekerur, Tq- Haveri, Dt- karnataka	20.07.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
935	Harshitha C R/ D/o Late Rajappa C D	KarSVC/5344	Thorenoor village and post, 571234,Somwarpet, Tq-Kodagu, Dt-Karnataka	23.12.1991	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
936	Bindhuja B V/ S/o Venkateshappa A M	KarSVC/5345	Belluti village, Malamachanahally post, 562102,Shidlaghatta, Tq- Chickballapura, Dt-Karnataka	30.04.1993	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
937	Abishek K/ S/o Keshava reddy S	KarSVC/5346	Abhinava nilaya, 8th cross extension, Swarna nagar, Robert Sonpet, KGF Kolar 563122,Bangarepet, Tq-Kolar, Dt- Karnataka	28.02.1993	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
938	Guruprasada/S/o Sharana basappa	KarSVC/5347	E/236, Sonaragalli, Nelogi 585310,Jewargi, Tq-Gulbarga, Dt- Karnataka	28.09.1993	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
939	Anil Sindhur/ S/o Shivalingappa	KarSVC/5348	Tubachi at post 587119,Jamakhandi, Tq-Bagalkot, Dt-Karnataka	28.05.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
940	Chetan Satappa Khanapur/ S/o Satappa	KarSVC/5349	1007,near Siddarood math, Kallolli 591224,Gokak, Tq- Belgaum, Karnataka	23.07.1991	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
941	Muddarangaiah M R/ S/o Rangashamaiah	KarSVC/5350	132, Madhyavenkatapura, Mavathur post 572129, Koratagere, Tq-Tumkar, Dt- Karnataka	20.07.1991	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
942	Mahantesh Fakeerappa Meti/ S/o Fakeerappa	KarSVC/5351	534/M/4,KC Nagar, 3rd Crosss, Bailahongal 591102, Tq- Belgaum, Karnataka	05.07.1991	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
943	Yashodha Rathod/Mr.Parashuram Rathod	KarSVC/5352	7/156, Bagdal Tanda, 585226, Bidar, Tq- Bidar, Karnataka	05.12.1993	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
944	Kirankumar S/ S/o Suryakumar rao suryan	KarSVC/5353	95, KIADB Housing colony, Naubad, 585402, Bidar, Tq-Bidar, Karnataka	04.03.1993	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
945	Uday Kumar /S/o Dasharath Gajre	KarSVC/5354	13-1-80, near Masjid Ladgeri, Bidar 585401,Tq- Bidar, Dt- Karnataka	08.01.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
946	Vidyadaha B H/ S/o Basavaraj Hadanoor	KarSVC/5355	33/100, Manjunatha Nilaya, Hatti layout, Shahapur road, Jewargi 585310, Tq-Gulbarga, Dt-Karntaka	20.01.1993	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
947	Pannaga P/ S/o Panchaksharaiah C	KarSVC/5356	916/A, Head Post Office Road, Tyagaraj Nagar, Challakere 577522,Tq-Chitradurga, Dt- Karnataka	27.11.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
948	Trupti Suryakant Kattimani D/oSuryakant Kattimani	KarSVC/5357	Suryakant Kattimani, 1/13, Shikar motakapalli, Sale Bernalli post 585306,Chincholi, Tq-Gulbarga,m Dt-Karnataka	23.01.1993	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
949	Patil Rani/D/o Ravindra	KarSVC/5358	Dongardevi School Road, Dongargaon, 585313,Gulbarga,Tq- Gulbarga, Dt-Karnataka	01.06.1991	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
950	Madhu R/ S/o Ramesh H	KarSVC/5359	S Neralakere at post, 577542,Hosadurga, Tq- Chitradurga, Dt- Karnataka	20.04.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
951	Shiva BV/ S/o Venkat Reddy BV	KarSVC/5360	Bhumishettihalli, Gudarmarhalli post, Bhumishettihalli- 563125,Chintamani, Tq- Chickballapura,Dt-Karnataka	10.08.1991	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
952	Nidha/ D/o Imtiyaz	KarSVC/5361	Aqua book centre, bus stand,	02.05.1992	BVSc&AH/KVA

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Ahmed F R		Balehonnur 577112, Nr Pura Tq, Tq-Chickmagalur, Dt-Karnataka		FSU Bidar/2015
953	Dhanraj Gurubasappa Girimal/ S/o Gurubasappa Gi	KarSVC/5362	7-4-256/1, Veerabhadreshwara nilaya, 1st cross, Manahalli road, Kailash layout, Bidar 585401, Bidar, Tq- Bidar, Karnataka	20.08.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
954	Siddashree /D/o Ramesh Swamy	KarSVC/5363	Bhalki, Tq- Bidar, Dt- Karnataka	01.01.1993	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
955	Shivkumar/ S/o Sangram	KarSVC/5364	1-4.main road, Torna, Aurad- B, Tq- Bidar, Torna- 585443, Karnataka	04.06.1989	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
956	Praveen Vijaykumar Mathapati S/o V.K.Mathapati	KarSVC/5365	Shivayogi nilaya, JERE plot, Shanti nagar 1st cross, Athani, 591304, Tq- Belgaum, Dt- Karnataka	20.08.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
957	Malasri G/ D/o Ramanna Gonda	KarSVC/5366	2/99, Chillargi Village- 585401,Bidar, Tq-Bidar, Dt- Karnataka	20.01.1993	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
958	Deepak B Patil/ S/o Basavaraj A Patil	KarSVC/5367	18/4/84, Sangameshwar colony, Chidri road, Bidar, 585401,Bidar, Tq-Bidar, Karantaka	20.11.1991	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
959	Chandrashekar R/ S/o Ramakrishnaiah	KarSVC/5368	79, W. No.25, Jalamangala road, Hanumantha nagar, Ramanagara 562159, Ramanagara, Tq- Ramnagara,Dt-Karnataka	06.03.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
960	Manjunath Adiga N/ S/o Nagaraja Adiga	KarSVC/5369	3-163, Beejadi Village 576222,Kundapura, Tq-Udupi, Dt- Karnataka	18.06.1993	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
961	Anupama K/ D/o Krishnamurthy Y I	KarSVC/5370	Sri Lakshmi ranganatha krupa, near Jyothi home industries, Saraswathipuram, Tumkur 572105, Tq- Tumkar, Karantaka	01.10.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
962	Siddhartha Savale/ S/o Savale Tukaram	KarSVC/5371	Near comitte hall, Torna 585443, Aurad-B,Tq- Bidar, Karnataka	24.04.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
963	Sowmya N/ D/o Nagaraju P	KarSVC/5372	A O Colony Kote, Sidlaghatta 562105,Sidlaghatta, Tq- Chickballapura, Dt-Karnataka	16.02.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
964	Vijay Kumar N/ S/o Nagarajaiah M	KarSVC/5373	143/2, 3rd main road, 9th cross, Chamarajapet 560018, Bengalure, Tq- Bengalure Urban Dt, Karnataka	11.02.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
965	Rashmi K M/ D/o Mahadeva Murthy K R	KarSVC/5374	241, Sri Krishna Dhama, 1st Phase, 4th Stage, Vijaya Nagar, Mysore 570077,Tq-Mysore, Karnataka	27.01.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
966	Shanthala Hubli/ D/o Shambunath Hubli	KarSVC/5375	1192, 6th ward, Behind Government Hospital, Kottur, 583134,Mulbagal, Tq- Kolar, Dt- Karnataka	26.08.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
967	Mallika N/ D/o Nagarja G	KarSVC/5376	3694/3, Sharada girls college road, Muthyalpet 563131,Mulbagal, Tq- Kolar, Karnataka	01.03.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
968	Prasanna B B/ S/o Bettegowda	KarSVC/5377	21, Bharathavalli, Hunsavalli post, Bharathavalli, H-573213,Alur, Tq- Hassan, Dt- Karnataka	11.03.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
969	Priyanka G S/ D/o Shankara Reddy	KarSVC/5378	05, Gudusivaripalli, Yarramvaripalli post, 563135,Srinivaspura, Tq-Kolar, Dt-Karnataka	03.11.1991	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
970	Rahul P A/ S/o Ashwath Narayana	KarSVC/5379	381, Srikara nilaya, 8th cross, Jayanagar Kola 563101, Kolar, Tq- Kolar, Dt-Karnataka	09.05.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
971	Nischith Kumar B/ S/o Baskar B	KarSVC/5380	280, Bank road, Kasaba Hobli, Naganhalli 570003, Mysore, Tq- Mysore, Karnataka	28.01.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
972	Vinit/ S/o Vijaykumar	KarSVC/5381	17-5-41, Kubarwada, Bidar tq, 585401, Bidar, Tq- Bidar, Karnataka	09.12.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
973	Shiashikumar Nagappa Gote/ S/o Nagappa	KarSVC/5382	Santhoshnagar Street, Arehally Post, 573101, Santhoshnagar-573101, Belur, Tq- Hassan, Dt- Karnataka	17.07.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
974	Akash Kadaganchi/ S/o Mallikarjun Kadaganchi	KarSVC/5383	8-322, Marwadi gali, Kirana Bazar, Kalburgi 585401, Kalburgi, Tq- Gulbarga, Dt- Karnataka	01.12.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
975	Arvind Badrinarayanan/ S/o Badrinarayanan K S	KarSVC/5384	111, Srinivas 10th cross, Indira nagar 1st stage. Bengaluru 560038, Bengaluru, Tq- Bengaluru Urban Dt. Karnataka	16.11.1985	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
976	Suraj Koujalagi/ S/o Channappa Koujalagi	KarSVC/5385	201/1, Kalyan Colony, Opp Ganesh Temple, Laxmi Extension, Gokak, Tq- Belgaum, Dt- Karnataka	04.07.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
977	Sangamesh Patil/ S/o Chandrakanth Patil	KarSVC/5386	8-10-78, Akkamahadevi Colony, KEB road, near Megur eye care centre, bidar, 585401, Karnataka	10.08.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
978	Siddesh Patil/ S/o Chandrakanth Patil	KarSVC/5387	8-10-78, Akkamahadevi Colony, KEB road, near Megur eye care centre, bidar, 585401, Karnataka	10.08.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
979	Venkatesh Naik N/ S/o Nagaraj R	KarSVC/5388	Near Veterinay Hospital, Chikkajogi Hally 583126, Kudligi, Tq- Bellary, Dt- Karnataka	27.03.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
980	Dharshan Kumar G T/ S/o Thippeswamy G K	KarSVC/5389	Beside ujjini mata, Rangayana Bagilu, Karuvinakatta circle, Chitradurga 577501, Tq- Chitradurga, Karnataka	22.06.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
981	Achintya Gowtham/ S/o Gowtham M B	KarSVC/5390	53, Abharana, 9th main road, Nagendra Block, BSK 3rd stage, Bengaluru 560050, Tq- Bengaluru-560050, Karnataka	30.07.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
982	Sujith S Nath/ S/o Surendra Nath G	KarSVC/5391	B15, KHB colony, Puttenahally, Yelahanka, Bengaluru, Dt- Karnataka	15.07.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
983	Suhas K S/ S/o Sreenivasaiah K	KarSVC/5392	11, 9th cross, tent road, Sanjeevini Nagar, Mudalapalya, Bengaluru, 560072, Tq- Bengaluru Urban Dt, Karnataka	09.08.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
984	Nagendra Swamy C/ S/o Chandra Shekhar S	KarSVC/5393	12-24, Matadha street, Lingayath area, P G palya, Kollegala tq, Kolle 571457, Kollegala Tq, Tq- Chamarajanagar Dt, Karnataka	18.05.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
985	Shivakumar Swamy S/ S/o Siddaramappa	KarSVC/5394	11/8, Ganeshana Beedi, Shivani, Tarikere tq, 577549, Taarikere Tq, Chickmagalur, Dt- Karnataka	18.05.1975	BVSc/UAS, Bangalore/1997
986	Rajapremashetty K/ S/o Sheenappa Shetty	KarSVC/5395	Kothadi House, Bannadi Post, Bannadi Post-570002, Udipi, Tq- Udipi, Dt- Karnataka	12.07.1955	BVSc/UAS, Bangalore/1992
987	Kaveramma M S/ W/o Umesh K C	KarSVC/5396	1018, 13th main, 3rd Cross, HAL 2nd Stage, Bengaluru 560008, Bengaluru, Tq- Bengaluru Urban dt, Karnataka	20.12.1964	BVSc/UAS, Bangalore/1987
988	Sanjaya Kumar Y R/ S/o Rajanna Y S	KarSVC/5397	120, 4th main, 3rd cross, KGE lay out, New BEL road, Bengaluru 560094, Tq- Bengaluru Urban Dt, Karnataka	20.05.1970	BVSc/UAS, Bangalore/1992

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
989	Chandrakantha/ S/o Venkatachala Beliya B	KarSVC/5398	10-32-D2, Nisarga, Kakkurje road, 2nd Cross, opp L U T lay out, Santhekatte post 576105, Tq- Udupi, Karnataka	07.06.1959	BVSc/UAS, Bangalore/1983
990	B N Mahesh/ S/o Nanjudappa	KarSVC/5399	115/16A, BSK 3rd stage, 3rd phase, 5th block, Banashanakri 560085, Bangalore, Tq- Bengalure Urban Dt, Karnataka	31.07.1973	BVSc/UAS, Bangalore/1997
991	Venkatesh S M/ S/o Malave Gowda	KarSVC/5400	12, S M doddi village, Akkur post, S M doddi vill 562160, Channapatna, Tq- Ramnagara, Dt- Karnataka	10.07.1988	BVSc&AH/KVA &FSU/2011
992	Nagaraja K H/ S/o Hariyappa M R	KarSVC/5401	C/o Radhakrishna Pilli, Baruve road, Ripponpet 577426, Hosangar, Tq- Shimoga, Dt- Karnataka	19.06.1988	BVSc&AH/KVA &FSU/2011
993	Suresh/ S/o Shivalingappa Hachhad	KarSVC/5402	127/8, Biddapur colony, Afzalpur road, Gulbarga, 585103, Gulbarga, Tq- Gulbarga, Dt- Karnataka	28.06.1977	BVSc&A.H/U.A. S. Dharwar/2004
994	Krishnareddy H Khyadad/ S/o Hanumreddi Rkhyadad	KarSVC/5403	Javoor, Navalgund, Tq- Dharwad, Dt- Karnataka	15.06.1962	BVSc&A.H/U.A. S. Bangalore/1988
995	Nishanth H R/ S/o Ravikumar H B	KarSVC/5404	556, 3rd main, 11th cross, WOC road, Mahalakshmi puram, 2nd Stage, Bangalore, 560086, Tq- Bengalure Urban Dt, Karnataka	03.09.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
996	Muniraju H M/ S/o Muniswamaiah	KarSVC/5405	118, Hosapalya, D S Halli Post, Kasaba Hobli, Hosapalya 562131, Magadi, Tq- Ramnagara, Dt- Karnataka	10.05.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
997	Yogesh Gowda S/ S/o Shivalinge Gowda S	KarSVC/5406	K T 728, 13th cross, Chamundeshwari nagar, KEB colony, Mandya 571401, Tq- Mandya, Dt- Karnataka	26.03.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
998	Arpitha R/ D/o Ramakrishnaiah N	KarSVC/5407	Maralur Dinne main road, Shanthi nagar, Tumkur, 572102, Tq- Tumkur, Dt- Karnataka	14.01.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
999	Puneeth kumar D S/ S/o Siddareddy D V	KarSVC/5408	Kollur road, Venkateshwara extension, Srinivasapura, Tq- Kolar, Dt- Karnataka	03.08.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
1000	Ranjitha H B/ D/o Bommanna K	KarSVC/5409	1592, Sri Ranganatha Nilaya, near ring road, Maralur, 572105, Tq- Tumkur, Karnataka	08.03.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
1001	Priyanka V S/ D/o Venkatareddy	KarSVC/5410	1/1271, Tank Bund road, Chintamani 563125, Tq- Chickballapura., Dt- Karnataka	18.12.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
1002	Krystle Chandru Mahabubani D/o C.H. Mahbubani	KarSVC/5411	R-004, Purva park, Jeevanahalli road, Coxtown, Bangalore 560005, Bangalore, Tq- Bengalure Urban Dt, Karnataka	29.07.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
1003	Adnan Shabir/ Sh Shabir Ahmed Khaki	KarSVC/5412	# 120, Veterinary Boy's Hostel, Hebbala, Bangalore- 560024, Karnataka	06.12.88	BVSc&AH/KVA FSU /2015
1004	Sunil Kumar U M/ S/o Manjappa M	KarSVC/5413	Udugere post, 577140, Kadur, Tq- Chickmagalur, Dt- Karnataka	25.05.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
1005	Mahesh P/ S/o Periswamy m	KarSVC/5414	Belaganahalli road, Hosthoralli, 571114, H.D. Kote, Tq- Mysore, Dt- Karnataka	29.06.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
1006	Manu Kurian Mathew/ S/o Reju M Kurian	KarSVC/5415	90, 1st Floor, 3rd main, 1st Block, Rt nagar post-5660032, Bangalore, Tq- Bengalure Urban Dt, Karnataka	16.02.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1007	Karthik K V/ S/o Venkatesh K V	KarSVC/5416	Kolur village, Mudugere post, 562160,Channapatna, Tq-Ramnagar, Dt-Karnataka	02.11.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
1008	Sathisha M C/ S/o Channabasppa M	KarSVC/5417	136, Lingayath beedi, Arundi Post, Honnali tq, 577223,Honnali, Tq-Davanagare, Dt-Karnataka	21.02.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
1009	Vinay T S/ S/o Shivakumar T	KarSVC/5418	Madappa compound, Behind Ganesha temple, near Rangaiana gate, Chitradurga 577501,Chitradurga, Tq-Chitradurga, Dt-Karnataka	11.04.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
1010	Ramith K R/ S/o Rajanna K H	KarSVC/5419	Harave Kallahally Village, Harave post, Gavadagere Hobli, Harave Kallaha 571134,Hunsur, Tq-Mysore, Dt-Karnataka	20.06.1991	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
1011	Manohar N/ S/o Narasimhaiah R	KarSVC/5420	Anjanadri nilaya, GBN road, Kodigenahally at post,Madhugir, Tq-Tumkar, Dt- Karnataka	14.04.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
1012	Suraj Kumar/ S/o Vasudeva B	KarSVC/5421	2-110, Vinamra nilaya, Navagraha colony, Behind VJC Kota, Kotatattu-Kota Village, 576224, Udupi, Tq- Udupi, Karnataka	02.09.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
1013	Nikhil K C/ S/o Channabasappa K M	KarSVC/5422	Temple road, Kanasina katte, Sidlipura post 577301,Bhadravathi, Tq-Shimoga, Dt-Karnataka	20.10.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
1014	Sharath V Sagar/ S/o Virupakashappa N C	KarSVC/5423	DWC 238/B, Infortn of Saint Charles School, Hutha Colony, Bhadravthi 577301,Bhadravathi, Tq-Shimoga, Dt-Karnataka	08.07.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
1015	Greeshma Rao U B/ D/o Nagaraja Rao U B	KarSVC/5424	7/139, Damaskatte, Kinnigoli, Mangalore 574141, Tq-Dakshina Kannada Dt, Karnataka	17.09.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
1016	Pushpa G Malagittimath D/o Goolayya Malaittimath	KarSVC/5425	68, Pushpa nilaya, H T Kulakarni Teachers colony, Rajiv Gandhi Nagar, Gadag 582101,Tq- Gadag, Dt-Karnataka	03.10.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
1017	Mutturaj Yadav E/ S/o Earagariyanna K C	KarSVC/5426	3/1137, Ashirwad nilaya, Bathi Shivanagappa compound, Behind petrol bunk Harihar 577601,Tq-Davanagare, Dt- Karnataka	26.06.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
1018	Sachin K S/o Srinivas K H	KarSVC/5427	2515, Honnalappa Street, T B road, Halepete, Kadur 577548,Kadur, Tq-Chickmagalur, Dt- Karnataka	08.10.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
1019	Santhosh R Malagund/ S/o Ramanna Malagund	KarSVC/5428	78, Kallapur at post 581102,Hangal, Tq- Haveri, Dt-Karnataka	05.05.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
1020	Naveen Kumar B S/ S/o Shivappa B	KarSVC/5429	67, Marikamba road, Issur, 577214,Shikaripura, Trq-Shimoga, Dt-Karnataka	15.02.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
1021	Deepak T/ S/o Thipperudrappa S	KarSVC/5430	Sri Srinivasa nilaya, 2nd stage, Gokula extension, Baddihally 572104, Tumkar, Tq-Tumkar, Dt-Karnataka	20.05.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/ 2015
1022	Punith K V/ S/o Venkatesh R	KarSVC/5431	172, Subhash nagara, K M road, Opp to forest office, Kadur 577548. Tq-Chickmagalur, Dt-Karnataka	21.02.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
1023	Mohammes Ziaulla/ S/o Mohammed Saifulla	KarSVC/5432	PC 12/2, K P C Colony, Marthikotte, Hosanagara tq, 577448,Hosangara, Tq-Shimoga, Dt-Karnataka	05.05.1991	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1024	Madhusuhan S V/ S/o Vrushabendrappa S P	KarSVC/5433	LIG-62, Housing board, Periyapatna 571107, Periyapatna, Tq-Mysore, Dt- Karnataka	24.06.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
1025	Suresh Naik M/ S/o Manjya Naik M	KarSVC/5434	29, near Sevalal temple, Laxmipura, Sattur post 577002, Harapanahalli, Tq- Davanagare, Dt- Karnataka	04.06.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
1026	Basavanagouda R K/S/oRamanagouda U Kadligoudru	KarSVC/5435	Bennegeri, Bharangi post 577413, Sorab, Tq- Shimoga, Dt- Karnataka	01.08.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
1027	Sushanth T R/ S/o Ramaswamy T J	KarSVC/5436	261, Thagachagere village and post, Thagachagere, Channapatna, Tq-Ramnagara, Dt-Karnataka	05.12.1992	B.V.Sc&A.H, KVAFSU Bidar,2015
1028	Shabharisha B/ S/o Basavaraju M	KarSVC/5437	1769, Saraswathipuram, Hunsur 571105, Tq-Mysore, Dt- Karnataka	09.01.1992	B.V.Sc&A.H, KVAFSU Bidar,2015
1029	Muzammil Peerzade S/ S/o Sayed Mehboob Quadri	KarSVC/5438	Badi Kaman road, near republic school, Asar Galli, ward no. 24, Vijayapura 586101, Tq- Vijayapura, Dt- Karnataka	11.04.1992	B.V.Sc&A.H, KVAFSU Bidar,2015
1030	Kiran C R/ S/o Ranganatha C R	KarSVC/5439	Chikkagowja village, Hiregowja post 577168, Chickmagalur, Tq- Chickmagalur, Dt-Karnataka	15.12.1992	B.V.Sc&A.H, KVAFSU Bidar,2015
1031	Prakash Soloni/ S/o Shrikant	KarSVC/5440	307, Home no. 207-547, Saidapur 587312, Mudhol, Tq- Bagalkot, Dt- Karnataka	18.05.1991	B.V.Sc&A.H, KVAFSU Bidar,2015
1032	Mahesh S Hugar/ S/o Sangappa A Hugar	KarSVC/5441	181, near Maruthi temple, Nagur, Ivanagi post, 586203, Basavanan, Bagewadi, Tq-Bijapur, Dt- Karnataka	12.07.1992	B.V.Sc&A.H, KVAFSU Bidar,2015
1033	Vidya M K/ D/o Kusha M L	KarSVC/5442	121, Mallenahally, Kasaba Hobli 573201, Mallenahally-573201, Channapatna, Tq-Hassan, Dt-Karnataka	23.08.1992	B.V.Sc&A.H, KVAFSU Bidar,2015
1034	Darshan C N/ S/o Nanjunde Gowda	KarSVC/5443	44, Siri nilaya, 13th ward, 5th cross Lalithamma Vatara, Saraswathipuram, Hassan 573201, Tq-Hassan, Dt-Karnataka	18.04.1993	B.V.Sc&A.H, KVAFSU Bidar,2015
1035	Lohith M B/ S/o Basavaraju	KarSVC/5444	02, Mattihalli post -572201, Tiptur, Tq- Tumkar, Dt- Karnataka	20.06.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1036	Yashas R Kumar/ S/o Ravindra Kumar	KarSVC/5445	75, 2nd main, Muniramanna block, Ganaganagar, 560032, Bangalore, Tq-Bengaluru Urban Dt, Karnataka	20.04.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1037	Abhijith M S/ S/o Sadashiva	KarSVC/5446	MIG 2, 14, Vanasiri, 1st phase, 1st cross, KHB colony, Jyothinagar, Chikmagalur 577102, Chikmagalur, Tq- Chikmagalur, Dt-Karnataka	27.05.1992	BVSc&A.H/KV AFSU Bidar/2015
1038	Amar N/ S/o Nanjunda Swamy S	KarSVC/5447	28/A, 9th cross, 4th main, 2nd stage, Allannahly layout, Mysore, 570028, Tq- Mysore, Karnatak	25.12.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
1039	Karunakara/ S/o Ningegowda K H	KarSVC/5448	223, kerekodihally, Javagal post, Kerekodihally-573125, Arasikere, Tq-Hassan, Dt- Karnataka	03.09.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
1040	Manjunath G S/ S/o Swamy G H	KarSVC/5449	Sri Manjunatha Swamy Nilaya, Opp. BSNL exchange office, Gorur 573120, Tq-Hassan, Dt- Karnataka	02.07.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
1041	Jyothi S B/ D/o Bhagavan Shankar S G	KarSVC/5450	Srinivasa nilaya, B Katihalli koppalu, Gacanhalli post, B Katihalli kopp-573201, Hassan,,	09.07.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			Tq- Hassan ,Dt-Karnataka		
1042	Kiran M/ S/o Mariswamy B	KarSVC/5451	10th cross, KEB colony, Chamundeshwari nagar, Mandya 571401,Mandya Tq- Mandya, Dt- Karnataka	12.12.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
1043	Namratha K B/ D/o Basavaraju B	KarSVC/5452	226, Garadimane street, Fort area, Kanakapura tq 562117,Kanakapura, Tq- Ramnagara, Dt- Karnataka	07.06.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
1044	Shruthi V R/ D/o Ramachandra N	KarSVC/5453	79, Vangimallu Village, Kadadanamari post, 563125,Chintamnai, Tq- Chickhballapura, Dt- Karnataka	15.06.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
1045	Satish A C/ S/o Chandrashekhara A	KarSVC/5454	15th ward, New Amaravathi, Hospet, Tq- Bellary, Dt-Karnataka	21.02.1993	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
1046	Abhilash P Balaer/ S/o Prakash B	KarSVC/5455	77/1, Marigadago street, Hittala Village, Shimoga 577214,Shikaripura, Tq-Shimoga, Karnataka	29.07.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
1047	Harshitha B/ D/o Boregowda	KarSVC/5456	50, Near Krishna Temple, Kallihusur, Mylanayakanahalli post 562160,Channapatana, Tq- Ramnagara, Dt-Karnataka	09.11.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1048	Ranjan M/ S/o Mahdevaswamy S	KarSVC/5457	293, Alanahalli, Siddartha nagar post, Kasaba hobli, Mysore 570028,Mysore, Tq-Mysore, Dt- Karnataka	22.01.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1049	Naveen Kumar B M/ S/o Manjunath B G	KarSVC/5458	Dwaralu, Lakshmi Sagara Post, Sira tq 572137,Sira, Tq-Tumkar, Dt-Karnataka	01.04.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1050	Tajunnisa M/ D/o Mushtakh Ahamed	KarSVC/5459	Masooma manzil, 86, 3rd cross, 2nd stage, RML nagar, Shimoga 577204,Shimoga, Tq- Shimoga, Karntaka	29.08.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1051	Anusha Kurdekar/Mr.Prakash K.Kurdekar	KarSVC/5460	MIG 15, 1st main, 3rd phase, Press colony, Gopala, Shimoga 577205,Tq-Shimoga ,Dt-Karntaka	18.03.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1052	Triveni M A/ D/o Arkesha	KarSVC/5461	168, Mudugere Village and post, Mudugere- 562160,Channapatna,Tq- Ramnagara, Dt- Karntaka	13.02.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1053	Pradeep R K/ S/o Kariyappa R	KarSVC/5462	Godi rangapura, Shivani R S post, Godi Rangapura-577549,Tarikere, Tq-Chickmagalur, Dt-Karnataka	23.05.1991	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1054	Sharath K P/ S/o Papegowda K M	KarSVC/5463	1821, 2nd cross, Adlimane road, Hassan 573201,Tq-Hassan, Dt- Karnataka	09.02.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1055	Kiran A V/ S/o Venugopal C R	KarSVC/5464	511, Malleshwara nagara, Arasikere 573103,Arasikere, Tq- Hassan, Dt-Karnataka	27.03.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1056	Naveen Kumar R H/ S/o Ramappa Hirekerur	KarSVC/5465	Yattinahalli M K 581109, Hirekerur, Tq-Haveri, Dt-- Karnataka	15.07.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1057	Chandrashekhara G S/ S/o Suryanarayana A V	KarSVC/5466	Gujjanahally, Mudiyanur Post,Gujjanahally- 563101,Mulabagalu,Tq-Kolar, Dt- Karnataka	08.08.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1058	Anjali B N/ D/o Nanjundaiah B G	KarSVC/5467	472, KUDA layout, 2nd block, 1st cross, Tamaka, Kolar, 563101,Kolar, Tq-Kolar, Dt- Karnataka	13.01.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/2015

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1059	Mithun Raj P N/ S/o Nagaraju P L	KarSVC/5468	114, Kaluve road, Panchegowdana Doddi, Keregodu post. Pachegowdana- 571446, Mandya, Tq-Mandya, Dt-Karnataka	13.09.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1060	Ravikiran B R/ S/o Rajaiah B M	KarSVC/5469	Byrapura, Mydhala post, 572104,Tukur, Tq-Tumkur, Dt- Karntaka	01.11.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1061	Anikethana/ S/o Ramesh S	KarSVC/5470	54, 14th cross, Ullal main road, Jnana Bharathi, Muneshwar nagar, Bangalore 560056,Harapanahalli, Tq-Davanagare, Dt-Karntaka	20.05.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1062	Doddabasavana Gouda Uttangi/S/oKotragouda Uttan	KarSVC/5471	Chigatere post, 583127,Harapanahalli, Tq- Davanagare, Dt-Karntaka	01.07.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1063	Lokesh N/ S/o Narayanappa M	KarSVC/5472	29, 8th Cross, Bachappa layout, Basavanapura main road, K R Puram Ben, Bangalore, Tq-Urban, Dt- Karntaka	23.07.2015	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1064	Dinesh M B/ S/o Basavanagowda M S	KarSVC/5473	Arabagatte, Honnali tq, 577217, Honnali Tq, Tq- Davanagare, Dt- Karnataka	20.05.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1065	Yashasvi B Kashipur/ S/o Basavaraj S	KarSVC/5474	106, Kashipura Village,Kashipura Vill-577218,Channagiri, Tq- Davanagare, Dt- Karntaka	24.03.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1066	Vidyasagar/ S/o Narasappa Chatnallikar	KarSVC/5475	1159, Nagora, Bidar,Bidar, Tq- Bidar, Dt- Karnataka	03.08.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1067	Reshma Khanam W/ D/o Waheed Khan	KarSVC/5476	150/4, Fathima masjid road, Thanisandra main road, Saraipalya, Bengaluru 560077,Bengaluru, Tq- Bengaluru Urban Dt, Karnataka	30.10.1991	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1068	Nikith M S S/o Shekhara P	KarSVC/5477	Hosamallangi, Kollegal tq, Hosamallangi-571442,Kollegal, Tq-Chamarajanagar, Dt-Karntaka	25.04.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1069	Mahalingeshwar H S/o Shivamurthy L	KarSVC/5478	92/7, PD Kote, Dharmapura 577546,Hiriyur, Tq-Chitradurga, Dt-Karnataka	04.07.1991	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1070	Suprith Surya/ S/o Suresh	KarSVC/5479	Kuvempu nagar 1st stage, Ballur post, Belur tq, 573115,Belur, Tq- Hassan, Dt-Karnataka	13.03.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1071	Sagar Patil/ S/o Sangappa Patil	KarSVC/5480	2/31, Rekulgi 585227,Bidar, Tq- Bidar, Dt-Karntaka	13.02.1991	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1072	Maneesha H S/ D/o Siddaiah S	KarSVC/5481	SP 163, Gandhi nagar, 10th cross, Mandya dist, 571401,Mandya, Tq- Mandya, Dt-Karntaka	29.08.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1073	Pavana B S/ S/o Sannegowda	KarSVC/5482	Belavadi Village and post,Belavadi-573113, Arakalaguda, Tq-Hassan, Dt- Karnataka-573113	15.03.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1074	Hareesha K M/ S/o Mahadeevappa K M	KarSVC/5483	22, Kadalammagge, K Kittanakere Post, 573117,Arakalaguda, Tq- Hassan, Dt-Karnataka	04.03.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1075	Sagar Lochan B S/o Balalochanna G B	KarSVC/5484	Shakuni Ranganatha nilaya, salagame roadm Northern extension, Hassan 573201,Hassan, Tq-Hassan, Dt-Karntaka	22.02.1993	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1076	Gangadhar P/ S/o Naganna Gowda P	KarSVC/5485	PFA-Mysore, 280, Bogadi Village, Mysore 570026,Mysore, Tq- Mysore, Dt-Karnataka	25.04.1959	BVSc/UAS, Bangalore/1981
1077	Rashmi K R/ D/o Rudrappa K	KarSVC/5486	20/2, Opp Dr Ambedkar High School, C M layout, Hiriyur 577598,Hiriyur,Tq-Chitradurga, Dt-Karnataka	21.05.1993	BVSc&A.H/KV AFSU Bidar/2015

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1078	Harish Kumar S/ S/o Srinivasappa R	KarSVC/5487	102, Manchiganahalli, Mulbagal post and tq, 563131, Mulbagal, Tq-Kolar, Dt-Karnataka	15.11.1993	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
1079	Hemanth R/ S/o Rajashekarappa.S	KarSVC/5488	87, Shree veerabhadreshwar nilaya, main road, Kittur Chennamma Block, New town, Bhadravathi 577301, Tq-Shimoga, Karnataka	25.11.1975	BVSc/U.A.S, Bangalore/1999
1080	Chandrapal Singh K/ S/o Kesar Singh B	KarSVC/5489	203, God Crest Apt. 5/2-2, I-D main, Hebbal, Bangalore, Bengaluru-560032, Begaluru, Tq-Bengaluru Urban Dt, Karnataka	08.08.1955	BVSc/U.A.S. Bangalore/1976
1081	Jagadish B Hiremath/ S/o Basayya Hiremath	KarSVC/5490	Shiva nilaya, College road, Vidya nagar, Hungund 587118, Tq-Bagalkot, Dt-Karnataka	28.08.1980	BVSc&A.H/U.A. S, Dharwar/2003
1082	Shivaramu Keelara Veerappa/ S/o Veerappa	KarSVC/5491	Keelara, Mandya tq, Mandya, Tq-Mandya, Dt-Karnataka	22.11.1982	BVSc&AH/KVA & FSU/2005
1083	Sunil Yadav G P/ S/o Gurulingappa G P	KarSVC/5492	19, Gundumungu 583126, Kudligi, Tq-Bellary, Dt-Karnataka	14.05.1993	BVSc&AH/KVA & FSU/2015
1084	Rakshith T M/ S/o Mylarappa	KarSVC/5493	Girijamma c/o Basvaraju, Chowdeshwari colony, near M G road, Tarikere 577228, Tq-Chickmagaluru, Dt-Karnataka	27.02.1989	BVSc&AH/KVA & FSU/2011
1085	Mallikarjuna M S/ S/o Suryanarayana Setty M L	KarSVC/5494	3291, Ashirwad, 12th main, 4th cross, MCC B Block, Davanagere 577004, Tq-Davanagere, Dt-Karnataka	22.06.1971	BVSc/U.A.S. Bangalore/1995
1086	Prabhudev D K/ S/o Kotrashappa D M	KarSVC/5495	115/4, Netravati Nilaya, Taavaraghatta main road, Shankaraghatta 577451, Bhadravathi, Tq, Dt-Karnataka	17.10.1992	BVSc&AH/KVA FSU Bidar, 2015
1087	Vishwas A/ S/o Anantha Padmanabhaiah K	KarSVC/5497	2/165, Brahmins street, Chikkere, Anekal 562106, Anekal Tq, Tq-Bengaluru Rural, Dt-Karnataka	16.07.1993	BVSc&A.H/KV AFSU Bidar/ 2015
1088	Sadanand Khandekar/ S/o Bharamappa	KarSVC/5498	Siddapur factory quarters, Jamakhandi 587301, Jamakhandi, Tq-Bagalkot, Dt-Karnataka	12..01.1990	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/ 2015
1089	Mohd Mudassar Chanda/ S/o Hafeez Chanda	KarSVC/5499	6-2-176/12, Maniyar Taleem, Bidar 585401, Bidar, Tq-Bidar, Karnataka	12.06.1979	BVSc&A.H/U.A. S. Dharwar/2003
1090	Varalakshmi A/ W/o Dr.Nanjesh B S	KarSVC/5500	03, ward no 10, Behind CESCO, Udayagiri extension, Channarayapat 573116, Tq-Hassan, Dt-Karnataka	25.11.1988	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2012
1091	Arasagond Mallikarjun Dhareppa S/o Arasagond Dhare	KarSVC/5501	C/O I S Kolhar, Sector No. 12, Plot No. 38 C, Behind govt Hospital, Navanagar, Bagalkot 587102, Tq-Bagalkot, Dt-Karnataka	01.06.1989	BVSc&A.H/MA FSU Nagpur/2013
1092	Thejasvi J N/ S/o Nanjudappa J H	KarSVC/5502	1271, 7th cross, 4th main, Chandra layout, Bangalore 560040, Bangalore, Tq- Bengaluru Dt, Karnataka	04.04.1971	BVSc/U.A.S Bangalore/1994
1093	Jayadevappa G K/ S/o Kallappa G S	KarSVC/5503	Subject Matter Specialist- ASC, ICAR- Taralabalu, KVK, LIC colony, Davanagere 577004, Bangalore, Tq-Begaluru Urban Dt, Karnataka	21.01.1966	B.V.Sc/U.A.S Bangalore/ 1988
1094	Prakash S/ S/o Sanjeevappa	KarSVC/5504	Forest Officer, Vidyanagar, Near Sangam theatre, Tavaragera, 583279, Kustagi, Tq- Koppal, Dt-	30.05.1992	BVSc&AH/KVA & FSU/2015

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			Karntaka		
1095	Umesh H/ S/o Hiriyappa	KarSVC/5505	Oorkunte village, Mittur post, Oorkunte Vill-563127, Mulbagal, Tq-Kolar, Dt-Karntaka	18.06.1992	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1096	Prakash H M/ S/o Channaveeraiah H M	KarSVC/5506	Prashanth Nilaya, Kotturu road, Opp PLD bank, Harapanahally, 583131, Tq-Davanagare, Dt-Karnataka	22.01.1984	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1097	Chamaraju/ S/o Sambaiah	KarSVC/5507	Govt. of Karnataka, Anagatti, K G H, H.D. Kote, Tq-Mysore, Dt-Karntaka	01.06.1980	BVSc&AH/UAS Bangalore/2005
1098	Nirnay Murthy N/ S/o Narasimha Murthy M	KarSVC/5508	253, 14th A Cross, A Sector, Yelahanka New Town, Bangalore, 560064, Tq-Bengalure Urban Dt, Karnataka	28.08.1990	BVSc&AH/KVA &FSU/2015
1099	Ralph Francis S Pinto/ S/o Norberri F Pinto	KarSVC/5509	13 Lang Ford Court, 9, Langford Gardens, Richmond Town, Bangalore, 560025, Tq-Bengalure Urban Dt, Karnataka	10.10.1956	BVSc/U.A.S Bangalore/ 1982
1100	Suresh Reddy A V/S/o Vebkataramana Reddy C T K	KarSVC/5510	Anepalli village, Balthumari post 563134, Srinivasapura, Tq-Kolar, Dt-Karnataka	09.03.1990	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
1101	Girish V R/ S/o Venkataramu R V	KarSVC/5511	A312, Suraksha Golden Palms, nayanappana Halli, Arakere, Off Bannerghatta Road, Arakere-560076, Tq-Bengalure Urban Dt, Karnataka	29.06.1964	B.V.Sc/UAS Bangalore/1987
1102	Anuradha Menon E/ W/o Bhagath Sudhir	KarSVC/5512	Jool, Shriram Spurthi Apartments, ITPL main road, Kundalahally, Bangalore 560037, Tq-Bengalure Urban Dt, Karnataka	18.11.1979	BVSc/Kerala Agril University/ 2004
1103	Puttanna M/ S/o Munivenkatappa	KarSVC/5513	125, Vidya Vinayaka nilaya, 4th main, 7th cross, Govindaraj nagar, Bengaluru 560040	22.09.1964	B.V.Sc/U.A.S Bangalore/1995
1104	Bhairappa Ankali/ S/o Suryakant Ankali	KarSVC/5514	2738, Ankali road, Sankeshwar, 591313, Hukkeri, Tq-Belgaum, Dt-Karnataka	28.05.1988	BVSc&AH/KVA &FSU/2012
1105	Ramakrishnaiah P/ S/o Papanna	KarSVC/5515	324, 1st C cross, 3rd main, 6th block, 2nd phase, Banashankari 3rd stage, Bangalore 560085, Tq-Bengalure Urban Dt, Karnataka	16.05.1942	BVSc/U.A.S Bangalore/1966
1106	Rohith S Hegde/ S/o Sadanand N Hegde	KarSVC/5516	C133, Gururupa building, 14th block, Township, Behind Patil hospital, Dandeli 581325, Haliyal, Tq-Karwar, Dt-Karnataka	13.11.1988	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2011
1107	Shameeka Krishna Rao/ S/o Krishna Sharma Rao	KarSVC/5517	8, Nandanam, Royale habitat housing colony, HSR layout, sector2, Bengaluru 560102, Tq-Bengalure Urban Dt, Karnataka	24.09.1992	BVSc&AH/Pondichery University/2015
1108	Mallikarjun/ S/o Shivaji	KarSVC/5518	10/125, near Ram mandir-Goa hotel, Brahmapur, 585103, Gulbarga, Tq-Gulbarga, Dt-Karnataka	25.05.1963	BVSc/U.A.S Bangalore/1993
1109	Yasinsaheb/ S/o Rahimansaheb Jendi	KarSVC/5519	Poojan Oni, Navalgund, 582208, Navalgund, Tq- Dharwad, Dt-Karntaka	13.07.1969	B.V.Sc, U.A.S. Dharwar, 1993
1110	Lalrinmawii Hmar/ S/o Zohming Thanga	KarSVC/5520	A-57, Armes Veng road, Saron Veng, Aizawal, 796001, Tq-Aizawal, Karntaka	10.04.1989	BVSc&AH/Centr al Agri Uni, Manipur/2012
1111	Yashodha D C/ D/o	KarSVC/5521	C/o Vijaya Kumar, Delux road lines, 2nd main raod, New	14.09.1984	B.V.Sc&A.H, KVAFSU Bidar,

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Chidanandaiah D N		Mandipet, Tumkur-572101, Tumkar, Tq-Tumkar, Dt-Karnataka		2009
1112	Patil Supriya/D/o Narasingrao	KarSVC/5524	146, Chambol, Bidar tq, Chambol, 585401, Tq-Bidar, Dt-Karnataka	08.12.1990	B.V.Sc&A.H, MAFSU Nagpur, 2012
1113	Mallasetappa/ S/o Sahukar Hemagiriappa	KarSVC/5525	608, TV centre, Belgaum, Belgaum, Tq-Belgaum, Dt-Karntaka	25.10.1944	B.V.Sc, U.A.S. Bangalore, 1970
1114	Raghu Naik/ S/o Krishna Naik	KarSVC/5526	Beedugondana hally, Dodda tanda, 577213, Beedugondana H-577213, Channagiri, Tq-Davanagare, Dt- Karnataka	20.02.1990	B.V.Sc&A.H, K.V.A & F.S.U, 2012
1115	Manjunath G L/ S/o Lokesha G	KarSVC/5527	06, Belagere, 577231, Channagiri, Tq-Davanagare, Dt-Karnataka	15.07.1980	B.V.Sc&A.H, U.A.S. Bangalore, 2003
1116	Ramesh P B/ S/o Bopaiah P P	KarSVC/5528	YDYA, #605, 3D cross, 6th A main, HRBR layout, Kalyannagar, Bengaluru 560043, Bengalure, Tq-Bengalure Urban Dt, Karntaka	18.09.1966	B.V.Sc, U.A.S. Bangalore, 1989
1117	Srikanth B V/ S/o Veeranna K R	KarSVC/5529	38/27, 1st A cross, 5th block, 3rd phase, Banashankari 3rd Stage, Bengaluru 560085, Bengalure, Tq-Bengalure Urban Dt, Karnataka	22.08.1969	B.V.Sc, U.A.S. Bangalore, 1993
1118	Mohamed Arif/ S/o Abul jabbar	KarSVC/5530	1st main road, Khalandariya nagar, Bhadravathi, 577301, Tq- Shimoga, Dt-Karntaka	19.04.1988	B.V.Sc&A.H, KVAFSU Bidar, 2012
1119	Papegowda/ S/o Chikka makalappa	KarSVC/5531	2429/173, 5th cross, 31st ward, Vapasandra, Chikkaballapur 562101, Chikkaballapura, Tq-Chikkaballapura, Dt-Karnataka	12.05.1964	B.V.Sc, U.A.S. Bangalore, 1991
1120	Sampath Kumar/ S/o Venkatappa	KarSVC/5532	3/58-2, RK Pinky compound, Adyar post, 575007, Mangalore, Tq-Dakshina Kannada Dt, Karnataka	16.08.1958	BVSc/UAS Bangalore/1989
1121	Rajashekhar rao/ S/o Ganapathi rao	KarSVC/5533	808, UPASANA, 2nd cross, Upkar residency layout, Bangalore, Tq-Bangalore, Dt-Karnataka	29.04.1969	BVSc/UAS, Bangalore/1993
1122	Kalgi Sudhakar/ S/o Bandeppa Kalgi	KarSVC/5534	7633/5, Sarvodaya colony, Shivpur cross, Tripurant, Basavakalyan, 585327, Tq- Bidar, Dt-Karnataka	04.08.1987	BVSc&AH/KVA & FSU/2015
1123	Mallikarjun Hundekar/ S/o Shivarudra Hundekar	KarSVC/5535	At post Mole, 591322, Athani, Tq-Belgaum, Dt-Karnataka	27.01.1969	BV.Sc&A.H/U.A .S, Dharwar/1993
1124	Gautham B/ Bayyareddy B	KarSVC/5536	Bhakthara halli, Ullappanahalli post, 563125, Chintamani, Tq-Chickballapura, Dt-Karnataka	07.11.1992	BVSc&AH/KVA & FSU/2015
1125	Satheesha A/ S/o Appaji	KarSVC/5537	Annuru, Bharathinagar post, Annuru-571422, Madduru, Tq-Mandya, Dt-Karnataka	02.06.1981	BVSc&AH/U.A. S, Bangalore/2004
1126	Siddappa/ S/o Peerappa Chavan	KarSVC/5538	362, Gedageri tanda, - 583236, Yelburga, Tq-Koppal, Dt-Karnataka	01.07.1991	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2015
1127	Manu H T/ S/o Thimmaiah H T	KarSVC/5539	28, Primary school road, Taluk Panchayath quarters, Mudigere, 577132, Mudigere, Tq-Chichkmagalur, Dt-Karntaka	15.03.1990	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2012
1128	Shashikant S Budinal/ S/o Somappa Budinal	KarSVC/5540	Ratna nilaya, 11th cross, C V raman road, Devaraj main road, Saraswathipuram, Tumkur, Karnataka	05.04.1967	B.V.Sc/U.A.S. Dharwar/1993
1129	Rangappa H/ S/o	KarSVC/5541	Durgavara, Obalapura post,	13.03.1966	B.V.Sc/U.A.S.

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Hanumanthappa		Dyrgavaram Challakere, Tq-Chitradurga, Dt-Karnataka		Bangalore/1993
1130	Sanjeev Channal/ S/o Pandappa Channal	KarSVC/5542	Aralimatti road, Dhavateshwar, Gokak Tq, Gokak Tq, Tq-Belgaum, Dt- Karnataka	30.03.1968	BVSc/U.A.S. Dharwar/1992
1131	Ravi Naik/ S/o Chandra Naik L	KarSVC/5543	Kalkere village and post, Chowla hiriyur, Kalkere-577180, Kadur, Tq-Chickmagalure, Dt-Karnataka	03.06.1982	BVSc&AH/KVA FSU Bidar/2008
1132	Ramachandra Y Hosamani/Sh Yallappa	KarSVC/5544	Hallad Oni, Khalwad, Navalagund Tq, Khalwad-582208, Navalagund, Tq-Dharwad, Dt-Karnataka	21.07.66	BVSc/UAS, Dharwad/1989
1133	Achut Biradar/ S/o Panduranga rao	KarSVC/5545	123, near Ram mandir, Holsamudra, Aurad B tq, 585417, Aurad B, Tq-Dharwad, Dt-Karnataka	01.01.1993	BVSc&AH/MAF SU Nagpur/2015
1134	Thokchom Santadevi	KarSVC/5546	E 025, Trifesta Erplande, Kumbena, Agrahara road, Nr Ayyappa swamy temple, Belthur, Kadugo-560067, Bengalure, Karnataka	01.03.1978	BVSc&AH/Central Agri Uni./2003
1135	.Kotresh M R/ S/o Rudrappa M K	KarSVC/5547	Sri Kruthanjanam, Behind balaji nursing home, Lakshmeesh nagar, Kadur, Tq-Chickmagalure, Dt-Karnataka	04.06.1974	BVSc/U.A.S., Bangalore/1997
1136	Vijaya Mahantesh B Donammanavar/ S/o Basappa F	KarSVC/5548	Rawatur post, Shirahatti tq, Rawatur Post, Shirahatti Tq, Tq-Gadag, Dt-Karnataka	22.07.1978	BVSc&A.H/U.A.S. Dharwar/2001
1137	Sudhir Diwakar Mutalik Desai/ S/o Diwarkar D Mu	KarSVC/5549	337, 10th cross, G block, Ramakrishna nagar, Mysore, Tq-Mysore, Karnataka	24.03.1966	BVSc&AH/KKV P/1989
1138	Meena S/ D/o Subbaramappa S J	KarSVC/5550	503 A, 2nd E main, 3rd cross, Muthyala nagara, Bangalore, Tq-Bangalore, Karnataka	28.03.1972	BVSc/UAS, Bangalore/1994
1139	Sudhakar Shivagouda Dharmatti/ S/o Shivagouda	KarSVC/5551	Harugeri, Raibag tq, 591220, Raibag Tq- Tq- Belgaum, Dt-Karnataka	23.08.1980	BVSc&AH/U.A.S. Dharwar/2003
1140	Srinivas G/ S/o Govindegowda	KarSVC/5552	Thorekadanahalli, Malavalli tq, Malavalli Tq, Tq-Mandya, Dt-Karnataka	27.08..1980	BVSc&AH/U.A.S. Bangalore/2004
1141	Rajachary K B/ Late S/o Bhadrachary	KarSVC/5553	225, 3rd cross, Gowri pet, Kolar, Tq- Kolar, Karnataka	01.07.1969	BVSc/UAS, Bangalore/1994
1142	Mukund Raghavendra Gajendragad/ S/o Gajendragad	KarSVC/5554	288/15, 14th A cross, Vyalikaval, Bangalore 560003, Tq- Bangalore, Karnataka	18.06.1953	BVSc/UAS, Bangalore/1974
1143	Prakash Kumar N/S/o Raganayakklu N	KarSVC/5555	23, Siddivinayaka Nilaya., 1st main, 2nd cross, Chinnaswamappa Layout, Horamavu, Bengaluru 560043, Karnataka	09.06.1970	BVSc/UAS, Bangalore/1992
1144	Ramakrishna V/ S/o Visveshwara Iyer K S	KarSVC/5556	162, Naganahlli post, Yelahanka hobli, Bangalore North, Bangalore, Tq-Bangalore, Dt-Karnataka	23.03.1945	BVSc&AH/JNK VV Jabblpur/1969
1145	Rajashekhar Patil/ S/o Donkana Gouda Patil	KarSVC/5557	202, Pratima apts, Barakotri, Shivagiri, Dharwad 580007, Tq-Dharwad, Karnataka	25.07.1968	BVSc/U.A.S. Dharwar/1992
1146	Kantaraja Chindera/S/o Onkarappa Chindera	KarSVC/5558	Baleru Village, Kaginelli Post, Beleru Village, Shikaripuram, Tq-Shimoga, Dt-Karnataka	22.07.1981	BVSc&AH/UAS, Bangalore/2004
1147	Cheriyakoya.M/Sh Nallakoya Marakanakhal	LakshaSVC/8/89	Madal House, Amini Island, Lakshadweep	BVSc/UAS, Bangalore/83	10.06.57
1148	HB Warngam Anal S/o Sh HB Alexander Anal	ManipurSVC/477/15	Khambathel Village, Chandel, Dist-795127, Manipur	BVSc&AH/CAU/2013	27.08.1989
1149	Laishram Kipjen S/o Sh	ManipurSVC/478/	Iram Siphai Mayai Leikai,	BVSc&AH/CAU/2015	03.08.1989

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	L.Dhananjoy Singh	15	Wangoi-795123,Manipur		
1150	Nengneikim Baite D/o Sh Thothang Baitek	ManipurSVC/479/15	N.Terakhong Village, Senapati District-795010,Manipur	BVSc&AH/CAU/2015	14.11.1992
1151	Phanjoubam Brojendro Singh S/o Sh Pobitro Singh	ManipurSVC/480/15	Andro, Imphal East, PO- Yairipok-795149,Manipur	BVSc&AH/CAU/2015	05.03.1992
1152	Panreiphy G.S D/o Sh Pemting G.S	ManipurSVC/481/15	Lunghar Village,Ukhrul District-795142,Manipur	BVSc&AH/CAU/2015	10.11.1990
1153	Laishram Arjun Singh S/o Sh L.Dilipkumar Singh	ManipurSVC/482/15	Nambol Awang Leikai PO& P.S Nambol-795134, Manipur	BVSc&AH/CAU/2015	20.03.1991
1154	Huidrom Lakshmi Devi D/o Sh H.Chaoba Singh	ManipurSVC/483/15	Singjamei Makha Sorokhaibam Leikai, Imphal West 795008,Manipur	BVSc&AH/CAU/2015	03.02.1990
1155	Khangembam Rojesh S/o Kh.Daoji	ManipurSVC/484/15	Pishumthong Ningom, Leirak, Imphal West -795001,Manipur	BVSc&AH/CAU/2015	15.07.1991
1156	Mary Ningbiakhoih D/o Sh Thangmang Guite	ManipurSVC/485/15	Zenhang Lamka Churachandpur District-795128,Manipur	BVSc&AH/CAU/2015	03.03.1991
1157	Thounaojam Leena Roy D/o Th. Nabchandra Singh	ManipurSVC/486/15	Kwakeithel Moirangpurel Leikai Imphal,West -795001,Manipur	BVSc&AH/CAU/2015	14.02.1991
1158	Yengkhom Rojita Devi S/o Sh Y.Borjen Singh	ManipurSVC/487/15	Kakching Makha Leikai, Thoubal District-795103,Manipur	BVSc&AH/CAU/2014	13.03.1989
1159	Anupam Chaturvedi/Sh Umesh Kumar Chaturvedi	MPSVC/3163/2015	MIG J-96, Nr Lal Baba Temple, Dhanvantari Naga, Jabalpur, Madhya Pradesh-482003	BVSc&AH/JNKVV/2010	12.08.1986
1160	Nagendra Patil/Shri Radha Kishan Patil	MPSVC/3164/2015	145 Krishna Kunj Colony,Timrani Dist- Harda, Madhya Pradesh-461221	BVSc&AH/JNKVV/2008	11.07.1979
1161	Nishant Kumar/Shri Ashok Prasad	MPSVC/3165/2015	H.No.25,Rudra Colony,Seoni-Malwa, Dt-Hoshangabad, Madhya Pradesh-461223	BVSc&AH/JNKVV/2003	10.11.1983
1162	Upasna Nayak/Sh U.D.Choubey	MPSVC/3166/2015	51 Chandriaka Aashram, Gorakhpur, Jabalpur, Madhya Pradesh-482001	BVSc&AH/JNKVV/1994	01.07.1969
1163	Vipin Patel/Sh Kamlat Patel	MPSVC/3167/2015	Vill-Tarichar Kalan, Teh- Niwari, Dt- Timargarh, Madhya Pradesh-472445	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	29.06.1987
1164	Jai Pratap Singh/ Sh Deen Bandhu Singh	MPSVC/3168/2015	Vill-Pathrouda, PO- Java, Dt- Rewa, Madhya Pradesh-486223	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	01.07.1989
1165	Deepak Singh/Sh Vijay Singh	MPSVC/3169/2015	Vill&PO- Ajargaha,dt-Rewa, Madhya Pradesh -486001	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	21.09.1990
1166	Laxmikant Goyal/Sh Durga Prasad Goyal	MPSVC/3170/2015	Khar Nala Road, Sabalgarh Dist- Morena, Madhya Pradesh -476229	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	01.01.1986
1167	Dinesh Yadav/Sh Shriam Yadav	MPSVC/3171/2015	New Housing Board Colony, Maharajpur Road, Morena, Madhya Pradesh	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	02.09.1986
1168	Sandeep Shrivastava/Sh Omprakash Shrivastava	MPSVC/3172/2015	In front of Gandhi Park, M.S. Road, Joura, Morena, Madhya Pradesh-476221	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	13.08.1988
1169	Hariram Manjhi/Sh Ram Kishan	MPSVC/3173/2015	H.No.100,Sewa Nagar, Near to Park, Gwalior, Madhya Pradesh-474003	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	08.07.1980
1170	Deepak Lal Kumhar/ Sh Jagat Lal Kumhar	MPSVC/3174/2015	Vill&PO-Vyaha Chandiya Road, Umariya, Madhya Pradesh-484660	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	02.06.1990
1171	Ramlal Ganawa/Sh Kachru Ganawa	MPSVC/3175/2015	Vill-Maudipada,PO-Amargah,Teh-Selana, Dt-Ratlam, Madhya Pradesh -457550	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	05.06.1987
1172	Surendra Marskole/Sh Radhe Lal Marskole	MPSVC/3176/2015	Vill-Navegaon Hamesha, PO-Mira M.Pur, Teh- Tirodi, Dt-Balaghat,	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	02.04.1985

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			Madhya Pradesh -481449		
1173	Deepak Ningwal/Shri Dayaram Ningwal	MPSVC/3177/2015	Vill-Jamda, PO-Dharamram, Teh - Dahi, Dt- Dhar, Madhya Pradesh 454331	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	01.06.1989
1174	Anita Baghel/Sh Kan Singh Baghel	MPSVC/3178/2015	Azad Colony, Kukshi Dt, Dhar, Madhya Pradesh-454331	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	22.04.1987
1175	Virendra Vikram Singh/Sh Brijesh Singh	MPSVC/3179/2015	Vill-Dihi, PO- Mangi, The-Tyonthar, Dt -Rewa, Madhya Pradesh-486226	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	15.01.1989
1176	Priya Shukla/Sh Rajeev Kumar Shukla	MPSVC/3180/2015	Balram Nagar Gole Ka Mandir, Gwalior, Madhya Pradesh-474005	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	02.02.1989
1177	Phool Chand Dhurve/Shri Bhadde Lal	MPSVC/3181/2015	School Colony, Samnapur, The & Dt-Dindori, Madhya Pradesh-481778	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	10.05.1989
1178	Narendra Bhaware/Sh Kanhaiya Lal Bhaware	MPSVC/3182/2015	22 Subhash Marg, Badwaha Dt- Khargaon, Madhya Pradesh-451115	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	10.01.1990
1179	Abhishek Mehra/Sh D.K.Mehra	MPSVC/3183/2015	104 A Nav Adarsh Colony, Mr-4, Road, Jabalpur, Madhya Pradesh-482001	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	06.04.1989
1180	Ankit Meshram/Sh Ganesh Prasad Meshram	MPSVC/3184/2015	Vill- Bikha Lamta Raod, Baihar Dt- Balaghat, Madhya Pradesh	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	12.01.1991
1181	Khushboo Jain/Sh Kailash Jain	MPSVC/3185/2015	H.No.2755, Siddh Nagar, Jabalpur, Madhya Pradesh-482003	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	29.12.1989
1182	Devvrat Koshthi/Sh Raj Kumar Koshthi	MPSVC/3186/2015	Triveni Sadan, Dhan Mill Ganj, Gwalior, Madhya Pradesh-474003	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	15.01.1990
1183	Neeraj Singh Thakur/Sh Guljar Singh Thakur	MPSVC/3187/2015	Vill & PO Chhirari, Teh- Rehli, Dt-Sagar, Madhya Pradesh -470227	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	01.07.1988
1184	Himanshu Pratap Singh/Sh Ram Kishore Singh	MPSVC/3188/2015	Vill-Maghradha(Shankarpur),Dt- Ashoknagar, Madhya Pradesh	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	01.07.1990
1185	Divya Tiwari/Sh A.L.Tiwari	MPSVC/3189/2015	Anand Nagar, Rewa, Madhya Pradesh -486001	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	01.02.1991
1186	Anjali Khare/Sh Uday Kumar Khare	MPSVC/3190/2015	MIG-2-17, Deen Dayal Puram, Utteli, Satna, Madhya Pradesh-485001	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	07.12.1991
1187	Neeraj Singh Rajpoot/Sh Rameshwar Dayal Rajpoot	MPSVC/3191/2015	Hallu Colony Naugaon Dist- Chhatarpur, Madhya Pradesh -471201	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	24.04.1990
1188	Alka Suman/Sh Raj Bahadur Suman	MPSVC/3192/2015	In front of Roshan Bhawan, Shivaji Ward, Bina Dist- Sagar, Madhya Pradesh -470113	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	01.07.1990
1189	Gourav Thorat/Sh Arun Thorat	MPSVC/3193/2015	Bala Bai Bazar, Ganga Mandir Gali, Lashkar Gwalior, Madhya Pradesh -474001	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	03.06.1989
1190	Rashmi Kulesh/Sh Karam Singh Kulesh	MPSVC/3194/2015	Vill-Lalpur, PO-Shakka, Dt- Dindori, Madhya Pradesh-481880	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	04.05.1989
1191	Vandana Markam/Sh Netram Markam	MPSVC/3195/2015	PO-Pathari, Block Bichhua, Dt- Chhindwara, Madhya Pradesh-480111	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	26.01.1999
1192	Aarti Salame/Sh Prakash Salame	MPSVC/3196/2015	334, Sanjay Nagar, Deori Janpad Panchayat, Udaipura, Dt- Raisen, Madhya Pradesh-464774	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	07.06.1990
1193	Ruchi Singh Baghel/Sh Rajesh Pratap Singh	MPSVC/3197/2015	Shastri Nagar, Nagod Dt, Satna, Madhya Pradesh-485446	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	05.09.1988
1194	Sachin Singh/Sh Diwakar Singh	MPSVC/3198/2015	Vill-Khamha, PO-Umri ,Govindpur, Teh- Tyonthar, Dt- Rewa, , Madhya Pradesh-486226	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	01.02.1987
1195	Manish Kumar	MPSVC/3199/	Akash Ganga Nagar, Pateri, PO-	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	16.09.1989

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Kushwaha/Sh Sundar Lal Kushwaha	2015	Mahdev, Dt-Satna, Madhya Pradesh-485001	alpur/2015	
1196	Mona Sharma/Sh K.K.Sharma	MPSVC/3200/2015	Vill&PO- Rasmohini(Jaitpur),Shahdole,Madhya Pradesh -484669	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	10.10.1990
1197	Archana Mahobiya/Sh Kaluram Mahobiya	MPSVC/3201/2015	In front of New Court Bairasiya, Bhopal, Madhya Pradesh -463103	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	23.03.1988
1198	Vinita Singh/Sh Pushpraj Singh	MPSVC/3202/2015	H.No.63, Vill-Chorgadi,PO-Naudhiya, Teh- Raipur, Karchu, Dt-Rewa, Madhya Pradesh-486114	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	28.10.1989
1199	Aamrapali Bhimte/Sh Shankar Lal	MPSVC/3203/2015	Ward No.11, Budi Balaghat, Madhya Pradesh-481001	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	07.07.1987
1200	Pramila Kirad/Sh Dhan Singh Kirad	MPSVC/3204/2015	Vill&PO- Avaldaman Teh-Gandhawani Dt- Dhar, Madhya Pradesh-45446	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	18.10.1988
1201	JitendraSingh Tomar/Sh Ramesh Singh Tomar	MPSVC/3205/2015	Girija Bagh, Lmli Naka, Sikandar, KaM.P.U Lashkar Gwalior,,Madhya Pradesh-474001	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	17.12.1992
1202	Saurabh Sen/Sh Ghasi Ram	MPSVC/3206/2015	Badi Takiya, Khargapur, Dt-Tikamgarh, Madhya Pradesh-472115	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	04.01.1991
1203	Manish Kumar Shukla/Sh Yogendra Kumar Shukla	MPSVC/3207/2015	67,Manddi Road No-2,Sabalgarh,Dt-Morena,,Madhya Pradesh-476229	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	17.09.1987
1204	Kirti Singh/Sh Chandra Pal Singh	MPSVC/3208/2015	183,Behind Rubi School,Nehru Colony,Sehore,,Madhya Pradesh-466001	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	24.03.1991
1205	Dirvesh Patel/Sh Babulal Patel	MPSVC/3209/2015	Vill-Prathvipura Ujra,The-Maharajpur, Dt-Chhatarpur,,Madhya Pradesh-471411	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	01.07.1985
1206	Supriya Gupta/Sh Ashok Kumar Gupta	MPSVC/3210/2015	Kamlesh General Store, Sheetlaganj, Indargah, Datia,,Madhya Pradesh-470113	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	15.07.1987
1207	Prerna Thakur/Sh Rameshwar Singh Thakur	MPSVC/3211/2015	Sindhi Colony, Gandhi Ward, Bina Dt-Sagar,Madhya Pradesh-470113	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	23.06.1989
1208	Kalpna Jaiswal/Sh Mohan Lal Jaiswal	MPSVC/3212/2015	H.No.1249, Dwarka nagar, Poorvi Ghamanpur, Jabalpur,,Madhya Pradesh-482001	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	13.08.1988
1209	Mahendrapal Solanki/Sh Pooran Singh Solanki	MPSVC/3213/2015	Pipalrawah, Teh- Sonkachch, Dt-Dewas, Madhya Pradesh-455118	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	11.03.1987
1210	Jyoti Uike/Sh D.R.Uike	MPSVC/3214/2015	New Bajrang Colony, Kevlari, Dt-Seoni, Madhya Pradesh-480994	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	16.12.1991
1211	Pushpesh Kumar Rathore/Sh Ram Prakash Rathore	MPSVC/3215/2015	PO-Mihona, Dt-Bhind, Madhya Pradesh-477335	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	01.07.1988
1212	Rohit Kumar Sitole/Sh Mohan Lal Sitole	MPSVC/3216/2015	Vill-Dhargaon,Teh-Maheshwar, Dt-Khargone, Madhya Pradesh-451221	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	19.10.1986
1213	Tarun Baghel/Sh Keshar Singh Baghel	MPSVC/3217/2015	40 G, Sudama Nagar, E- Sector, Indore, Madhya Pradesh-452009	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	13.04.1990
1214	Onkar Anchal/Sh Sadiya Anchal	MPSVC/3218/2015	Vill-Sondule, Teh- Manavar, Dt-Dhar, Madhya Pradesh- 454446	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	04.02.1986
1215	Pradeep Singh/Sh Ram Sumiran Singh	MPSVC/3219/2015	Vill-Chhahna, PO-Tangha, Teh-Jaba, Dt-Rewa,Madhya Pradesh-486223	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	01.11.1989
1216	Amreesh Singh Kushwaha/Sh Ranvir Singh Kushwaha	MPSVC/3220/2015	Vill&PO-Ron,Dt-Bhind, Madhya Pradesh-477335	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	21.03.1983

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1217	Megh Singh/Sh Asaram Arya	MPSVC/3221/2015	Ward No.-21,Gwalior, Madhya Pradesh-474012	BVSc&AH/NDVVSU,Jabalpur/2015	02.01.1985
1218	Narendra Singh Semar/Sh Ramdas Singh Semar	MPSVC/3222/2015	New Mehra Colony,Tharti Pur, Gwalior, Madhya Pradesh-474011	BVSc&AH/NDVVSU,Jabalpur/2015	05.08.1988
1219	Mahesh Dayaram Burman/Sh Dayaram Burman	MPSVC/3223/2015	461/F,Rajnagar,Near Anand School, Indore, Madhya Pradesh-452002	BVSc&AH/NDVVSU,Jabalpur/2015	05.11.1987
1220	Ashwin Chouhan/Shri Nirbhay Singh	MPSVC/3224/2015	New Teacher Colony,Alirajpur, Madhya Pradesh-457887	BVSc&AH/NDVVSU,Jabalpur/2015	10.10.1991
1221	Suresh Kanel/Sh Jagdish Kanel	MPSVC/3225/2015	Vill-Rangaon, PO- Jhirbi, Teh-Manawar, Dt-Dhar, Madhya Pradesh	BVSc&AH/NDVVSU,Jabalpur/2015	15.07.1986
1222	Prakrut Singh/Sh Laxman Prasad Singh	MPSVC/3226/2015	C/o Poornima Staff Nurse, Dt-Hospital Bichhiya, Dt-Rewa, Madhya Pradesh-486001	BVSc&AH/NDVVSU,Jabalpur/2015	01.07.1990
1223	Neeru Yadav/Sh Ranvir Singh Yadav	MPSVC/3227/2015	Near K.S.H.S.School,A.B.Road,Morena, Madhya Pradesh-453446	BVSc&AH/NDVVSU,Jabalpur/2015	11.02.1988
1224	Rahul Jamra/Sh Roop Singh Jamra	MPSVC/3228/2015	Narmada Nagar, Kukshi, Dt-Dhar, Madhya Pradesh -454335	BVSc&AH/NDVVSU,Jabalpur/2015	20.03.1989
1225	Sunil Rathore/Sh Kan Singh Rathore	MPSVC/3229/2015	Vill-Ranapur, Dt-Jhabua, Madhya Pradesh	BVSc&AH/NDVVSU,Jabalpur/2015	10.10.1989
1226	Shailja Kanasiya/Sh Dayaram Kanasia	MPSVC/3230/2015	Vill&PO-Udaipur, Teh- Bagli, Dt-Dewas, Madhya Pradesh-455227	BVSc&AH/NDVVSU,Jabalpur/2015	02.02.1992
1227	Jyoti Mandloi/Sh Hira Singh Mandloi	MPSVC/3231/2015	Gali No.-4,Vaishnavi Colony, Khargone, Madhya Pradesh-451001	BVSc&AH/NDVVSU,Jabalpur/2015	05.07.1991
1228	Shakuntala Birla/Shri Shriram Birla	MPSVC/3232/2015	PO-Khamkheda,Teh-Kasravad, Dt-Khargone, Madhya Pradesh-453446	BVSc&AH/NDVVSU,Jabalpur/2015	21.06.1990
1229	Lokesh Waskel/Sh Mal Singh	MPSVC/3233/2015	Vill&PO-Javlai, Tej-Manavar,Dt-Dhar, Madhya Pradesh -454449	BVSc&AH/NDVVSU,Jabalpur/2015	04.08.1986
1230	Rashmi Vishwakarma/Sh Tejram Vishwakarma	MPSVC/3234/2015	197,Yadav Colony,Narsinghpur, Madhya Pradesh-487001	BVSc&AH/NDVVSU,Jabalpur/2015	22.07.1990
1231	Vanila Shukla/Sh Narendra Kr Shukla	MPSVC/3235/2015	HIG-5, A Mukharji Nagar, Madhya Pradesh-464001	BVSc&AH/NDVVSU,Jabalpur/2015	07.09.1990
1232	Ajay Dandotiya/Sh Anand Dandotiya	MPSVC/3236/2015	H-7,PWD Campus,Ganeshpura, Morena, Madhya Pradesh-476111	BVSc&AH/NDVVSU,Jabalpur/2015	19.12.1988
1233	Sonu Kumar Jain/Sh Mahendra Kumar Jain	MPSVC/3237/2015	Vill-Bareh, Teh- Ambah, Dt-Morena, Madhya Pradesh-476111	BVSc&AH/NDVVSU,Jabalpur/2015	01.12.1989
1234	Apoorva Argada/Sh Madhav Rao Argade	MPSVC/3238/2015	369 Bajrang Nagar,In front of Talkies, In front of Uddan, Indore, Madhya Pradesh-452001	BVSc&AH/NDVVSU,Jabalpur/2015	18.07.1991
1235	Aadesh Kumar/Sh Vijay Kumar	MPSVC/3239/2015	10/83,Lalmiyan Wali Gali, Nr M.P.Ashok Agral, Dattapura,Morena, Madhya Pradesh -476001	BVSc&AH/NDVVSU,Jabalpur/2015	22.02.1991
1236	Harish Kushwah/Sh Babulal	MPSVC/3240/2015	Jail Road,Joura, Dt- Morena, Madhya Pradesh-476221	BVSc&AH/NDVVSU,Jabalpur/2015	07.07.1990
1237	Ramratan Shakya/ Shri Jagdish Shakya	MPSVC/3241/2015	Bti Road,Santosh Nagar,Bhind, Madhya Pradesh-477001	BVSc&AH/NDVVSU,Jabalpur/2015	20.08.1983
1238	Mohan Muvel/Sh Balu Singh Muvel	MPSVC/3242/2015	Vill-Malpura,PO-Boharla, Teh-Manavar, Dt- Dhar-454449, Madhya Pradesh	BVSc&AH/NDVVSU,Jabalpur/2015	03.02.1989
1239	Rishikesh Yadav/Sh Damodar Singh Yadav	MPSVC/3243/2015	MIG-469,New Housing Board Colony, Morena, Madhya Pradesh-476001	BVSc&AH/NDVVSU,Jabalpur/2015	05.10.1989
1240	Saurabh Rajpoot/Sh Ram	MPSVC/3244/	Near Saint Thomas(Noel),Public	BVSc&AH/NDVVSU,Jabalpur/2015	13.11.1992

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Naresh Rajpoot	2015	School, Chandra Nagar, Gwalior, Madhya Pradesh-474003	alpur/2015	
1241	Akash Singh Sikarwar/Sh Avdhesh Singh Sikarwar	MPSVC/3245/2015	Vill-Batsouli, Teh-Sabalgarh, Dt-Morena, Madhya Pradesh-476229	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	10.07.1988
1242	Manish Badil/Sh Netram Badil	MPSVC/3246/2015	Raimja Ka Pura, New Bus Stand Ward No.-3, Joura, Madhya Pradesh	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	10.06.1986
1243	Milan Kirad/Sh Yaduvendra Singh	MPSVC/3247/2015	Sindhi Colony, Mathopura, Gali No.-4, Morena, Madhya Pradesh-476001	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	30.11.1990
1244	Shashi Bharti/Sh Bhaiya Lal Patel	MPSVC/3248/2015	Type 32/1, Vivekanand Nagar, Ordinance Factory, Katni, Madhya Pradesh-483503	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	28.10.1990
1245	Pooja Badsar/ Sh Narayan Badsar	MPSVC/3249/2015	487 Shri Ram Chuok, Chhaigaon Makhan, Khandwa, Madhya Pradesh-450771	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	14.01.1989
1246	Seema Thakur/Sh Man Singh Thakur	MPSVC/3250/2015	H.No.Behind Girls School, Chana Godam, Mahu, Madhya Pradesh-453441	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	22.04.1989
1247	Priyanka Kushram/Sh R.K.Kushram	MPSVC/3251/2015	Khermai Road, Ward No.-15, Near Radha Krishna Mandir, Nainpur, Dt-Mandla, Madhya Pradesh	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	14.10.1991
1248	Sarika Chouhan/Sh Radhe Shyam Chouhan	MPSVC/3252/2015	A.B.Road, Teh- Dhara, M.P. Uri, Dt- Dhar, Madhya Pradesh -454552	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	04.10.1989
1249	Narendra Singh Dawar/Sh Sukh Deo Dawar	MPSVC/3253/2015	Harijan Mohalla, Dahi, Dhar, Madhya Pradesh-454331	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	14.08.1986
1250	Aakash Shukla/Sh N.K.Shukla	MPSVC/3254/2015	H.No.51/20, Ekta Colony, Rajiv Ward, Bina, Dt-Sagar, Madhya Pradesh -470113	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	27.03.1991
1251	Yogesh Kumbhakar/Sh Kailash Chandra Kumbhakar	MPSVC/3255/2015	In front of Hosital, Taha Road, Kilchipur, Dt- Rajgarh, Madhya Pradesh -465679	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	01.06.1989
1252	Abhishek Shrivastava/Sh Anil Kumar Shrivastava	MPSVC/3256/2015	A 38, New City, Near Truba Collage, RAU Bypass, Indore, Madhya Pradesh -452012	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	17.09.1989
1253	Shekhar Sahu/Sh Ramesh Chandra Sahu	MPSVC/3257/2015	Cha M.P. I Mohalla Narsinghgarh, Dt- Rajgarh, Madhya Pradesh-465669	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	04.02.1990
1254	Inder Singh Dohre/Sh Bhogi Lal Dohre	MPSVC/3258/2015	Dohar Mohalla, Ganj, Sehore, Madhya Pradesh	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	10.04.1991
1255	Aruna Mandrha/Shri Ramu Mandrha	MPSVC/3259/2015	222, Gandhi Ganj, Ward No.-5, Chhindwara, Madhya Pradesh-480002	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	01.03.1980
1256	Dinesh Kumar Sahu/Sh Lal Ram Sahu	MPSVC/3260/2015	Vill&PO-Dugariya, Teh-Bairasiya, Dt-Bhopal, Madhya Pradesh-463111	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	12.07.1988
1257	Nikita Waskale/Sh Narayan Waskale	MPSVC/3261/2015	Siddharth Vila, Sukh Niwas, Dham, Indore, Madhya Pradesh-452001	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	03.05.1991
1258	Sonu Patidar/Sh Prakash Chandra Patidar	MPSVC/3262/2015	Vill&PO-Sadalpur, Teh- Bhanpur, Dt-Mandsore, Madhya Pradesh	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	10.11.1987
1259	Manoj Bagri/Sh Vishan Swaroop Bagri	MPSVC/3263/2015	M.H.Road, Tikoniya Murar, Gwalior, Madhya Pradesh	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	28.11.1985
1260	Dinesh Dixit/Sh Anand Kumar	MPSVC/3264/2015	34, Ramanuj Nagar, Govindpuri, Gwalior, Madhya Pradesh-474011	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	06.07.1989
1261	Amit Kumar Dodve/Sh Kishore Dodve	MPSVC/3265/2015	Vill&PO-Tavlai, Teh- Manavar, Dt-Dhar, Madhya Pradesh -454449	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	24.12.1985
1262	Hare Singh Waskel/Sh Kalu Singh Waskel	MPSVC/3266/2015	Vill&PO- Jatpur, Teh -Manavar, Dt- Dhar, Madhya Pradesh -	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	03.07.1983

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			454446		
1263	Tushar Thosar/Sh Jagannath Thosar	MPSVC/3267/2015	H.No.189,D-4, Schema No-78,Indore, Madhya Pradesh-452010	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	04.03.1991
1264	Nisha Chhabra/Sh Keshav Chhabra	MPSVC/3268/2015	Dal Bazar,Radheshyam Building,Lashkar,Gwalior, Madhya Pradesh	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	24.04.1989
1265	Ravindra Kumar Patel/Sh Sukh Lal Patel	MPSVC/3269/2015	Vill-Katare Ka Pukha,PO-Ishanagar,Dt-Chhatarpur, Madhya Pradesh -471315	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	20.12.1986
1266	Nillima Patel/Sh Ram Nardesh Patel	MPSVC/3270/2015	Vill & PO- Khajuhakalan,Dt-Rewa, Madhya Pradesh-486553	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	15.11.1987
1267	Tara Chand Jangid/Sh Shankar Lal	MPSVC/3271/2015	Flat No.204,Creative Heights,Gulmohar, E-8 Extension, Bhopal Madhya Pradesh	BVSc&AH/MPPCVVV, Jabalpur/2012	15.03.1988
1268	Neeti Lakhani/Sh G.P.Lakhani	MPSVC/3272/2015	F-37,Krishi Nagar, Adhartal, Jabalpur, Madhya Pradesh -482004	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	23.01.1991
1269	Jyoti Patel/Sh Tulsi Ram Patel	MPSVC/3273/2015	Vill-Kashikhairi, Narsinghpur, Madhya Pradesh-487001	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	15.06.1991
1270	Deepika Parteti/Sh Indra Shah Parteti	MPSVC/3274/2015	Nai Aabadi, Ward No.-02,Amarwada, Dt-Chhindwara, Madhya Pradesh	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	27.05.1992
1271	Ravikant Hirani/Sh Suresh Hirani	MPSVC/3275/2015	Q-1,Super City, Mhow, Madhya Pradesh-453441	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	26.06.1988
1272	Pallav Sahani/Sh S.K.Sahni	MPSVC/3276/2015	Pathak Ward, Bina, Dist-Sagar, Madhya Pradesh-470113	BVSc&AH/RUofV&AS, Bikaner/2013	13.01.1990
1273	Mahendra Kumar Shakya/Sh Badri Prasad Shakya	MPSVC/3277/2015	C-597,Anand Nagar,Bahodapur,Gwalior, Madhya Pradesh -474003	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	06.07.1988
1274	Ritika Mandhwan/Sh Sachin Mandhwani	MPSVC/3278/2015	Plot No.6,Sahil Twins, Vijaynagar, Indore, Madhya Pradesh -452010	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	29.09.1992
1275	Surendra Singh Bhadauria/Sh R.S Bhadoria	MPSVC/3279/2015	G-7, Veterinary College,Kuthulia, Rewa, Madhya Pradesh-486001	BVSc&AH/JLNKVV/1977	08.05.1955
1276	Jagbir Singh Narwariya/Sh Mahendra Singh Narwariya	MPSVC/3280/2015	Ashok Basai Ware House,Suthalia Road, Maksudangarh, Guna, Madhya Pradesh -473287	BVSc&AH/JLNKVV/2009	01.07.1982
1277	Panna Lal Popandia/Sh Kanji Popandia	MPSVC/3281/2015	Vill-Anandkhedi, PO-Rajod,Teh-Sardarpur, Dt-Dhar, Madhya Pradesh-454660	BVSc&AH/JLNKVV/1986	04.08.1963
1278	Virendra Kumar Gangwal/Sh Shiv Shankar	MPSVC/3282/2015	Veterinary Hospital Kolaras,Dt-Shivpuri, Madhya Pradesh -473770	BVSc&AH/GBPUofA&T/2007	01.07.1980
1279	Beni Prasad Gour/ Sh Govardhan Lal Gour	MPSVC/3283/2015	C-330,Shahpura,Bhopal, Madhya Pradesh -462016	BVSc&AH/JLNKVV/2003	08.08.1976
1280	Bikash Chandra Sarkhel/Sh Bimal Chandra Sarkhel	MPSVC/3284/2015	235, Bai Ka Bagicha, 2nd Lane, Jabalpur, Madhya Pradesh-482001	BVSc&AH/JLNKVV/1975	31.03.1954
1281	Shivangi Pathak/Sh Ashwani Pathak	MPSVC/3285/2015	42,Saket Nagar,Ukhri Sqaure,Near Shankar Petrol Pump,Jabalpur, Madhya Pradesh -482002	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	01.09.1990
1282	Priya Waliya/Sh Ramesh Kumar Waliya	MPSVC/3286/2015	Block No.6, Nr Ravi Traders, Professor Colony, Suhagi,Adhartal, Jabalpur, Madhya Pradesh-482004	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	29.03.1991
1283	Vinay Kumar Mishra/Sh N.P.Mishra	MPSVC/3287/2015	C/o A.K.Pandey,13/29,SBI Colony, Manas Nagar, Barra, Dt-Rewa, Madhya Pradesh-486001	BVSc&AH/IGAU,Raipur/2005	02.11.1980
1284	Pranay Bharti/Sh Raj	MPSVC/3288/	Vill&Post-Panwar,Jawa,Dt-Rewa,	BVSc&AH/NDVSU,Jab	19.07.1987

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Bahadur Singh	2015	Madhya Pradesh-486001	alpur/2012	
1285	Mukesh Baghel/Sh Umarao Singh Baghel	MPSVC/3289/ 2015	04 Police Line, Manawar, Behind Thaneshwar Mandir, Tehsil Manawar, Dt-Dhar, Madhya Pradesh-454446	BVSc&AH/NDVSU, Jab alpur/2015	28.06.1987
1286	Shashi Bhushan Tripathi/Sh Rishikesh Kumar Tripath	MPSVC/3290/ 2015	Azad Chouk, New Panna Naka, Chhatarpur, Madhya Pradesh - 471001	BVSc&AH/NDVSU, Jab alpur/2013	10.12.1990
1287	Pritam Singh/Sh Rajendra Singh	MPSVC/3291/ 2015	C/o Babu Lal Mishra, Ward No.-4, Lavkush Nagar, Chhatarpur, Madhya Pradesh -471515	BVSc&AH/MPPCVVV, Jabalpur/2011	02.10.1982
1288	Pramod Sharma/Sh Vijay Ram Sharma	MPSVC/3292/ 2015	Vaishander Bhawan, In front of Idgah, Gandhi Road, Murar, Gwalior, Madhya Pradesh -474006	BVSc&AH/JLNKVV/20 04	28.11.1979
1289	Avinash Singh/Sh Pradumn Singh	MPSVC/3293/ 2015	House No. 16/380, Behind P.K.School, Urahat, Rewa, Madhya Pradesh -486001	BVSc&AH/NDVSU, Jab alpur/2012	02.08.1987
1290	Shailendra Singh/Sh Maithili Sharan Singh	MPSVC/3294/ 2016	Gram Pathara, Post Soharva, Teh- Teonther, Dt- Rewa, Madhya Pradesh -486220	BVSc&AH/JLNKVV/20 10	10.07.1984
1291	Ashok Kumar/Sh Nabab Singh	MPSVC/3295/ 2015	472/500, Vill&Post Jerath, Teh- Patharia, Dt- Damoh, Madhya Pradesh-470666	BVSc&AH/JLNKVV/20 09	25.09.1982
1292	Ashok Kumar Nigam/Sh Dukhbhanjan Pd Nigam	MPSVC/3296/ 2016	DK-2/18, View Point Danish Kunj, Kolar Road, Bhopal, Madhya Pradesh-462012	BVSc&AH/JLNKVV/19 78	01.02.1955
1293	Arun Kr Shukla/Sh Bal Krishna Shukla	MPSVC/3297/ 2016	Behind Patel Hostel, Nirala Nagar, Rewa, Madhya Pradesh -486002	BVSc&AH/JLNKVV/20 08	17.12.1980
1294	Maneesh Kumar Ahirwar/Sh Preetam Das Ahirwar	MPSVC/3298/ 2016	M-32, Barki Saray, Bhandar, Dt- Datia, Madhya Pradesh-475335	BVSc&AH/NDVSU, Jab alpur/2014	23.11.1986
1295	Pooja Patel. Sh Mohan Lal Patel	MPSVC/3299/ 2016	Sector C-330, Shahpura Bhopal, Madhya Pradesh-462001	BVSc&AH/JLNKVV/20 05	28.12.1976
1296	Pavan Kumar Tiwari/Sh Keshav Das Tiwari	MPSVC/3300/ 2016	Behind No.-1, School in front of Shyama Pd Mukh Chhatarpur, Madhya Pradesh-471001	BVSc&AH/JLNKVV/20 06	31.03.1980
1297	Deepak Mehra/Sh Kaleshwar Lal Mehra	MPSVC/3301/ 2016	E/34, Veterinary College Campus, Mhow, Indore, Madhya Pradesh - 453446	BVSc&AH/NDVSU, Jab alpur/2013	28.05.1981
1298	Aditya Mishra/Sh Prakash Chandra Mishra	MPSVC/3302/ 2016	Ward NO.13, Lahar Road, Mihona Bhind, Madhya Pradesh -477441	BVSc&AH/IGAU, Raipu r/2004	09.03.1977
1299	Radhe Shyam Gupta/Sh Moti Lal Gupta	MPSVC/3303/ 2016	211 B APR Colony Katanga, Jabalpur, Madhya Pradesh -482001	BVSc&AH/JLNKVV/19 80	19.05.1950
1300	Jitendra Singh Arora/Sh Damodar Singh	MPSVC/3304/ 2016	56 Prem Nagar, Behind Post Office, Madan Mahal, Jabalpur, Madhya Pradesh -482001	BVSc&AH/JLNKVV/19 80	17.12.1949
1301	Manoj Kumar Sharma/Sh Prabhu Dayal Sharma	MPSVC/3305/ 2016	EE 270 Deen Dayal Nagar, Gwalior, Madhya Pradesh -475001	BVSc&AH/IGKVV, Rai pur/2003	26.06.1976
1302	Amit Kumar Singh/Sh Atul Singh Kurmi	MPSVC/3306/ 2016	LIG-4, South Civil Lines, Near Head Post Office Jabalpur, Madhya Pradesh -482001	BVSc&AH/NDVSU, Jab alpur/2013	19.04.1987
1303	A.Lalramliana/Sh Ropianga	MZSVC/0254/15	Khawruhlian, Aizawal Dist, Mizoram	BVSc&AH./Cental Agirl Uni /2015	22.05.1988
1304	Freddy H.Siamthara/Sh C.Lalrindika (L)	MZSVC/0255/15	Haulawng, Lunglei, Dist-Mizoram	BVSc&AH./Cental Agirl Uni /2015	18.10.1991
1305	Manesia Khaimeichho/Sh K.Zohra	MZSVC/0256/15	Lower New Colony Siaha, Mizoram	BVSc&AH./Cental Agirl Uni /2015	25.07.1990

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1306	Vanlalngilneli Ralte/Sh R.Lalchhuanawma	MZSVC/0257/15	C/17,Saikhawmakawn, Aizawal, Mizoram	BVSc&AH./Cental Agirl Uni /2015	30.12.1990
1307	Debbie Lalngaihawmi/Sh Biakmuansanga	MZSVC/0258/15	T-24, Bungkawn Dam Veng,Aizawal, Mizoram	BVSc&AH./Assam Agirl Uni /2015	27.04.1990
1308	K.Hmingthansangi/Sh K.Lalbiakzuala	MZSVC/0259/15	HT-22,Hunthar Veng, Aizawal, Mizoram	BVSc&AH./Cental Agirl Uni /2015	23.07.1989
1309	Elizabeth V.L Hmangaihzuali/Sh R.Lalrintluanga	MZSVC/0260/15	CNB/C-21, Chaltlang,North Aizwal, Mizoram	BVSc&AH./Cental Agirl Uni /2015	08.11.1990
1310	C.Lalsangzuala/Sh C.Laldailova	MZSVC/0261/15	Champhai Vengthlang, Mizoram	BVSc&AH./Cental Agirl Uni /2015	02.10.1990
1311	M.S.Dawngliana/Sh V.L.Hmachhuana	MZSVC/0262/15	K-125, Bethlehem, Veng, Aizawal, Mizoram	BVSc&AH./Cental Agirl Uni /2015	01.09.1989
1312	J.Vanhang /Sh J.Sangtuma	MZSVC/0263/15	Ainak Siaha District, Mizoram	BVSc&AH./Cental Agirl Uni /2015	19.07.1991
1313	Michael Lalramchhana/Sh C. Zakaia	MZSVC/0264/15	F-34,Chanmari, Aizawal, Mizoram	BVSc&AH./Cental Agirl Uni /2015	15.03.1990
1314	Lallawmkima/Sh Ngaizuala	MZSVC/0265/15	C-23,Electric Veng,Aizawal, Mizoram	BVSc&AH./Cental Agirl Uni /2015	17.11.1989
1315	Lalrintluanga/Sh Jessaia	MZSVC/0266/15	C-182,Salem Veng, Aizawal, Mizoram	BVSc&AH./Cental Agirl Uni /2015	24.08.1991
1316	Timothy Lalmsawma/Sh F.Lalfakmawia	MZSVC/0267/15	A-18/1, Ramhlun Venglai,PWD, Tlang, Aizawal, Mizoram	BVSc&AH./Cental Agirl Uni /2015	28.12.1991
1317	K.Lalchhanhima/Dr.K.V. L.Rochharzela	MZSVC/0268/15	B-28/A, Ramhlun North Aizawal, Mizoram	BVSc&AH./Cental Agirl Uni /2015	05.01.1991
1318	Daniel Lalchhuanawma/Sh C.Lalsangliana	MZSVC/0269/15	D-106 Ramhlun,North Aizawal, Mizoram	BVSc&AH./Cental Agirl Uni /2015	30.04.1989
1319	Lalrinzuali Ngente/Sh Lalrinmawia Ngente	MZSVC/0271/15	D/1-8,Diakkawn,Kolasib, Mizoram	BVSc&AH./Cental Agirl Uni /2015	16.05.1990
1320	Lalnunpuia Chinzah/Sh C.Lalkunga	MZSVC/0272/15	Lawngtlai,Mizoram	BVSc&AH./Assam Agirl Uni /2015	31.03.1992
1321	Dorothy Lalchhanhimi/Sh Chhingthankhuma	MZSVC/0273/15	JF-100, Zemabawk,Aizawal, Mizoram	BVSc&AH./Assam Agirl Uni /2015	04.09.1990
1322	Rebecca Lalkhawngaihsangi/Sh R.Lalremruate	MZSVC/0274/15	A/12, Electric Veng,Aizawal, Mizoram	BVSc&AH./Assam Agirl Uni /2015	19.12.1990
1323	Lalhmunmawia/Sh H.Lalnuntluanga	MZSVC/0275/15	Ramhlun Venglai, Aizawal, Mizoram	BVSc&AH./Assam Agirl Uni /2015	10.07.1992
1324	Vanlalmangaihi Fanai/Sh F.Lalthlamuana	MZSVC/0276/15	C-18, Chaltlang Road, Chanmari, Aizawal, Mizoram	BVSc&AH./Assam Agirl Uni /2015	10.01.1990
1325	P.C.Lalhriatpuia/Sh Lalramthara	MZSVC/0277/16	Armed Veng,Aizawal, Mizoram	BVSc&AH./Cental Agirl Uni /2016	17.09.1990
1326	David Lalramenga/Sh Thangzuala	MZSVC/0278/16	C-125, Tuivamit,Central Jail Veng, Central Jail Veng, Aizawal, Mizoram	BVSc&AH./Cental Agirl Uni /2016	09.02.1991
1327	Lalhruaitluangi/Sh Lalsanglura	MZSVC/0279/16	A-35/4,Police Quarter, Saron Veng, Aizawal, Mizoram	BVSc&AH./Cental Agirl Uni /2016	16.08.1991
1328	Rebecca Lalmanpuui/Sh R.Lalpeka	MZSVC/0280/16	C-49, Durtlang,Aizawal, Mizoram	BVSc&AH./Cental Agirl Uni /2016	16.10.1991
1329	M.Lalmangaihzuale/ Sh M.Zahawla	MZSVC/0281/16	Sairang Dawr Veng,Aizawl, Mizoram	BVSc&AH./Cental Agirl Uni /2016	17.08.1993
1330	John Rozarliana/Sh H.Sanghluna	MZSVC/0282/16	Y-162,Tuitiang Veng Aizawal, Mizoram	BVSc&AH./Cental Agirl Uni /2016	17.08.1993
1331	Lalhruaitluanga /Sh Lalrawngbawla	MZSVC/0283/16	VK-102,Zemabawk Aizawal, Mizoram	BVSc&AH./Cental Agirl Uni /2016	11.12.1992

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1332	V.L.Rozami/Sh Lalrohluia	MZSVC/0284/16	Ramhlun Venglai, Aizawl, Mizoram	BVSc&AH./Cental Agri Uni /2016	02.12.1991
1333	Rosou Pohena/Sh Salonyi Pohema	NSVC/312/15	Zhavama Village PO, Pftusero Dt-Phek,Nagaland -797107	BVSc&AH/PU/2015	14.01.1993
1334	Kevisenuo Evalyn Vizo/Sh Ruokuotuolie Vizo	NSVC/313/15	L.Khel Kohima Village, PO-Kohima, Nagaland-797001	BVSc&AH/PU/2015	27.12.1990
1335	Ale Khape/Sh Vkuosa Khape	NSVC/314/15	Pftusero Town, Phek Dist, Nagaland -797107	BVSc&AH/PU/2015	22.09.1992
1336	Nemjemyangner /Sh Bendangtoshi	NSVC/315/15	H.No.-118,Fellowship Colony, Dimapur, Nagaland-797112	BVSc&AH/AAU/2015	19.03.1992
1337	Neizolie Rio /Sh Rudilhou Rio	NSVC/316/15	Peraciezie Colony,H.No.62,Kohima Nagaland-797001	BVSc&AH/AAU/2015	11.01.1991
1338	Y.Yawing Konyak/Sh H.Yanboh Kobnyak	NSVC/317/15	Chenmoho Village,District Mon, Nagaland-798603	BVSc&AH/CAU/2015	27.04.1990
1339	Raveyi Khesoh/Sh Veto Khesoh	NSVC/318/15	Hebron-1, Colony, Phek New Town, Nagaland-797108	BVSc&AH/PU/2015	22.02.1989
1340	Bikash Chandra Sethy/Sh Bijaya Ku Sethy	OSVC/2632/2015	At-Rameswarpur.PO-Gadijang,PS-Nemalo,Distt-Cuttack, Pin-754134,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	12.09.1990
1341	Anurag Mohanty/Sh Bijaya Ku. Mohanty	OSVC/2633/2015	At/PO-Khorat,Kadupada,Jagatsinghpur-754106,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	03.06.1992
1342	Sourabh Ranjan Hota/Sh Hare Prasad Hota	OSVC/2634/2015	Qr.No.G-50/A,Accounts Colony,Khurda Road,Jatni-752050,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	15.03.1991
1343	Priyadarshini Patro/ Sh Govind Patro	OSVC/2635/2015	At/PO-2nd Golapalli Street,Brehampur,Ganjam-760001,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	03.09.1990
1344	Parthasarathi Swain/Sh Panchanan Swain	OSVC/2636/2015	At/PO-Rushipada,Dt-Cuttack-754037,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	01.07.1992
1345	Sudhanshu Mohan Nayak/Sh Krushna Chandra Nayak	OSVC/2637/2015	At-Teliaganja,PO-Soro,Dt-Balasore-756045,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	18.05.1990
1346	Nikunja Bihari Mohanta/Sh Patitapabana Mohanta	OSVC/2638/2015	At/PO/Via-Tato,PS-Karanjia, Dist-Mayurbhanj -756045,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	11.07.1992
1347	Shitanshu Panda/Sh Suresh Chandra Panda	OSVC/2639/2015	At-Nandol,PO-Bhatapara, Dt-Cuttack-754200,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	05.05.1992
1348	Sangram Keshari Sahu/Sh Prakash Chandra Sahu	OSVC/2640/2015	At/PO-Khajuripada,Dist-Kandhamal-754200,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	25.01.1992
1349	Padmalaya Meher/Sh Sibaram Mehar	OSVC/2641/2015	At/PO-Sakhipara,Dt-Sambalpur-768001,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	17.07.1990
1350	Preeti Puspa Mohanty/Sh Debendra Chandra Mohanty	OSVC/2642/2015	At/PO-Soro,Via-Soro,Dt-Balasore-756045,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	30.03.1992
1351	Saurav Mishra/Sh Sarat Chandra Mishra	OSVC/2643/2015	AT/PO-Garh Karamala,Dist-Puri -752116,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	30.06.1992
1352	Subhashree Panigrahi/Sh Bhabasankar Panigrahi	OSVC/2644/2015	At/PO-Jayrampur,Via-Bhograi,Dist-Balasore -756038,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	15.05.1992
1353	Sudipta Kumar Panda/Sh Surendra Mohan Panda	OSVC/2645/2015	At/PO-Bhatli, Dt- Bargarh -768030,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	17.06.1989
1354	Subhalaxmi Sahoo/Sh Jadabananda Sahoo	OSVC/2646/2015	At-Matiasahi,PO- Hakimpada, Dist-Angul-759143,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	28.05.1989
1355	Rashmi Ranjan Swain/Sh Ranjit Kumar Swain	OSVC/2647/2015	At-Chatiana,PO-Jamugaon, Via-Alanahat, Jagatsinghpur-754107,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	21.01.1988

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1356	Amita Pradhan/Sh Manmath Kumar Pradhan	OSVC/2648/2015	At-Stoney Road,PO-Chandini Chowk, Cuttack-753002,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	14.03.1991
1357	Pranatee Behera/Sh Gopinath Behera	OSVC/2649/2015	Qr.No.B/1430,Nalco Nagar, Dist-Angul-759145,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	12.04.1992
1358	Subhasmita Das/Sh Satyabrata Das	OSVC/2650/2015	At-Nandipada,PO-Mareigaon,Dt-Keonjihar-758083,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	09.07.1992
1359	Yasmin Pathy/Sh Yashobanta Narayana Pathy	OSVC/2651/2015	SBI Lane,Ghanasahu Chaka, Gandhi Marg, Angul-759122,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	20.06.1991
1360	Ranjita Tigga/Sh Martin Tigga	OSVC/2652/2015	Ward No.-7, At/PO-Kualinda,Jyotipada, Dt-Sambalpur-768222,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	14.10.1990
1361	Jyotimayee Agrawalla/Sh Gourishankar Agrawalla	OSVC/2653/2015	Rameswar Vihar, Dt-Boudh,Pin-762014,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	01.06.1992
1362	Sagarika Behera/Sh Bimbadhar Behera	OSVC/2654/2015	At/Po-Nalandia Palanda,PO-Tikhiri, Via-Kujanga,Dt-Kendrapara,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	14.06.1992
1363	Bijayalaxmi Lenka/Sh Dillip Kumar Lenka	OSVC/2655/2015	At/PO-Badaku, Via-Marshaghai,Dt-Kendrapara,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	22.06.1990
1364	Nishiwapna Garanayak/Sh Swapneswar Garanayak	OSVC/2656/2015	C/o Dr. Satrugna Ranabijuli,At-Gadamantirm,Block-Begunia, Dt-Khurda-752062,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	03.07.1990
1365	Sarita Behera/Sh Nanda Kumar Behera	OSVC/2657/2015	At/PO-Pallahara,Dt-Angul-759119,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	19.06.1990
1366	Jyotsnarani Singh/Sh Jagabandhu Singh	OSVC/2658/2015	At/PO-Deulia, Via-Badasahi,Dist-Mayurbhanj-752026,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	25.05.1987
1367	Balukeswar Hansdah/Sh Harihar Hansdah	OSVC/2659/2015	At/PO-Chandua, Dt-Mayurbhanj,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	15.06.1987
1368	Prakash Chandra Ghadei/Dr. Akshaya Kumar Ghadel	OSVC/2660/2015	At-Bhadanga,PO- Aruha, Dt-Jajpur,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	15.06.1991
1369	Arpit Swain/Sh Rabindra Nath Swain	OSVC/2661/2015	At-Benupur,PO-Chasapada, Dist-Jagatsinghpur,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	05.07.1992
1370	Devi Prasanna Swain/ Sh Uchhab Charan Swain	OSVC/2662/2015	Rajani Bandhu Nivas, Plot No. CHP-75,Kananvihar, Phase-1,BBSR-751031,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	15.05.1989
1371	Sidharth Prasad Mishra/Sh Mahesh Prasad Mishra	OSVC/2663/2015	Raghunath Bhawan,Jawahar Chouk,Dhenkanal-759001,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	19.02.1991
1372	Shubham Biswal/Sh Mahadev Biswal	OSVC/2664/2015	At/PO-Sarankul,Dt-Nayagarh-752080,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	25.06.1992
1373	Radhakrishna Sahu/Sh Srihari Sahu	OSVC/2665/2015	At-Ghiajodi,PO-Jharpokharia,Dist-Mayurbhanj-757086,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	30.09.1992
1374	Rudrashis Sethi/Sh Rabindra Kumar Sethi	OSVC/2666/2015	At-Kanjiapada,PO-Kanpur,Dist-Cuttack-754037,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	05.11.1991
1375	Archana Sarangi/Sh Jagadish Prasad Sarangi	OSVC/2667/2015	At-Perdeshipara,PO-Khetrajipur,Dist-Sambalpur-768003,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	17.03.1992
1376	Ranjanmayee Sabar/Sh Ashram Sabar	OSVC/2668/2015	At-Hospital Colony,PO/Dist-Nuapada-766105,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2014	20.07.1991
1377	Jagannath Nayak/Sh Anirudha Nayak	OSVC/2669/2015	Infront of Municipality Office Main Road, Umerkote,Nabarangpur-764073,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	03.12.1991
1378	Satyanarayan Tandi/Sh Bharat Tandi	OSVC/2670/2015	AT/Po-Padampur College Road, Dt-Bargarh -768036,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	27.06.1989
1379	Haresh Kumar Dalai/Sh Dibakar Dalai	OSVC/2671/2015	AT-Mahammadpur,PO-Tyendakura, Dt-Cuttack-	BVSc&AH/OUAT/2015	28.04.1992

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			754134,Orissa		
1380	Sankar Hial/Sh Jogendra Hial	OSVC/2672/2015	At-Khedapada,Po-Dumuriguda,Via-Theruballi,Rayagada-765018,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	20.05.1993
1381	Surendra Nath Beshra/Sh Sahadev Beshra	OSVC/2673/2015	At-Darkholi,PO-Palasbani,Via-Sarakana,Mayurbhanj-757051,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	16.06.1990
1382	Saumya Prakash Nayak/Sh Trilochan Nayak	OSVC/2674/2015	At-Sinkulbahal,PO-Jagmohanpur,Dt-Keonjhar-758084,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	03.05.1989
1383	Rashmi Ranjan Mishra/Sh Ramakanta Mishra	OSVC/2675/2015	At-Chatara Sasan,PO-Gopaljew Patna, Dt-Kendrapara-754250,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	02.05.1993
1384	Satsarthak Tripathy/Sh Khirod Chandra Tripathy	OSVC/2676/2015	K7-480,Ghatikia, Kalingangar,Bhubaneswar-751003,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	20.04.1991
1385	Jitendra Kumar Parida/Sh Bauri Bandhu Parida	OSVC/2677/2015	At-Chandimangal,PO-Singhanath Pitha, Dt-Cuttack-754031,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	03.04.1991
1386	Rashmi Singh/Sh Prabhat Kumar Singh	OSVC/2678/2015	Plot No-1341/69, Mahanadi Vihar,PO-Nayabazar,Cuttack-753004,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	29.05.1992
1387	Subhashree Pradhan/Sh Gajendra Pradhan	OSVC/2679/2015	C/o Judhithir Pradhan,At-Baharana,PO-Niali, Dt-Cuttack,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	30.06.1991
1388	Pankaj Kumar Jena/Sh Siddheswar Jana	OSVC/2680/2015	At-Antaroi, PO-Kamarsalia, Via-Nampo,Dt-Balasore-756034,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	08.08.1992
1389	Pruthiwaraj Parida/Sh Baikuntha Parida	OSVC/2681/2015	At/PO-Attapur,Via-Soro,Dt-Balasore-756045,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	16.04.1992
1390	Pritam Mohapatra/Sh Kshirod Prasad Mohapatra	OSVC/2682/2015	At-Khetuali,PO-Orali,Via-Natadihi,Dt-Keonjhar-758083,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	21.03.1992
1391	Nilamadhab Sahoo/Sh Nibaran Sahoo	OSVC/2683/2015	Ast/PO-Kantor,PS-Parjang,Dist-Dhenkanal-759120,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	06.08.1992
1392	Soubhagya Ranjan Sahoo/ Sh Bhagirathi Sahoo	OSVC/2684/2015	Qr.No.-2,Palla,H.B.Colony, PO-Pallahat, Khordha-752056,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	12.11.1993
1393	Anshuman Mahapatra/Sh Bivash Ch Mahapatra	OSVC/2685/2015	Plot No-240/108,Lane-5, Aerodroma Area,Bhubaneswar-751020,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	28.08.1993
1394	Jangyadutta Dash/Sh Prasanna Kumar Dash	OSVC/2686/2015	Qr.No. L1-700,Phase-II, HB Colony,Dumuduma Bhubaneswra-751019,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	12.01.1993
1395	Kuresh Kumar Nayak/Sh Prafulla Kumar Nayak	OSVC/2687/2015	K.K.Nagar Housing Board,LIG-86,St-II,Berhampur, Dt-Ganjam,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	31.05.1993
1396	Pratyush Ranjan Bagh/Sh Sridhara Bagh	OSVC/2688/2015	At-Sonepur,Ambedkar Chowk, Dt-Sonepur-767017,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	09.06.1991
1397	Subhashree Sarangi/Sh Bhagaban Sarangi	OSVC/2689/2015	At/PO-Barabati, Via-Khandapara,Dist-Nayagarh-752077,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	15.04.1991
1398	Sampika Sahoo/Sh Nityananda Sahoo	OSVC/2690/2015	Plot No. 595/F,Sector-6,C.D.A Cuttack-753014,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	10.07.1992
1399	Sumitra Panigrahi/Sh Kishor Kumar Panigrahi	OSVC/2691/2015	Arvind Nagar,2nd Lane,House No-A/127, Berhampur, Dt-Ganjam,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	22.04.1991
1400	Mangalika Rout/Sh Umesh Chandra Rout	OSVC/2692/2015	At/PO-Rohia, Via-Nuagaon Hat, Dt- Jagatsinghpur-754113,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	14.06.1992
1401	Iswar Nayak/Sh	OSVC/2693/2015	At-Chitrakote,PO-	BVSc&AH/OUAT/2015	21.11.1991

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Bhajamana Nayak		Anchallguma,Dt- Nabarangpur-764069,Orissa		
1402	Biswashanti Jangya Dutta Rauta/Sh P.C. Rauta	OSVC/2694/2015	At/PO-Karlamunda,Dt-Kalahandi-766032,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	31.12.1991
1403	Sudhamayee Meher/Sh Sibaram Meher	OSVC/2695/2015	C/o Sibaram Meher,Sakhipara(Nr Radhakrishan Temple,Infront of Convent School),Sambalpur,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	15.08.1992
1404	Sonali Rout/Sh Umesh Chandra Rout	OSVC/2696/2015	L-16, BDA Colony, Khordha-752055,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	21.11.1991
1405	Swagatika Mishra/Sh Surya Narayan Mishra	OSVC/2697/2015	At/Po-Jaloe, Dt-Subamapur-767018,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	18.07.1992
1406	Alakananda Kar/ Sh Manoranjan Kar	OSVC/2698/2015	At-Chhatrapur,PO-Soro, Dt-Balasore-756045,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	07.03.1992
1407	Mayadevi Majhi/Sh Mohan Majhi	OSVC/2699/2015	At-Gidighaty,PO-Hatia,PS-Gorumahishani, Dt- Mayurbhanj-757042,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	19.07.1982
1408	Nibedita Sahoo/Sh Adaita Kumar Sahoo	OSVC/2700/2015	At-Sirasta,PO-Pailo,Via-Kolar,Dt-Jagatsinghpur-754162,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	18.03.1991
1409	Arun Kumar Sahoo/Sh Tikeswar Sahoo	OSVC/2701/2015	At/PO-Barpali(Ward No-4),Dt-Bargarh-768029,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	06.07.1987
1410	Smruti Rekha Pati/Sh Chitta Ranjan Pati	OSVC/2702/2015	At-Jahangirabad,PO- Sisua, PS-Salipur, Dt- Cuttack,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	30.04.1992
1411	Rachita Sethy/Sh Tuna Sethy	OSVC/2703/2015	At/PO/PS-Jagannath Prasad, Dt-Ganjam-761121,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	15.04.1992
1412	Priyanka Priyadarshini/Sh Ramesh Chandra Padhi	OSVC/2704/2015	At/Po-Narisho, Via-Balipatna,Dist-Khurda,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	15.04.1992
1413	Namasya Priyadarshini/Sh Parikshit Behera	OSVC/2705/2015	Plot No F/801, Sector-6, CDA Bidanasi, Cuttack-753014,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	28.10.1992
1414	Subhashree Nayak/Sh Aswini Kumar Nayak	OSVC/2706/2015	I.B.Road, Laxmanpur,PO-Jagatpur,Dt-Cuttack -754021,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	16.06.1992
1415	Bandeeta Mishra/Sh Brundaban Mishra	OSVC/2707/2015	At-Balisahi,PO-Indalo, Via-Danpur,Dt-Kendrapara-754210,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	21.08.1992
1416	Krushna Chandra Das/Sh Binayak Das	OSVC/2708/2015	E-021,Cosmopolies,Dumduma, Khandagiri,Bhubaneswar-751019,Orissa	BVSc&AH/OUAT/1991	17.08.1969
1417	Bibhu Prasad Dash/ Sh Dolgobinda Dash	OSVC/2709/2015	At-Sujanga, PO/Dt-Jagatsinghpur,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	20.05.1992
1418	Srikant Panigrahi/Sh Kalicharan Panigarhi	OSVC/2710/2015	D-1/2, Sector-A, Zone-D, MIE, Bhubaneswar,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	22.08.1192
1419	Lenin Kumar Gumpha/Sh Gumpha Ankit	OSVC/2711/2015	At/PO-Gunupur,Babulinagar,Dt-Rayagada, Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	04.05.1993
1420	Manas Ranjan Behera/Sh Upendra Prasad Behera	OSVC/2712/2015	At-Mangalabag Malhasahi, PO-Buxibazar,Dt-Cuttack-753001.Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	27.01.1991
1421	Asish Ranjan Sahoo/Sh Akhil Kumar Sahoo	OSVC/2713/2015	At-Gadadharpur,PO-Dahipur,Athgarh,Cuttack-754029,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	11.01.1992
1422	Rajesh Kumar Sethi/Sh Sankarsan Sethi	OSVC/2714/2015	At/PO-Bandhahuda,Narsinghpur,Cuttack, Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	19.04.1992
1423	Siddhant Sekhar Sahoo/Sh Ramakrishna Sahoo	OSVC/2715/2015	At/PO-Odagaon,Dalak,Dt-Nayagarh-752081,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	23.07.1991
1424	Stuti Tanaya	OSVC/2716/2015	At-Chandamari Padia,PO-	BVSc&AH/OUAT/2015	16.07.1992

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Mohanty/Sh Anandaballay Mohanty		Sahadevkhunta,Dt-Balasore-756001,Orissa		
1425	Alaka Abhipsa Baliarsingh/Sh Sudhir Kr Baliarsingh	OSVC/2717/2015	L-312, H.B.Colony,Baramunda,PO-Delta, Dt-Khurda-751003,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	03.05.1992
1426	Prasanta Kumar Nanda/Sh Debaraj Nanda	OSVC/2718/2015	At/PO-M. Rampur Dt-Kalahandi-766102,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	02.07.1992
1427	Manas Ranjan Praharaj/Sh Subash Chandra Praharaj	OSVC/2719/2015	Plot No- O, RBI Colony, Paikanagar,Baramunda, Dt-Khurda,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	10.05.1993
1428	Rajendra Kumar Tripathy/Sh Subash Chandra Tripathy	OSVC/2720/2015	At-Soubhagyanagar,FRC Back, PO-Angul, Dt-Angul-759122,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	16.11.1991
1429	Arya Prakash Panda/Sh Radhashyam Panda	OSVC/2721/2015	CDA Sector-7, Plot No 876/F, Cuttack-753014,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	21.12.1990
1430	Snehasis Pradhan /Sh Suresh Chandra Pradhan	OSVC/2722/2015	At-Singitali,PO-Praadeep Lock, Via-Kujang, Dt-Jajpur-754141,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	15.12.1992
1431	Shabnam Akhtar/Sh M.M.Hossain	OSVC/2723/2015	F-042,The Cosmopolis, Dumduma,NH-5,Khandagiri, Bhubaneswara-751019,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	11.10.1991
1432	Sudam Chandra Sahoo/Sh Jayakrushna Sahoo	OSVC/2724/2015	At-Sialianusahi,PO-Bolagarh,Dt-Khurda-752066, Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	27.09.1991
1433	Suchismita Mahalik/Sh Sankarsan Mahalik	OSVC/2725/2015	At-Jogeswarpur (in front of Tentuliath Temple),PO-Januganj,Dt-Balasore-756019,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	22.06.1992
1434	Rojalin Khatua/Sh Rama Chandra Khatua	OSVC/2726/2015	C/o Rama Chandra Khatua,At-Majhikhanda,PO-Niali,Dt-Cuttack-754004,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	12.09.1991
1435	Dalika Dehury W/o Sh Om Prakash Mohapatra	OSVC/2727/2015	C/o Om Prakash Mohapatra,Plot No-50, A.R.Complex,Shelter Chak, Tulsipur, Cuttack-753008,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	02.12.1990
1436	Satyabrata Khandanga/Sh Sudhir Kumar Khandanga	OSVC/2728/2016	At-Jaya Nagar,PO-Konisi,Dt-Ganjam-761008,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	30.05.1992
1437	Ramanuj Panda/Sh Dinabandhu Panda	OSVC/2729/2016	At/PO-Sovarampur(NearHanuman Mandir),Dist-Balasore-756001,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	31.01.1992
1438	Manoj Kumar Behera/Sh Mayadhar Behera	OSVC/2730/2016	At/PO-Gopalpur,PS-Khantapara,Dist-Balasore-756044,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	25.05.1992
1439	Suryakanta Roul/Sh Suresh Chandra Roul	OSVC/2731/2016	At/PO-Patapur,Via-Salipur,Dt-Cuttack-754202,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	17.10.1991
1440	Sunil Manohar Panda/Sh Nrusingha Parida	OSVC/2732/2016	At/PO-Dhanahara,PO-Majhahara,PS-Balipatna-752103,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	15.06.1993
1441	Manoj Kumar Das/Sh Rabindra Kumar Das	OSVC/2733/2016	At/PO-Kanpur,Via-Rasgobindpur, Dt-Mayurbhanj-757016,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	05.11.1992
1442	Priyabrata Behera/Sh Puskar Behera	OSVC/2734/2016	Vill-Balipatna,PO-Badas,Via-Kanas, Dt-Puri-752017,Orissa	BVSc&AH/OUAT/2015	18.03.1993
1443	Gurvinder Singh Gill S/o Sh Darshan Singh Gill	Pb.SVC/1473/15	688/2874,Gurdev Nagar, Ludhiana-141001, Punjab	BVSc&AH/PAU/1990	30.07.1967
1444	Gundeep Singh/Sh Darshan Singh Gill	Pb.SVC/3319/15	# 507, Old Carntt Road, Aman Nagar, Faridkot, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	19.08.1988
1445	Daljit Pal Singh/ Sh Gurbachan Singh	Pb.SVC/3320/15	H.No.166, Viveka Nand Park, Maqsudan, Jalandhar,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	05.02.1990
1446	Satpal Singh/Sh Gurdeep	Pb.SVC/3321/15	# C-038,Dev Nagar	BVSc&AH/GADVASU/	14.07.1987

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Singh		Colony, Ghurala, PO&Dist-Gurdaspur-143521, Punjab	2015	
1447	Sumeetinder Singh Bhangu/Sh Gurinder Singh Bhangu	Pb.SVC/3322/15	H.No.81, Ward No.05, Prem Nagar, Morinda, Dist-Ropar, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	07.02.1991
1448	Shamsher Pal Singh Bajwa/Sh Manjit Singh Bajwa	Pb.SVC/3326/15	H.No.1217, Ward No.-3, Near Suncity Enclave, Jalandhar Road, Tehsil-Batala, Dt-Gurdaspur, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	18.07.1988
1449	Bikram Singh Grewal/Sh Rajnish Singh Grewal	Pb.SVC/3327/15	H.No.-5356, Sahibzada Jujhar Singh Nagar, Ropar, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	14.03.1991
1450	Harninder Singh Marok/Sh Narinder Singh	Pb.SVC/3328/15	90 Anoop Nagar, PO- Basti Danishmanda, Tehsil &Dt-Jalandhar, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	17.09.1990
1451	Omer Din S/o Sh Gulzar Khan	Pb.SVC/3329/15	Village Manal, PO- Karur, Tehsil &Dt- Barnala-148104, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	02.03.1991
1452	Romy Gill/ Sh Jagpal Singh Gill	Pb.SVC/3330/15	273, Block-G, Bhai Randhir Singh Nagar, Ludhiana-141012, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	04.10.1991
1453	Mankesh Kumar Mishra/Sh Shesh Kumar Mishra	Pb.SVC/3331/15	C/o DAV College, Jalandhar-144008, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	05.04.1991
1454	Gagandeep Singh /Sh Jaimal Singh	Pb.SVC/3332/15	VPO Bolewal, Tehsil -Batala, Dt-Gurdaspur-143514, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	10.09.1991
1455	Parampartap Singh Sandhu/Sh Bhupinder Singh	Pb.SVC/3333/15	236, Akash Avenue, Fatehgarh Churian Road, Amritsar-143001, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	22.06.1992
1456	Nikhil Sharma/Sh Surender Kumar Sharma	Pb.SVC/3334/15	# 178 Tribune Society Kansal. P/O-Naya Gaon, Dt- SAS Nagar (Mohali), Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	28.10.1992
1457	Navreet Singh/ Sh Balvir Singh	Pb.SVC/3335/15	Sardar Colony, Backside Govt. Ranbir College, Street No-5, Sangrur, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	15.02.1989
1458	Gagan Deep Kaur/Sh Narinder Kumar	Pb.SVC/3336/15	VPO Gardley, Tehsil & Dist-Ropar, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	25.12.1991
1459	Narinder Kumar/Sh Sukhdev Ram	Pb.SVC/3337/15	Village-Karamgarh Satran, P/O-Sardargarh, Tehsil& Dist-Bathinda, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	13.01.1989
1460	Jaskaran Singh/Sh Jaswant Singh	Pb.SVC/3338/15	Village-Jandali, P/O-Nizampur, Tehsil-Payal, Dt-Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	06.12.1992
1461	Amandeep Kaur/Sh Bhupinder Singh	Pb.SVC/3339/15	# 6979, B 34, Sunil Park, Jassian Road, Haibowal Kalan, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	23.06.1992
1462	Ankur Deep Gill/Sh Sukhdev Singh Gill	Pb.SVC/3340/15	H.No.268-B, Rajguru Nagar, Ludhiana-141012, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	28.04.1982
1463	Harmanpreet Singh Bal/Sh Karnail Singh Bal	Pb.SVC/3341/15	H.No.3/171, Avtar Nagar, Mandi Mullanpur, Dt- Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	09.11.1992
1464	Jagjit Singh/Sh Labh Singh	Pb.SVC/3342/15	Aadarsh Colony, Garewal Chock, Ajit Nagar, Malerkotla, Dt-Sangrur, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	12.06.1991
1465	Dheeraj Kumar Sharma/Sh Parhalad Chand Sharma	Pb.SVC/3343/15	H.No.293, New Civil Line, Near Old Election Office, Hoshiarpur, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	27.11.1991
1466	Raman Vohra/Sh Arun Kumar	Pb.SVC/3344/15	MES Road, Opp Chanakya Modern School, Fazilka, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	27.11.1991
1467	Mandeep Singh/Sh Nirmal Singh	Pb.SVC/3345/15	Village Mehmampur Tehsil-Bassi Pathana, P/O-Balhari Kalan, Dt-Fatehgarh, Sahib, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	19.10.1991
1468	Priyanka Rani/Sh Narinder Kumar	Pb.SVC/3346/15	VPO-Ransih Kalan, Tehsil-Nihal Singh Wala, Dt-Moga-142055, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	20.11.1992

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1469	Satinder Pal Singh/Sh Karamjit Singh	Pb.SVC/3347/15	H.No.9/529,St.No.2, Parjapat Street, Ward No-23,New Surga Puri, Kotkapura,Dt-Faridkot,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	06.12.1988
1470	KirandeepKaur Gill/Sh Harpreet Singh	Pb.SVC/3348/15	VPO-Lapran, Tehsil- Payal, Distt-Ludhiana-141421,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	25.12.1992
1471	Amritpal Singh/Sh Gurvinder Singh	Pb.SVC/3349/15	B-1/1116,Jagdish Colony, Kalka Road, Rajpura, Dt-Patiala,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	11.05.1992
1472	Parmail/ Sh Mitha Singh	Pb.SVC/3350/15	Village-Manwala,P/O- Kot Bakhtu, Tehsil-Talwandi Sabo,Dt-Bathinda-151301,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	29.03.1985
1473	Jagdeep Singh Mann/Sh Gurnam Singh	Pb.SVC/3351/15	Village-Lunde Wala, Tehsil-Giddarbaha, P/o-Badain, Dt-Sri Mukatsar Sahib,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	08.12.1990
1474	Gurkirat Singh/Sh Darbara Singh	Pb.SVC/3352/15	VPO- Ayali Kalan, Dt-Ludhiana-142027,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	10.10.1992
1475	Gurnoor Singh /Sh Surjit Singh	Pb.SVC/3353/15	Kothi No-70, Vikas Vihar, Phase-1,Ferozepur City,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	08.01.1993
1476	Navjot Singh Dhaliwal/Sh Ravinder Singh Dhaliwal	Pb.SVC/3354/15	H.No.BXIII/880.Baba Deep Singh Nagar, Handiaya Road, Barnala,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	03.12.1992
1477	Sandeep Kumar/ Sh Inder Pal	Pb.SVC/3355/15	VPO Adoana, Tehsil-Balachaur,Dt- SBS Nagar, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	22.07.1992
1478	Navneet Gupta/Sh Krishanjeet Goyal	Pb.SVC/3356/15	B-V-122,St No-2,Sangatpura Colony,Patiala Gate, Nabha, Dt-Patiala-147001,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	07.07.1991
1479	Rajeev Kumar Mishra/Sh Mahesh Mishra	Pb.SVC/3357/15	Tibri Road, Gurdaspur, P/O &Dist-Gurdaspur,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	09.01.1992
1480	Surbhi Aggarwal/Sh Ramesh Aggarwal	Pb.SVC/3358/15	1834/1, St.No.-1,Pavitar Nagar, Haibowal Kalan,Ludhiana-141001,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	08.10.1992
1481	Rajanbir Singh /Sh Satnam Singh	Pb.SVC/3359/15	H.No.93,St. No.-3, Ujjagar Nagar, Batala Distt, Gurdaspur,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	27.10.1990
1482	Priyanka Kumari S/o Sh Ajay Kumar Sinha	Pb.SVC/3360/15	Room No.102, Hostel No.-5, GADVASU, PAU Campus, Ludhiana,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	10.12.1989
1483	Anant Simran Singh/Sh Amarvir Singh	Pb.SVC/3361/15	H.No.229, Near Pachowari Chowk, Village Sheikh Chak, Dist-Tarn Tarn,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	17.08.1991
1484	Mandeep Kaur/Sh Hardev Singh	Pb.SVC/3362/15	Village- Badduwal,Tehsil-Dhaamkot, Dist-Moga, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	08.09.1989
1485	Vivek Sharma/Sh Ramesh Chandra	Pb.SVC/3363/15	VPO-Behrapur,Dt-Gurdaspur-143532,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	29.09.1992
1486	Taranjot Kaur/ Sh Harjinder Singh	Pb.SVC/3364/15	H.No.-745-A,St.No.-4,Bajwa Colony, Patiala,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	26.10.1992
1487	Ravneet Ghumman/ Sh Sarbjit Singh	Pb.SVC/3365/15	Q 357 -B, Type-III, Rail Coach Factory, Kapurthala,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	07.01.1992
1488	Sukhmeet Kaur/ Sh Sarabjit Singh	Pb.SVC/3366/15	Village Bhoon, P/o &Dt-Gurdaspur-143521,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	29.07.1991
1489	Jagmeet Kaur/Khalwinder Singh	Pb.SVC/3367/15	Village-Chainewal, PO-Rai chak, Tehsil Baba Dera Nanak, Dt-Gurdaspur -143511,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	15.05.1990
1490	Sumanpreet Kaur /Sh Manjit Singh	Pb.SVC/3368/15	# 15447 -A St.No.-2, Mata Jeevi Nagar, Near Rose Garden, Bathinda, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	09.01.1992
1491	Amandeep Kaur/Sh Manjit Singh	Pb.SVC/3369/15	VPO Didara Wala, Tehsil-N.S.Wala,Dt-Moga, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	05.02.1993
1492	Harneet Saini/Sh Ved Parakash	Pb.SVC/3370/15	VPO-Noorpur Bedi, Tehsil - Anandpur Sahib, Dt- Ropar-140001,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	06.02.1991

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1493	Angad Nanda/Sh Santpal Singh Nanda	Pb.SVC/3371/15	Room No-16, Hostel No.-9, PAU Campus,Ludhiana-141001,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	24.09.1990
1494	Arshdeep Randhawan/Sh Sukhminder Randhawa	Pb.SVC/3372/15	Chaudhary Wala, Dt-Amritsari N/a W.No.-06, Pathankot,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	16.07.1987
1495	Aadish Balouria/Sh R.S.Balouria	Pb.SVC/3373/15	HB No.381, Village Chhatwal Tehsil- Pathankot Dt-Gurdaspur,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	25.03.1990
1496	Supreet Singh Dhillon/Sh Nishan Singh	Pb.SVC/3374/15	Gill Street, Talwandhi Road, Zira Dt - Ferozepur,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	27.03.1992
1497	Kamal Jeet/Sh Sita Ram	Pb.SVC/3375/15	Ward No-22, Street No.-1, Near Ramdev Mander, Gandhi Basti, Kotkapura, Dt-Faridkot-151204,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	08.08.1992
1498	Amanpreet Singh/Sh Krishan Singh	Pb.SVC/3376/15	Bareta Tehsil Budhlada Dt, Mansa,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	23.12.1990
1499	Sanjam Singh/ Sh Kuleep Singh	Pb.SVC/3377/15	9/17,PAU, Ludhiana-141001,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	14.04.1991
1500	Iqbal Singh/Sh Jagtar Singh	Pb.SVC/3378/15	Nr BSNL Tawar,Dashmesh Nagar,Mullanpur,Mullanpur Mandi, Ludhiana,Ludhiana(West)-141101,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	16.03.1991
1501	Vinay Kumar/Sh Ram Singh	Pb.SVC/3379/15	Village Sahle Chack, Tehsil &Dt-Gurdaspur,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	10.12.1991
1502	Jatinder Pal Singh/ Sh Ram Singh	Pb.SVC/3380/15	H.No.322, Village Ugrahan, Tehsil-Sunam, Dt-Sangrur,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	28..03.1991
1503	Harsuveg Singh/Sh Baljit Singh	Pb.SVC/3381/15	Village Mustafabad, Tehsil-Bassi Pathanan, Dt-Fatehgarh, Sahib,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	05.05.1990
1504	Jaanes M Kaur/ Sh Tej Bal Singh	Pb.SVC/3382/15	H.No.296,Sector-10, Chandigarh,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	05.06.1992
1505	Kamal Preet Singh/ Sh Baldev Singh	Pb.SVC/3383/15	Village Raj Prura,P/O-Sarna Station (R.LY), Tehsil	BVSc&AH/RAJUVAS/2013	15.05.1990
1506	Yogesh / Sh Raj Kumar	Pb.SVC/3384/15	H.No. B-IV,889, St.No.-13, Nai Abadi Bada Pull, Tehsil Abohar Govt. Seed Form, Dt-Fazilka,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	26.11.1993
1507	Simratbir Singh Gill/ Sh Narinder Pal Singh Gill	Pb.SVC/3385/15	VPO-Phullu-Khera,Tehsil Malout, Dt-Sri Mukatsar Sahib,Punjab	BVSc&AH/RAJUVAS/2014	11.11.1990
1508	Harjap Singh/ Sh Suchchain Singh	Pb.SVC/3386/15	Village-Ratul Bet, Tehsil- Zira, Dt-Ferozepur,Punjab	BVSc&AH/RAJUVAS/2014	16.07.1989
1509	Gurmukh Singh/Sh Jai Singh	Pb.SVC/3387/15	Village Algon Kothi, Tehsil Patti, Distt-Tarn Taran, Punjab	BVSc&AH/RAJUVAS/2012	05.08.1989
1510	Amrit Singh/Sh Ranjit Singh	Pb.SVC/3388/15	Village-Faizgarh, P/O- Himtana, Tehsil-Malerkotla, Distt-Sangruru,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	13.04.1989
1511	Sandeep Singh/Sh Bhavishan Singh	Pb.SVC/3389/15	Village-Sadhuwala, Tehsil-Sardulgarh, Distt- Mansar,Punjab	BVSc&AH/RAJUVAS/2014	10.01.1992
1512	Mahinder Singh/Sh Harjinder Singh	Pb.SVC/3390/15	Ward No-8, Fatehgarh Churian, Tehsil-Sardlgarh, Dt-Mansa,Punjab	BVSc&AH/RAJUVAS/2014	02.09.1991
1513	Sunpreet Singh Sandhu/Sh Amarjit Singh	Pb.SVC/3391/15	H.No. 1425, Shahzada Nagar, Zira, Tehsil Zira, Distt-Ferozepur,Punjab	BVSc&AH/RAJUVAS/2014	21.01.1991
1514	Amandeep Singh Sirari/ Sh Balwant Singh	Pb.SVC/3392/15	H.No.-19, Vikas Vihar, Phase-2, Near Vishal Dairy, Ferozepur City, Tehsil&Dt-Ferozepur,Punjab	BVSc&AH/RAJUVAS/2013	14.06.1989
1515	Khushmeet Kaur/ Sh Kuldeep Singh Brar	Pb.SVC/3393/15	H.No.19498, St.No.-3, Ajit Road, Bathinda, Punjab	BVSc&AH/RAJUVAS/2013	02.11.1989
1516	Harkamal Singh/Sh Tarsem Chand	Pb.SVC/3394/15	H.No. BXI/1718,Shakti Nagar, St. No.1, Barnala-148101,Punjab	BVSc&AH/RAJUVAS/2013	18.09.1987

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1517	Ankit Narang/Sh Ashok Narang	Pb.SVC/3395/15	H.No.B-1653, Kailash Nagar, St-20, Fazilka-152123,Punjab	BVSc&AH/RAJUVAS/2012	01.11.1989
1518	Darleen Kaur Grewal/ Sh Dalbir Singh Grewal	Pb.SVC/3396/15	230, Model House, Ludhiana,Punjab	BVSc&AH/RAJUVAS/2012	27.02.1990
1519	Prateek Sharma/Sh Sat Pal	Pb.SVC/3397/15	Sharma Engg. Works, Near Guruwara Chowk, Mansa,Punjab	BVSc&AH/RAJUVAS/2012	01.01.1989
1520	Anu Dhiman/ Sh Raj Kumar	Pb.SVC/3398/15	602, Urban Estate, Kapurthala(Rural),Kapurthala,Kapurthala, Punjab-144601,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	23.09.1990
1521	Deepinder Singh/Sh Harcharanjeet Singh	Pb.SVC/3399/15	VPO-Bandi, Tehsil&Dist-Bathinda,Punjab	BVSc&AH/RAJUVAS/2014	27.01.1990
1522	Agyapal Singh/Sh Pritam Singh	Pb.SVC/3400/15	H.No.78-A, Village Malakpur Bhimra, Malakpur Bhimra,Mansa Uddat Saidewala, Punjab-151503,Punjab	BVSc&AH/RAJUVAS/2014	23.05.1992
1523	Nazneen Atwal/Sh Trishan Singh Atwal	Pb.SVC/3401/15	Atwal, Malko,Malko Tarar, Jalandhar, Jalandhar-II, Punjab-144026	BVSc&AH/RAJUVAS/2014	21.03.1989
1524	Manvir Singh Nahal/Sh Jaswinder Singh Nahal	Pb.SVC/3402/15	PO-Kartarpur, Hassan Munda, Jalandhar, Punjab-144801,Punjab	BVSc&AH/RAJUVAS/2012	22.08.1988
1525	Rasmeeek Kaur Brar/Sh Harjinder Singh Brar	Pb.SVC/3403/15	# 19672 Street Number 9 -A,Ward Number 15,Ajit Road,Bathinda City, Bathinda Punjab-151005,Punjab	BVSc&AH/RAJUVAS/2013	11.03.1991
1526	Maninder Jeet Singh Shatab/Sh Surjeet Singh Shatab	Pb.SVC/3404/15	Mai Godri Lir Mal Colony, Kotkapura Road, Faridkot, Dt-Faridkot,Punjab	BVSc&AH/RAJUVAS/2013	20.12.1991
1527	Mohinderpal Singh./Sh Bhagwant Singh	Pb.SVC/3405/15	Bangehar Patti, Dhanaula, Barnala-148105,Punjab	BVSc&AH/RAJUVAS/2013	23.02.1990
1528	Rajdeep Brar/ Sh Manjit Singh	Pb.SVC/3406/15	H.NO.23979, St.No.16/1,Dhobiana Road, Bathinda,Punjab	BVSc&AH/RAJUVAS/2013	03.06.1990
1529	Gurwinder Singh/Sh Gurmel Singh	Pb.SVC/3407/15	Village Mahan Bhaddar, Tehsil Sri Mukatsar Sahib, Dt-Sri Mukatsar Sahib,Punjab	BVSc&AH/RAJUVAS/2013	07.10.1989
1530	Jai Shiv/ Sh Ved Prakash	Pb.SVC/3408/15	Near Shivalik School,Ward No-4,Shaheed Bhagat Singh Colony,Jalabad West, Distt-Fazilka-152024,Punjab	BVSc&AH/RAJUVAS/2013	12.09.1989
1531	Suhail Liaquat/ Sh Liaquat Ali Farooqui	Pb.SVC/3409/15	Muhalla Araian Chaudharian Wala, Inside Sirhindi Gate, Malerkotla, Dt-Sangrur-148023,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	14.11.1988
1532	Poonam Bawa/ Sh Manohar Dass	Pb.SVC/3411/15	H.No-16944,St No-1, Vasant Vihar, Dt-Bathinda-151001, Punjab	BVSc&AH/RAJUVAS/2013	17.12.1989
1533	Ajaypal Singh Kahlon/Sh Satnam Singh Kahlon	Pb.SVC/3412/15	H.No.16, Karan Vihar,Near Diamond Avenue, Lane-4, Majitha Road, Amritsar-143101,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	14.10.1992
1534	Amandeep Kaur Gill/Sh Buta Singh Gill	Pb.SVC/3413/15	Buta Singh Gill S/o Sh Kehar Singh, VPO-Sadha Singh Wala, Tehsil&Dt-Moga-142048,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	21.03.1991
1535	Ashish Gupta/Sh Anil Kumar Gupta	Pb.SVC/3414/15	234/7, Baba Ram Singh Colony, Circular Road, Nabha Dt Patiala-147201,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	02.06.1993
1536	Bhupinder Singh/Sh Gurcharan Singh	Pb.SVC/3415/15	Village Jhall, P/O- Amargarh, Tehsil-Malerkotla, Dt- Sangrur-148022,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	04.09.1991
1537	Chandandeep Kaur/Sh Kans Singh	Pb.SVC/3416/15	Village-Chankoiyan Khurd,P/O-Doraha, Tehsil- Payal, Dt-Ludhiana-141421,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	17.09.1989

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1538	Dilpreet Singh Atwal/Sh Harjeet Singh Atwal	Pb.SVC/3417/15	H.No.4701, Green Avenue, Tehsil -Nakodar, Dt- Jalandhar-144040,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	11.09.1990
1539	Gurcharan Singh/Sh Haqiq Singh	Pb.SVC/3418/15	Manna Pindi, Barnala Rd, Dhanaula,Dt-Barnala-148105, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	17.09.1989
1540	Gurpreet Singh /Sh Roop Singh	Pb.SVC/3419/15	Village-Lallon Khurd, Tehsil Amloh, P/o- Shampuspur, Dt-Fatehgarh, Sahib-147203, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	02.02.1992
1541	Hardilwerpreet Singh/ Sh Harnek Singh	Pb.SVC/3420/15	H.No.-230,St.No-1,Amarpura Mohalla,Ward No-1, Ahmedgarh, Ahmedgarh,Sangrur, Punjab-148021	BVSc&AH/GADVASU/2015	01.06.1991
1542	Harmanpreet Singh/ Sh Lakwinder Singh	Pb.SVC/3421/15	H.No.-147, VPO- Hoshiar Nagar, Tehsil & Dt- Amritsar - 143001,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	06.06.1992
1543	Harmanpreet Singh Sodhi/Sh Narjeet Singh Sodhi	Pb.SVC/3422/15	H.No.131, St. No.-2, Anand Nagar, Moga -142001,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	19.11.1991
1544	Harmeet Singh Snadhu/Sh Dilbag Sandhu	Pb.SVC/3423/15	H.No 65, Guru Teg Bahadur Nagar, Old Cantt. Road, Near Tara Palace, Faridkot-151203,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	06.08.1991
1545	Harpreet Singh/Sh Amarjit Singh	Pb.SVC/3424/15	VPO- Nausherapannuan Patti Resalki, Tehsil- & Dt- Tarn, Taran-143401,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	01.01.1990
1546	Harshdeep Kaur/Sh Parminder Singh	Pb.SVC/3425/15	Green Avenue, Near Amritsar Bypass Dt-Tarn, Taran-143401,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	27.06.1991
1547	Hirdey Pal Singh/Sh Ranjit Singh	Pb.SVC/3426/15	177,Golden Avenue, Phase-1, Jalandhar City-144022, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	16.05.1992
1548	Jaideep Kaur/Sh Hardeep Singh Kahlon	Pb.SVC/3427/15	H.No-5,Near Jawahar Enclave, Mirpur Morh,Jail Road, Gurdaspur-143521,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	06.02.1992
1549	Japinder Singh/ Sh Ranjeet Singh	Pb.SVC/3428/15	Village-Warriach,Tehsil-Amloh, Dist-Fetehgarh Sahib-147203,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	01.06.1992
1550	Jasmeen Kaur/Sh Harbhajan Singh	Pb.SVC/3429/15	Village-Bhangewala,P/O-Seerwall, Tehsil Mukatsar, Dt- Sri Mukatsar Sahib-152026, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	03.12.1992
1551	Jaspreet Singh Grewal/Sh Gurjinder Singh Grewal	Pb.SVC/3430/15	H.No. 14629,B-31,Tibba Road, Ludhiana-141001, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	03.02.1992
1552	Jobanjit Singh/ Sh Jaswant Singh	Pb.SVC/3431/15	VPO- Khilchian, Tehsil-Baba Bakala Sahib,Dt- Amritsar-143111, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	26.10.1991
1553	Jugraj Singh Mahal /Sh Kulwinder Singh	Pb.SVC/3432/15	Ajit Estate,VPO-Sultanwind,Dt-Amritsar,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	19.08.1991
1554	Kanwarpal Singh/ Sh Balwinder Singh	Pb.SVC/3433/15	VPO-Adda Chabhal,Bhikhiwind Road, Dist-Tarn Taran-143001,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	26.11.1992
1555	Kulwant Singh/ Sh Maghar Singh	Pb.SVC/3434/15	Ward No.-11, H.No-236,Kartar Nagar,Near Amloh Road Khanna, Dt- Ludhiana-141401,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	15.11.1990
1556	Lakhveer Singh/ Sh Rajwant Singh	Pb.SVC/3435/15	VPO-Saffu Wala, Tehsil &Dt-Moga-142048, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	18.01.1984
1557	Malkeet Singh / Sh Atma Singh	Pb.SVC/3436/15	VPO-Aminwala Tehsil-Dharamkot, Dt-Moga-142042, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	25.01.1992
1558	Manpreet Singh Bhinder/ Sh Daya Singh	Pb.SVC/3437/15	Village-Darewali,PO-Paddy,Tehsil-Batala, Dt-Gurdaspur-143514,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	24.11.1991

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1559	Naripjeet Kaur/Sh Gurbrinder Singh	Pb.SVC/3438/15	Village-Madahar Kalan,P/O-Bariwala,Dt- Sri Muaktsar,Sahib-152025	BVSc&AH/GADVASU/2015	18.11.1992
1560	Navjot Singh Sindhu/ Sh Baldev Singh	Pb.SVC/3439/15	H.NO.-364/32,CD-2,Atam Nagar, Jagraon Dt,Ludhiana-142026,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	14.02.1993
1561	Navrose Sangha/Sh Surjit Singh	Pb.SVC/3440/15	Village Bir Bholu Wala,P/O-Pakhi Kalan,Tehsil &Dt-Faridkot-151203,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	29.08.1992
1562	Neha Joshi/ Sh Vijay Kumar Joshi	Pb.SVC/3441/15	Opp-KRJ DAV Public School, Defence Colony,Kartarpur Road, Kapurthala-144601,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	28.02.1992
1563	Parampreet Singh Walia/ Sh Charanjit Singh Walia	Pb.SVC/3442/15	H.No.10/81,PAU Campus, Punjab Agricultural University,Ludhiana-141004,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	20.05.1988
1564	Parampreet Singh/ Sh Jasbir Singh	Pb.SVC/3443/15	VPO-Ghanauli, Tehsil&Dt-Roop Nagar-140113, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	28.02.1993
1565	Parminder Singh/ Sh Baljinder Singh	Pb.SVC/3444/15	Village-Saidpur,P/O-Landran, Dt-SAS Nagar-140307,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	09.01.1991
1566	Rajat Bedi/ Sh Ish Bedi	Pb.SVC/3445/15	115-1,Sarabha Nagar,Ludhiana-141001,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	22.04.1991
1567	Rashpal Singh/ Sh Makhan Singh	Pb.SVC/3446/15	H.No.B-XIII/1788,St.No.-8,Lakhy Colony, Barnala-148101,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	01.11.1990
1568	Ravelpreet Singh/Sh Gurpal Singh	Pb.SVC/3447/15	VPO-Khanuwan,H.NO-49,Hoshiar Singh Colony,Near Bus Stand,Dt-Gurdaspur-143528,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	03.03.1993
1569	Rohit/ Sh J.B.Aggarwal	Pb.SVC/3448/15	H.No.124,Sanchar Colony,Bhai Randhir Singh Nagar, Block-D, Ludhiana-141001,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	29.12.1991
1570	Sandeep Singh/Sh Randhir Singh	Pb.SVC/3449/15	78,Adarsh Nagar, Ram Tirath Road, Amritsar-143001,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	15.08.1991
1571	Satvir Singh/Sh Iqbal Singh	Pb.SVC/3450/15	Lehna Patti,VPO-Pakhawal, Dt-Ludhiana-141108,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	05.11.1989
1572	Shanndeeep Singh Kahlon/Sh Harinder Pal Singh Kahlon	Pb.SVC/3451/15	A-2,H.No.-96,NRI Colony,Loharka Road, Ranjit Vihar,Amritsar-143001,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	25.11.1991
1573	Shikha Rani/ Sh Mahinder Pal	Pb.SVC/3452/15	GNC Road, Infront of Peer Khana, Budhlada,Dt-Mana-151502,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	03.03.1990
1574	Simranjit/Sh Ram Prakash	Pb.SVC/3453/15	H.No. 1041 B, Partap Nagar, Amritsar-143001,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	20.05.1991
1575	Veerpal Kaur/SH Harchand Singh	Pb.SVC/3454/15	VPO-Harsha Chinnu,Tehsil-Ajnala, Dt- Amritsar-143001,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	24.10.1992
1576	Mithun Kapoor/Sh C.D.Kapoor	Pb.SVC/3455/15	H.NO.E-590,Ranjit Avenue,Amritsra,Punjab	BVSc&AH/RAJUVAS/2014	14.01.1987
1577	Kamal Kumar/Sh Shivcham Das	Pb.SVC/3456/15	W.No-18,Nr Kuku's Shop,Old Factory Road,Kotakpura,Faridkot, Punjab -151204,Punjab	BVSc&AH/RAJUVAS/2014	30.09.1991
1578	Simran K Bhullar/Sh B.S. Bhullar	Pb.SVC/3457/15	# 6 Baba Farid Complex, 'A' Moga-142001, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	15.10.1991
1579	Ku.Prachi Seth/Sh Rahul Seth	Pb.SVC/3458/15	W/o Kunal Seth,322, I.V.Y, Hospital, Sector-71, SAS Nagar (Mohali) -160071,Punjab	BVSc&AH/NDPVV/2012	18.09.1986
1580	Niraj Prasher/Sh Nand Lal Sharma	Pb.SVC/3460/15	14 Jain Nagar, Ambala Cantt, Punjab	BVSc&AH/HAU/1976	22.02.1955
1581	Manoj Kumar/Sh Harpaul Kumar	Pb.SVC/3461/15	Gandhi Basti,Gali No-4, Kotkapura Dt, Faridkot,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	07.09.1991
1582	Ridhima Demra/Sh Darshan Kumar Demra	Pb.SVC/3464/15	#1994, Kheta Ram Street,Mukatsar-152026,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	15.06.1991

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1583	Harleen Kaur Dhillon/Sh Pargat Singh Dhillon	Pb.SVC/3465/15	H.No.28, PH-3,Urban Estate,Dugri PH-3, Basant Avenue,Ludhiana-141013,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	26.01.1991
1584	Pushpinder Singh/Sh Sukhdev Singh	Pb.SVC/3466/15	H.No.128, Phul Town, Rampura Phul,Tehsil-Rmapura, Phul, Dt-Bathinda,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2015	21.02.1992
1585	Gagandeep Singh/Sh Inderjeet Singh	Pb.SVC/3468/15	Q.No.-1142,UT3, Sector-3,Talwara Township, Talwara, Hoshiarpur-144216	BVSc&AH/OUAT/2008	05.09.1985
1586	Virampal Singh/Sh Karnail Singh	Pb.SVC/3470/15	BSF Campus, Gurdaspur,Tehsil & Dt-Gurdapur,Punjab	BVSc&AH/SKUAST/2011	04.07.1988
1587	Inder Pal Singh/Sh Man Singh	Pb.SVC/3472/16	C/o Mr.Gurmeet Singh.H.No.214/B,Gali No.-9, Satguru Ram Singh Colony,New Mohini Park,Opp_Khalsa College, Amritsar-1,Punjab-143002	BVSc&AH/SKUAST/2010	21.03.1987
1588	Nitasha Sambyal/Sh Sushil Singh Sambyal	Pb.SVC/3473/16	H.No.1690,Islamabad Amritsar,G.P.O, Amritsar-143001,Punjab	BVSc&AH/SKUAST/2010	14.09.1986
1589	Avinash Neeraj/Sh Neeraj Kumar	Pb.SVC/3474/16	Krishna Gali, Dana Mandi, Gurdaspur,Punjab	BVSc&AH/SKUAST/2012	18.04.1990
1590	Preet Pal Singh/ Sh Harwant Singh	Pb.SVC/3476/16	H.No.583,Model Gram. Ludhiana, Punjab-141002	BVSc&AH/PAU/1989	08.01.1967
1591	Kamalpreet Singh/Sh Surjit Singh	Pb.SVC/3478/16	Opp-Improvement Trust Colony, Singha Wala Road, Moga Tehsil & Dt- Moga,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/2016	08.12.1988
1592	Sahil Kumar/Sh Lal Chand Master	Pb.SVC/3479/16	B 32 E 14/7892, Bharti Colony, Bahadur Ke Road, Nr Manu Medical Store, Ludhiana-141007,Punjab	BVSc&AH/JNKVV/2010	09.05.1986
1593	Manik Sharma/Sh Dev Raj Sharma	Pb.SVC/3481/16	Town Dhariwal, P/O-Dhariwal Tehsil & Dt-Gurdaspur, Punjab	BVSc&AH/SKRAU/2012	26.02.1990
1594	K.Sundiresan S/o Kannan	PondiSVC/384/15	NO.37, East Car Street, Villianur, Puducherry-605110	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2012	05.09.1987
1595	A.Karthikeyan S/o Anbazhagan	PondiSVC/385/15	No. 47, II Cross, Moogambigai Nagar,Reddiyarpalayam, Puducherry -605010	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2012	18.03.1991
1596	R.Iyyapan S/o Sh Rajendiran	PondiSVC/386/15	No-9, East Manaveli Street, Kalitheerthalkuppa,m, Puducherry-605107	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2014	26.11.1990
1597	A.Arun Bharathi D/o Sh A. Arunachalam	PondiSVC/387/15	No.-5,Arunagiri Chetti Street, Muthialpet, Puduchery-605003	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2014	15.06.1993
1598	C.Prasad S/o Sh Chakaravarthy	PondiSVC/388/15	No.-67,Cuddalore Road, Thirubuvanai, Palayam, Puducherry-605107	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2014	4.12.1991
1599	R.RavikumarS/o Sh Ravichandran	PondiSVC/389/15	No.-47,Vanoli Street, Katterikuppam, Puducherry-605502	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2014	19.04.1993
1600	A.Thennavan S/o Sh Arumugam	PondiSVC/390/15	NO.-3,Chinnaveerampattinam Street, Odaively, Ariyankuppam,Puducherry-605007	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2014	24.12.1992
1601	M.Sathiya Moorthy S/o Sh Majini	PondiSVC/391/15	No.-8, Kamaraj Street, Alankuppam, Puducherry-605111	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2014	05.09.1991
1602	B.Subrfamanian/Sh Baskaran	PondiSVC/392/15	No.-48,Thiruvalluvar Street,Divan Kandappa Nagar, Nainarmandapam, Puduchery-605004	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2014	14.09.1992
1603	V.Arthy D/o Sh A.Vedassalame	PondiSVC/393/15	NO.-16,Vivekanandha Street,Kottaimedu, Villianur,Puducherry-605110	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2014	19.01.1993
1604	V.Jayalakshmi D/o Sh	PondiSVC/394/15	No.-17, Alli Street, Solai Nagar,	BVSc&AH/Pondicherry	05.07.1993

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Vasu		Muthaiya Mudaliyar Street, Muthialpet, Puducherry-605003	Uni/2014	
1605	R.Santhanalakshmi D/o Sh Ramachandran	PondiSVC/395/15	No 37, Southpet, Neravy, Karaikal, Puducherry-609604	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2014	25.02.1991
1606	J.Manimegalai D/o Jyothi Vaithiyathan	PondiSVC/396/15	No.61, Muthaiya Mudaliyar Street, Muthialpet, Puducherry-605003	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2014	29.01.1992
1607	K.Vijayalakshmi D/o Sh Kennedy	PondiSVC/397/15	No.53, North Street, Sethour Post, V.Kottapadi, Thennangufy, Karaikal, Puducherry-609607	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2014	15.06.1993
1608	A.Ramadevi D/o Sh Ariharance	PondiSVC/398/15	No.47, Pooranankuppam Street, Subbaiah Nagar, Ariyankuppam, Puducherry-605007	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2014	28.06.1993
1609	S.Rajalakshmi D/o Sh Sundaramoorthy	PondiSVC/399/15	No.-12, Gangaiamman Koil Street, Thattanchavady, Puducherry-605009	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2014	05.08.1990
1610	M.Senthilnathan S/o Sh Murugesan	PondiSVC/400/15	No.-19, Pillaiyar Kovil Street, Thooduponamalai Neravy, Karaikal, Puducherry-609604	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2014	28.12.1992
1611	K.Amarna D/o Sh Kasi	PondiSVC/401/15	No-22, Vethapurinatham, Bahour, Puducherry-607402	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2014	08.09.1989
1612	Vishnupriya D/o Sh M.Umeshan	PondiSVC/402/15	Ramsaras M.V. 362 A Thathakulam, Manjakkal, Mahe, Puducherry-605008	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2014	20.03.1991
1613	S.Cathrina Faure D/o Sh Faure Sagayaradja	PondiSVC/403/15	No.76-A, Mariamman Kovil Street Paulpet, Lawspet, Puducherry-605008	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2014	27.01.1991
1614	E.Karpagambigai D/o A. Ettian	PondiSVC/404/15	No. 3. New Street, Seliamedu, Puducherry-607402	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2014	01.06.1984
1615	H.Hemalatha D/o Sh Harikrishnan	PondiSVC/405/15	No-28, Mariamman Kovil Street, Vazhaikulam, Puducherry-605012	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2014	03.01.1991
1616	P.Tamilmaran S/o Sh Panner Selvam	PondiSVC/406/15	No-21, Nadukalampet, Neravy, Karaikal, Puducherry-609606	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2014	10.08.1990
1617	P.Hama D/o Sh Pandian	PondiSVC/407/15	NO.-2, Udhayam Nagar, Nehru Nagar, Koilpathu, Karaikal, Puducherry-609605	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2014	24.05.1992
1618	Jani Palli Nikhil Kr Tej S/o Janipalli Satyanarayana	PondiSVC/408/15	No.5-5-162, Main Road, Dariyalathippa, Adivippolam Revenue Village, Yanam, Puducherry-533464	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2012	12.07.1990
1619	Ponnada Sridevi D/o Sh P.Satyanarayana	PondiSVC/409/15	No.50 (old), Upstairs, Main Street, Ramanapuram, Kadirkamam Post, Puducherry-605009	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2014	11.07.1990
1620	Suresh Kumar Palsania /Sh Chouthmal Palsanina	RajSVC/4449/15	Ward No.-18, Dhani-Khiju Rawali, Shahapura, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	07.09.1990
1621	Mansingh /Sh Roopchand	RajSVC/4450/15	VPO-Sulkhania Bara, Teh-Rajgarh, Churu, Rajasthan	BVSc&AH/KAFSU, Bidar/2014	30.06.1987
1622	Ramveer Singh/Sh Bhagwan Singh	RajSVC/4451/15	Village-Hisamda, Teh-Weir, Dt-Bharatpur, Bharatpur, Rajasthan	BVSc&AH/KAFSU, Bidar/2014	10.08.1987
1623	Pankaj Kumar Mangal/ Sh Bhagwan Singh	RajSVC/4452/15	C/o Shiv Electricals Subash Mandi, Nim Ka Thana, Sikar Rajasthan	BVSc&AH/KAFSU, Bidar/2014	21.01.1989
1624	Rakesh Kumar Chittora/Sh Mahaveer Pd Chittora	RajSVC/4453/15	V/P-Namana, Teh- Bundi, Dt-Bundi-323022, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/2001	30.04.1977
1625	Monika Sharma/Sh Surendra Kr Sharma	RajSVC/4454/15	4-A/11, Multi Story Flate, Gandhi Nagar, Tonk Road, Jaipur-302015, Rajasthan	BVSc&AH/LLUVAS, Hisar/2013	04.05.1990

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1626	Mahaveer Chodhary/Sh Gutti Ram Choudhary	RajSVC/4458/15	H.NO.-42, Sec-12, SERV Sikha Abhiyan, Hanumangarh, Junction-335512, Rajasthan	BVSc&AH/CCS HAUHisar/2009	12.08.1981
1627	Dipin Chander/Sh Chandra Pal	RajSVC/4462/15	Gulab Memorial Hoshpital, Kund Road, Behror, Alwar, Rajasthan	BVSc&AH/LLUVAS,Hisar/2013	05.07.1989
1628	Jitendra Kumar/Sh Man Singh	RajSVC/4464/15	Gali No.-2, Left Side of Mohta College, Durga Colony, Sadulpur, Dt-Churu, Rajasthan	BVSc&AH/LLUVAS,Hisar/2012	20.07.1987
1629	Chetna Kumari/Sh Rajendra Singh	RajSVC/4468/15	Sec-05, Sainik Colony, Behind Circuit House, Dt-Churu, Rajasthan	BVSc&AH/LLUVAS,Hisar/2012	05.11.1989
1630	Anil Kumar Agarwal/Sh Heeralal Agarwal	RajSVC/4469/15	Plot No-08, Gali No.-12, Sharda Colony, Gandhi Path, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/LLUVAS,Hisar/2013	03.09.1976
1631	Sandeep Kumar Sangwan/Sh Hari Kishan Sangwan	RajSVC/4472/15	Near LBS School, Teh- Bhadra, Dt-Hanumangarh, Rajasthan	BVSc&AH/LLUVAS,Hisar/2013	26.01.1986
1632	Mayank Kumar Rathore/Sh Nand Lal Rathore	RajSVC/4473/15	22 Vyas Colony, Near Airforce Main Gate, Jodhpur, Rajasthan	BVSc&AH/LLUVAS,Hisar/2011	26.09.1981
1633	Priyan Yadav/Sh Satvir Singh	RajSVC/4474/15	Ashoka 50, Apna Ghar, Shalimar Ext, Alwar, Rajasthan	BVSc&AH/CCSHAU/2009	12.08.1981
1634	Ruchi Sharma/Sh Mohan Sharma	RajSVC/4475/15	7 GHA 25, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/NDVSU/2013	23.01.1986
1635	Raghvendra Sharma/Sh Mata Pd Sharma	RajSVC/4476/15	Malani House, Nr Old Bus Stand, Ringus, Teh-Sri Madhopur, Dt-Sikar, Rajasthan	BVSc&AH/NDVSU, Jabalpur/2013	16.09.1973
1636	Ashish Sharma/ Sh Ram Narayan	RajSVC/4478/15	Vill-Donda, Teh- Jhalrapattan Dist -Jhalawar, Rajasthan	BVSc&AH/JNKVV/2006	07.08.1977
1637	Ganesh Narayan Meena/Sh Lallu Ram Meena	RajSVC/4479/15	Nada Ko Ka Mohalla, Jamwa Ramgarh, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/JNKVV/2003	15.07.1984
1638	Dharmendra Meena/Sh Virendra Singh Meena	RajSVC/4480/15	E-3, Paschim Vihar, Kesopura, Ajmer Road, Jaipur-302024, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	10.10.1986
1639	Ghanshyam Koli /Sh Indra Lal	RajSVC/4481/15	Outside Delhit Gate, Dewan ji Ka Bagh, Alwar, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	27.12.1985
1640	Mohit Shandilya/Sh Brij Bhusahn Sharma	RajSVC/4482/15	32, Friends Colony, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	09.04.1989
1641	Ravendra Singh/Sh Gajendra Singh	RajSVC/4483/15	Barkhera Foujdar, Post-Khakhawali, Teh- Nagar, Bharatpur-321205	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	25.06.1989
1642	Aprajita Johri/Sh Amit Saxena	RajSVC/4484/15	70/194, Madhyam Marg, Mansarovar, Jaipur-302020, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	18.04.1989
1643	Amit Sharma/ Sh Mahesh Pd Sharma	RajSVC/4485/15	33, Nirmal Niwas, Kanota Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	08.03.1989
1644	Manish Kumawat / Sh Kanhaiya Lal Kumawat	RajSVC/4486/15	343-B, Mahaveer Nagar-Y, Sanganer, Jaipur-302029, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	05.04.1988
1645	Jitendra Kumar Meena/Sh Balaram Meena	RajSVC/4488/15	Vill-Jharoti, Teh- Weir, Bharatpur-321615, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	08.07.1990
1646	Neeraj Kumar Sharma/Sh Rajendra Kumar Sharma	RajSVC/4489/15	284, Tilak Nagar, Bharatpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	05.09.1989
1647	Om Prakash Nagar/Sh Daulat Ram Nagar	RajSVC/4490/15	vill-Rajpura, Post-Salotiya, The-Pidawa, Jhalawar-326513, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	05.07.1983
1648	Satish Chand Bairwa/Sh Dal Chand Bairwa	RajSVC/4491/15	V/P-Hudla, Teh- Mahwa, Dausa-321608, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	04.04.1989

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1649	Narendra Kumra Meena/Sh Bhanwar Lal Meena	RajSVC/4492/15	VPO-Dholasari, The- Dantaramgarh, Sikar- 332703,Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	27.01.1987
1650	Parmal Singh/Sh Dayal Singh	RajSVC/4493/15	32, Friends Colony, Nr Calgiri Eye Hosp. Malviya Nagar, Jaipur- 302017,Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	13.07.1990
1651	Krishna Kumar Singh/Sh Ghanshyam Singh	RajSVC/4494/15	39/228,Pushp Vatika Colony, Braj Gas Godown Rd, Bharatpur- 321001,Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	12.07.1989
1652	Nishant Goud/Sh Ajay Kumar Sharma	RajSVC/4495/15	Dauji Provisional Store, Basan Gate, Bharatpur,Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	23.07.1991
1653	Umesh Kumar Choudhary/Sh Ammilal	RajSVC/4496/15	91, Dronpuri Colony,200FT Byepass Road, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	23.03.1989
1654	Mangesh Kumar/ Sh Durga Shankar Kumawat	RajSVC/4497/15	Opp-Sarla Birla Kalyan Mandap, New Colony,Kuchamancity, Nagaur, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	03.04.1991
1655	Devendra Kumar/Sh Devi Lal	RajSVC/4498/15	Vill-Bhindi, Post-Jaloda, Teh- K Patan, Dt- Bundi, Rajasthan - 323301,Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	03.02.1987
1656	Arvind Jatawat/Sh Shiv Lal Jatawat	RajSVC/4499/15	Ambedkar Nagar Ward No.- 17,Reengus, Sikar, Rajasthan- 332404	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	10.07.1984
1657	Sunil Rajoria/Sh Suresh Chand	RajSVC/4500/15	61,S.M.S Colony, Block-B, Shipra Path, Mansarover, Jaipur, Rajasthan -302020	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	22.12.1990
1658	Rohit Kumar Tiwari/Sh Ramavtar Sharma	RajSVC/4501/15	Ashok Nagar, SEC-1st, Near Vinayak School, DAUSA, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	01.04.1992
1659	Brijesh Nanda/Sh Om Parkash	RajSVC/4502/15	D-12, Ramnagar Vistar, New Sanganer Road, Sodala, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	20.12.1991
1660	Ravi Kumar Devatwal/Sh Mukesh Kr Devatwal	RajSVC/4503/15	Railway Station Road, Nr Gram Panchayat, Bassi, Jaipur, Rajasthan -303301	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	01.01.1989
1661	Yogesh Kumar/Sh Ram Lal	RajSVC/4504/15	VPO- Birodi Chhoti, Teh- Laxmangarh, Dt- Sikar, Rajasthan -332316	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	01.07.1990
1662	Ashish Saini/Sh Hanuman Sahay Saini	RajSVC/4505/15	13-Shyam Colony, Outside of Gangapole Gate, Badanpura, Jaipur, Rajasthan-302002	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	29.08.1991
1663	Raghuveer Kumar Teli/Sh Gopal Lal Teli	RajSVC/4506/15	VP-Pander, Teh- Jahazapur, Dt- Bhilwara, Rajasthan -311202	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	02.10.1989
1664	Siddharth Kumar/Sh Ashok Kumar	RajSVC/4507/15	127, Vijay Nagar, Alwar Rajasthan-301001,Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	01.11.1989
1665	Pankaj Beniwal/ Sh Nemi Chand Beniwal	RajSVC/4508/15	Kua stand, Post-Derwala, Via-Nua, Jhunjhunu, Rajasthan-333041	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	28.12.1992
1666	Sharawan Kumar Meel/Sh Mangu Ram Meel	RajSVC/4509/15	VPO-Theekaria, Via-Baori, Dt- Sikar, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	15.08.1984
1667	Sunil Dutt Choudhary/Sh Sagar Mal Mangawa	RajSVC/4510/15	Dhani -Mangawali, Bagriyawas, Teh- Srimadhpor,Sikar, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	24.07.1989
1668	Suresh Singh/ Sh Jeevan Singh	RajSVC/4511/15	Vill-Adhaiya Khrdh, Post-Khan, Teh- Kumher, Bharatpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	20.07.1991
1669	Mahendra Pal Poonia/Sh Ratna Ram Poonia	RajSVC/4512/15	Vill-Nozala Ki Dhani, Post-Kolia, Teh- Didwana, Nagaur, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	02.03.1990
1670	Ravi Raman/Sh Banwari Lal Raman	RajSVC/4513/15	32, Poonam Vihar Colony, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	10.07.1988
1671	Rakesh Kumar/Sh Chhaju Ram Choudhary	RajSVC/4514/15	Dhani-Jatawali, Bhainslana, Kotputli, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	31.12.1989

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1672	Khushiram Yadav/ Sh Deshraj Yadav	RajSVC/4515/15	7/26, Malviya Nagar, Jaipur-302017, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	22.09.1990
1673	Hitesh Kumar Vasistha/Sh Ishwari Pd Sharma	RajSVC/4516/15	V/P- Nawali, Teh- Bayana, Bharatpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	28.06.1990
1674	Shalendra Kumar Yadav/Sh Mool Chand Yadav	RajSVC/4517/15	VPO-Banar, Teh- Kotputli, Jaipur-303015, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	09.07.1988
1675	Naveen Kulhari/Sh Kamlesh Kumar Kulhari	RajSVC/4518/15	85, Post Office Binjusr, Jhunjhunu, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	10.06.1989
1676	Sukhveer Singh/Sh Ram Niwas	RajSVC/4519/15	Vill-Doomara Ka Bas, Teh- Nawalgarh, Jhunjhunu-333707, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	25.06.1992
1677	Neha Gour/ Sh Ajay Kumar Sharma	RajSVC/4520/15	Dauji Provisional Store, Basan Gate, Bharatpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	17.07.1991
1678	Balram S/o Sh Raghunath Prasad	RajSVC/4521/15	47-B, Bahubali Nagar, Niwaru Road, Jhotwara, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	17.08.1985
1679	Dilip Kumar Labana/Sh Balchand Labana	RajSVC/4522/15	VP-Dungra-Bada, Teh- Sajjangarh, Dt-Banswara, Rajasthan -327602	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	08.04.1986
1680	Pravin Pilaniya/Sh Vidyadhar Pilaniya	RajSVC/4523/15	Kishan Colony, Nawalgarh Road, Sikar Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	11.02.1990
1681	Nishant S/o Sh Than Singh	RajSVC/4524/15	VP-Kasot, Teh-Deeg, Dt-Bharatpur, Rajasthan-321202	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	15.06.1990
1682	Sunil Kumar Sarsar S/o Sh Dudaram Sarsar	RajSVC/4526/15	Vill-Daulatpura, Post-Katrathal, Dist-Sikar, Rajasthan-321202	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	15.07.1989
1683	Dipti Meena D/o Sh Gopal Meena	RajSVC/4527/15	17/22, Soker Colony, Deoli, Tonk, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	18.03.1988
1684	Arnav Mehrotra S/o Sh Vimal Mehrotra	RajSVC/4528/15	Raj Mata ka Nohra, Bikaner, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	26.12.1990
1685	Ram Das Yadav/ Sh Shyam Lal Yadav	RajSVC/4529/15	VP-Jahota, Teh-Amer, Dt- Jaipur, Rajasthan-303701	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	10.07.1986
1686	Mahesh Kumar Jat/ Sh Govind Narayan Jat	RajSVC/4530/15	VPO-Bilonchi, Teh- Amer, Dt- Jaipur, Rajasthan-308805	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	22.07.1990
1687	Pramod Kumar Boyal/Sh Nemi Chand Boyal	RajSVC/4531/15	131, Modi Nagar, Near Old Octorai, Ajmer Road, Jaipur, Rajasthan-302019	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	18.03.1987
1688	Dhirendra Meena/ Sh Kailash Chandra Meena	RajSVC/4532/15	A-26, Tara Naga-A, Jhotwara, Jaipur, Rajasthan -302012	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	25.01.1990
1689	Satyendra /Sh Jagdish Prasad	RajSVC/4533/15	Vill-Sitsar, Post-Abusar, Dt- Jhunjhunu, Rajasthan-333001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	15.04.1991
1690	Prashant Kumar / Sh Sajjan Singh	RajSVC/4534/15	Vill-Netrampura, Post-Jakhod, Teh-Surajgarh, Jhunjhunu, Rajasthan-3333033	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	01.04.1988
1691	Naveen Kumar/ Sh Praga Ram	RajSVC/4535/15	VPO-Dhanol, Teh-Raniwara, Dt- Jalore, Rajasthan-343040	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	21.04.1986
1692	Saurabh Kumar Goyanka/Sh Mahesh Goyanka	RajSVC/4536/15	VPO-Balaheri, Teh-Mahwa, Dt- DAUSA, Rajasthan-321608	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	10.07.1989
1693	Hitesh Kumar/Sh Baldev Singh	RajSVC/4537/15	VPO-Bibipur Chhota, Teh- Fatehpur, Dt-Sikar, Rajasthan-332317	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	10.12.1988
1694	Anil Mordia/Sh Ram Prasad	RajSVC/4538/15	Mahu Dalalpur, PO-Mahu Ghosla, Teh-Hindaun City, Dt- Karauli, Rajasthan-322257	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	15.07.1992
1695	Natwar Singh Sinsinwar/Sh Pooran Singh Sinsinwar	RajSVC/4539/15	VP-Bahaj, Teh- Deeg, Dt- Bharatpur, Rajasthan -321203	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	29.03.1990
1696	Mukesh Kumar Soni/Sh Nand Lal Soni	RajSVC/4540/15	Ward No.-5, Khetri, Dist- Jhunjhunu, Rajasthan -333503	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	20.06.1984
1697	Kamal Mohan/Sh	RajSVC/4541/15	Kishan Colony, Bhorki Road,	BVSc&AH/RAJUVAS,	05.03.1990

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Mohan Lal		Gudha Gorji, Jhunjhunu, Rajasthan	Bikaner/2013	
1698	Anil Ghorela/Sh Hanuman Prasad Ghorela	RajSVC/4542/15	Vill-Bhuna Wali Dhani, Post-Munda, Teh &Dt-Hanumangarh Town, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	01.07.1991
1699	Mukesh Saxena/Sh Ram Prakash Saxena	RajSVC/4543/15	B-603, R.K.Puram, Kota, Rajasthan-10	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	04.09.1979
1700	Anupam Buri/Sh Shishram Buri	RajSVC/4544/15	VPO-Mandasi, Teh- Nawalgarh, Dt- Jhunjhunu, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	02.10.1989
1701	Kamlesh Kumar Bairwa/Sh Ratan Lal Bairwa	RajSVC/4545/15	Pratap Nagar College Road, Gangapur City(SWM), Rajasthan-322201	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	12.05.1987
1702	Priyanka Nehra/Sh Indar Singh Nehra	RajSVC/4546/15	Vill-Sanwlod, Teh- Buhana, Jhunjhunu, Rajasthan-333702	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	09.07.1989
1703	Vijay Choudhary/Sh Dharm Pal Singh	RajSVC/4547/15	STNo-2, Ward-22, New Colony South, Loharu Road, Pilani, Rajasthan -333031	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	05.12.1991
1704	Vishvendra Singh /Sh Bhoor Singh	RajSVC/4548/15	Vill-Milkipura, Post- Dhindhora, Teh-Hindaun City, Dt- Karauli, Rajasthan-322236	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	14.07.1992
1705	Tanmay Singh/Sh Kapil Singh	RajSVC/4549/15	71/318, Sheopur Road, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	28.08.1991
1706	Rajesh Kumar/ Sh Mohan Lal	RajSVC/4550/15	Nr Rakesh Furniture Mart, Kisan Colony, Jhunjhunu, Rajasthan-333001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	25.01.1985
1707	Vinita Kumari / Sh Virendra Singh	RajSVC/4551/15	VPO-Sanjay Nagar, Bhojasar, Via-NUA, Jhunjhunu, Rajasthan-333041	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	20.09.1990
1708	Rajeev Jeengar/ Sh Madan Lal Jeengar	RajSVC/4552/15	Lakharo Ka Chouta, Mazid Road, Bhinwal, Jalore, Rajasthan	BVSc&AH/Anand Agricultural Uni, Anand /2015	11.12.1989
1709	Anil Kumar Sharma/Sh Vinod Kumar Sharma	RajSVC/4553/15	Vill-Jakhal, Teh- Nawalgarh, Dt- Jhunjhunu, Rajasthan -333305	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	18.01.1988
1710	Harshita Bhumra./Sh Ajay Singh Bhumra	RajSVC/4554/15	25, Amar Singh Pura, Opp Vijay Bank, Bikaner, Rajasthan -334001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	03.02.1991
1711	Purushottam/Sh Punmaram Beniwal	RajSVC/4555/15	Near Govt. Veterinary Hospitla, Dhorimanna, Barmer, Rajasthan-344704	BVSc&AH/NDVSU, Jabalpur/2015	15.05.1991
1712	Brahmanand/Sh Daya Nand	RajSVC/4556/15	Vill-Thothwal, Post-Palota, Dt- Jhunjhunu, Rajasthan-333502	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	10.05.1988
1713	Mrinalini Saran/Sh Jagadish Pd Saran	RajSVC/4557/15	6/128, M.P.Coloney, Bikaner, Rajasthan-334001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	07.07.1989
1714	Gabbar Singh/Sh Ram Khiladi	RajSVC/4558/15	Vill-Hadauli, Post- Sherpur, Teh-Hindaun City, Dt-Karauli, Rajasthan -322236	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	20.06.1988
1715	Priyanka/ Sh Ram Chandra Ola	RajSVC/4559/15	VPO-Bidasar, Teh-laxmangarh, Dt- Sikar, Rajasthan-332316	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	30.06.1988
1716	Dheeraj Nigotiya/Sh Brijbhan Nigotiya	RajSVC/4560/15	56, Jagdamba Colony, BSNL Tower Wali Gali, NH-11, Jaipur, Rajasthan -302031	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	04.07.1988
1717	Prashant Kumar/Sh Gambhir Singh	RajSVC/4561/15	Vill&PO- Tuhiya, Teh&Dt- Bharatpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	16.05.1990
1718	Suraj Karan Gurjar/Sh Hanuman Sahai Gurjar	RajSVC/4562/15	183/91, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	31.08.1987
1719	Vikash Kumar/Sh Mahesh Kumar	RajSVC/4563/15	V/P- Loyal, Teh- Khetri, Dt- Jhunjhunu, Rajasthan -333503	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	06.10.1991
1720	Ashok Kumar/ Sh Ranveer Singh Yadav	RajSVC/4564/15	VPO-Tyonda, Teh-Khetri, Dt- Jhunjhunu, Rajasthan -333503	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	02.02.1990
1721	Jeetraj Meena/Sh Bajrang Lal Meena	RajSVC/4565/15	Vill-Meharana, Po-Teerath, Teh-Talera, Dt-Bundi, Rajasthan -	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	08.07.1989

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			323602		
1722	Rohit Nagar/ Sh Puroshottam Nagar	RajSVC/4566/15	95, Rajiv Gandhi Nagar, Kota, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	02.11.1992
1723	Jayesh Nagar/Sh Champalal Nagar	RajSVC/4567/15	Near Station Petrol Pump, Kawai, Baran, Rajasthan -325219	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	23.11.1992
1724	Nikhil Shringi/Sh Vishnu Dutt Shring	RajSVC/4568/15	Vill- Alod, Teh- Hindoli, Dt- Bundi, Rajasthan-323024	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	23.06.1989
1725	Kapil Kumar Renwal/Sh Ravi Prakash Renwal	RajSVC/4569/15	649-50B, Shrinath Puram, Kota, Rajasthan-324010	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	05.03.1990
1726	Abhay Kumar Upadhyay/Sh Anil Kr Upadhyay	RajSVC/4570/15	Nahroli Wale, Gandhi Chowk, Bayana, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	11.07.1990
1727	Rakesh Kumar/ Sh Chhaju Ram Choudhary	RajSVC/4571/15	Vill-Jalaka, Post--Pur, Teh- Kotkasim, Dt-Alwar, Rajasthan-301702	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	16.01.1984
1728	Praveen Kumar Maan/Sh Mool Chand	RajSVC/4572/15	A-32, Shankar Vihar, Murlipura Scheme, Jaipur, Rajasthan-302039	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	15.04.1988
1729	Rahul Dangi/Sh Ram Kishan Dangi	RajSVC/4573/15	VPO-Haldina. Alwar ,Rajasthan-301406	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	18.01.1991
1730	Dharma Ram Choudhary/Sh Shyam Lal Dudi	RajSVC/4574/15	V/P-Ratkuria, Teh- Sadulpur, Dt- Churu, Rajasthan-331305	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	15.01.1991
1731	Jyoti/Sh Subhash Chandra	RajSVC/4575/15	VPO-Chandgothi, Teh- Sadulpur, Dt-Churu, Rajasthan-331305	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	31.05.1989
1732	Ashok Kumar Bairwa/Sh Amar Chand Bairwa	RajSVC/4576/15	H.No.-26, Jagdamba Ext Colony, Agra Road, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	29.03.1989
1733	Sunil Chaudhary/Sh Birma Ram Chaudhary	RajSVC/4577/15	Hanuman Ji Ki Dhani, Jusari Road, Makrana, Nagaur, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	04.09.1990
1734	Pradeep Pal Singh/ Sh Ram Swaroop	RajSVC/4578/15	Jagir Pura, Nidhera kala, Teh- Saipau, Dt-Dholpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	02.08.1991
1735	Kapil Gupta/ Sh Babu Lal Gupta	RajSVC/4579/15	Shive Coloney, Mandswar Road, Mahwa, DAUSA, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	12.07.1988
1736	Rakesh Kumar Kaloria/Sh Onkar Mal	RajSVC/4580/15	VPO-Saladepura, Via-Khandela, Dt-Sikar, Rajasthan -332709	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	22.12.1990
1737	Saurabh Singh Singhal/Sh Prem Singh Meena	RajSVC/4581/15	Vill-Binega, Post- Erniya, Teh- Hindaun, Dt-Karauli, Rajasthan-322234	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	19.02.1987
1738	Shrutikant Rana/Sh Satyakam Rana	RajSVC/4582/15	Madion Ki Gali, Nagaur, Rajasthan -341001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	27.03.1988
1739	Amit Kumar Chotiya/Sh Om Prakash Chotiya	RajSVC/4583/15	Vill/Po-Panlawar, Via-Bidasar, Teh -Luxmangarh, Dt-Sikar, Rajasthan -332316	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	17.07.1987
1740	Akash Barotia/Sh Prakash Chand Barotia	RajSVC/4584/15	H.No.52, Palton Bazar, Ajmer, Rajasthan-305001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	04.02.1990
1741	Monika Soni/ Sh Rajendra Soni	RajSVC/4585/15	2-H-19, Talwandi, Kota, Rajasthan -324005	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	17.09.1990
1742	Mandeep Kumra/Sh Sohan Lal	RajSVC/4586/15	W.No.-16, Nr Police Station, Tibbi, Hanumangarh, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	01.07.1987
1743	Manish Kumar Meena/Sh Mool Singh Meena	RajSVC/4587/15	Vill&Post-Mudiasad, Teh- Weir, Dt- Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	27.07.1987
1744	Prabhu Dayal/Sh Ramjas	RajSVC/4588/15	VPO-Badopal, Teh- Pilibangan, Dist- Rajasthan	BVSc&AH/MAFSU, Nagpur/2015	05.07.1990
1745	Jayveer Singh/Sh Virendra Pal Singh	RajSVC/4589/15	48, Dk Nagar, Khatipura Road, Jhotwara, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2012	05.08.1981
1746	Sandeep Sharma/Sh Om Prakash Sharma	RajSVC/4590/15	Jagner Road By Pas, Gandhi Tiraha, Timasiya, Baseri, Rajasthan -328022	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	10.08.1991

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1747	Sunil Kumar/Sh Suresh Kumar	RajSVC/4591/15	VPO- Sotwara, Teh -Nawalgarh, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	14.10.1992
1748	Abhilasha Dadhich/ Sh Hemant Dadhich	RajSVC/4592/15	Anant Bhawan, Rani Bazar, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	16.01.1992
1749	Vinod Kumar/Sh Krishan Kumar	RajSVC/4593/15	Behind P.W.D. Collony, Nohar, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	01.07.1989
1750	Sunita Meena/Sh Mangal Chand Meena	RajSVC/4594/16	117, Soni Ka Bagh, Behind Alka Cinema, Sikar Road, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	09.08.1991
1751	Gayatri Gujar/Sh Ratan Lal Gujar	RajSVC/4595/16	C/o Shri Ramsukh Gurjar, PO&Vill-Beawar Khas, P.S. Beawar, Dt-Ajmer, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	15.02.1993
1752	Garima Choudhary/Sh Dhooora Ram Choudhary	RajSVC/4596/16	Saini Nagar, Behind Krishi Mandi, Jaipur Road, Sikar, Rajasthan-302001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	25.03.1991
1753	Narendra Kumar Poonia/Sh Chetan Ram Poonia	RajSVC/4597/16	Vill-Bhinchari, Post- Kusumdesar, Teh- Ratangarh, Dt- Churu, Rajasthan-331022,Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	07.08.1990
1754	Sudarshan Mahala/Sh Sanwar Mal Mahala	RajSVC/4598/16	VPO- Ghoriwara Khurd, Via- Mukundgarh, Teh- Nawalgarh, Dt- Jhunjhunu, Rajasthan -333705	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	28.08.1990
1755	Pata Ram/ Sh Jeta Ram	RajSVC/4600/16	Vill-Kotra, PO-Malwara®,Teh- Jaswantpura, Dt-Jalore, Rajasthan-343039	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	02.04.1988
1756	Manish Ngara /Sh Motilal Songara	RajSVC/4601/16	H-184, Nr Post Office, Pratap Nagar, Jodhpur, Rajasthan-342004	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	25.08.1988
1757	Narsi Ram/Sh Durga Ram	RajSVC/4602/16	V/P-Luniyasar, Teh- Sanchore, Dt- Jalore, Rajasthan-343041	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	20.12.1989
1758	Arjun Ni/ Sh Kali Charan Verma	RajSVC/4603/16	Basan Gate, Old Dhau Paysa, Bharatpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	11.11.1991
1759	Lokesh Vashishtha/Sh Mukesh Sharma	RajSVC/4604/16	New Brahmपुरी Colony,Mandawara Road, New Mandi, Hindaun City,Dt- Karauli, Rajasthan-322230	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	08.07.1992
1760	Rajesh Saini/ Sh Satya Narayana Saini	RajSVC/4605/16	Vill-Rampura Bas Ganwar,PO- Ganwar, Teh - Malpura, Dt- Tonk, Rajasthan-304502	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	20.12.1988
1761	Sanjay Kumar Meena/Sh Kana Ram Meena	RajSVC/4606/16	Vill-Malkeda, PO-Bajor,Sikar, Rajasthan-332403	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	18.10.1992
1762	Devendra Singh/ Sh Girraj Singh	RajSVC/4607/16	222, Manihari Mohalla, VPO- Janoothar, Teh-Deeg,Dt- Bharatpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	04.06.1991
1763	Sumnil Marwaha/Sh Anil Kumar	RajSVC/4608/16	C-195, Kanta Khaturia Colony,Bikaner, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	28.08.1992
1764	Gaurav Meena/Sh Shiv Dayal Meena	RajSVC/4609/16	Vill&Po- Bilapara, Teh- Nadoti, Dt-Karuli, Rajasthan-322215	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	02.10.1991
1765	Sanjay Singh/Sh Rajendra Singh	RajSVC/4610/16	Vill-Jhajharpur, Post- Sodawas ,Teh- Mundawra, Dt- Alwar, Rajasthan-301427	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	30.06.1992
1766	Jitendra Singh Gangwal/Sh Madan Lal Gangwal	RajSVC/4611/16	Vill-Bibology, Post-Ganeti, Teh- Todaraising, Dt- Tonk, Rajasthan - 304505	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	18.07.1993
1767	Mohinish Kumar Diyar/Sh Sunder Lal Dodiya	RajSVC/4612/16	Vill-Cho Bi So Ka Padla, Post- Gamdi, Teh-Banswara, Dt- Banswara, Rajasthan-327025	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	05.01.1991
1768	Avinash Kumar Sharma/Sh Madan Mohan Sharma	RajSVC/4613/16	Vill&PO-Fatehpur, Teh-Masalpur, Dt-Karauli, Rajasthan -322241	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	05.05.1993
1769	Manvendra Singh/Sh Bhagwan Singh	RajSVC/4614/16	Vill-Bailara Kalan, PO&Teh- Kumher, Dt-Bharatpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	05.04.1991
1770	Renu Kumari/Sh	RajSVC/4615/16	Vill&PO- Chanwara Rd, Bijarniya	BVSc&AH/RAJUVAS,	01.06.1989

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Shishupal Singh		Ki Dhani, Gudha Gorji, Jhunjhunu, Rajasthan-333022	Bikaner/2015	
1771	Pukhraj Mahala/ Sh Jodharam	RajSVC/4616/16	Vill-Kushalpara, PO-Reengan, Via-Didwana, Teh- Ladnun, Dt- Nagaur, Rajasthan-341303	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	15.12.1990
1772	Jyoti Sunda/Sh Santosh Kumar Sunda	RajSVC/4617/16	Jyoti Nagar, Jat Colony, Piprali Road, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	09.01.1991
1773	Surya Pratap Singh Fauzdar/Sh R.K.S Sinsinwar	RajSVC/4618/16	426 Sanjay Nagar, Bharatpur, Rajasthan-321001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	31.07.1993
1774	Rajesh Baghel/Sh Devlin Singh	RajSVC/4619/16	54, Gulal Kund, Out Side Mathura Gate, Bharatpur, Rajasthan-321001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	15.05.1992
1775	Amit Kumar/ Sh Ashok Kumar	RajSVC/4620/16	Vill&PO- Kolari, Teh-Sainpau, Dt-Dholpur, Rajasthan-328/023	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	08.08.1993
1776	Abhinav Choudhary/Sh Pooran Kumar	RajSVC/4621/16	Mehandi Bagh, Naruka Colony, Alwar, Rajasthan-301001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	04.11.1988
1777	Shyam Sunder Siyag/Sh Chetan Ram Siyag	RajSVC/4622/16	Shree Veer Teja Trading Comp., Shop No.-110, Kum Nokha, Bikaner, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	01.01.1992
1778	Parmaram Gorachiya/Sh Madan Lal Gorachiya	RajSVC/4623/16	Sarvodiya Basti, Jatto Ka Mohalla, Ward No.-3, Bikaner, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	08.06.1990
1779	Rachna Poonia/Sh Dharmpal Singh Poonia	RajSVC/4624/16	Vill- Keharpura, Khurd, Po-Mohanpura, Teh- Chirwa, Dt- Jhunjhunu, Rajasthan -333024	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	01.09.1988
1780	Garima Choudhary/Sh Aja Ram Choudhary	RajSVC/4625/16	Hospital Area, Vill&PO-Osian, Dt-Jodhpur, Rajasthan-342303	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	03.09.1990
1781	Kapil Dev Sharma/Sh Kapoor Chand Sharma	RajSVC/4626/16	Keshav Nagar, Nr New RTO Office, Bhartapur, Rajasthan-321001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	04.09.1993
1782	Rajeev Sharma /Sh Keshav Dev Sharma	RajSVC/4627/16	Vill-Sainthara, PO-Dhormui, Dt-Bharatpur, Rajasthan-321025	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	31.01.1993
1783	Rohit Meena/ Sh Shiv Charan Meena	RajSVC/4628/16	Shiv Colony, Old Truck Union, Karauli, Rajasthan-322241	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	07.04.1993
1784	Talib Husen Rajer/Sh Hafed Khan Rajer	RajSVC/4629/16	Vill-Aakal, Post- Ogala, Teh - Sedwa,Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	02.08.1991
1785	Vimal Gurjar/Sh Lakhan Lal Gurjar	RajSVC/4630/16	P.No.32, Hanuman Vihar, Vijay Path, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	20.12.1989
1786	Rajesh Kumar /Sh Om Prakash	RajSVC/4631/16	Vill-Ajitpura, PO-Kaseru, The-Nawalgarh, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	29.04.1991
1787	Deepak Bhardwaj/Sh Ramesh Chand Sharma	RajSVC/4632/16	P.No.A-9,Bharat Vihar Colony, Behind Poultry Farm, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	02.01.1990
1788	Ankit Kumar Sethi/Sh Jayendra Kumar Sethi	RajSVC/4633/16	Nr. Khandelwal Dharm Shala, Bandikui, Dt-DAUSA, Rajasthan-303313	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	25.08.1993
1789	Manju Gari/Sh Birma Ram Gari	RajSVC/4634/16	V/P-Sesam, Via-Khoor, Dt-Sikar,Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	02.01.1990
1790	Vijay Mohan Dev./ Sh Heera Ram	RajSVC/4635/16	Vill-Dudhu, PO- Dhorimana, Dt-Barmer, Rajasthan-344704	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	02.10.1993
1791	Pragya Nathiya/ Sh Ramesh Ch Nathiya	RajSVC/4636/16	7, Professor Colony, Devpura, Bundi, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	03.02.1988
1792	Manphool Phoolphagar/Sh Dhannaram Phoolphagar	RajSVC/4637/16	Vill-Khanwar, PO- Rol, Teh-Jayal, Dt- Nagaur, Rajasthan - 341027	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	01.07.1991
1793	Seema Sikarwar/Sh Pawan Kumar	RajSVC/4638/16	Vill-PO-Nagla Bhartai, Teh - Bharatpur, Dt-Bharatpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2011	27.09.1988
1794	Vinayak Chura/ Sh Shiv Kumar Chura	RajSVC/4639/16	B-665 MDV Colony, Bikaner, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	26.01.1991
1795	Amit Sangwan/Sh Vijay	RajSVC/4640/16	90/230, Patel Marg, Mansarovar,	BVSc&AH/RAJUVAS,	05.04.1990

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Sangwan		Jaipur, Rajasthan	Bikaner/2012	
1796	Arun Phogat/ Sh Kuldeep Singh Phogat	RajSVC/4641/16	90/230, Patel Marg, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2012	22.07.1989
1797	Amandeep/Sh Hari Kishan Lal	RajSVC/4644/16	Street No.-2, Ward No.-22, New Colony South Noharu Rd, Pilani Jhunjhunu, Rajasthan	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	04.01.1990
1798	Rohish Kaura/Sh Rajan Mohan Kaura	RajSVC/4648/16	Kaura Colony, Rani Bazar, Bikaner, Rajasthan-334001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	11.09.1991
1799	Gopi.H/Sh. A.Hariharan	TNSVC/5807/15	B-44, Parijatham,Shantiniketan Apts.,City Link Road, Adambakkam, Chennai-600088	BVSc/TNAU/1986	17.07.1962
1800	Jayakumar.M/Sh K.Masilamani	TNSVC/5808/15	No.14/7,,Ganapathi Palayam North, Thanthoni, Malai Post, Karur-639005,Tamil Nadu	BVSc/University of Madras/1973	06.01.1948
1801	Veeramani.P/Sh K.Pachaiappan	TNSVC/5809/15	NO.-2, Lakshmi Nagar Extension, Selaiyur East Tambaram Chennai-600073	BVSc/TANUVAS/1993	31.03.1970
1802	Tirumurugun K.G/Sh S.K.Gopalan	TNSVC/5810/15	Plot 45, 5th Cross Street, 2nd Main Road, VGP Layout-II, Palavakkam, Chennai-600041	BVSc/TANUVAS/1993	20.08.1970
1803	Mani.S/Sh V.Srirangasamy	TNSVC/5811/15	3/50/A Poolangadu,Karaipalayam,Naday anur Post, Manmangalam Taluk, Karur District-639117, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/1982	07.06.1956
1804	Nirmala.R/Sh S.Rajendran	TNSVC/5812/15	#25/18, Thalavai Street, Meenakshipuram Garden, Vadiveeswaram, Nagercoil- 629002, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/1998	07.06.1972
1805	Anitha.S/Sh G.Jabaraj	TNSVC/5813/15	No.13, Ramanathan Street Ayanavaram Chennai- 600023,Tamil Nadu	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2006	03.12.1983
1806	Joshua Coilraj.T/Sh.C.P.J.Thang araj	TNSVC/5814/15	31 Senthil Nagar, Rayakotta Road, Karapalli Post, Hosur- 635109,Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/1995	23.02.1972
1807	Asokan.N/M.Nagamuthu	TNSVC/5815/15	177/183,FI,Avenue Santosh Sundaramurthy Street,Thanikachalam Nagar, E Block, Chennai-600010	BVSc/TANUVAS/1998	22.04.1975
1808	Mohamed Abdulkader.J/Sh Jailani	TNSVC/5816/15	2/169,Kaidemellet Street,Periyapattinam,Ramanathap uram -623523, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/1977	13.06.1950
1809	Kumaresan.S/Sh T.Selvaraj	TNSVC/5817/15	NO.41213,Mettu Street, Ulagapuram Post, Vannur Taluk, Villupuram-604154, Tamil Nadu	BVSc&AH/Pondicherry Uni/2015	14.06.1991
1810	Srinivasan.C/ Sh P.Chinnasamy	TNSVC/5818/15	G.H.Backside, Thambudukottai, Errana Halli Post, Palacode Taluk, Dharmapuri Dt-636808,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	10.06.1992
1811	Priya.K /Sh R.Sudhakar	TNSVC/5819/15	106/28C,Panneer Selvam Street, Attur, Salem Dist -636102,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	22.02.1993
1812	Sathiskumar.S/Sh Sampath	TNSVC/5820/15	No.-15,Kambukalapatti Village,Veeramalai Post, Pochampalli Taluk, Krishnagiri District-635204,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	25.02.1993
1813	Sasikumar.P/Sh S.Palani	TNSVC/5821/15	Muthanoor, Harur Taluk, Ettiyampatty Post, Dharmapuri,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	29.06.1992
1814	Sasikala.N/Sh V.Nachimuthu	TNSVC/5822/15	47,Goundan Palayam, Puliyur C.F. Karur District-639114,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	01.06.1992

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1815	Prabhavathi.R/Sh C.Rangasamy	TNSVC/5823/15	11/3,Valliyanaipatty,Thirumalaipatty Post,Senthamangalam Taluk, Namakkal Dist-637404,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	24.05.1993
1816	Mahalakshmi.N/Sh G.Natarajan	TNSVC/5824/15	1/29,Mookkareddipatty,Pallipatty Post, Pappireddiapatty Taluk, Dharmapuri-636905,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	15.07.1992
1817	Prakash.E/ SH J.Elangovan	TNSVC/5825/15	4/4,Mullukkurichi,Aathanakkurichi Post, Senthurai Taluk, Ariyalur District-621719,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	20.05.1993
1818	Minu Sarah Jasmine.S/Sh Simon P.Baluchamy	TNSVC/5826/15	6/43-A, Beniel Cottage, Paruvachi Bhavani Taluk, Erode District-638312,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	01.05.1993
1819	Kalaiselvan.E/Sh S.Elangovan	TNSVC/5827/15	1/150, Sivan Koil Street, Periyeri Post, Attur Taluk, Salem Dist - 636101,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	10.02.1993
1820	Dinesh.M/ Sh S.Murali	TNSVC/5828/15	2/317,Pallar Street, N.Kosavampatti Post, Namakkal Dist -637002,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	19.05.1993
1821	Sridhar.D/Sh N.Duraisamy	TNSVC/5829/15	Semmandappatty Post, Omalur Taluk, Salem Dist -636309,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	16.05.1993
1822	Karthiga.S/Sh S.Selvam	TNSVC/5830/15	2/148,Jammanathalli Post, Pappireddipatti Taluk, Dharmapuri District-636904,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	07.10.1993
1823	Kuppamuthuraja.S/ Sh E. Suruli	TNSVC/5831/15	42, Muthuramalinga Thevar Nagar, Kasp Road, Chinnammanur, Theni District-625515,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	02.06.1992
1824	Aadithya.T/ Sh D.Tamilarasan	TNSVC/5832/15	2/78,Boothanatham Village,Menasi Post, Pappireddipatti Taluk, Dharmapuri Dist-636904,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	26.03.1993
1825	Keerthana.J/Sh P.Jayaramalingam	TNSVC/5833/15	5/71,Keelechavari, Laddivadi Post, Namakkal-637002,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	13.06.1993
1826	Ramya.V/Sh C.Velusamy	TNSVC/5834/15	111/14,Trichengodu Road, Namakkal-637001,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	13.06.1993
1827	Punitha.S/ Sh M.Sivamurugan	TNSVC/5835/15	54A-II, South Street, Kavandampatti, Idappadi Salem District-637101,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	15.03.1993
1828	Prabhakaran,K.P/Sh R.Ponnusamy	TNSVC/5836/15	5/72, K.Rasampalayam,S.,Vazhavanthi Post,P.Velur Taluk, Namakkal-637017,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	09.03.1993
1829	Priyatharshini.S/Sh V.M Somasundaram	TNSVC/5837/15	2/70,Vengamedu, Vallipuram Post, Kunnathur Via, Avinasi Taluk, Tiruppur District-638103,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	29.08.1992
1830	Surya.V/Sh M. Venkatesan	TNSVC/5838/15	Ambalapatti Vilage,Kandakoundanoor Post,Pappirattipatti Post, Dharmapuri District-635302,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	10.05.1993
1831	Subalakshmi.B/Sh A.Balasubramaniyan	TNSVC/5839/15	1/32a Kookalur Road, Perundhalaiyur,Gobichettipalayam Taluk, Erode Dt,	BVSc&AH/TANUVAS/2015	16.06.1993
1832	Tharanimanogari.N/Sh S. Nallasamy	TNSVC/5840/15	Vannavkadu Thottam,Perumapalayam Nagalur Post, Athani Via, Bhavani Tk. Eorde District-638502,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	29.07.1993
1833	Keerthana.D/Sh K.Dhanraj	TNSVC/5841/15	97 C, Moolapudhur Road, Thagarapudhur Post, Gangavalli Taluk, Salem District-	BVSc&AH/TANUVAS/2015	12.04.1993

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			636110,Tamil Nadu		
1834	Manikandan.R/Sh C.Rajendran	TNSVC/5842/15	D.No.-28,Fire Service Quarters, Collectorate Post,Dharmapuri- 636705,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	21.09.1993
1835	Revathi.M/Sh P.Mani	TNSVC/5843/15	4/44,W/B Division, Kodanadu Estate,Kotagiri Post, The Nilgiris- 643217,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	18.08.1992
1836	Selvanayaki.S/ Sh A.Sekar	TNSVC/5844/15	Parayapatti Pudur Post, Pappireddipatti Taluk, Dharmapur Dist-636903,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	25.10.1994
1837	Shanmathi.S/Sh S.Shanmugam	TNSVC/5845/15	73, Main Road, Arachalur Erode District-638101,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	18.12.1992
1838	Karthi.P/Sh R. Palaniappan	TNSVC/5846/15	14/14,Thannir Kinaru Street, Palikkadu,Kalipatti Post, Namakkal Dist-637501,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	30.03.1993
1839	Jeevarathinam.K/Sh P.Kailsam	TNSVC/5847/15	3/47,West Street, Thathathirupuram Post, Namakal Dist-637018,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	25.07.1992
1840	Jeevitha.M/Sh S.Muthusamy	TNSVC/5848/15	101 Ramasamy Goundanur, Kidaram Post, Thootiam Taluk Trichy District-621207,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	17.12.1992
1841	Nithya.T/Sh B.Thanjan	TNSVC/5849/15	1/106,Nadur Village,Alapuram Post,Pappireddipatti Taluk,Dharmapuri District- 636904,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	09.06.1993
1842	Sarmathi.R/Sh M.K.Rajendrian	TNSVC/5850/15	2/15,Mudhaliyar Street, A.Mallapuram Post, Palacode Taluk, Dharmapuri Dist- 636806,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	12.02.1993
1843	Ezhilbarathi.M/Sh M.Matheswaran	TNSVC/5851/15	Lathuvadi Pudur, Nallakumarar, Palayam Post, Tiruchengode Taluk, Namakkal District- 637408,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	05.07.1993
1844	Chitradevi.S/Sh S.Saravana Kumar	TNSVC/5852/15	4/106,JJR Nagar, Rasipuram Taluk, Kakkaveri Post, Namakkal District-637408,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	30.04.1990
1845	Anitha.D/ SH M.Dharmalingam	TNSVC/5853/15	174,North Street, Kovakkulam Post, Krishnarayapuram Taluk, Karur Dist-639102,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	17.05.1993
1846	Rajkumar.C/Sh K.Chinnamuthu	TNSVC/5854/15	1-41/NA, Ward 1/4, Chinnaparamanoor Village, B.Agaraharam Post,Pennagaram Taluk, Dharmapuri-636813,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	12.06.1993
1847	Meena.A/Sh N.Annadurai	TNSVC/5855/15	10-7A/5W,Udayar Compound, Near Bus Stand Street, Omalur Post, Salem Dist-636455,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	11.01.1993
1848	Ajantha.A/Sh C.Anbazhagan	TNSVC/5856/15	New Ajantha Jawli Stores, Elurpatty Post, Thottiyam Taluk, Trichy District-621215,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	01.02.1993
1849	Manjurekha.G/Sh M.Gunasekaran	TNSVC/5857/15	320 Vallalar Nagar, Ayyanthirukmaligai Post, Salem - 636008,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	21.10.1992
1850	Angappan.M/Sh S.Madesh	TNSVC/5858/15	T.T.Appavoo Mudhali Street, Annasagaram Post, Dharmapuri - 636704,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	22.03.1992
1851	Anusha,S.A/Sh S.Adi	TNSVC/5859/15	No. -7,West Street Lane, Pallipat,	BVSc&AH/TANUVAS/	05.05.1993

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Krishnaiah		Thiruvallur District-631207,Tamil Nadu	2015	
1852	Pavithra.M/Sh S.V.Murugesan	TNSVC/5860/15	78/32-A, Chettikuttaivalasu,P.K. Valasu Post, Modakurichi Via, Erode Distrcit-638104,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	31.10.1992
1853	Vijay.C/Sh P.Chinnusamy	TNSVC/5861/15	2/88,Karukkalvadi Post, Omalur Taluk, Salem-636013,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	04.05.1992
1854	Priya.R/ Sh K. Ramalingam	TNSVC/5862/15	61/23 B, Pallikuda Street, Thanrampet Road, Thanimalai, Thiruvannamali-606601,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	15.10.1992
1855	Sowmiya,P. V/Sh V.Venkatachalam	TNSVC/5863/15	T.Pudur Village, Peathathampatti Post, Pappireddipatti Taluk, Dharmapuri District-636454,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	08.02.1993
1856	Nagajothi.S/ Sh P. Shanmugam	TNSVC/5864/15	1/2,Main Road, Mangalapuram,Mallinamcombai,A rasur Post, Kasipalayam Via, Sathy Taluk,Erode Dist-638454,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	11.07.1993
1857	Gohila.M/Sh A.Mani	TNSVC/5865/15	72, Poondi Vinayagapuram, Ammaiagaram Post, Chinna Salem Taluk, Villupuram District-606201,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	10.05.1993
1858	Sreevarsha.K.S/Sh K.K.Sankar Babu	TNSVC/5866/15	467/2,7th Main Road, Santhi Colony, Anna Nagar, Chennai-600040,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	02.10.1991
1859	Vinothini. V/Sh K.Varadharaj	TNSVC/5867/15	S-13,Sri Thanalakshmi Nagar, Madu Post, Kallakurichi Taluk, Villupuram Dist-606206,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	17.01.1992
1860	Manjula.C/Sh P.Chellaiah	TNSVC/5868/15	3/220 South Street,Vengadathanur Post,Thuraiyur Taluk,Trichy District-621002,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	20.07.1993
1861	Arun.B/Sh M.Balu	TNSVC/5869/15	303,LIG Phase-II,TNHB,Thirupathur,Vellor District-635601,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	02.06.1993
1862	Devendiran.P/Sh M.Perumal	TNSVC/5870/15	Anchaneyar Kovil Street, Velliyanai Post, Karur Dist-639118,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	19.05.1992
1863	Muthukumar.A/Sh P.Amaravel	TNSVC/5871/15	Boothanathem Village, Manasi Post,Pappireddipatti Taluk,Dharmapuri District-635303,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	20.06.1993
1864	Manjula.V/Sh M.Venkatesan	TNSVC/5872/15	7-D,Gandhi Nagar,Kadathur Post, Dharmapuri District-638109,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	27.08.1993
1865	Vijaya Raghavendran.S/Sh M.Sivalingam	TNSVC/5873/15	D.NO.155/1,Gandhi Street, Sivagiri,Eroda District-638109,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	12.11.1992
1866	Vijayashankar.V/Sh V.Vijayasekar	TNSVC/5874/15	NO.157 A,Trichy Road, Thuraiyur Trichy District-621010,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	11.08.1993
1867	Sentamilselvi.T/Sh V.Thiyagarajan	TNSVC/5875/15	1/38,North Street,Bodinayakkanpatty Post, Sendamangalam Taluk, Namakkal District-637405,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	08.06.1993
1868	Manoj Kannan.V/Sh S.Velusamy	TNSVC/5876/15	26131,West Vannandurai Street, Pothanur Post,P.Velur Taluk, Namakkal District, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	28.05.1993
1869	Saravana Kumar.K/Sh N.Kaliya Perumal	TNSVC/5877/15	40A2,Indra Nagar, Jayankonda Cholapuram Post, Ariyalur	BVSc&AH/TANUVAS/2015	01.03.1993

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			District-621802, Tamil Nadu		
1870	Srividhya.S/Sh S.Semmuni	TNSVC/5878/15	No.2/166,Gopalapuram,Alapuram Post,Pappireddipatty Taluk,Dharmapuri District- 636904, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	30.11.1992
1871	Akila.A/Sh G.Arunachalam	TNSVC/5879/15	Kalagam Post,Peravurani Taluk, Thanjavur District-614804,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	08.01.1994
1872	Babu.S/Sh P.Selvam	TNSVC/5880/15	Pattavarthi Village,Jammanahalli Post, Pappiretipatti Taluk,Dharmapur District- 636904, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	2.11.1991
1873	Ravikumar.L/Sh S. Laxmanan	TNSVC/5881/15	3/339,Uadamalampatti Village, Pochampalli Post & Taluk Krishnagiri District-635206,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	7.11.1992
1874	Sameer Ali.M/Sh S.Mohamed Hanifa	TNSVC/5882/15	6/22,Pallivasal Street, Chinthamanipatti, Karur District- 621301, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	10.07.1993
1875	Elavarasan.K/ Sh M.Kumar	TNSVC/5883/15	D.No.2- 379,Arigoundanoor,Thethigirpatty Post, Mettur Taluk, Salem District- 636451, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	08.06.1993
1876	Alexsandar.A/Sh D.Arivazhagan	TNSVC/5884/15	South Street, Ayan Athur Post, Ariyalur Taluk & Dist - 621705,NO.157 A,Trichy Road, Thuraiyur Trichy District- 621010, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	05.06.1993
1877	Thamothiran.K/Sh K.Kaliyappan	TNSVC/5885/15	Boomathanahalli Village, Gendikanahalli Post, Palacode Taluk, Dharmapuri-635205,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	17.04.1993
1878	Silamparasan.M/Sh K.Madhu	TNSVC/5886/15	Madhanakkanpatty,Kuttappatty Post, Mettur Taluk, Salem District- 636453, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	10.02.1993
1879	Divya.S/Sh M.Sakthivel	TNSVC/5887/15	85,Bharadhidasan Nagar,Punjaiarasandhangal,Kanch eepuram-631502,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	24.08.1993
1880	Balamurugan.K/Sh M.Kandasamy	TNSVC/5888/15	West Street,Seeranatham Village,Elanthanguzhi Post,Alathur Taluk,Perambalur District-621708,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	01.07.1992
1881	Bhargavi.S/Sh P.Subramanian	TNSVC/5889/15	77 B, Second Street,, Bell Amorces Colony, Palayamkottai,Tirunelveli- 627002,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	16.06.1993
1882	Matheswaran.G/Sh A. Ganesan	TNSVC/5890/15	68,V.S.Colony Suriyampalayam Post,Tiruchengodu-637211,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	10.06.1993
1883	Lakshmi Priya.P/Sh S.Pandeeswaran	TNSVC/5891/15	1/319,Mavilipalayam Road, Chemicals, Akkamapet, Sanari, Salem-637301, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	23.04.1993
1884	Tamizharasi.B/Sh M.Balusamy	TNSVC/5892/15	Mariamam Koil Street, Orangoor Post, Veppur Taluk, Cuddalore District-606108, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	20.05.1993
1885	Valarmathi.N/Sh A.Nalliya Gounder	TNSVC/5893/15	1/25,Kanamthottam Anniyar Kolanthalalayam, Velagoundampat ti Post, Namakkal District- 637212, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	21.07.1993
1886	Punitha.M/Sh V.Mohankumar	TNSVC/5894/15	1/15, Boyar Street, Chinnankuppam Post & Village, Pappireddipatty Taluk,	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	20.07.1993

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			Dharmapuri District-636903,Tamil Nadu		
1887	Deepthi Priyanka.P/Sh P. Pappu	TNSVC/5895/15	19/8,Kuruvappanaickanpatty Pithalaipatty Post,Dindigul-624002,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	01.06.1993
1888	Meera Ramesh/ Sh R. Ramesh	TNSVC/5896/15	Akshaya No.79, 2nd Main Road, V.G.P.Layout Part-1,Palavakkam, Chennai-600041,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	21.11.1992
1889	Gowrishankar.S/Sh R.Shanmugam	TNSVC/5897/15	99-A,Nethaji Street, Panchalingapuram,Swaminathapuram Post, Erode-638104,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	26.05.1993
1890	Madhan Kumar.N/Sh B. Nagarajan	TNSVC/5898/15	2nd Jai Street, Denkanikottai Post & Taluk, Krishnagiri District-635107,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	18.06.1993
1891	Dhivya Devi.S/Sh D.Selvaram	TNSVC/5899/15	128/70A, Ayyampatti Pillaiyar Koil (N),Street,Srivilliputtur-626125,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	11.04.1993
1892	Vengatesha Perumal.S/ Sh V.K.Subramani	TNSVC/5900/15	1/3,Vishamangalam, Vishamangalam,Thirupattur Taluk, Vellore District-635652,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	17.07.1993
1893	Rajadurai.A/Sh Annadurai	TNSVC/5901/15	1/15,Middle Street,Tholunanthangal, Villupuram District-605801,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	22.05.1993
1894	Lakshmi Sree.S/Sh G.Siva Guru Nathan	TNSVC/5902/15	317,Water Tank Road, Nagercoil, Kanyakumari-629001,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	03.10.1992
1895	Venkateswaran.K/Sh S.Kamarasan	TNSVC/5903/15	1/113,Konanginayackana Halli Village, Baisu Halli Post, Dharmapuri Taluk & District - 635205,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	04.04.1993
1896	Manju.G/Sh E.Gurunathan	TNSVC/5904/15	NO.17,Second Street, Athipakkam,Vandavasi PO&TK,Thiruvannamalai-604408,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	11.06.1993
1897	Jeevanya.T/Sh C.Thangam	TNSVC/5905/15	106,Pattapan Vattam, Vellanayakaneri, Tirupattur Taluk, Vellore District-635852,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	14.04.1993
1898	Jaya Preethi.A/Sh C.Jaya Chandran	TNSVC/5906/15	20/116, Perumtheru,Kuzhithurai,Kanyakumari District-629163,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	14.03.1993
1899	Jimmy Carolin J.A/ Sh R. John Kennedy	TNSVC/5907/15	Mathavankottai Villai, Mangarai Post, Karungal, Via-Kanyakumari District-629157,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	23.04.1993
1900	Kirithika.D/ Sh K.Dhanapal	TNSVC/5908/15	13-2/14,Chinnaya Retti Street, PN Patti,Mettur-636402,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	23.05.1993
1901	Aswini Durga J.K./Sh R.Kumar	TNSVC/5909/15	491,Anna Street,Mambattu Village&Post, Polur Taluk, Thiruvannamalai District-606803,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	10.04.1993
1902	Anitha.M/Sh V.Manickam	TNSVC/5910/15	16/1-339,Ganapati nagar, Chamrajpet Post, Mecheri, Mettur Taluk, Salem District - 636451,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	27.04.1993
1903	Banupriya.T/Sh E.Thamotharan	TNSVC/5911/15	No. M-361, Ragavandra Nagar, TNHB Quarters, Sevilimedu Post, Kancheepuram -631502,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	16.03.1993
1904	Anu Bharathe V.S/Sh V.Selvaraj	TNSVC/5912/15	1/744, Hajiar Street, Bharathi Nagar, Collectorate Post,	BVSc&AH/TANUVAS/2015	26.01.1993

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			Ramanathapuram-623503,Tamil Nadu		
1905	Abarna.K/Sh M.Kolandaivelu	TNSVC/5913/15	187/NA Kandiyar Street,Ambalapattu North,Orathanadu,Thanjavur-614626,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	10.05.1993
1906	Gobinathan.B/Sh R.Balasubramanian	TNSVC/5914/15	4/164,North Street,Meensurutty Post, Udayarpalayam Taluk, Ariyalur District-612903,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	15.09.1991
1907	Hari Anandhan.S/ Sh V. Sakthivel	TNSVC/5915/15	Athanavor,Yelagiri Hills, Tirupattur Taluk,Vellor District-635853,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	15.01.1991
1908	Madhu Mathi.P/Sh P.Ponnusamy	TNSVC/5916/15	32,Panpalayathar Street,Vadakupadhu Palayam, Unjalur Via, Erode District-638152,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	05.02.1993
1909	Karthika.R/Sh R. Radhakrishnan	TNSVC/5917/15	6C, Alagappa Street, Peravurani Post & Tk, Thanjavur District - 614804,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	30.04.1993
1910	Eswari.M/Sh P.Mani	TNSVC/5918/15	117-7,Nehruji Street, Cumcum Uthamapalayam Taluk, Theni District-625518,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	15.01.1992
1911	Gokul.R/ Sh N. Ravi	TNSVC/5919/15	2/215,Maya Bazaar Street, Pappireddipatti PO&TK, Dharmapuri District-636905,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	15.01.1993
1912	Rajamanickam.K/Sh P. Kandasamy	TNSVC/5920/15	8/39,Namakkalpalayam, Chennimalai, Erode District-638051,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	21.11.1992
1913	Ramkrishnan.A/Sh G.Angappan	TNSVC/5921/15	28/66, Gandhinagar, 2nd Street, Dharmapuri, -636701, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	27.09.1992
1914	Raj Kumar.R.A/Sh R.Anbu	TNSVC/5922/15	52 B/2, Duram Road, Kallakurichi, Villupuram-606202, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	22.03.1993
1915	Mohan.M/ Sh M.Malaya Perumal	TNSVC/5923/15	2-457, Roja Nagar Zuzuvadi Hosur Taluk, Krishnagiri District-635109, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	12.09.1992
1916	Nethaji.S/Sh K.Sekaran	TNSVC/5924/15	No.-37,S.N.Nagar, Thendral Nagar, Nadukuthagai, Thirunintravur-602024,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	11.07.1992
1917	Kavitha.K/Sh S.Kannan	TNSVC/5925/15	Old No.1/57, New No. 1/62, Big Street, Sangeethamangalam Villupuram-605202,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	14.02.1992
1918	Abinaya.P/Sh N.Periyasamy	TNSVC/5926/15	8/232, Vivasayee Nagar, Semmadai, Manmangalam Post, Karur Dist -639006,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	15.07.1993
1919	Prabaharan.N/Sh L.Nandagopal	TNSVC/5927/15	214,Irur Post, Alathur Taluk, Perambalur dist-621109,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	06.04.1984
1920	Prabaharan.S/Sh A. Selvaraj	TNSVC/5928/15	Door No.67/11,Road No.13,V.Nagar,Rasipuram Taluk, Namakkal Dist -637408,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	02.08.1992
1921	Mahendran.J/Sh T.Jayaraman	TNSVC/5929/15	2-91,Kalani Street, Koothur Post, Alathur Taluk, Perambalur Dist - 621713,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	25.07.1993
1922	Jasmin.R/Sh S.Rajasingh	TNSVC/5930/15	No.265,Gangai Amman Koil Street, Thiruvanmiyur Chennai-600041, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	11.05.1993
1923	Muniyaselvam.K/Sh	TNSVC/5931/15	2/165,South Street, Ulakkudi,	BVSc&AH/TANUVAS/	01.04.1993

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	G.Kundumalai		Ulakkudhi Post, Thiruchuli Taluk, Virudhunagar Dist-626607, Tamil Nadu	2015	
1924	Ramamoorthy, M/Sh A.G. Muthu	TNSVC/5932/15	Old No. 1/26 D, New No. 1/1, Acharahalli, Pennagaram, Dharmapuri Dist-636809, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	06.12.1992
1925	Eazhisai.R/Sh R.Radhakrishnan	TNSVC/5933/15	7/125, Yerrapatty.A. Jettihalli Post, Dharmapuri-636807, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	24.05.1993
1926	Madesh.M/Sh Muniyappan	TNSVC/5934/15	7/157, A, A Jetti Halli, A.Jettihalli Post, Dharmapuri-636807, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	13.06.1993
1927	Surekha Priyadharshini.S/Sh A. Sundar	TNSVC/5935/15	2nd Street, Palanipillai Nagar, Tirukoilur Main Road, Thiyyagadurugam, Villupuram District-606206, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	12.07.1993
1928	Heera Banu.S/ Sh S.Syed Kalam Sha	TNSVC/5936/15	No.1/174, Desiyanedunsalai Arukil, Thevaiyur Post, Perambalur District-621115, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	08.06.1993
1929	Indhumathi.S/Sh M. Vijayakumar	TNSVC/5937/15	Cinema Set Road, Periya Thamban Street, Kolathur Post, Mettur Taluk, Salem Dist-636303, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	15.06.1992
1930	Abinaya.A/Sh A. Anandhan	TNSVC/5938/15	NO.6/1, ADS Nivas, Melaperumal Koil Street, Pennadam, Cuddalore District-606105, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	11.08.1993
1931	Raja.T/ Sh C. Thangavel	TNSVC/5939/15	3/3 East Street, Seeranatham Village, Elanthanguli Post, Alathur Taluk, Perambalur District-621109, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	29.05.1993
1932	Venkatvasan.R/Sh S.Ravi	TNSVC/5940/15	191/76, Ambi Doctor Street, T.Konagapadi Post, Omalur Taluk, Salem Dist-636502, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	7.02.1993
1933	Babu.P/Sh N.Palanisamy	TNSVC/5941/15	5/99, K.Papinaicken Patti, Karadipatti, Bommampatti Post, Namakkal District-637212, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	4.06.1993
1934	Poorna Chandhar.I/ Sh V. Indiran	TNSVC/5942/15	No.-9, 2nd Street, Sundaram Nagar, Opp to B.O. Office, Minjur, Ponneri Taluk, Tiruvallur District-601203, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	14.01.1993
1935	Divya.T/Sh V.Thangarasu	TNSVC/5943/15	D.NO.39/6, 4th street, Sengunthapuram, Udaiyarpalayam Taluk, Ariyalur District-621802, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	15.04.1993
1936	Arivuselvan.S/Sh S.Sengamuthu	TNSVC/5944/15	Ammanikuttai Street, Sirukadambur, Unjini Post, Sendurai Taluk, Ariyalur District-621714, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	02.02.1993
1937	Amutha.K/Sh P.Kamala Kannan	TNSVC/5945/15	144 Big Street, Erumbi Pallipet Taluk, Thiruvallur District-631302, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	18.09.1992
1938	Keerthana.S/Sh M.Sekar	TNSVC/5946/15	2/142, South Street, South Pamani, Pamani Post, Thiruthuraipondi Taluk, Thiruvarur Dist-614711, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	10.06.1993
1939	Harini.S/Sh A.Subburathinam	TNSVC/5947/15	NO.9/8 Punjai Thottakurichy Karur District-639113, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	21.09.1992
1940	Vipin Murali.P/ Sh M.Ponraj	TNSVC/5948/15	1/638C, Thirukumaran Nagar, Palavanchipallayam, Tirupur -641604, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	29.03.1993

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1941	Sathiesh.S/ Sh T.Shanmugam	TNSVC/5949/15	Samandahalli Village,Elavadai Post,Harur Taluk,Dharmapuri- 635305,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	04.04.1993
1942	Surya.T/Sh P.Thamilvanan	TNSVC/5950/15	57,North Street, Kurumbalur Post, Permabalur Dist-621107,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	10.06.1993
1943	Prasanth.D/Sh K.Durai	TNSVC/5951/15	Ambethkar Nagar,Veguthupatty, Pappireddipatti, Dharmapuri- 635809,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	20.05.1991
1944	Manivannan.P/Sh G.Perumal	TNSVC/5952/15	7/9,Vedikottai 1st Cross Paparapatti Post, Pennagaram Taluk, Dharmapuri-636809,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	20.07.1991
1945	Sufeesh,S.G/Sh V.Sadasivan Nair	TNSVC/5953/15	Sarija Bhavan, Venkanji Kollemcode, Kanyakumari District-629160,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	03.06.1992
1946	Shanmuganath.C/Sh P.Chandrasekar	TNSVC/5954/15	4/111,East Street, N,Kandamapalayam Post, P.Velur Taluk, Namakkal District- 637203,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	27.09.1992
1947	Vivekanandhan.R/Sh K.Rangaraju	TNSVC/5955/15	NO.2/1,Thathium Patti 2nd Ward, Kamalapuram Post, Omalur Taluk, Salem District-63609,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	22.05.1993
1948	Vignesh.K/Sh R.Kasi	TNSVC/5956/15	Salavakkam Road Street,Marutham Village, Uthiramerur Taluk, Kanchipuram Dist-603406,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	11.08.1993
1949	Sankar.J/Sh S.Jeyakumar	TNSVC/5957/15	73/27,Perumal Koil Street, Sattankulam, Tutticorin- 628704,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	10.03.1992
1950	Ragavi.K/Sh P.Kandhasamy	TNSVC/5958/15	91/1, CO-operative Colony, Gandhi Nagar, Namakkal- 637001,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	03.09.1992
1951	Nivethitha.R/Sh K.Rajendra Kumar	TNSVC/5959/15	NO.10-71 a3, Karavilagam,Nalloor, Marthandam, Kanyakumari- 629165,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	03.09.1992
1952	Priyadharsini.R/Sh C.Ramadhas	TNSVC/5960/15	158,North Street, Melpuliyangudi,Kattumannar Koil Taluk, Cuddalore Dist- 608703,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	18.07.1993
1953	Dhanalakshmi.R/Sh T.Raja	TNSVC/5961/15	Kullannor Village,Pochampalli, Post & Taluk Krishnagiri Dist- 635206,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	15.03.1993
1954	Mohanapriya.M/ Sh S.Marimuthu	TNSVC/5962/15	207/2,Siluvangadu, Pullagoundampatti Post, Tiruchengode Taluk, Namakkal Disctirct-637202,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	01.05.1993
1955	Nadhiya.C/Sh K.Chinnasamy	TNSVC/5963/15	Jadayampatti,Polayampalli Post, Harur Taluk, Dharmapuri District- 635305,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	10.04.1993
1956	Prema.P/Sh R. Palanisamy	TNSVC/5964/15	4/329,New Street, Ainthupanai, Kadachanallur Post, Tiruchengode Taluk,Namakkal District- 638008,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	30.07.1993
1957	Sangeetha.S/Sh C.Sakthivel	TNSVC/5965/15	2/142,Ambedkar Street, Cross- 1,Thavittupalayam Anthiyur Taluk, Erode District-638501,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	04.12.1992
1958	Rathiga.R/Sh G.Ramamoorthy	TNSVC/5966/15	19,Rajaji Street, Perambalur Taluk & Disctirct-621212,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/ 2015	08.11.1992
1959	Dhivya Bharathi.R/Sh	TNSVC/5967/15	D.NO.147/6,Attur Main	BVSc&AH/TANUVAS/	10.01.1993

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	P.N.Rajasekaran		Road,BDO Office Backside,Ayyoathipattinam,Salem-636103,Tamil Nadu	2015	
1960	Parameswari.S/Sh M.Selvaraj	TNSVC/5968/15	21/6,Kaliappa Pillai Street, Seithur,Rajapalayam Taluk,Virudhunagar Dist-626121,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	03.05.1993
1961	Selva Rani. R/ Sh M.Rajakani	TNSVC/5969/15	Arasan Illam, Sangureddi Patti Street, Amathur, Virudhunagar-626005,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	12.03.1993
1962	Arulkumar.S/Sh M.Selvaraj	TNSVC/5970/15	Lakshmanpur Village, Korakkawadi Post, Tittagudi Taluk, Cuddalore Dist-606303,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	02.06.1993
1963	Sudharsan.M/Sh A.Mariappan	TNSVC/5971/15	50 D, Chokkanathapuram, Siva Shakthi Nagar, Chinnamanur, Theni Dist-625515,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	21.04.1993
1964	Vimalraj.E/Sh M.Elangovan	TNSVC/5972/15	114/C, West Main Road, Opp to Ambedkar Nagar, Pennadam Post, Tittakudi Taluk, Cuddalore Dist-606105,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	09.08.1993
1965	Shiyamala.S/Sh A. Sivakumar	TNSVC/5973/15	NO.173(3), Thomas Colony,Uthamapalayam, Theni-625533,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	16.07.1993
1966	Sivaranjani.R/Sh M.Ravichandran	TNSVC/5974/15	62,Veerappapillai Street, Porayar,Nagapattinam Dist-609307,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	09.10.1992
1967	Vinothini.P/Sh S.Prabhakaran	TNSVC/5975/15	135/1,Killaimedu,Kosavanpudur,V ill&PO- Katpadi Taluk, Vellore District-635803,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	20.09.1992
1968	Tharanya.S/Sh R.Selvaraj	TNSVC/5976/15	21/1, South Raja Street, Perumal Kovil Thottam, Uthukuli, Tirupur Dist-638751,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	29.06.1993
1969	Vignesh.S/Sh V.Sundarraaj	TNSVC/5977/15	2/13, West Street, Ammapalayam Post, Perambalur Dist-621101,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	23.06.1993
1970	Kaviarasan.D/Sh S.Duraisamy	TNSVC/5978/15	73/2, Veterinary Hospital Road, Old bangalore Road, Hosour - 635109,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	18.06.1992
1971	Mohammed Ismail A.L/Sh Afzal Hussain	TNSVC/5979/15	No.1, 339/5,Pallavan Street, Vigneshwara Nagar, Porur, Chennai-600116,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	22.06.1993
1972	Aariff.B/Sh K.Babu	TNSVC/5980/15	D.No.51/140, Appasamy Naidu Street, Kaveripattanam Post, Krishnagiri TK & Dist-635112,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	25.12.1992
1973	Karthick.M/Sh M,Madheswaran	TNSVC/5981/15	Door No.1/226,Kadayampatti Village, Thippampatti Post, Dharmapuri Dist,Harur Taluk-635202,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	21.07.1992
1974	Hemalatha.S/Sh S.Sankaranarayanan	TNSVC/5982/15	2/21,North Street, Aladi Village, Cuddalore District -606115,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	15.06.1991
1975	Sivaguri.M/Sh V.A. Murugan	TNSVC/5983/15	89(1),Appu Mudhaliyar Street, Pauparapatti Post, Pennagaram Taluk, Dharmapuri Dist-636809,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	11.05.1991
1976	Akshaya Devi.S/Sh P.Srinivasan	TNSVC/5984/15	# 101 A Adityam Apartments Elango Nagar South, Viruganmbakkam Chennai-600092,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	22.12.1993

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1977	Dinesh Kumar.S/ Sh R.Selvaraju	TNSVC/5985/15	9A, Ganeshar Street, Erumapatti Post, Nammakal Dist-637013, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	14.05.1993
1978	Nivedhitha.S/Sh M.Saravanan	TNSVC/5986/15	Karuppasamy Kovil Street,Karuppana Nadar Street, J.K. Patti, Bodinayakanur, Theni Distrcit, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	28.05.1992
1979	Ahamed Razin.A/ Sh S.A.Anvar Ali	TNSVC/5987/15	20/250,Rahumania Nagar, North Street, Kilakarai-623517,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	26.05.1993
1980	Thiyagarajan. N /Sh V. Veerakumar	TNSVC/5988/15	398 Avarangadu Pallipalayam,Thiruchengode Taluk, Namakkal Dist, Erode-638006,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	20.05.1989
1981	Vembu.R/Sh P.Rajendran	TNSVC/5989/15	Keela Street, Irungalur Via, Lalgudi Taluk, Trichy Dist, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	22.05.1991
1982	Kumar.K/Sh K.Kalaiselvam	TNSVC/5990/15	1/4654/5,R.V.R.Nagar, Rosalpatti, Virudhunagar-626001,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	02.09.1990
1983	Mohammed Jubair/Sh Mohamed Nayeem	TNSVC/5991/15	No.73H/7, HIG Town, Manali New Town, Chennai-600103,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	17.05.1989
1984	Kannathasan.K/Sh R.Kaliyamoorthi	TNSVC/5992/15	South Street, Sembadekkurichi Vengatampet Post, Sangarapuram Taluk, Villupuram Dist -606207, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	02.06.1991
1985	Vijipriya.P/Sh P.Periasamy	TNSVC/5993/15	6A/1,Thiruvallurvar Nagar, 1st Cross Street, Palangantham, Madurai District-625003,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	24.09.1988
1986	Rathika.R/Sh G.Ramakrishnan	TNSVC/5994/15	Kalsanoor Village, Kongrapatti Post, Harur Taluk, Dharmapuri District-635202, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	22.07.1990
1987	Rajitha.D/Sh C.Durairaj	TNSVC/5995/15	Old NO.63E2,New NO.12,Periyar Nagar, Thiruvalluvar Road, Keeramangalam North, Alangudi Taluk, Pudukottai Distrcit-614624, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	20.05.1991
1988	Fredz.W.M/Sh C. Wilfred John	TNSVC/5996/15	No.7-107/NA Chendravilasam,Cheruvallor Post, Kanyakumari Dist-629152,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	29.12.1989
1989	Aaron Wesly.C/Sh S.A.Christopher	TNSVC/5997/15	Flat No. 3B/3, New Street, Karukku, Ambattur, Chennai-600053, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	05.08.1989
1990	Durai.S/Sh M. Shanmugam	TNSVC/5998/15	449,Athipadi Road, Vanapuram, Post & Village, Thandarampattu Taluk, Thiruvannamalai District -606753, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	05.07.1989
1991	Naveen Kumar.R/ Sh A.Ravichandran	TNSVC/5999/15	Kundangal Patti, Karuppur Post, Karur Dist-639108, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	03.04.1991
1992	Sarathkumar.A/Sh A. Anbalagan	TNSVC/6000/15	9/90B, S.Alagapuri,Saptur Post, Peraiyur Taluk, Madurai District-625705,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	10.06.1992
1993	Elanathendral.S/Sh N.Sundararajan	TNSVC/6001/15	Kodiyalam,Mugaiyur Post, Chidambarm Taluk, Cuddalore Dist-608305,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	03.06.1992
1994	Prasanth.J/Sh N.Jayaraj	TNSVC/6002/15	D.NO.2/291,Linganampatti, Koppakarai Post, Degankottai Taluk, Krishnagiri-635116, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	06.11.1992

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1995	Kishor Karthikeyan.R/Sh R. Ramachandran	TNSVC/6003/15	22A, Bright Garden, Ramamoorthy Road, Selvapuram, Coimbatore-641026, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	03.11.1992
1996	Poornima Aiyaswami/Sh K.V. Aiyaswami	TNSVC/6005/15	New No.-33, Old No.-14, 3rd Main Road, Gandhi Nagar, Adayar, Chennai-60020, Tamil Nadu	BVSc&AH/PU/2013	13.04.1987
1997	Nagarajan.G/Sh R. Govindasamy	TNSVC/6006/15	1/25, East Street, Bungalore Pudur Post, Erode Dist -638512, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/1996	21.06.1972
1998	Sumaiya Nasheera. A.N/Sh A. Nawab	TNSVC/6007/15	161/64-A, General Bazaar Street, Tennur, Trichy-620017, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	19.11.1992
1999	Priyanka.J/Sh A. Jayaraman	TNSVC/6008/15	121/3, Chellamal Illam, Kalaramani Modachur, Gobichettipalayam-638476, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	02.01.1991
2000	Karunakaran.R/Sh M. Raman	TNSVC/6009/15	H 81/F4, 1st Seaward Road, Valmiki Nagar, Thiruvamiyur, Chennai-600041, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/1988	20.06.1966
2001	Arunmozhi.N/Sh G. Narayanasamy	TNSVC/6010/16	NO. 9, Staff Qtrs, Madras Veterinary College Hostel Campus, Vepery Chennai - 600007, Tamil Nadu	BVSc&AH/PU/1999	05.02.1977
2002	Sathiskumar.N/Sh P. Nehru	TNSVC/6011/16	D.No. 112, Nehru Compound, Sivagani Street, Kattabomman Nagar, Sellur, Madurai-625002, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	18.04.1991
2003	Prince. K/Sh M.D. Kalaiarasan	TNSVC/6012/16	45A, Unjappalayam Road, A.R.C. School, Opp Somanur, Coimbatore-641663, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/2015	31.05.1991
2004	Sivasankar.C/Sh S. Chokkalingam	TNSVC/6013/16	No.-4, Sri Rams Mathrika Apartments, 28th Cross Street, Indiranagar, Adyar, Chennai-600020, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/1985	18.04.1962
2005	Manickavasagam.G/Sh M. Gopal	TNSVC/6014/16	170/1, Mount Pleasant, Nr Water Board Office, Udhamandalam-643001, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/1981	23.03.1956
2006	Thirunavukkarasu.S/Sh A.K. Subbaih Thevar	TNSVC/6015/16	969, Periyar Nagar, Rajagopalapuram, Pudukottai, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/1979	10.07.1948
2007	Lydia.J/Sh Iniyar Charles	TNSVC/6016/16	151, 2nd Main Street, Nesamony Nagar, Nagarcoil-629001, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/2005	03.11.1981
2008	Sangeetha.R/Sh M.K. Ramachandran	TNSVC/6017/16	NO.5/422, Sai Complex, Vanapadi Road, Ranipet-623401, Tamil Nadu	BVSc&AH/PU/1999	08.09.1976
2009	Thiyagarajan.C/Sh K. Chendrayan	TNSVC/6018/16	174, Lakshmi Mills Colony, Pappanaicken Palayam, Coimbatore-641037, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/2000	07.05.1976
2010	Kathireshan.E.R/Sh E. Raju	TNSVC/6019/16	248/1, Thirunavukarasu Nagar, Vinayapuram, Narsingapuram Post, Attur Taluk, Salem Dist-636108, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/1993	05.06.1970
2011	Apurba Debbarma S/o Sri Birendra Debbarma	TripuraSVC/257/2015	Vill: Kamalachar, Ambasha, Dhalai-799289, Tripura	BVSc&AH/Tripura University/2014	24.05.1992
2012	Prasenjit Das S/o Sri Chandan Das	TripuraSVC/258/2015	Vill+PO-Lembucharra, P.S-Lefunga, Sub-Divn-Mohanpur-799210, Tripura	BVSc&AH/CAU, Imphal/2015	14.04.1991
2013	Jayanta Banik S/o Satyaranjan Banik	TripuraSVC/259/2015	Vill-Bankumari, Jogendranagar, Nath Para, West Tripura -799004, Tripura	BVSc&AH/CAU, Imphal/2015	02.03.1992

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2014	Sumanta Debbarma S/o Sh Krishnaroy Debbarma	TripuraSVC/260/2015	Vill-Rangmala,OP-Bazar, Sepahijal, Tripura -799103,Tripura	BVSc&AH/CAU,Imphal/2015	05.01.1989
2015	Swarup Debroy S/o Himangshu Sekhar Debroy	TripuraSVC/261/2015	OP-Kalachari,Kamalpur, Dhalai, PO-Manik, Bhandar-799287, Tripura	BVSc&AH/CAU,Imphal/2015	22.05.1991
2016	Dharma Sahu S/o Sri Bishu Deb Sahu	TripuraSVC/262/2015	Vill-SBC Nagar,Belonia, South Tripura -799135	BVSc&AH/CAU,Imphal/2015	25.10.1991
2017	Hamari Debbarma D/o Sri Nakul Ch Debbarma	TripuraSVC/263/2015	Vill-Chargariya Bari, PO-Bachai Bari, Khowai-799202,Tripura	BVSc&AH/CAU,Imphal/2015	07.12.1990
2018	Amitav Paul S/o Sh Abavi Paul	TripuraSVC/264/2015	Nagful, Halahali,PS-Salema Dhali-799289,Tripura	BVSc&AH/CAU,Imphal/2015	06.10.1990
2019	Ukyachig Mog S/o Sri Anyagya Mog	TripuraSVC/265/2015	CO: Ajit Debbaram, Bijaykumar, Chowmuhani, Agartala-799001,Tripura	BVSc&AH/CAU,Imphal/2015	19.02.1990
2020	Samrat Kalai S/o Sh Subhash Kalai	TripuraSVC/266/2015	Vill:Mankarai Para, N.K.R., PS-Teliyamura,Khowai, Tripura -799202	BVSc&AH/CAU,Imphal/2015	20.12.1990
2021	Asish Jamatia S/o Sh Gayasur Jamatia	TripuraSVC/267/2015	Vill-Karaya Mura, PO-Jitendranagar, Udaipur, Goumati-799120, Tirpura	BVSc&AH/CAU,Imphal/2015	26.04.1990
2022	Chandra Debbarma S/o Sri Ashok Debbarma	TripuraSVC/268/2015	Vill-Bhati Fatikchara,PO-Kamalghat, Mohanpur, Tripura,West -799210, Tripura	BVSc&AH/CAU,Imphal/2015	16.02.1990
2023	Keerti/Sri Sahdev Singh	UPSVC/6094/15	H.No. A-4, Balajipuram Near Tantura Road, Post-Aurangabad, Dt- Mathura-281006, Uttar Pradesh	BVSc&AH/KV&FSU,Bidar/2012	03.07.1990
2024	U.Jaya Shree/Sri Ravindra Nath Tagore	UPSVC/6095/15	Vill-Karimuddinpur,Teh-Mohamdabad, Dt-Ghazipur,Uttar Pradesh-233001	BVSc&AH/AAGRAU/2000	07.08.1976
2025	Lalit Kumar Maurya/Sri Ganga Prasad Maurya	UPSVC/6096/15	Vill-Santa,PO-Umorori, Dt-Hardoi,Uttar Pradesh-241304	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	11.05.1988
2026	Krishna Kumar/Sh Sri Ram Mohan	UPSVC/6097/15	H.No.-90, Vill-Amra, Tehsil-Moth, Dt-Jhansi,Uttar Pradesh-284303	BVSc&AH/GADV&ASU/2015	10.12.1987
2027	Ashutosh Jadav/Sh Karan Pal Singh	UPSVC/6098/15	Vill-Nagala Naimsukh, Post-Arya Gurukul Sirganj, Dt-Firozabad,Uttar Pradesh-205151	BVSc&AH/UPPDDUPC VV/2012	15.07.1988
2028	Anand Kumar Jaiswal/Sri Ram Pratap Jaiswal	UPSVC/6099/15	H.No.-178, Vill-Shahjahanpur Janaura, Dt-Faizabad,Uttar Pradesh-224123	BVSc&AH/GADV&ASU/2015	26.07.1988
2029	Kuldeep Narain Saxena/(L) Sh Jagdish Narain Saxena	UPSVC/6100/15	H.No.-104,Chowahary Toal Near Gargi Vidya Mandir,Dt-Sitapur,Uttar Pradesh-261001	BVSc&AH/CSAUA&T/1983	08.06.1958
2030	Narendra Kumar Singh/Sri Ram Chandra Vidhyarthi	UPSVC/6101/15	H.No.281, Vill-Korari, Post-Murwaz, Thana-Bisanda, Tehsil-Baberu, Dt-Banda,Uttar Pradesh-210001	BVSc&AH/CAU,Imphal/2015	02.01.1989
2031	Satish Chandra/Sri Ram Kuwanre	UPSVC/6102/15	Vill-Peernsiruddin, Post- Ram Nagar, Dt- Bahraich,Uttar Pradesh-271865	BVSc&AH/CAU,Imphal/2015	10.01.1988
2032	Sandeep Yadav/Sh N.R.Yadav	UPSVC/6103/15	100/10 Shyama Sadan Acharya Dwivedi Nagar, Dt-Raibareilly,Uttar Pradesh-229001	BVSc&AH/NDUofA&T, Faizabad/2015	08.09.1986
2033	Brijesh Kumar Singh/Sri Indra Pal Singh	UPSVC/6104/15	Vill-Dhankeshra,Post-Asepur, Dist-Allahabad-22108,Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDVSU, Jabalpur/2015	05.08.1981
2034	Ranish Katiyar/Sh K.K.Katiyar	UPSVC/6105/15	H.No.117/334, P Block Kakadeo, Dt- Kanpur-208025,Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDVSU, Jabalpur/2015	28.10.1990
2035	Ankit Yadav/Sri Ram	UPSVC/6106/15	Vill-Kason,Post-Nijampur,Thana-Bagwala,Dt- Etah,Uttar Pradesh-	BVSc&AH/NDUofA&T	07.02.1991

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Khiladi Yadav		207001	,Faizabad/2015	
2036	Ram Abhishek Singh/Sri Roop Singh	UPSVC/6107/15	Vill&PO-Kashipura, Thana-Punchh, Tehsil-Moth,Dt-Jhansi,Uttar Pradesh-284306	BVSc&AH/NDVSVU,Jabalpur/2015	01.01.1990
2037	Shelendra Singh/ Sh Ram Chandra Singh	UPSVC/6108/15	Vill-Ganiyawar,Nr Police Station Chakarnagar, Dt-Etawah,Uttar Pradesh-206002	BVSc&AH/NDVSVU,Jabalpur/2015	10.06.1987
2038	Hemant Singh/Sri Ram Bhadur Singh	UPSVC/6109/15	Vill&PO-Sisai, Dt-Gonda,Uttar Pradesh-271401	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	05.06.1988
2039	Vivek Kumar/Sri Ramdas	UPSVC/6110/15	66, New Patel Nagar Korch Bus Stand, Dt- Orai (Jalaun)-285001,Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	03.07.1992
2040	Jainendra Pratap Singh Sagar/Sh S.P.S Sagar	UPSVC/6111/15	H.No.236/9, Nath Civil Line, Dharam Puri, Dt-Muzaffarnagar,Uttar Pradesh-251001	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	15.12.1986
2041	Ramesh Kumar./Sri Bhagavanti Patel	UPSVC/6112/15	Vill-Gareriyaapur(Bharsath),Post-Gopalpur, Dt-Jaunpur-222137,Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	09.07.1989
2042	Udit Kumar Yadav/Sri Shiv Singh	UPSVC/6113/15	Vill-Dariyapur Jeeta, Post-Kara,Dt-Kasuhambi,Uttar Pradesh-212205	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	09.09.1987
2043	Akash Kumar Gupta/Sri Keshar Deo Gupta	UPSVC/6114/15	Vill&Post-Tajpur Mangha, Tehsil-Zamania, Dt- Ghazipur,Uttar Pradesh-232341	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	01.01.1988
2044	Vinod Kumar Singh /Sh Sri Ram Bhadur Singh	UPSVC/6115/15	Vill-Sarsatpur,Post-Potti, Dt-Pratapgarh-230135,Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDVSVU,Jabalpur/2015	10.07.1981
2045	Vishwamika Pathak/Sh Barmeshwar Pathak	UPSVC/6116/15	Vill&Post-Chhatki Seria Bansdih, Dt-Ballia,Uttar Pradesh-277210,Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	15.11.1988
2046	Ankit Pal/Sri Raj Pal	UPSVC/6117/15	Vill- Pohkar Purwa ,Post-Korriya,Dt- Hardoi,Uttar Pradesh-241001	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	16.05.1990
2047	Jeetendra Kumar Rajput/Sh Jagat Singh Rajput	UPSVC/6118/15	Vill&Post-Masudpura, Dt-Mahoba,Uttar Pradesh-210429	BVSc&AH/GBP UA&T/2015	17.06.1988
2048	Arun Kumar Singh/Sri Maan Singh	UPSVC/6119/15	Vill&Post-Hinauta, Tehsil-Manjhanpur,Dt-Kaushambi,Uttar Pradesh-212207	BVSc&AH/NDVSVU,Jabalpur/2015	30.04.1985
2049	Ashish Kumar/Sh Sunil Kumar	UPSVC/6120/15	Vill&Post-Bindki, Tehsil- Bindki, Dt- Fatehpur,Uttar Pradesh-212635	BVSc&AH/NDVSVU,Jabalpur/2015	23.06.1990
2050	Aqib Akhtar/Sri Khalil Ahamad	UPSVC/6121/15	Vill- Kunesla, Po-Viswanathganj,Dt-Pratapgarh,Uttar Pradesh-230404	BVSc&AH/NDVSVU,Jabalpur/2015	29.03.1989
2051	Paritosh Mishra/Sh Mahesh Dutta Mishra	UPSVC/6122/15	Vill&Post-Gondwa Goni, Tehsil-Sandeela, Dt- Hardoi,Uttar Pradesh-241203	BVSc&AH/GBP UA&T/2015	12.08.1987
2052	Ashish Kumar Verma/Sh Mata Deen Verma	UPSVC/6123/15	Vill-Imaliya, Post-Ajan, Dt-Lakhimpur Kheri-262802,Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	10.08.1990
2053	Rahul Verma/ Sh Aditya Kumar Verma	UPSVC/6124/15	Vill-Gadaiapur,Po-Sadruddeenpur,Tahsil-Nawabganj, Thana-Jahangirabad, Dt-Barabanki,Uttar Pradesh-225123	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	02.05.1990
2054	Gaurav Pandey/Sh Pramod Kumar Pandey	UPSVC/6125/15	Ram Niwas-228, Court Road, Paltan Bazar,Dt- Pratapgarh,Uttar Pradesh-230001	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	26.10.1991
2055	Priti Patel/ Sri Ram Nawal Verma	UPSVC/6126/15	Vill-Harpur Brahimpur,PO-Parash Katui, Tahsil- Jalapur,Tahana-Samanpur, Dt-Ambedkar Nagar-224155,Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	01.01.1992

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2056	Vivek Verma/Sri Bhagwan Din	UPSVC/6127/15	Vill-Samuddin Pur, Post-Gyanpur, Dt- Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh-224122	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	13.04.1986
2057	Haseeb Ahmad/ Sri Naseer Mohammad	UPSVC/6128/15	H.No.920/1,Shivaji Nagar,Dt-Jhansi-284001,Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	15.04.1989
2058	Sabir Ali Usmani/Sri Mataloob Husain	UPSVC/6129/15	Vill-Natwa, PO- Bانشpar Baijulli, Dt-Maharajganj-273303,Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	22.12.1988
2059	Ishant Anand/ Sh Babu Lal	UPSVC/6130/15	0664, Jatepur Sumer Sagar Mohalla Infront of Gayatri Niwas, Dt-Gorakhpur,Uttar Pradesh-273001	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	03.10.1988
2060	Pankaj Kumar Gupt/Sri Chandra Prakash Gupt	UPSVC/6131/15	Vill-Nibi, Thana-Shahratgarh, Dt-Siddharthnagar-272205,Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	05.06.1988
2061	Abhishek Kumar/Sri Jagdish Prasad	UPSVC/6132/15	Vill&Po-Gauntra, Dt-Hardoi, Uttar Pradesh-241302	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	16.07.1990
2062	Abhishek Katiyar/Sri Arvind Katiyar	UPSVC/6133/15	Vill-Madanpur, Po-Mubaakpur,dt-Kanpur Dehat,Uttar Pradesh-209115	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	25.11.1988
2063	Mahendra Kumar/Sri Mata Saran Pal	UPSVC/6134/15	Vill&PO-Meethepar, Dt-Jaunpur-222161,Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	12.08.1989
2064	Martand Singh/Sri Lal Sudhakar Singh	UPSVC/6135/15	Vill- Bemara,Post-Bemara, Tehsil-Bara,Thana-Shankargarh,Dt-Allahabad,Uttar Pradesh-212108	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	15.03.1990
2065	Ankur Singh/ Sri Late Radhe Mohan	UPSVC/6136/15	H.NO.235/116,Vijay Nagar Chawahara, Dt-Etawah,Uttar Pradesh-206001	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	11.09.1990
2066	Rajendra Kumar Shukla/Sri Bhawani Pd Shukla	UPSVC/6137/15	Vill-Sekhui, Post-Rampur Banghusara, Dt-Balrampur,Uttar Pradesh-271201	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	15.06.1990
2067	Anuj Pratap Singh/Sri Moti Lal Singh	UPSVC/6138/15	Vill-Chak Thamba, Post-Nara, Dt-Kaushambi, Uttar Pradesh-212217	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	15.07.1989
2068	Rita Bharti/Sri Bansidhar Rajpoot	UPSVC/6139/15	Vill&Post - Budera,Thaha-Panwari, Dt -Mahoba-210429, Uttar Pradesh-210429	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	20.12.1989
2069	Jai Krishana Pandey/Sri Lal Bhadur Saini	UPSVC/6140/15	Vill&Post-Sehura Kala, Thana-Rudhauri Dt- Basti, Uttar Pradesh-272148	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	10.08.1992
2070	Kiran Pal Singh Saini/ Sri Lal Bhadur Saini	UPSVC/6141/15	H.No.133/39,Shyam Sadan Anand Vihar, New Colony, Dt-Faizabad,Uttar Pradesh-224001	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	15.11.1987
2071	Amit Kumar Kushal/Sri R.B. Singh	UPSVC/6142/15	Near Commuity Health Centre, Dt-Manipuri, Uttar Pradesh-205264	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	29.05.1988
2072	Vijay Pratap Yadav/Sri Babulal Yadav	UPSVC/6143/15	Vill-Usari Beejurg,Post-Usari Khurd, Dt- MAU, Uttar Pradesh-275301	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	10.07.1989
2073	Asheeh Singh Patal/Sri Samarjeet Singh	UPSVC/6144/15	Vill-Ladegawan,Post-Ladegawan,Dt-Fatehpur,UP-212663	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	15.07.1991
2074	Ravideep Singh/Sri Mangal Singh	UPSVC/6145/15	Vill-Telupura,Post-Rampur Mania,Dt-Saharanpur, Uttar Pradesh-247451	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	16.12.1984
2075	Vikas Singh/ Sri Ram Singh	UPSVC/6146/15	Adarsh Villa,Shakti Nagar Colony, Near Children Academy, Dt-Gorakpur, Uttar Pradesh-273003	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	10.10.1991
2076	Anuj Kumar Yadav/Sri Devchandra Yadav	UPSVC/6147/15	Vill-Aimatpur,Post-Manara, Dt-Fatehpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	01.07.1991
2077	Raj Kumar Kannaujia/Sri Lal	UPSVC/6148/15	Vill-Hasiya,Post-Sarsara,Tahsil-Maniyaha, Dt-Jaunpur,Uttar	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	05.04.1984

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Chandra		Pradesh-222162		
2078	Jagat Singh Prajapati/Sri Bhagwan Das Prajapati	UPSVC/6149/15	Nr of SBI Bank Muhal Jugyana, Vill-Rath, Tehsil-Rath Dt-Hamirpur, Uttar Pradesh-210431	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	01.06.1992
2079	Jitendra Singh/Sri Namvar Singh	UPSVC/6150/15	Village-Fatehpur Manikpur, PO-Saidhi, Dt-Ambedkarnagar, Uttar Pradesh-224122	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	16.07.1988
2080	Atul Kanaujia/Sri Surat Singh Kanaujia	UPSVC/6151/15	Laxmiganj Sandila Road, Bangarmau, Dt- Unnao, Uttar Pradesh-209801	BVSc&AH/NDVUSU, Jabalpur/2015	08.02.1987
2081	Birendra Kumar Verma/Sri Prem Narayan Verma	UPSVC/6152/15	Vill&Post-Janjhara, Tehsil-Fatehpur, Dt-Barabanki, Uttar Pradesh-225004	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	10.08.1985
2082	Rajeev Kumar/Sri Dhuram Choudhari	UPSVC/6153/15	Vill&Post-Rath, Tehsil-Rath ,Dt-Hamirpur, Uttar Pradesh-210431	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	03.04.1987
2083	Avinash Verma/Sri Late Ram Ashare Verma	UPSVC/6154/15	Vill-Unchegav Gasspur, Dt-Ambedkarnagar, Uttar Pradesh-224122	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	05.07.1991
2084	Ravi Yadav/Sri Virendra Yadav	UPSVC/6155/15	Vill-Maudhar Mangal, Post-Khajani, Dt-Gorakhpur, Uttar Pradesh-273212	BVSc&AH/GBP UA&T/ 2015	05.07.1989
2085	Ajay Kumar Singh/Sri Branma Naresh Singh	UPSVC/6156/15	Vill-Piyara, Post-Khandehia, Tehsil-Mau, Dt-Chitrakoot, Uttar Pradesh-273212	BVSc&AH/GBP UA&T/ 2015	25.09.1988
2086	Svivendra Pratap Singh/Sri Ramesh Chandra Verma	UPSVC/6157/15	Vill-Chhangeepur, Post-Suratganj, Thana-Mohammajdpur Khala, Tehsil-Fatehpur, Dt-Barabanki, Uttar Pradesh-2253040	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	08.02.1990
2087	Rojee Devi/Sri Bal Chandra	UPSVC/6158/15	Vill&Post-Bauhar, Tehsil-Ghatampur Dt-Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-209209	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	03.07.1990
2088	Atul Pratap Singh/ Sri Ajay Kumar	UPSVC/6159/15	Vill-Kuiyankhera, Post-Kuniyankhera, Dt-Farrukhabad, Uttar Pradesh-207503	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	12.05.1990
2089	Arvind Kumar/Sri Om Prakash	UPSVC/6160/15	Vill-Nagla Durgan, Post-Manaura Midhali Kalan, Dt- Etah, Uttar Pradesh-207122	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	10.10.1985
2090	Neeraj Rajput/Sri Chandra Shekhar	UPSVC/6161/15	Vill&Post-Gudha, Tehsil-Charkhari, Dt-Mahoba, Uttar Pradesh-210421	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	14.02.1986
2091	Rahul Yadav/Sri Ghan Shyam Yadav	UPSVC/6162/15	Mohalla Kashmiriya, Post- Tanda, Dt-Ambedkarnagar, Uttar Pradesh-224190	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	28.11.1989
2092	Chirag Singh/Sri Chandra Pal Singh	UPSVC/6163/15	393, Sanjay Nagar, Dt-Meerut, Uttar Pradesh-250001	BVSc&AH/GBP UA&T/ 2015	08.09.1992
2093	Ashoo/Sri Surendra Nath Verma	UPSVC/6164/15	Vill&Post-Badagawon, Ibrahimpur, Dt-Ambedkarnagar-224230, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	20.07.1985
2094	Santosh Verma/Sri Ram Krishna Verma	UPSVC/6165/15	Vill-Lakchwa, Post-Amsin, Dt-Faizabad, Uttar Pradesh-224141	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	30.10.1989
2095	Sandeep Kumar Singh/Sri Subhash Chandra Singh	UPSVC/6166/15	Vill&PO-Kheda, Sialjeet Tehsil-Sarila, Dt-Hamirpur-210422, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	02.07.1992
2096	Neha Gupta/Late Sri C.L.Gupta	UPSVC/6167/15	Qr.No.15, VIP Dumari Khas, Luxmipur Sardar Nagar, The-Chauri Chaura, Dt-Gorakhpur, Uttar Pradesh-273202	BVSc&AH/GBP UA&T/ 2015	20.05.1992
2097	Vivek Kumar Gonda/Sri Laxmi Kant	UPSVC/6168/15	Vill-Bigahi, Post-Dumvella, Dt-Deoria, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	11.03.1990
2098	Rahul Prasad/ Late Sri Ramesh Chandra	UPSVC/6169/15	Vill&Post-Islampur, Tehsil-Sareela, Thana-Chikashi, Dt-Hamirpur,	BVSc&AH/NDUofA&T ,Faizabad/2015	30.08.1992

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			Uttar Pradesh-210422		
2099	Rama Kant Verma/Sri Mahesh Prasad	UPSVC/6170/15	Moh-Mohamadpur, Post-Mallawan, Dt- Hardoi, Uttar Pradesh-241302	BVSc&AH/NDUofA&T, Faizabad/2015	03.07.1986
2100	Pratibha Singh/Sri Dal Singar Singh	UPSVC/6171/15	Arya Prathnidhi Sabha Campus, 5 Meera Bai Marg Narhi, Dt- Lucknow, Uttar Pradesh-226001	BVSc&AH/NDUofA&T, Faizabad/2015	01.07.1989
2101	Rashmi/Late Sri Ramraj	UPSVC/6172/15	Vill-Aaughar Nath Ganj, Post-Majarganj, Dt-Raibareilly, Uttar Pradesh-229001	BVSc&AH/NDUofA&T, Faizabad/2015	01.04.1990
2102	Neha Singh/ Sri Manoj Kumar Singh	UPSVC/6173/15	Nyibazar Near Kaliji Place, Dt-Balrampur, Uttar Pradesh-271201	BVSc&AH/NDUofA&T, Faizabad/2015	17.03.1988
2103	Ashwani Kumar Gautam/Sri Ganga Ram Chandra	UPSVC/6174/15	Vill-Sindharwa, Post-Sindharwa, Tehsil-Malihabad, Dt- Lucknow, Uttar Pradesh-226017	BVSc&AH/NDUofA&T, Faizabad/2015	24.07.1991
2104	Amit Kumar/Sri Manohar Lal	UPSVC/6175/15	186, Ganga Niwas, Azad Nagar, Dt-Bareilly, Uttar Pradesh-243001	BVSc&AH/NDUofA&T, Faizabad/2015	10.10.1985
2105	Gaurav Kumar/Sri Vijay Singh	UPSVC/6176/15	349, New Palhakpura Dt-Urai Jalaun Uttar Pradesh-285123	BVSc&AH/NDUofA&T, Faizabad/2015	14.10.1990
2106	Gayanesh Kumar Yadav/Sri Sabhajeet Yadav	UPSVC/6177/15	Vill-Jhaul, Post- Janjhai, Tehsil-Handia, Dt-Allahabad, Uttar Pradesh-212401	BVSc&AH/NDVSU, Jabalpur/2015	28.07.1990
2107	Anuradha Gupta/Sri Mahesh Chandra Gupta	UPSVC/6178/15	H.No.1919, Nai Basti, Police Station, Katwali, Tehsil-Shansi, Dt-Jhansi, Uttar Pradesh-284002	BVSc&AH/NDVSU, Jabalpur/2015	22.09.1989
2108	Brijesh Kumar Tiwari/Sri Data Shankar Tiwari	UPSVC/6179/15	Vill-Chhabi Nath Pur, Post-Jigna, Dt- Mirzapur, Uttar Pradesh-231313	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	05.10.1989
2109	Rajesh Kumar Verma/Sri Deoraj Verma	UPSVC/6180/15	Vill&Post-Bethra, Dt-Sultanpur, Uttar Pradesh-228131	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	07.06.1986
2110	Dinesh Kumar Katiyar/Sri Santosh Kumar Katiyar	UPSVC/6181/15	Vill-Tutui Chand, Post-Doharapur, Dt-Kanpur, Dehat-209101, Uttar Pradesh	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	02.02.1983
2111	Chhote Lal Yadava/Sri Ram Dhani Verma	UPSVC/6182/15	Vill- Khadhery (Tara Sagar), Post-Dumraon, Dt- Mau, Uttar Pradesh-275101	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	21.05.1983
2112	Kuldeep Singh/Sri Ayodhya Prasad	UPSVC/6183/15	Vill-Kayampur, Post-Mohiuddinpur, Dt-Kaushambi, Uttar Pradesh-212216	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	01.07.1987
2113	Yadav Rajesh Kumar Rajaram/Sri Rajaram	UPSVC/6184/15	Vill-Chakmajnoo, Post-Nizamabad, Dt- Azamgarh, Uttar Pradesh-272606	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	31.01.1988
2114	Balvant/late Sri Ram Naresh Maurya	UPSVC/6185/15	Vill&Post-Rampur, Rakaba Chauri Chaura, Dt-Gaorakhpur, Uttar Pradesh-273201	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	01.10.1984
2115	Dileep Kumar/Sri Shankar Prasad Yadav	UPSVC/6186/15	Vill-Bhagwanpur, Post-Musepur, Dt-Ambedkarnagar, Uttar Pradesh-224143	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	15.03.1983
2116	Amit Kumar Yadav/Sri Ram Dhan Yadav	UPSVC/6187/15	Vill-Dharsan, Post-Kandharapur, Dt- Azamgarh, Uttar Pradesh-276135	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	15.07.1984
2117	Prabhakar Yadav/Sri Chandra Bhan Yadav	UPSVC/6188/15	Vill-Naubar Harakhpura, Post-Devara Jadid Kita Ji, Dt-Azamgarh, Uttar Pradesh-276137	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	05.07.1987
2118	Rajesh Kumar Yadav/Sri Ram Narain Singh Yadav	UPSVC/6189/15	Vill-Ibrahimpur, Post-Bhukura, Dt-Ghazipur, Uttar Pradesh-275203	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	17.03.1983
2119	Rajeev Kumar Yadav/Sri Paras Nath Yadav	UPSVC/6190/15	Vill-Jamunipur, Post-Dariyagrurj, Dt-Jaunpur, Uttar Pradesh-222001	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	10.10.1988
2120	Gajehdra Pal Singh /Sri	UPSVC/6191/15	Vill-Nagla Gariba, Post-Bras	BVSc&AH/UPPDDUPC	30.11.1981

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Yadram Singh		Kalyanpur, Dt-Etah, Uttar Pradesh - 207301	VV,Mathure /2015	
2121	Sudeep Kumar/Sri Om Prakash	UPSVC/6192/15	Vill&Post- Ait, Dt-Jalaun, Uttar Pradesh-285201	BVSc&AH/UPPDDUPC VV,Mathure /2015	30.04.1988
2122	Arjun Singh/Sri Mahaveer Singh	UPSVC/6193/15	Vill- Nihalpur,Post-Agsauli,Tehsil- Sikandraraw, Dt-Hathras ,Uttar Pradesh-204210	BVSc&AH/UPPDDUPC VV,Mathure /2015	10.07.1986
2123	Ravi Kant Singh/Sri Balvir Singh	UPSVC/6194/15	14-A,Sapan Bagh,Dayal Bagh, Dt-Agra, Uttar Pradesh-282005	BVSc&AH/UPPDDUPC VV,Mathure /2015	19.09.1983
2124	Nitin Kumar/Sri Chandra Shekhar	UPSVC/6195/15	Vill-Nagla Pathak, Post-Murhi, Tehsil-Auriya,Dt-Auriya,Uttar Pradesh-206247	BVSc&AH/UPPDDUPC VV,Mathure /2015	26.12.1988
2125	Brijesh Kumar/ Sri Ram Shanker Ram	UPSVC/6196/15	Vill-Barepur,Post-Rasulpur Pacharasi, Tehsil-Saidpur,Dt-Gaizpur,Uttar Pradesh-233306	BVSc&AH/UPPDDUPC VV,Mathure /2015	10.06.1985
2126	Sanjay Pratap Singh /Sri Babu Ram	UPSVC/6197/15	Nai Colony Banshi Gohra, Dt-Manipuri,Uttar Pradesh-205001	BVSc&AH/UPPDDUPC VV,Mathure /2015	05.06.1989
2127	Dinesh Maurya/Sri Tilakdhan Maurya	UPSVC/6198/15	Vill-Kodra Kalam,Post-Daultabad, Dt-Ambekar Nagar,Uttar Pradesh-224149	BVSc&AH/UPPDDUPC VV,Mathure /2015	01.03.1986
2128	Ram Dev Yadav/Sri Chhedi lal Yadav	UPSVC/6199/15	Vill-Kathuar Parvejpur,Post-Mauaima, Dt-Allahabad,Uttar Pradesh-212507	BVSc&AH/UPPDDUPC VV,Mathure /2015	11.05.1988
2129	Santosh Pal/Sri Chunni Lal Pal	UPSVC/6200/15	Vill-Samgara,Post-Samgara,Dt-Banda,Uttar Pradesh-210001	BVSc&AH/UPPDDUPC VV,Mathure /2015	15.07.1989
2130	Sunil Kumar Singh/Sri Dharm Deo Singh	UPSVC/6201/15	Vill-Bhatuli,Post-Banai,Dt-Deoria,Uttar Pradesh-274201	BVSc&AH/UPPDDUPC VV,Mathure /2015	12.08.1987
2131	Lal Bahadur /Sri Shiv Ram	UPSVC/6202/15	Vill-Kudha Keshavpur Manjha Pujari Ka Purawa, Post-Darshan Nagar ,Dt-Faizabad,Uttar Pradesh-224135	BVSc&AH/UPPDDUPC VV,Mathure /2015	20.04.1986
2132	Deepanka/Sri Y.N.Yadav	UPSVC/6203/15	D-24,Old Veterinary College Campus,DUVASU, Mathura,Uttar Pradesh-281001	BVSc&AH/UPPDDUPC VV,Mathure /2015	02.07.1988
2133	Triveni Kumar/Sri Jogeshwar Dayal	UPSVC/6204/15	Mohalla-Marajanpur(Near Dt-Auraiya),Uttar Pradesh-206122	BVSc&AH/UPPDDUPC VV,Mathure /2015	24.07.1981
2134	Ved Prakash Srivastava/Sri Paras Nath Srivastava	UPSVC/6205/15	Vill-Gopalpur,Post-Laukiya,Tehsil-Margha,Dt-Balrampur,Uttar Pradesh-271307	BVSc&AH/UPPDDUPC VV,Mathure /2015	30.06.1987
2135	Usha Bais/Sri Shiv Kumar Basis	UPSVC/6206/15	Vill-Auri,Post-Anapara,Tahsil-Dadahi,Dt-Sonebhadra,Uttar Pradesh-231216	BVSc&AH/UPPDDUPC VV,Mathure /2015	10.10.1990
2136	Prabhat Yadav/Sri Rajbabu Yadav	UPSVC/6207/15	Vill-Hajratpur,Post-Dayal Nagar,Dt-Fatehpur,Uttar Pradesh-212631	BVSc&AH/UPPDDUPC VV,Mathure /2015	10.03.1984
2137	Sanjay Kumar/Sri Jay Ram Saroj	UPSVC/6208/15	Vill&Post-Saraimohan,Dt-Azamgarh,Uttar Pradesh-276303	BVSc&AH/UPPDDUPC VV,Mathure /2015	12.07.1985
2138	Manoj Kumar Maurya/Sri Hira Lal Maurya	UPSVC/6209/15	Vill-Sahinjana,Post-Singaha Kalan,Dt-Lakhimpur, Kheri,Uttar Pradesh-262905	BVSc&AH/UPPDDUPC VV,Mathure /2015	28.06.1983
2139	Desh Deepak/Sri Ashok Kumar	UPSVC/6210/15	H.No-C-2/3,Post-D.D.D.Farm Vety College,Tehsil-Mathura,Dt-Mathura,Uttar Pradesh-281001	BVSc&AH/UPPDDUPC VV,Mathure /2015	15.07.1989
2140	Anil Kumra Singh/ Sri Abhimani Singh	UPSVC/6211/15	Vill-Kareha,Post-Kachanna,Dt-Allahabad,Uttar Pradesh-212301	BVSc&AH/UPPDDUPC VV,Mathure /2015	13.08.1987
2141	Anand Kushwaha/Sri Komal Singh Kushwaha	UPSVC/6212/15	Vill-Khurdpur,Post-Fadanpur,Dt-Gahazipur,Uttar Pradesh-233001	BVSc&AH/UPPDDUPC VV,Mathure /2015	31.12.1986
2142	Hemant Kumar/Sri Patel Kumar	UPSVC/6213/15	Sikandar Pur(Kotwa),Post-Kotwa Narayan Pur, Dt-Ballia,Uttar Pradesh-277501	BVSc&AH/UPPDDUPC VV,Mathure /2015	01.01.1991

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2143	Sonika Grewal/Sri Kulveer Singh	UPSVC/6214/15	Vill-Mata Wali Malak, Pakbara, Dt-Moradabad, Uttar Pradesh-244001	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	01.01.1990
2144	Ram Sajiwan Maurya/Sri Ram Raj	UPSVC/6215/15	Vill-Pureincha, Post-Bisherganj, Tehsil-Amethi, Dt-Ameth, Uttar Pradesh-227407	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	01.02.1986
2145	Anuradha Singh Niranjan/Sri Satya Prakash Niranjan	UPSVC/6216/15	Vill-Emlauri, Post-Khairi, Tehsil-Konch, Dt-Jalaun, Uttar Pradesh-285205	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	05.01.1989
2146	Manish Kumar/Sri Keshav Ram	UPSVC/6217/15	Sector-17/61, Indira Nagar, Dt-Lucknow, Uttar Pradesh-226016	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur /2015	12.04.1987
2147	Kuldeep Saini/Sri Bachchu Singh	UPSVC/6218/15	Vill&Post-Aurangabad, Dt-Mathura, Uttar Pradesh-281006	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	31.03.1986
2148	Mohit Kr Singh Bhadrurya/Sri Bir Singh Bhadauriya	UPSVC/6219/15	Vill-Bewan, Tehsil-Maudaha, Dt-Hamirpur, Uttar Pradesh-210501	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	03.08.1987
2149	Vimlesh Kumar/Sri Tej Shankar	UPSVC/6220/15	Vill-Nanda Khear, Post-Nevena, Tehsil-Unnao, Dt-Unnao, Uttar Pradesh-209025	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	08.07.1985
2150	Devesh Singh/Sri Virendra Singh	UPSVC/6221/15	Veer Sawarkar Nagar Colony, Moradabad Road, Chandavsi, Tehsil-Chandavsi, Dt-Sambhal, Uttar Pradesh-202412	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	01.07.1987
2151	Lavina/Sri B.K.Sharma	UPSVC/6222/15	22, Railway Colony, Tehsil-Shikohabad, Dt-Firozabad, Uttar Pradesh-205135	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	12.09.1989
2152	Amit Kumar/Sri Jawahar Lal	UPSVC/6223/15	Vill-Hari Ka Purwa, Post-Vaina, Dt-Kanpur Dehat-209115	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	07.08.1989
2153	Sinkesh Yadav/Sri Chob Singh Yadav	UPSVC/6224/15	C-257, Gujainee Dabaulee Ratan Lal Nagar, Dt-Kanpur, Uttar Pradesh-208022	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	16.12.1988
2154	Naresh Singh Kuntal/Sri Tej Singh Kuntal	UPSVC/6225/15	Vill-Ghari Visia, Post-Painja, Dt-Mathura-281502, Uttar Pradesh	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	25.08.1987
2155	Kaushalendra Singh/Sri Kanhi Singh	UPSVC/6226/15	Vill-Indrapur Jyota, Tehsil-Farrukhabad, Dt-Farrukhabad, Uttar Pradesh-209743	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	04.07.1992
2156	Diwakar/Sri Ram Khval Verma	UPSVC/6227/15	Vill-Kewncha, Post-Bailey, Dist-Bati, Uttar Pradesh-272302	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	08.03.1987
2157	Manoj Kumar Verma/Sri Ram Sumer Verma	UPSVC/6228/15	Vill-Saraiya Bujurg, Post-Kusaura, Thana-Kalwari, Teh-Basti, Dt-Basti, Uttar Pradesh-272301	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	01.01.1985
2158	Tanveer Khanam/Sri Sabir Hussain	UPSVC/6229/15	Shah Market Bhogaon, Dt-Mainpuri, Uttar Pradesh-205262	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	22.02.1991
2159	Irshad Alam/Sri Noor Mohammad	UPSVC/6230/15	Vill-Roopdpur, Post-Naipur, Dt-Gonda, Uttar Pradesh-271129	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	04.06.1990
2160	Alok Singh/Sri Udai Singh	UPSVC/6231/15	172-C, Azad Square South Malaka, Dt-Allahabad, Uttar Pradesh-211001	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	20.07.1987
2161	Sushma Yadav/Sri Ganga Ram Yadav	UPSVC/6232/15	Vill-Dhavar, H.NO.-9, Post-Bankunya, Tehsil-Bansi, Dt-Siddharthnagar, Uttar Pradesh-272153	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	10.01.1990
2162	Anjali Devi/Sri Vishnu Pal	UPSVC/6233/15	Vill-Paradan, Post-Selowon, Dt-Fatehpur, Uttar Pradesh-212657	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	15.04.1990
2163	Upendra Kumar/ Sri Hari Shankar	UPSVC/6234/15	Vill-Hasanpur, Post-Behata Kalan, Dt-Raibareli, Uttar Pradesh-229201	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	26.12.1985
2164	Ritu Yadav/ Sri Jagroop Singh Yadav	UPSVC/6235/15	Vill-Sikhmapur, Mohalla-Sikhampur, Tehsil-Bhogpur, Dt-Kanpur, Dehat, Uttar Pradesh-	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	04.03.1991

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			209111		
2165	Subhash Kumar/Sh Rajendra Prasad	UPSVC/6236/15	161, Ismailpur, Post-Sahasapur, Dt-Sitapur, Uttar Pradesh-261001	BVSc&AH/NDUof A&T, Fazaiaabad /2015	11.04.1990
2166	Amit Kumar Pandey/Sri Dinesh Chandra Pandey	UPSVC/6237/15	Vill&PO-Kathar, Thana-Bhawarkol, Tehsil-Mohamddabad, Dt-Gahzipur, U.P-233231	BVSc&AH/AAU, Assam /2015	16.06.1984
2167	Alok Kumar/Sri Krishan Chandra	UPSVC/6238/15	Vill&Post-Kurebhar, Dt-Sultanpur, Uttar Pradesh-228151	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	10.08.1989
2168	Preeti Singh/Sri Surya Pratap Singh	UPSVC/6239/15	Vill-Sheraeeh, Post-Jhusi, Tahsil-Phoolpur, Dt-Allahabad, Uttar Pradesh-211019	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	12.06.1990
2169	Saroj Kumar /Sri Girja Shanakr	UPSVC/6240/15	Vill-Lachchi Khera, Post- Bijouli, Dt-Fatehpur, Uttar Pradesh-212657	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	18.05.1981
2170	Pritiksha Srivastava/Sri Ravi Prakash Srivastva	UPSVC/6241/15	153-A/71-B, Krishna Nagar, Kydganj, Dt-Allahabad, Uttar Pradesh-211003	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	20.10.1990
2171	Ram Chandra Yadav/Sri Lalta Prasad Yadav	UPSVC/6242/15	Vill-Bhaupur, Post-Gora Genashpur, Dt-Basti, Uttar Pradesh-272001	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	05.05.1986
2172	Dheerendra Kumar/Late Sri Ram Siromani	UPSVC/6243/15	Vill-Bibipur, Post-Kewai Bujurg, Tehsil-Handia, Dt-Allahabad, Uttar Pradesh-221502	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	04.04.1989
2173	Akansha Singh/Sri Rajendra Pratap Singh	UPSVC/6244/15	Vill-Itauri, Post-Sonikpur, Dt-Jaunpur, Uttar Pradesh-222001	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	11.10.1990
2174	Puspendra Kumar Singh/Sri Shiv Pal Singh	UPSVC/6245/15	Vill&Post-Kharela, Dt-Mahoba, Uttar Pradesh-210425	BVSc&AH/KVAFSU /2015	19.03.1986
2175	Ravi Shankar Tiwari/Sri Adaya Prasad Tiwari	UPSVC/6246/15	Vill-Purhanru Wazeerganj, Post-Karnipur, Dt-Gonda, Uttar Pradesh-271129	BVSc&AH/NDUof A&T, Fazaiaabad /2015	25.05.1992
2176	Mohd. Yusuf/Sri Mohd. Ibraheem	UPSVC/6247/15	Vill-Dhakia Badlu, Post- Danoi, Dist-Pilibhit, Uttar Pradesh-262001	BVSc&AH/GADV&AS U/2015	05.06.1988
2177	Sunil Kumar/Sri Ramker Rao	UPSVC/6248/15	Vill-Khanjo, Post-Tama, Tehsil-Dhanghata, Block-Hainsar Bazar, Dt-Sant Kabir Ng, U.P-272165	BVSc&AH/GADV&AS U/2015	19.09.1990
2178	Jitendra Kumar/Sri Mahendra Pal Singh	UPSVC/6249/15	333, Keshav Kunj Navil Road, New Bus Stand, Dt-Etawah, Uttar Pradesh-206001	BVSc&AH/GADV&AS U/2015	07.10.1991
2179	Amit Kumar/Sri Hiralal	UPSVC/6250/15	Vill-Kamalpur Vijaya Gawan, Post-Katariya Yakubpur, Tehsil-Akbarpur, Dt-Ambedkar Nagar, U.P-224122	BVSc&AH/NDVSU, Jabalpur/2015	24.07.1981
2180	Sandeep Kumar Chaudhary/Sri Ram Ashish Prasad	UPSVC/6251/15	Vill-Sekhwniya Bujurg, Tola-Madariya, Post-Sekhwniya, Dt-Kushinagar, U.P-274402	BVSc&AH/UPPDDUPC VV, Mathure /2015	15.08.1990
2181	Sanjay Singh/Sri Ram Prakash Rajpoot	UPSVC/6252/15	Vill-Kauniya, Tehsil-Kulpahat, Post-Mahuwo, Dt-Mahoba, Uttar Pradesh-210427	BVSc&AH/NDVSU, Jabalpur/2015	01.08.1992
2182	Desh Deepak Pandey/Sri Ravindra Kumar Pandey	UPSVC/6253/15	Moh-Krishnapuri, Nr RMP Degree College, Dt-Sitapur, Uttar Pradesh - 261001	BVSc&AH/WBUofA&F S/2015	02.06.1991
2183	Abhishek Pratap Singh/Sri Dharmendra Pratap Singh	UPSVC/6254/15	H.No. 163, Vill&Post-Dahuchra, Dt-Pratapagarh, Uttar Pradesh-230137	BVSc&AH/WBUofA&F S/2015	07.10.1992
2184	Surya Pratap Singh Parihar/Sri J.B.Singh Parihar	UPSVC/6255/15	Adharsh Colony, Gopalpura, Post-Shamsabad, Dt-Agra, Uttar Pradesh-283125	BVSc&AH/NDVSU, Jabalpur/2015	29.03.1988
2185	Vipin Kumar/Sri Kamraj Singh	UPSVC/6256/15	Vill-Nagla Hari Singh, Post-Nagal Gulal, Dt-Firozabad, Uttar	BVSc&AH/NDVSU, Jabalpur/2015	10.05.1991

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			Pradesh-283203		
2186	Nishant Pandey/Sri Vidyadhar Pandey	UPSVC/6257/15	102/33K, Chak Lal, Mohammad Naivi, Dt-Allahabad, Uttar Pradesh-211008	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	30.07.1988
2187	Pradhuma Patel/Sri Basant Patal	UPSVC/6258/15	Vill&Post-Bankatia, Dt-Azamgarh, Uttar Pradesh-276136	BVSc&AH/KVAFSU /2015	05.04.1988
2188	Akash Katiyar/Sri Ravendra Kumar Katiyar	UPSVC/6259/15	H.No-152, Vill-Bakothi Bilhawi, Dt-Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-209202	BVSc&AH/KVAFSU /2015	21.03.1993
2189	Pushpendra Singh/Sri Suresh Chandra Singh	UPSVC/6260/15	Vill-Piyara, Post-Kharideha, Dt-Chitrakoot, Uttar Pradesh-210209	BVSc&AH/NDUA&T, Faizabad/2015	07.11.1986
2190	Shivam Singh Patel/Sri Anuradh Singh Patel	UPSVC/6261/15	Vill-Imilia, Thana-Uldan, Tehsil-Tehrowly, Dt-Jhansi, Uttar Pradesh-284001	BVSc&AH/LLRUofVS &AS/2015	30.10.1989
2191	Dilip Kumar Gupta/Sri Suresh Prasad Gupta	UPSVC/6262/15	Vill&Post-Kothibriari Siswa Bazar, Dt-Mahrajganj, Uttar Pradesh-273303	BVSc&AH/LLRUofVS &AS/2015	03.07.1987
2192	Deepak Mani Tripathi/Sri Prayag Mani Tripathi	UPSVC/6263/15	Vill&Po-Barpar, Dt-Deoria, Uttar Pradesh-274201	BVSc&AH/LLRUofVS &AS/2015	10.10.1987
2193	Agnivesh Sharma/Sri Hari Narayan Sharma	UPSVC/6264/15	Vill-Lachhipur, Post-Bhaganpur, Tehsil-Karchna, Dt-Allahabad, Uttar Pradesh-212303	BVSc&AH/LLRUofVS &AS/2015	20.07.1985
2194	Krishna Pratap Singh/Sri Deep Narayan Yadav	UPSVC/6265/15	H.No-Awas Vikas Colony, Mahdeo Jharkhandi Kunraghat, Dt-Gorakhpur, Uttar Pradesh-273008	BVSc&AH/MA&FSU/2015	27.09.1989
2195	Santosh Kumar Yadav/Sri Brij Pal Yadav	UPSVC/6266/15	Plot No.-96/A, Vill&Post-Udipur (Infront of Govt. Hospital), Dt-Azamgarh, U.P-276304	BVSc&AH/MA&FSU/2015	01.09.1984
2196	Rishi Kumar Gupta/Sri Damoday Pd Gupta	UPSVC/6267/15	Plot No-18, Mohalla-Hatwara, Vill&Post-Talbehat, Dt-Lalitpur, Uttar Pradesh-284126	BVSc&AH/MA&FSU/2015	25.08.1988
2197	Pramod Kumar Yadav/Sri Ram Sundar Yadav	UPSVC/6268/15	Vill&Post-Marah (Big), Dt-Jaunpur, Uttar Pradesh-222129	BVSc&AH/UPDDUPC VV, Mathure /2015	05.04.1984
2198	Raj Kumar Rajpoot/Sri Shyam Singh Rajpoot	UPSVC/6269/15	Vill&Post-Kachhava Kalan, Dt-Hamirpur, Uttar Pradesh-210430	BVSc&AH/NDVVSU, Jabalpur/2015	01.07.1984
2199	Avnish Chaudhary/Sri Pitambar Singh	UPSVC/6270/15	Vill&Post-Baldia, Dt-Bijnor, Uttar Pradesh-246726	BVSc&AH/SKNDAU, Gujarat/2015	08.12.1986
2200	Vipin Singh/Sri Devendra Pratap Singh	UPSVC/6271/15	Vill&Post-Amola, Bujurg (Rakba), Dt-Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh-224139	BVSc&AH/AAU, Anand /2015	10.09.1986
2201	Mojibur Rahman Ansari/Sri Mohd. Shoaib	UPSVC/6272/15	Moh-Dakinganj, Post-Bahadurganj, Dt-Ghazipur, Uttar Pradesh-275201	BVSc&AH/AAU, Anand /2015	18.06.1988
2202	Deepak Singh/Sri Uday Shankar Singh	UPSVC/6273/15	Vill&Post-Azamgarh, Dt-Azamgarh, Uttar Pradesh-276124	BVSc&AH/SKNDAU, Gujarat/2015	22.10.1988
2203	Ashish Kumar Tripathi/Sri Krishan Pratap Tripathi	UPSVC/6274/15	Vill-Bistauli, Post-Belipar, Dt-Gorakhpur, Uttar Pradesh-273001	BVSc&AH/MA&FSU/2015	03.05.1990
2204	Yogesh Kumar/Sri Rajesh Kumar	UPSVC/6275/15	Moh Main Bazar, Bailari, Dt-Moradabad, Uttar Pradesh-244411	BVSc&AH/MA&FSU/2015	15.07.1989
2205	Ankit Kumar Shukla/Sri Susheel Kumar Shukla	UPSVC/6276/15	Near Bus Stop, Master Colony Poorvi Maholi, Dt-Sitapur, Uttar Pradesh-261141	BVSc&AH/MA&FSU/2015	02.02.1988
2206	Abhishek Pandey/Sri Ram Shyam Pandey	UPSVC/6277/15	Vill-Rukunpur (Govarkhan Pur), Post-Surharpur, Dt-Ambedkarnagar, Uttar Pradesh-	BVSc&AH/MA&FSU/2015	01.01.1988

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			224159		
2207	Balendri Sonkar/Sri Narayan Sonkar	UPSVC/6278/15	Town-Barwasumerpur, Dt-Hamirpur, Uttar Pradesh-210502	BVSc&AH/UPPDDUPC VV,Mathure /2015	07.11.1988
2208	Pawan Kumar Singh/Sri Shiv Prasad Singh	UPSVC/6279/15	Moh-Methab Bag,Post-Amainganj, Dt-Faizabad, Uttar Pradesh-224001	BVSc&AH/CSKHPKV V /2015	10.08.1986
2209	Sarvodaya Kumar/Sri Rakesh Kumar	UPSVC/6280/15	Vill-Firojapur,Post-Aslanapur,Tehsil-Sikandra, Dt-Kanpur,Dehat, Uttar Pradesh-209301	BVSc&AH/MA&FSU/2015	01.09.1986
2210	Satyendra Kumar/Sri Jamuna Das	UPSVC/6281/15	Vill-Basela,Post-Basela, Tehsil-Rath,Dt- Hamirpur, Uttar Pradesh-210431	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	01.04.1988
2211	Amit Shekar/Sri Chandra Shekhar	UPSVC/6282/15	Mohalla Arya Nagar, Utraula,Dt-Balrampur, Uttar Pradesh-271604	BVSc&AH/Chattisgarh Kamdhenu Viswavidyalay/2015	20.04.1991
2212	Narendra Pratap Singh/Sri Ajay Kumar Singh	UPSVC/6283/15	Vill-Baharampur,Post-Choubeypur, Dt-Varansai, Uttar Pradesh-221101	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	04.05.1985
2213	Vaibhav Purwar/Sri Om Narayan Purwar	UPSVC/6284/15	Premgail Baithbanj, Dt-Jalaun, U.P.-285123	BVSc&AH/LLRUofVS &AS/2015	01.06.1990
2214	Rafat Ali/Sri Khadim Ali	UPSVC/6285/15	Makaniya Pura Nr Jama Maszid, Dt-Mahoba, Uttar Pradesh-210427	BVSc&AH/MA&FSU/2015	04.02.1989
2215	Vandana Yadav/Sri Mukesh Yadav	UPSVC/6286/15	H.No.1945-A,Rakesh Tent House,Shankarpuri, Shikohabad,Dt-Firozabad, Uttar Pradesh-283135	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	01.03.1992
2216	Emad Asgar/Sri Hamid Hussain	UPSVC/6287/15	H.No.-195,Jafrabad, Post-Jalalpur,Dt-Ambedkarnagar, Uttar Pradesh-224149	BVSc&AH/AAU,Anand /2015	06.02.1988
2217	Sunil Kumar/Sri Ramayan Singh	UPSVC/6288/15	Vill-Attardiha,Post-Chandrauta,Dt-Kushinagar,Uttar Pradesh-274401	BVSc&AH/AAU,Assam /2015	15.01.1987
2218	Ashutosh Kumar Tripathi/Sri Bhagwan Pd Tripathi	UPSVC/6289/15	Vill-Tiwaripur,Post-Baripur,Dt-Gorakhpur, Uttar Pradesh-273213	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	04.07.1989
2219	Shubham Tripathi/ Sri Sharda Pd Tripathi	UPSVC/6290/15	Vill-Dakkhin Gaon Kyar, Post-Shukul Bazar, Dt-Amethi, U.P-227811	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	05.08.1988
2220	Prerit Kumra Singh/Sri Rajendra Singh	UPSVC/6291/15	Sumer Sadan infront of Old Telephone Exchange Court Road, Dt-Mainpuri, Uttar Pradesh-205001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	27.10.1988
2221	Girjesh Upmany/Sri Rakesh Upmany	UPSVC/6292/15	7-B,Rajeev Nagar, K.H.S Road, Khandari, Dt- Agra, Uttar Pradesh-222135	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	28.10.1990
2222	Vivek Kumar/Sri Anil Kumar Chaurasiya	UPSVC/6293/15	Vill-Chakshiv Ramgir,Post-Damarua,Dt-Jaunpur,Uttar Pradesh-222135	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	20.02.1990
2223	Sher Singh/ Sri Ram Vilas Singh	UPSVC/6294/15	Vill&Post-Ratouti Bah, Dt-Agra, U.P.-283113	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	11.10.1991
2224	Vijay Gautam/Sri Anil Gautam	UPSVC/6295/15	Anurag Nagar,Balkeshwar, Dt-Agra, Uttar Pradesh-282005	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	10.04.1990
2225	Pawan Kumar/Sri Rudra Singh	UPSVC/6296/15	B-53,Dwarikapuri Kanakali Mandir, Dt- Mathura,Uttar Pradesh-281004	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	17.11.1990
2226	Rahul Yadav/Sri Bharat Singh Yadav	UPSVC/6297/15	H.No.1629,Nr Shanti Niketan Girls Hostel,Sivaji Ng,Dt-Jhansi, U.P-284001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	30.07.1987
2227	Hemendra Lal/Sri Kumar Lal	UPSVC/6298/15	200 G-10,Ganga Enclave Colony,Dt-Aligarh, UttarPradesh-202001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	15.10.1989

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2228	Alauddin Ansari/Sri Mazibullah Ansari	UPSVC/6299/15	Vill-Bargahan,Post-Naurangia, Dt-Kushinagar, UttarPradesh-274305	BVSc&AH/AAU,Assam /2015	07.05.1984
2229	Abhay Saxena/Sri Sunil Kumar Saxena	UPSVC/6300/15	Behind Roadways Bus Stand Gangeshwar Colony Dt-Kasganj, UttarPradesh-207123	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	30.08.1990
2230	Veer Bahadur/Sri Mohander Singh	UPSVC/6301/15	Vill&Post-Dhana Teja,Dt-Mathura, Uttar Pradesh-281005	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	06.03.1990
2231	Mukesh Kumar/Sri Raj Kumar Singh	UPSVC/6302/15	Chitragupta Colony, Ganda Nala,Puliya No-05, Dist-Kasganj, UttarPradesh-207123	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	28.12.1991
2232	Jitendra Singh/ Sri Hari Prasad	UPSVC/6303/15	11 D/177,Balaji Nagar,Sri Nagar Colony, Dt-Agra,UttarPradesh-282001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	18.06.1993
2233	Amit Kumar/Sri Amar Singh	UPSVC/6304/15	Vill-Nagla Mateela,Post-Rajendra Nagar, Dt-Farrukhaband,UttarPradesh-209652	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	10.08.1992
2234	Harkesh Singh Attri/Sri Omvir Singh	UPSVC/6305/15	Vill-Kalakhuri,Post-Jawa,Dt-Bulandshahar,UttarPradesh-203141	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	08.10.1987
2235	Payal Gupta/Sri Anil Kumar Gupta	UPSVC/6306/15	514,Kailash Nagar, Dt-Ghaziabad,UttarPradesh-201001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2012	15.06.1987
2236	Anugrah/Sri Anil Kumar	UPSVC/6307/15	514,Kailash Nagar, Dt-Ghaziabad,UttarPradesh-201001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2011	14.12.1989
2237	Bhanu Pratap Verma/Sri Sauvesh Kumar Verma	UPSVC/6308/15	Vill&Post-Dilwarpur, Thana-Kant,Tehsil-Sadar,Dt-Shahjahanpur,UttarPradesh-242001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	15.01.1992
2238	Vineet Surat/Sri Ram Ugrah Yadav	UPSVC/6309/15	103/2nd Mithilapuri, Izatnagar,Dt-Bareilly-243001,Uttar Pradesh	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	18.06.1988
2239	Meraj Mahmood Alam/Sri Mahmood Ahmad	UPSVC/6310/15	436,Kotwali Road, Chip Tehri, Dt-Banda,Uttar Pradesh-201001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	07.07.1987
2240	Deepak Saraswat/Sri R.P.Saraswat	UPSVC/6311/15	C-117,Chandrapuri,Dholi Plau, Dt-Mathura,Uttar Pradesh-281001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	10.12.1989
2241	Mahendra Gupta/Sri Ram Kumar Gupta	UPSVC/6312/15	Vill&Post-Mirzapur,Tahsil-Jalalabad, Dt-Shahajhanpur,Uttar Pradesh-242221	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	11.07.1987
2242	Tushar Saxena/Sri Ajay Kumar Saxena	UPSVC/6313/15	C/o Ajay Kumar Saxeian,Noraty Advocate SDM Court Bilaspur,Dt-Rampur,Uttar Pradesh-244921	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2012	31.12.1989
2243	Keshav Gangwar/Sri Devendra Kumar Gangwar	UPSVC/6314/15	Vill&Post-Agras,Tehsil-Meerganj,Dt-Bareilly,Uttar Pradesh-243005	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	12.11.1992
2244	Asif Husen/Sri Asalat Husen	UPSVC/6315/15	Vill-Araji Medi Patti, Post-Meha Harhanfpur, Dt-Deoria,Uttar Pradesh-277404	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	03.07.1987
2245	Benkateshwar Singh/Sri Rama Singh	UPSVC/6316/15	Vill-Pindra,Post-Deoria,Dt-Deoria,Uttar Pradesh-274001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	01.01.1987
2246	Neeraj Kaushik/Sri S.C. Sharma	UPSVC/6317/15	F/F-113,Akshardham Colony,Near Modipuram, Dt-Meerut,Uttar Pradesh-250110	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	03.05.1988
2247	Brajendra Singh/Sri Harcharan	UPSVC/6318/15	Vill-Bargawan,Post-Mamna, Tehsil-Sarila, Dt-Meerut,Uttar Pradesh-2010432	BVSc&AH/Anand Agricultural University, Anand/2015	13.05.1991
2248	Vidya Bhushan Singh/Sri Rakesh Kumar Singh	UPSVC/6319/15	Vill&Post-Kanaili,Dt-Kasuhambi,Uttar Pradesh-212216	BVSc&AH/KVAFSU,Bi dar/2015	08.08.1993
2249	Shabana Ansari/Sri Manzoor Ansari	UPSVC/6320/15	E-5090,Sector-11, Rajajipuram,Dt-Lucknow,Uttar Pradesh-226017	BVSc&AH/NDVUSU,Jab alpur/2013	06.05.1986
2250	Rohit Kumar Jaiswal/Sri	UPSVC/6321/15	Vill-Christnagar in front of SBI	BVSc&AH/Anand	09.07.1990

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Subhash Chandra Jaiswal		Bank, Dt-Varansai,Uttar Pradesh-221003	Agricultural University, Anand/2015	
2251	Atul Dubey/Sri Shiv Kumar Dubey	UPSVC/6322/15	H.No.-112, Vill-Sonkhari Gopiganj,Dt-Bhadohi,Uttar Pradesh-221303	BVSc&AH/KVAFSU,Bidar/2015	10.03.1989
2252	Dev Krishna Chaudhary/Sri Ram Lalit Chaudhary	UPSVC/6323/15	Vill-Karanpur,Post-Samerdhani, Tehsil-Dhangha,Dt-Sant Kabir Nagar,Uttar Pradesh-272165	BVSc&AH/CSKHPKV V/2015	20.09.1986
2253	Roop Singh/Sri Mahendra Singh	UPSVC/6324/15	Vill-Neglamra,Post-Krishna Nagar,Dt-Mathura,Uttar Pradesh-281004	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2012	03.03.1982
2254	Pawan Kumar Verma/Sri Lallu Ram Verma	UPSVC/6325/15	Vill-Maulapur,Post-Purwa Rewan,Tehsil-Mahudabad, Dt-Sitapur,Uttar Pradesh-261233	BVSc&AH/Birsa Agril Uni,Ranchi /2015	05.11.1991
2255	Vivek Singh/Sri Mandrika Singh	UPSVC/6326/15	S 9/475 -16,Naibasti Pandeypur,Dt-Varanasi,Uttar Pradesh-221002	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	19.02.1983
2256	Tarun Kumar Ravi/ Sri Nand Lal	UPSVC/6327/15	SH 16/125, M-10, Kadipur Shivpur, Dt-Varanasi, Uttar Pradesh-221003	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	02.02.1989
2257	Kush Kant/Sri Rakesh Kumar Kulshrestra	UPSVC/6328/15	134 Pandey Nagar, New Shajganj, Dt-Agra,Uttar Pradesh-282010	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	29.04.1990
2258	Rakhi Chauhan/Sri Ramendra Singh Chauhan	UPSVC/6329/15	Vill-Laxmanpur, Post-Sampher,Dt-Auriya,Uttar Pradesh-206121	BVSc&AH/NDVSU,Jabalpur/2015	10.02.1988
2259	Gaurav Vashishtha/Sri Santosh Kumar Sharma	UPSVC/6330/15	Vill-Nagaula,Post-Jawan, Teshil-Koil, Dt-Aligarh,Uttar Pradesh-202126	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2012	08.02.1990
2260	Nitin Kumar Bhardwaj/Sri Guddu Kumar Sharma	UPSVC/6331/15	Vill-Nagaula, Post- Jawa,Tehsil-Koil, Dt-Aligarh,Uttar Pradesh-202126	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2014	03.04.1991
2261	Yashpal Singh Narwar/Sri Chhitar Singh	UPSVC/6332/15	Vill-Garhi Nagar, Post-Sahai,Dt-Agra,Uttar Pradesh-283105	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2011	09.06.1985
2262	Sunil Kumar /Late Sri Ranabodh Pal Singh	UPSVC/6333/15	Vill-Dehtora,Post-Dehtora, Tahsil-Sadar,Dt-Agra,Uttar Pradesh-282001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2012	12.03.1983
2263	Amit Kumar Verma/Sri Ravi Shankar Verma	UPSVC/6334/15	A-11,New Colony, Kasimpur Power House,Dt-Aligarh,Uttar Pradesh-202001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2012	13.11.1988
2264	Kuldeep Singh/Sri Lal Chandra	UPSVC/6335/15	Vill-Lackdiymau, Post-Numsar,Tehsil-Mishrikh, Dt-Sitapur,Uttar Pradesh-261402	BVSc&AH/WBUAFS/2015	01.05.1991
2265	Vinod Kumar/ Sri Ram Raj	UPSVC/6336/15	Vill-Ibrahimbabad,Post-Sultanpur (Ghosi),Dt-MAU,Uttar Pradesh-275304	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2012	20.12.1982
2266	Garima Shrinet/Sri Dileep Kumar Singh	UPSVC/6337/15	Vill-Harpur,Post-Pepganj, Dt-Gorakhpur,Uttar Pradesh-273165	BVSc&AH/Birsa Agril Uni/2015	17.08.1989
2267	Viplav Singh/Sri Satyendra Kumar Singh	UPSVC/6338/15	156 A,10th Lane, Sainik Nagar,Raebarili Road,Dt-Lucknow,Uttar Pradesh-226001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	26.08.1989
2268	Manoj Kumar Gupta/Sri Lalmani Gupta	UPSVC/6339/15	Vill-Kotwa Bawan, Morcha Post-Hatimpur, Dt-Deoria,Uttar Pradesh-274206	BVSc&AH/OUofA&T/2015	10.07.1982
2269	Deepak Dwivedi/Sri S.S.Dwivedi	UPSVC/6340/15	1354/2D,Isai Toal, Dt-Jhansi,Uttar Pradesh-284003	BVSc&AH/Pondicherry Uniersity/2015	07.09.1989
2270	Sugandha Raj/Sri D.D. Saxena	UPSVC/6341/15	C/o Dr.Shashi Rani,Asstt.Pro(English),Deemed University,IVRI Izatnagar,Dt-Bareilly,Uttar Pradesh-243122	BVSc&AH/SKUofAS&T,Jammu/2015	23.11.1991
2271	Ajai Pal Pathak/ Late Sri	UPSVC/6342/15	AP-24,Pallavpuram,Phase 1st,	BVSc&AH/JNKVV/197	25.12.1946

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Rameshwar Dayal		Modi Puram,Dt-Meerut,Uttar Pradesh-250110	0	
2272	Brijesh Kumar/Sri Ram Lakhna Verma	UPSVC/6343/15	Vill-Pakoliya,Post-Mubarakpur, Tahsil-Tanda, Dt-Ambekar Nagar,Uttar Pradesh-224190	BVSc&AH/Pondicherry Uniersity/2015	03.05.1986
2273	Karun Kant Kamal/Sri Saral Ram	UPSVC/6344/15	6/24,Bahar,Sahara Estate Near Taramandal Road, Dt-Gorakhpur,Uttar Pradesh-273008	BVSc&AH/TNV&ASU/2015	15.01.1988
2274	Darpan Goel/ Sri Piyush Goel	UPSVC/6345/15	B-105,Lohia Nagar, Dt-Ghaziabad,Uttar Pradesh-201001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2013	25.12.1990
2275	Swapan Gahlot/Sri N.K.Gahlot	UPSVC/6346/15	Vill-Shahpur Jamal,Post- Suawala, Dt-Bijnor,Uttar Pradesh-246747	BVSc&AH/NDVVSU,Jabalpur/2015	12.01.1989
2276	Anupam Kumar Mishra/Sri Ravi Chandra Mishra	UPSVC/6347/15	Vill-Bargowan,Post- Sarai Khawaja, Dt-Jaunpur,Uttar Pradesh-222001	BVSc&AH/TNV&ASU/2015	01.07.1985
2277	Shyam Mohan/Sri Brij Kishor	UPSVC/6348/15	H.No.259-A, Ramganj,Gursahaiganj(Post), Dt-Kannauj,Uttar Pradesh-209722	BVSc&AH/TNV&ASU/2015	12.04.1983
2278	Nitin Kumar/Sri Prakash Singh	UPSVC/6349/15	156/9,Vijaya Nagar,Dt-Kanpur,Uttar Pradesh-208005	BVSc&AH/TNV&ASU/2015	13.02.1991
2279	Pramod Kumar/Sri Nanhe Lal	UPSVC/6350/15	361 K Dugipur Vaegavon,Nr Sahu Ji Maharaj Public School,Tehsil-Bisalpur,Dt-Pilibhit,Uttar Pradesh-262201	BVSc&AH/TNV&ASU/2015	18.05.1990
2280	Deepak Verma/Sri Suresh Chandra Verma	UPSVC/6351/15	Vill-Pipra Udyan,Post-Teeker, Dt-Lakhmipur Khiri,Uttar Pradesh-262701	BVSc&AH/TNV&ASU/2015	05.07.1988
2281	Harish Chaudhary/Sri Arjun Dev Chaudhary	UPSVC/6352/15	Vill-Baburaha,Post-Govindpur,Dt-Siddharth Nagar,Uttar Pradesh-272192	BVSc&AH/TNV&ASU/2015	15.01.1987
2282	Dinesh Kumar Gupta/Sri Ram Kirti Gupta	UPSVC/6353/15	Vill&Post-Biskohar Bazar, Dt-Siddharth Nagar, Uttar Pradesh-272192	BVSc&AH/TNV&ASU/2015	27.07.1988
2283	Pawan Kumar Singh/Sri Ashok Kumar Singh	UPSVC/6354/15	Vill-Godaura,Post-Kishanpur,Tahsil-Khaga, Dt-Fatehpur,Uttar Pradesh-212658	BVSc&AH/TNV&ASU/2015	22.06..1982
2284	Pankaj Bundela/Sri Indra Bhawan Singh	UPSVC/6355/15	Vill-Jasaipur,Thana-Tindwari, Tehsil-Banda, Dt-Banda,Uttar Pradesh-210128	BVSc&AH/TNV&ASU/2015	03.04.1988
2285	Ishtiyaq Ahamd/Late Sh Jumma	UPSVC/6356/15	Vill-Dang, Post- Dang, Thane-Jahanabad, Dt-Pilibhit, Uttar Pradesh-262121	BVSc&AH/TNV&ASU/2015	23.06.1990
2286	Jitendra Kumar/Sri Bisheswar	UPSVC/6357/15	Vill-Purna,Post-Nai Bazar,Dt-Sonbhadra,Uttar Pradesh-231216	BVSc&AH/SKNDAU2015	02.03.1982
2287	Sandeep Kumar Pandey/Sri Vijay Bahadur Pandey	UPSVC/6358/15	Vill&Post-Dhadhorpur(Koily),Dt-Varanasi,Uttar Pradesh-221305	BVSc&AH/MAFSU,Na gpur/2015	01.10.1985
2288	Vikas Gupta/Sri Sant Lal Gupta	UPSVC/6359/15	Vill-Maksudiya,Post-Ambari,Dt-Azamgarh,UttarPradesh-223222	BVSc&AH/TNV&ASU/2015	01.08.1990
2289	Pradeep Kumar/Sri Ashok Kumar	UPSVC/6360/15	Vill-Maksoomganj,Post-Manglasi, Faizabad,Uttar Pradesh-224001	BVSc&AH/TNV&ASU/2015	05.06.1984
2290	Ranveer Singh Yadav/Sri Samar Bahadur singh Yadav	UPSVC/6362/15	Vill-Phoolpur(Dehat),Post-Phoolpur,Dt-Azamgarh,Uttar Pradesh-276304	BVSc&AH/TNV&ASU/2015	05.07.1989
2291	Sanjeev Kumar Verma/ Sri Indal Prasad	UPSVC/6363/15	Vill&Post-Mankapur,Dt-Gonda,UttarPradesh-271302	BVSc&AH/GADV&ASU/2015	16.01.1989
2292	Sandeep Kumar/Sri Satya Narayan	UPSVC/6364/15	Vill-Sonepur,Post-Karwi,Dt-Chitrakoot,UttarPradesh-210205	BVSc&AH/TNV&ASU/2015	03.07.1990
2293	Jitendra Kumar Yadav/Sri Ram Niwas	UPSVC/6366/15	Vill-Nagla Bike, Post-Rijore,Dt-Etah,UttarPradesh-207001	BVSc&AH/Sri Venkateswar Vety Uni,	18.07.1986

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Yadav			Tirpathi/2015	
2294	Ashish Kumar/Sri Paras Nath Upadhyay	UPSVC/6367/15	H.No.-130/633,Nr Bida Hospital Deva Road,Matiyari Chinhata,Dt-Lucknow,UttarPradesh-226001	BVSc&AH/Sri Venkateswar Vety Uni, Tirpathi/2015	13.12.1987
2295	Amlash Kumar Singh/Sri Shiv Kumar Singh	UPSVC/6368/15	Naunihalganj Sandeela Road, Balamau,Dt-Unnao,UttarPradesh-209868	BVSc&AH/Sri Venkateswar Vety Uni, Tirpathi/2015	02.06.1991
2296	Dinesh Kumar/Sri Ram Kumar	UPSVC/6369/15	Vill&Post-Chhibauli,Tehsil-Sareela, Dt-Hameerpur,UttarPradesh-210432	BVSc&AH/Sri Venkateswar Vety Uni, Tirpathi/2015	04.05.1990
2297	Surendra Kumar/Sri Ayodhya Prasad Chaudhary	UPSVC/6370/15	Vill-Chamrighya,Post-Maghawameer,Dt-Basti,UttarPradesh-272002	BVSc&AH/Sri Venkateswar Vety Uni, Tirpathi/2015	10.09.1987
2298	Sushil Kumar Yadav/Sri Hublal Singh	UPSVC/6371/15	Vill-Babhanpurwa,Post-Nara,Tehsil-Manjhanpur,Dt-Kaushambi,UttarPradesh-212217	BVSc&AH/Sri Venkateswar Vety Uni, Tirpathi/2015	05.06.1989
2299	Ankit Kumar/Sri Ram Naresh	UPSVC/6372/15	Vill-Herwal, Post-Purbawan,Dt-Herdoi, Uttar Pradesh-241303	BVSc&AH/Sri Venkateswar Vety Uni, Tirpathi/2015	24.07.1991
2300	Hari Shankar/Sri Ram Chandra Lal	UPSVC/6373/15	Vill-Kasimpur, Post-Amrakarur,Tehsil-Bisalpur,Dt-Pilibhit,U.P-262202	BVSc&AH/Sri Venkateswar Vety Uni, Tirpathi/2015	07.07.1988
2301	AnuragArya/ Sri Anil Kumar Arya	UPSVC/6374/15	Vill&Post-Phulat, Teshil-Khatauli,Dt-Muzaffarnagar,UttarPradesh-251002	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	18.07.1985
2302	Saiyad Hasami Ali/Sri Saiyad Shaquat Ali	UPSVC/6375/15	Ward No.-3,Dakinganj Bahadurganj,Dt-Ghazipur, UttarPradesh-275201	BVSc&AH/Sri Venkateswar Vety Uni, Tirpathi/2015	21.01.1985
2303	Safi-Kur-Rahma/Sri Aziz-Ur-Rahman	UPSVC/6376/15	West New Basti, Nawabganj, Dt-Bareilly,Uttar Pradesh-243406	BVSc&AH/Sri Venkateswar Vety Uni, Tirpathi/2015	21.02.1984
2304	Jay Prakash/Sri Banshraj	UPSVC/6377/15	Vill-Devapar,Post-Bhagousa,Dt-Sant Kabir Nagar,Uttar Pradesh-272126	BVSc&AH/TNV&ASU/2015	06.09.1989
2305	SandeepKumar Pandey/Shri Rama Kant Pandey	UPSVC/6378/15	Vill-Vasti, Post-Kandharapur,Dt-Azamgarh,UttarPradesh-276135	BVSc&AH/Sri Venkateswar Vety Uni, Tirpathi/2015	10.07.1981
2306	Ratnesh Kumar Yadav/Sri Ramesh Yadav	UPSVC/6379/15	Vill-Dohani, Post-Bakuchi,Dt-Deorai, Uttar Pradesh-274509	BVSc&AH/TNV&ASU/2015	17.02.1989
2307	Sanmat Jain/Late Sri P.C.Jain	UPSVC/6380/15	H.No.-91,Sector-15,Vasundra Colony,Dt-Ghazisbad, UttarPradesh-201012	BVSc&AH/JNKVV/2004	29.03.1980
2308	Dhan Pal/Sri Lakhan Singh	UPSVC/6381/15	H.NO.175,Vill-Richola Kifaytolla,Thana-Nawabganj,Dt-Bareilly,UttarPradesh-243406	BVSc&AH/Sri Venkateswar Vety Uni, Tirpathi/2015	20.05.1990
2309	Amit Singh Vishen/Sri Virendra Singh	UPSVC/6382/15	Vjyari Purva Nai Basti Khyora,Nawabganj Shyam,Hardware Mainawati Marg,Nr NRI City,Dt-Kanpur,U.P-208002	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	10.08.1990
2310	Abhishek Verma/Sri Vijay Pal Verma	UPSVC/6383/15	Vill-Sumerganj, Post-Bansa, Dt-Hardoi, Uttar Pradesh-245207	BVSc&AH/Sri Venkateswar Vety Uni, Tirpathi/2015	25.07.1991
2311	Satyaveer Verma/Sri Chhote Lal	UPSVC/6384/15	Vill-Khaira, Post-Mahamdapur,Dt-Pratapgarh,Uttar Pradesh-230502	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2015	25.03.1990
2312	Kapil Kumar/Shri Rambir Singh	UPSVC/6385/15	Vill-Mukteshwar,Post-Datiyan,Dt-Hapur,UttarPradesh-245207	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2012	01.07.1985
2313	Rahul Kumar	UPSVC/6386/16	Vill&Post-Giloula,Dt-Shrawasti,	BVSc&AH/Sri	09.07.1986

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Tripathi/Sri Umesh Chandra Tripathi		Uttar Pradesh-271835	Venkateswar Vety Uni, Tirpathi/2015	
2314	Vivek Kumar/ Sri Omkar Nath	UPSVC/6387/16	6/16, Vikas Nagar,Dt-Lucknow, UttarPradesh-226022	BVSc&AH/Sri Venkateswar Vety Uni, Tirpathi/2015	25.08.1986
2315	Naeem Ahmad/Sri Riyazul Haq	UPSVC/6388/16	Vill-Malakpur, Po- Fatehpur, Dt- Moradabad-202411, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GADV&AS U/2016	04.04.1978
2316	Pradeep Kumar/Sri Badle Singh	UPSVC/6389/16	Vill&Post- Bali, Tehsil- Baghpat, Dt- Baghpat, Uttar Pradesh-20601	BVSc&AH/GADV&AS U/2016	01.02.1992
2317	Sanjay Singh /Sri Bhuvan Singh	UPSVC/6390/16	Vill-Kamalpur, Post-Balli, Dt- Bareilly, Uttar Pradesh-243505	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	10.05.1986
2318	Anoop Kumar Singh /Sri Pramod Kumar Singh	UPSVC/6391/16	B-1120, IndiraNagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226016	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	2.12.1992
2319	Kumar Manglam Yadav/Sri Ganga Prasad Yadav	UPSVC/6392/16	H.No.-569, Bahadur Ganj, Post- Sahabganj, Dt-Faizabad, Uttar Pradesh-224001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	07.07.1990
2320	Ashwani Yadav/ Sri Ramdas Yadav	UPSVC/6393/16	Vill-Nagla Deepa, Post- Ahirwa, Dt-Mainpuri, Uttar Pradesh	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	01.05.1990
2321	Ashwani Kumar Singh/Sri Madan Pal Singh	UPSVC/6394/16	127/658, W-1, Block Saket Nagar, Juhi, Dt-Kanpur, UttarPradesh-208014	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	15.03.1991
2322	Banarasi Mishra/Sri Harish Mishra	UPSVC/6395/16	Vill-Paras Shah Alam, Post- Bheemapar, Dt-Siddharnath Naga, Uttar Pradesh-272207	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	15.02.1990
2323	Yatendra Kumar Gautam/Sri Yogesh Gautam	UPSVC/6396/16	34/52-A-1/2, Anurag Nagar, Balkeshwar, Near Dall Mill, Dt-Agra, UttarPradesh-282005	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	30.01.1993
2324	Arjun Singh/Sri Ram Pdarath Patel	UPSVC/6397/16	Vill-Pure Kirat, Post-Godwa, Dt-Faizabad ,Uttar Pradesh-224126	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	01.07.1992
2325	Shashank Bhushan/Sri Mahaveer Singh	UPSVC/6398/16	Block Campus Sidhpura, Nr Veterinary Hospital, Dt-Kasganj, Uttar Pradesh-207246	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	01.03.1991
2326	Roop Kishor/Sri Nathu Singh	UPSVC/6399/16	Vill-Shalwahan, Post-Lalesar, Dt-Etah-207302, Uttar Pradesh	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	01.11.1989
2327	Jugendra Pal Singh/Sri Kishan Singh	UPSVC/6400/16	Vill-Shalwahan, Post-Lalesar, Dt-Etah-207302, Uttar Pradesh	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	08.07.1988
2328	Ravi Kant Singh Pipal/Sri Thakur Daas	UPSVC/6401/16	11-D/8-A, Balaji Nagar, Shrinagar Colony, Dt-Agra, Uttar Pradesh-282006	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	01.10.1988
2329	Danish Khan/Sri R.U.Khan	UPSVC/6402/16	5/102, Haveli Kabir Khan Nai Ki Mandi, Dt-Agra, Uttar Pradesh-282010	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	12.07.1987
2330	Sushil Kumar Chaudhari/Sri Narayan Chaudhary	UPSVC/6403/16	Vill-Tenuwa, Post- Majhuwa Meer, Dt-Basti , Uttar Pradesh-272002	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	05.01.1990
2331	Dinesh Kumar Yadav/Sri Govin Singh Yadav	UPSVC/6404/16	Vill&PO-Ghain(Baidvaly), Via-Maradah, Dt-Ghazipur, Uttar Pradesh-233226	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	10.02.1988
2332	Haresh Kumar Singh/Sri Vijay Pal Singh	UPSVC/6405/16	Vill-Naglalale, Post-Agwar Atmadpuyr, Dt-Agra, UttarPradesh-283202	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	12.08.1985
2333	Shahnawaz Alam/Sri Mohd. Alam	UPSVC/6406/16	H.No.-634, Moh-Gandhi Nagar, Kasba-Sidhauli, Post-Sidhauli, Dt-Sitapur-2613303, Uttar Pradesh	BVSc&AH/TNV&ASU/2015	15.11.1987
2334	Vijendra Yadav/Sri Karan Singh	UPSVC/6407/16	Vill-Tapua, Post-Aliganj, Dt-Etah, Uttar Pradesh-207247	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	10.01.1993
2335	Sailendra Singh/Sri	UPSVC/6408/16	Vill-Tapua, Post-Aliganj, Dt-Etah,	BVSc&AH/RAJUVAS,	20.06.1990

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Karan Singh		Uttar Pradesh-207247	Bikaner/2016	
2336	Mustak Ahmad/Sri Mohammad Naseem	UPSVC/6409/16	Vill&Post-Ashrafpur Baewa,Dt-Ambekar Nagar, Uttar Pradesh-224151	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	15.07.1993
2337	Abhinav Gangwar/Sri Devendra Pal	UPSVC/6410/16	Moh-Surbhi Colony,Post-Pilibhit, Dt-Philibhit UttarPradesh-262001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	01.04.1991
2338	Yogesh Kumar Sharma/Sri Krishna Swaroop	UPSVC/6411/16	Moh-Mahadev Puram, Post-Beheri,Dt-Bareilly, Uttar Pradesh-243201	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	02.07.1988
2339	Sumit Kumar/Sri Rajkumar	UPSVC/6412/16	Vill&Po-Dangrool,Dt-Shamli, Uttar Pradesh-247776	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	30.12.1990
2340	Shailendra Kumar Singh/Sri Murari Lal Yadav	UPSVC/6413/16	Moh-Naveen Basti,Post-Vidhuna,Dt-Auraiya,Uttar Pradesh-206243	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2011	20.12.1984
2341	Samarpal Chaurasia/Sri Ram Chaurasia	UPSVC/6414/16	Vill-Pagara,Parasia, Post-Piparpati, Dt-Deoria-274001,Uttar Pradesh	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	08.10.1993
2342	Yash Raj Kumar/Sri Ram Lagan Singh	UPSVC/6415/16	Moh-Saraswari Nagar,Chhittapur Khas,B.H.U, Thane-Lanke, Dt-Varanasi,Uttar Pradesh-221001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	02.05.1990
2343	Surendra Kumar/Sri Purshottam	UPSVC/6416/16	E-91,Barra World Bank Colony, Dt- Kanpur, Uttar Pradesh-208027	BVSc&AH/CSAUA&T, Kanpur/1993	10.08.1968
2344	Jitendra Kumar/Sri Kashi Prasad	UPSVC/6417/16	Vill-Murlipur,Post-Rar,Dt-Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-209206	BVSc&AH/CSAUA&T, Kanpur/1984	10.11.1958
2345	Shivani Singh/Sri Raghunath Singh	UPSVC/6418/16	H.No.-876, Professor Colony,Shikohabad,Dt-Firozabad, Uttar Pradesh	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	31.01.1991
2346	Rajesh Kumar Agarwal/Late Sh H.H.Saran Agarwal	UPSVC/6419/16	H.No.-89, Shiva Puram, Civil Line, Dt-Rampur, Uttar Pradesh-244901	BVSc&AH/GBPUA&T/1990	02.12.1966
2347	Pranay Kumar Srivastava/Sri M.L.Srivastava	UPSVC/6420/16	-----, Block-Q, Sharda Nagar,Dt-Kanpur, Uttar Pradesh-208025	BVSc&AH/CSAUA&T, Kanpur/1980	22.07.1978
2348	Anandita Srivastava/Sri Ashwani Srivastava	UPSVC/6421/16	H.No.-268,Infort of Sanjay Medical Store,Post-Sadar,Dt-Gorakhpur, Uttar Pradesh-273001	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	30.06.1991
2349	Pushkar Sharma/Sri Umesh Chandra Sharma	UPSVC/6422/16	Vill&Post-Dallatpur Khurd, Teh-Diwai, Dt-Bulandshahar, UttarPradesh -202392	BVSc&AH/RAJUVAS, Bikaner/2016	13.11.1992
2350	Devendra Singh/Sh Late Sh Ranvijay Singh	UVC/711/2015	C/o Dr.Rakesh Nautiyal,Mothorowala Cant Area, Dehradun, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2010	25.03.1984
2351	Deepankar Bisht/Sh L.S. Bisht	UVC/712/2015	Ward No.-6, Nr Old Tehsil, Main Bazar, Kalthungi, Dt- Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	29.12.1991
2352	Supriya Yadav/Sh Ram Prakash Singh	UVC/713/2015	C/o L.B.Yadav, Opp A.R.V.Babugarh, Vikasnagar, Dehradun, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	11.01.1992
2353	Archana Saraf/Sh Mr. Ashok Saraf	UVC/714/2015	26 Moolchand Enclave, Majra Shimal Bypass, Dehradun, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	08.08.1992
2354	Ramanpreet Singh Sandhu/Sh G.S.Sandhu	UVC/715/2015	Bareilly Road, Off Sunheri Masjid Sunheri, Kichha, U.S.Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	09.01.1991
2355	Alok Khanduri/Sh Ballabh Khanduri	UVC/716/2015	Vill-Shivpur, Haridwar Road,Kotdwar,Pauri Garhwal, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	06.07.1992
2356	Kanchan Singh/Sh Mangal Singh	UVC/717/2015	Vill-Gautam Nagar,Maldhan Chour No.-5, Tehsil-Ramnagar, Dt-Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	29.10.1992
2357	Priyanka Santoshi/Sh	UVC/718/2015	Baha Bazar, Devpryag Dt, Puri	BVSc&AH/GBPUA&T/	15.05.1992

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Satish Chandra Santoshi		Garhwal , Uttarakhand	2015	
2358	Pushpa/Sh Ramavdhesh	UVC/719/2015	240/160, Phool Bhag, Centre Pantnagar, U.S.Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	12.06.1990
2359	Farheen Tahir/Sh Mohammad Tahir	UVC/720/2015	Vill-Siroli Kalan, PO-Kichha Dt, U.S.Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	24.07.1992
2360	Pragya Joshi/Sh G.B.Joshi	UVC/721/2015	Govind Puram Bithoria No.-1, Nr GIC Narayan Nagar, Inter College Kusumkheda Haldwani Dt, Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	06.10.1992
2361	Megha Verma/Sh Balbir Singh	UVC/722/2015	Vill/PO-Jollygrant, Nr Arya Samaj Bhawan, Dehradun, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	14.06.1991
2362	Sunil Panth/Sh Nirmal Panth	UVC/723/2015	Civil Lines Khatori, Ramnagar Dt., Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	15.07.1991
2363	Namit Mohan/Sh Maniram Bijalwan	UVC/724/2015	Vill-Idak (Banal),PO- Gadoli Barkot, Uttarkashi, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	04.05.1992
2364	Manish Pandey/Sh Mohan Chandra Pandey	UVC/725/2015	Nawabi Road Gali No.-8, Pragati Vihar, Haldwani, Dt-Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	17.03.1993
2365	Akash Uniyal/Sh Mr Shiv Pd Uniyal	UVC/726/2015	Gram-Pansoot, Patti-Oan, Tehsil-Pratapnagar, Dt-Tehri Garhwal, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	21.02.1992
2366	Nisha Bisht/Sh Bhupal Singh Bisht	UVC/727/2015	H.No.5-493/119,Ganga Colony Malla Gorakhpur, Tikonia, Haldwani, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	27.08.1990
2367	Garima Pandey/Mr. Ghanshyam Pandey	UVC/728/2015	Ram Mandir Colony, Vill-Korta, PO-Kathgodam, Haldwani, Dt-Nainital , Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	19.01.1992
2368	Kanika Tiwari/Sh S.C.Tiwari	UVC/729/2015	Telephone Exchange, Tehsil Road, Vill-Dagro,Jwala Devi Ward, Bageshwar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	13.02.1992
2369	Mayank Maithani/Sh Prabhakar Maithani	UVC/730/2015	Vill/PO-Naini(Nauti), Karanprayag Dt, Chamoli, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	27.02.1990
2370	Jyotsana Bhatt/Sh Dinesh Chandra Bhatt	UVC/731/2015	A-494/6,EWS, Awas Vikas Colony,Nr Holy Chowk, Rudrapur, U.S.Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	24.04.1992
2371	Monu Karki/Sh K.S. Karki	UVC/732/2015	C/o K.S.Karki Bahde Patti-Dhaniyakot, Teh-Koshiyakotoli,Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	30.11.1991
2372	Aakanksha Tiwari/Sh Kamal Kishore Tiwari	UVC/733/2015	99/2, Ganga Vihar, Haridwar Road (Behind State Roadways Workshop),Dehradun, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	21.03.1992
2373	Komal Bijalwan/Sh S.L.Bijalwan	UVC/734/2015	Gram-Idak Patti-Banaal, Teh-Barkot, Dt- Uttarkashi, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	09.07.1992
2374	Sunita/Sh Ganga Ram	UVC/735/2015	C/o Anandi Jaser Behind Ishwar Steels, Nr Nagpal Bajaj, Talli Haldwani, Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	09.07.1986
2375	Mohemmad Khalid/Sh Abdul Rasheed	UVC/736/2015	Vill+PO-Lalpur, Tehsil-Rudrapur, Dt-U.S. Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	01.06.1985
2376	Shefali Bora/Sh Kishore Singh Bora	UVC/737/2015	H.No.-18, Panudiyar, Almora, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	01.06.1991
2377	Bishan Singh/Sh Rajendra Singh	UVC/738/2015	Vill-Gona, PO-Gadoli, Dt-Uttarakashi, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	01.07.1989
2378	Pallavi Deol/Sh Rameshwar Deol	UVC/739/2015	Subhash Nagar,Nr Avas Vikas, Kashipur, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	06.01.1991
2379	Pallavi Jaiswal/Sh Subhash Chandra Jaiswal	UVC/740/2015	98, Hill View Colony, Indira Nagar, Dehradun, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	08.06.1992
2380	Shikha Tamta/Sh M.L.Tamta	UVC/741/2015	Vday Bhawani Vihar, Bhadi Mukhani, Haldwani, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	05.11.1991

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2381	Geetika Garia/Sh Dalip Singh Garia	UVC/742/2015	Vill-Kishanpur, Sakuliya PO-Motahaldu(Haldwani), Dt-Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	30.06.1987
2382	Renuka Pangtey/Sh B.S.Pangtey	UVC/743/2015	Medical Chowki, Haldwani, Bly Road, Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	08.03.1992
2383	Anand Kumar Singh/Sh Ramakant Sigh	UVC/744/2015	IV/851, Jha Colony, Pantnagar, U.S.Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	02.04.1993
2384	Pratibha Joshi/Sh R.O.Joshi	UVC/745/2015	Vill-Jola, Patwari Chetra, Gwaldam, Tehsil- Thrali Dt-Chamoli, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	09.12.1992
2385	Ankit Malik/Sh Anil Kr Malik	UVC/746/2015	H.No.-117, Gali No-3, Mohanpura, Laxmi Nagar, Roorkee, Haridwar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	16.11.1991
2386	Suresh Chand/Sh Sabbal singh	UVC/747/2015	Vill-Kaflog, PO-Nelda, Dharmandal, Tehri Garhwal, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	14.06.1990
2387	Pankaj Gunwant/Sh M.N.Gunwant	UVC/748/2015	Ram Mandir Colony, Kathgodam, PO-Kathgodam, Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	26.10.1990
2388	Pramod Bhutani/Sh G.S.Bhutani	UVC/749/2015	M/S Ghanshyam General Store, Lakhanpur, Ramnagar, Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	15.08.1989
2389	Lakshita Azad/Sh Tilak Raj Azad	UVC/750/2015	Vill-Kanday, Tehsil-Dwarahat, Dt-Almora, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	30.12.1991
2390	Aashwina Madhwal/ Dr.B.P.Madhwal	UVC/751/2015	C-58, Nehru Colony, Dharampur, Dehradun, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	20.02.1992
2391	Mohammed Javed/Sh Saqeel Ahmad	UVC/752/2015	Vill-Banoosa(Pachpeda), PO-Jhankat, Tehsil- Khatima, Dt-U.S.Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	15.07.1989
2392	Vinod Soni/Sh Prem Soni	UVC/753/2015	Soni Bhawan Behind Maseeh Dilasa School, Tiloth, Uttarkashi, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	04.09.1983
2393	Saurabh Bhatt/Sh Hira Ballabh Bhatt	UVC/754/2015	Saraswati Vihar Colony, G.I.C, PO- Degree College, Pithoragarh, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	27.07.1984
2394	Ramkrishan Rana/Sh Trepan Singh Rana	UVC/755/2015	Vill-Paalar Patti, Thakral Tehsil-Barkot, Dt-Uttarkashi, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	20.04.1987
2395	Niraj Bhat/Sh P.C.Bhatt	UVC/756/2015	Gopal Niwas, Awalakoth, PO-Kotabagh, Dt-Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	04.02.1975
2396	Devendra Singh Rana/Sh M.S. Rana	UVC/757/2015	Vill-Matiha, Tehsil- Sitarganj, Dt-U.S.Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	25.12.1991
2397	Avinash Kumar Katariya/Sh Raghuvveer Singh katariya	UVC/758/2015	N-140,3rd Phase, Shivalik Nagar, Bhel, Haridwar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	31.08.1989
2398	Vijay Kumar/Sh Ganesh Lal	UVC/759/2015	Cinema Line PO, Shivalaya, Dt-Pithoragarh, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	10.02.1992
2399	Atul Uniyal /Sh Ajeet Pd Uniyal	UVC/760/2015	Upper Sunderwala, Lapur, PO-Raipur, Dehradun, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	25.02.1991
2400	Ankur Chaudhary/Sh Munesh Pal	UVC/761/2015	Vill-Baseri Khadar, Laksar, Haridwar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	10.03.1993
2401	Suyash Jaiswal/Sh Rameshwar Jaiswal	UVC/762/2015	Vill-Bagwala, Teh- Kiccha, Dt-U.S Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	06.12.1991
2402	Alok Mishra/Sh Rajdev Mishra	UVC/763/2015	Government Veterinary Hospitla, Chalithi, Tanapur, Champawat, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2010	31.07.1982
2403	Sachin Kumar Shandilya/Sh Sudheer Kr Shandilya	UVC/764/2015	H.No.-62, Shivpuri Colny, Laksar Dt, Haridwar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	09.10.1985
2404	Satish Chandra	UVC/765/2015	H.No.-2, Lane No.-2, Ekta Vihar,	BVSc&AH/KVA&FSU,	15.08.1984

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
	Gangwar/Sh Lal Ram Gangwar		Sahastradhara Road, Dehradun, Uttarakhand	Bidar /2013	
2405	Archana Bhadauriya/Sh P.N.Sharma	UVC/766/2015	C/o Rajendra Vikram Singh, 53 Thakur Niwas Civil Line, Narendra Nagar, Tehri Garhwal, Uttarakhand	BVSc&AH/JNKVV, Jabalpur 2005	30.12.1979
2406	Sarita Negi/ Sh Kamal Singh Negi	UVC/767/2015	Vill-Bachela Dandrim, Dt- Puri Garhwal, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2015	04.04.1991
2407	Bimal Bhatt/Sh Ba;lgovind Bhatt	UVC/768/2015	Vill-Silwalgoun,Pratapnagar, Tehri Garhwal, Uttarakhand	BVSc&AH/RAJUVASU /2012	24.07.1990
2408	Anuj Kumar/Sh Sukhpal Singh	UVC/769/2015	180/1, Chaw Mandi, Roorke, Haridwar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/2009	13.08.1986
2409	Varun Kumar/Sh Ghanshyam Das	UVC/770/2016	H.No.-39, Prakashlok, PO- Majara, Dehradun, Uttarakhand	BVSc&AH/CSAUOf A&T/2000	25.02.1976
2410	Rohit Kumar/Sh Shyam Lal	UVC/771/2016	Gali No.-13,Krishana Nagar, Roorkee Dt, Haridwar, Uttarakhand	BVSc&AH/RAJUVASU /2016	22.08.1990
2411	Bidhan Chandra Mondal/Sh Late Sh Vipin Bihari Mondal	UVC/772/2016	B-3, JLN District Hospital, Rudrapur, Uddamsinghnagar, Uttarakhand	BVSc&AH/Bidhan Agril Uni/1991	06.08.1968
2412	Nair Mithila Vijaykumar/Sh Vijaykumar	UVC/773/2016	H.No.-3, D-Block, Lane No.-04, Infornot of Aman Apartments, Aman Vihar, Sahastradhara Road, Dehradun, Uttarakhand	BVSc&AH/MA&FSU, Nagpur/2012	30.11.1988
2413	Balwinder Singh/Sh S.Jagir Singh	UVC/774/2016	1312/V, TA Colony, Pantnagar, Uddamsingh Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/Punjab Agril Uni, Punjab /1987	27.03.1962
2414	Rosen Maitra/Sh Ranjit Maitra	WBVC/3602/15	Vill-Majhergram,PO-Gangsara,PS-Gangnapur, Dt- Nadia-741233,West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	06.01.1990
2415	Bikramjit Chakraborty/Sh Bamdeb Chakraborty	WBVC/3603/15	Bangalpur Purba Para, Vill&PO-Bangalpur, P.S.Bagnan, Dt-Howrah-711303,West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	05.04.1990
2416	Arindam Samanta /Sh Asoke Kumar Samanta	WBVC/3604/15	Vill-Chak, Durgabasan, PO-Dakshin Damodarpur, P.S - Nandakumar Dt-Purba,Medinipur-721652,West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	04.05.1993
2417	Subrata Chowdhury/Sh Madhusudan Chowdhury	WBVC/3605/15	Dalmadal Road, Professor Colony,PO-Bishnupur,Dt-Bankura-722122,West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	05.11.1991
2418	Arkaprabha Shee/ Sh Arabinda Shee	WBVC/3606/15	Vill- Barandala,PO- Kanpur, P.S - Monteswar,Dt- Bardhaman-713422,West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	14.05.1992
2419	Santanu Ghorai/ Sh Sakti Pada Ghorai	WBVC/3607/15	Vill. Abash, P.O Abash,Dist-Paschim Medinipur-721652, West.Bangal..	BVSc&AH/WBUAFS/2015	01.08.1992
2420	Rahul Tudu/ Sh Dwijendra Nath Tudu	WBVC/3608/15	Vill.Domjuri,P.O Aguibil,P.S Boro, Dist--Puruli.- 723129, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	08.04.1992
2421	Palash Biswas/ Sh Baidya Nath Biswas	WBVC/3609/15	Vill- Mashra, PO- Tatla, P.S-Chakdaha, Dt-Nadia-741222,West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	26.02.1989
2422	Sekh Yasin/ Sh Sekh Jamal Baks Ali	WBVC/3610/15	K-35, Meghnad Saha Palli, Vill-Krishnapur,PO- Rajbati, Dt-Burdwan-713104, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	01.03.1993
2423	Papia Biswas/Sh Prabhash Chandra Biswas	WBVC/3611/15	Vill&PO-Rasakhowa,P.S-Karandighi,Dt-Uttar Dinajpur, Pin-733201,West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	17.06.1989
2424	Santu Pahan/ Sh Jagdish Pahan	WBVC/3612/15	Uttargobindapur,PO&P.S-Kakwip,Dt-South 24 Parganas, Pin-743347,West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	17.02.1991

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2425	Indranil Pahari /Sh Bhakti Pada Pahari	WBVC/3613/15	G-4, Pradhan Apartment, Station Road, Keranitola, Midnapore Town, Dist West Midnapore-721101, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	24.07.1992
2426	Aniruddha Banerjee /Sh Monotosh Banerjee	WBVC/3614/15	Prodyoth Nagar, Dharma PO, Midnapore H.P.O, Dist-Paschim Medinipur-721101, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	21.11.1989
2427	Malay Das/Sh Nil Madhab Das	WBVC/3615/15	52/5/1 Shree Ram Dhang Road, Salkia P.S. Malipanchghore, Dist-Howrah-711106, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	05.11.1991
2428	Abhradip Majumdar /Sh Amal Kumar Majumdar	WBVC/3616/15	9, Woozir Chowdhury Road, P.S Ultadanga, Daspore, PO-Ultadanga, Kolkata-700067, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	24.03.1991
2429	Sayantam Sarkar/ Sh Hirendranath Sarkar	WBVC/3617/15	Newtown, Harishava By Lane, PO&Dist-Coochbehar-736101, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	17.02.1991
2430	Md. Aziz Shaikh/Sh Md. Babul SK	WBVC/3618/15	Vill-Gobindapur, PO-Purandarapur, P.S-Kandi, Dt-Murshidabad-742171, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	11.01.1991
2431	Anuj Kumar Yadav/Sh Kuldip Prasad Yadav	WBVC/3619/15	Shyam Sundarpur Colliery, East Shitalpur, PO-Ukhra, P.S Andal, Dt-Burdwan-713363, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	25.02.1987
2432	Sagun Saren/ Sh Purna Chandra Saren	WBVC/3620/15	Sidhu Kanu Pally, Nimtar, Ward No-5, P.S.Purulia Town, PO&Dt-Purulia-723101, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	02.05.1993
2433	Manorama Saha /Sh Bidyut Saha	WBVC/3621/15	Rampur, Manohartala, PO&Dt-Bankura -722101, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	16.10.1991
2434	Dipanjana Jana / Sh Dipak Kumar Jana	WBVC/3622/15	Vill-Basantapur, PO-Chenchua, Gobindanagar, Dt-Paschim, Medinipur-721146, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	07.03.1992
2435	Supriya Bhattacharya/Sh Pravati Bhattacharya	WBVC/3623/15	Vill&PO-Harirampur, P.S-Daspur, S.D. Ghatal, Dt-Paschim Medinipur-721211, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	25.08.1990
2436	Raya Sarkar/Sh Ranjit Kumar Sarkar	WBVC/3624/15	Munsef Para, Basirhat -Dt, North 24, Parganas -743411, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	06.05.1992
2437	Pritam Sarkar/Sh Parimal Sarkar	WBVC/3625/15	C/o Monotosh Talukder, Guru Saday Dutta Road, Bharat Nagar(N), PO- Rabindra Sarani, Siliguri, Dt- Darjeeling-734006, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	27.03.1991
2438	Krishnendu Paul/ Sh Kuran Chandra Paul	WBVC/3626/15	C/o K.C. Paul, Nibedita Palli, Ward No.-1, PO-Suri, Dt-Birbhum, Pin-731101, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	03.10.1991
2439	Sutrishna Basu/ Sh Sukumar Basu	WBVC/3627/15	Vill&PO-Saktigarh, Dist-Burdwan, Pin-713149, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	20.02.1991
2440	Satyaki Chakraborty/Sh Subhasish Chakraborty	WBVC/3628/15	Vill -Nurullapur, PO-Dakshin Barasat, P.S.-Joynagar, Dt-South 24 Parganas -743372, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	26.01.1992
2441	Lamella Ojha/Sh Dr.Prakash Ranjan Ojha	WBVC/3629/15	23/29, Einstein Avenue, B-Zone, Durgapur-5, Dist Burdwan, Pin-713205, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	27.04.1991
2442	Rudraprasad Sengupta/Sh Tapan Sengupta	WBVC/3630/15	G/A Panchanan Apartment, Manikpur, Midnapur, Kottwali, Dt-Paschim, Midnapur-721101, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	04.03.1991
2443	Achinta Mahato/Sh Braja Kishore Mahato	WBVC/3631/15	Bhatbandh Para, Wilcox Road, Ward No.-4, Dt-Purulia-	BVSc&AH/WBUAFS/2015	03.03.1991

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
			723101, West Bengal		
2444	Bipasa Tripathy/Sh Sasanka Sekhar Tripathy	WBVC/3632/15	A-9/92, Kalyani, Dt-Nadia, Pin-741235, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	28.11.1991
2445	Rama Maity/Sh Hrisheikesh Maity	WBVC/3633/15	Vill - Tengramari, PO- Bodhra Ramangar, Dt- Purba, Medinipur - 721423, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	25.04.1992
2446	Kshounee Khan/ Sh Prithwish Khan	WBVC/3634/15	Vill-Kharkibarah, PO- Contai, Dt- Purba, Medinipur, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	20.05.1992
2447	Geetanjali Thapa/Sh Surya Kumar Thapa	WBVC/3635/15	T.N.Road, Nava Bikash Gram, Uppar Toongsoong, Dt- Darjeeling, Pin-734101, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	14.11.1991
2448	Ajuswita Deb Roy/Sh Sri Prabir Kr Debroy	WBVC/3636/15	Vijoy Complex, Flat No. W/A 3rd Floor, East Station Road, Agarpara, Kolkata-700109, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	09.06.1991
2449	Gourab Samanta/Sh Gautam Samanta	WBVC/3637/15	56, Narasingha Avenue, Kolkata-700074, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	30.07.1991
2450	Mitam Kumar Haldar/Sh Jhantu Kumar Haldar	WBVC/3638/15	Vill-Indranagar, PO-Dafahat, Dt- Murshidabad-742224, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	26.02.1991
2451	Mainak Dey/ Sh Babul Krishna Dey	WBVC/3639/15	34/2E, J.K. Mitra Road, Kolkata-700037, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	08.07.1990
2452	Shrabani Mukerjee/Sh Durga Pada Mukherjee	WBVC/3640/15	Doltala-Pathakpara, PO&Dist-Bankura, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	05.08.1988
2453	Amit Kumar Patra/Sh Jugal Patra	WBVC/3641/15	74 B, Amherest Row, Kolkata-700009, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	25.03.1990
2454	Jishu Mandi/Sh Sambhu Nath Mandi	WBVC/3642/15	Vill-Bamda, PO- Jhargram, Dt- Paschim Medinipur, Pin-721507, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	25.12.1990
2455	Himadri Bouri/Sh Pasupati Bouri	WBVC/3643/15	Deshbandhu Road Byelane, Shive Colony, Dt-Purulia -723101, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	01.03.1993
2456	Subhasis Naskar/Sh Sundar Naskar	WBVC/3644/15	Purbagabatala, 36 No. Hat, Kultali, Dt-South 24 Parganas-743338, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	14.03.1987
2457	Arunava Saha/Sh Ajit Kumar Saha	WBVC/3645/15	Vivekananda Street, Near Old Housing P.S.Kotwali, PO&Dt-Cooch Behar-736101, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2015	16.11.1991
2458	Srijita Ghosh/ Mr.Sankar Mukherjee	WBVC/3646/15	Sharon, Pearson Palli, Santiniketan, Dt-Birbhum-731235, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2012	10.10.1984
2459	Hiralal Bachhar/Sh Banshi Chandra Bachhar	WBVC/3647/15	Astana Road, PO&P.S- Basirhat, Dt- North 24 Parganas -743411, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/2013	14.04.1988
2460	Bontina G. Momin/Sri Donush M. Sangma	MeghSVC/326/15	Sampalgre Tura, West Garo Hills, Meghalaya-794002	BVSc&AH/CAU/2015	09.01.1989
2461	Saljrang G.Momin/Sri Emanuel W. Marak	MeghSVC/327/15	Lower Wadanang, West Garo Hills, Tura-794002, Meghalaya	BVSc&AH/CAU/2015	24.10.1990
2462	Carius Passah/Sri Raplang Langbang	MeghSVC/328/15	New Hill Jowai, West Jaintia Hills-793150, Meghalaya	BVSc&AH/CAU/2015	10.06.1989
2463	Seiboklang Buam/Sri Paila Khonghat	MeghSVC/329/15	Muktapur, West Jaintia-793109, Meghalaya	BVSc&AH/CAU/2015	03.08.1991
2464	Liliana Basalchi G.Momin/Sri Liush Lulu Ch Sangma	MeghSVC/330/15	Tura, West Garo Hills-794002, Meghalaya	BVSc&AH/CAU/2015	09.09.1989

S. No.	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2465	Rhianon Sanera M Sangma/Sri Jeffrey D Sangma	MeghSVC/331/15	Tura, West Garo Hills-794002, Meghalaya	BVSc&AH/CAU/2015	08.12.1992
2466	Bicky Sengchon A.Sangma/Sri Lenash K Marak	MeghSVC/332/15	Matchakolgre, Tura-794001, Meghalaya	BVSc&AH/CAU/2015	26.04.1993
2467	Shanky Synnah/Sri Kmaibait Suchiang	MeghSVC/333/15	Nongkynrih Village, West Jaintia-793150, Meghalaya	BVSc&AH/CAU/2015	26.12.1990
2468	Apborlang M. Umlong/Sri Louis Warlarpih	MeghSVC/334/15	Mawlai Umthlong Shillong-793017, East Khasi Hills District, Meghalaya	BVSc&AH/CAU/2015	15.04.1992
2469	Henkyl R. Marak/ Sri Clement B.Sangma	MeghSVC/335/15	Williamnagar-794111, East Garo Hills, Meghalaya	BVSc&AH/AAU/2015	25.05.1992
2470	Edoracia T. Chen/Sri K.Kharlor	MeghSVC/336/15	Jaiaw Lansonalane, Shillong-793002, Meghalaya	BVSc&AH/AAU/2015	12.03.1993
2471	Sengbasal A Sangma/Sri Ninedrickson D Sangma	MeghSVC/337/15	Chitoktak, Tura-794002, Meghalaya	BVSc&AH/AAU/2015	13.12.1991
2472	Fertile Crystal G. Diengdoh/Sri Cherish Starfield Thangkhiew	MeghSVC/338/15	Kynton Massar, Mawlai-793022, Meghalaya	BVSc&AH/AAU/2015	09.04.1992
2473	Pringchira K. Sangma/Sri Thringson G. Momin	MeghSVC/339/15	Pynthorumkhrah, Shillong-793001, Meghalaya	BVSc&AH/AAU/2015	28.10.1989
2474	Uttam Tamo Ch. Sangma/ Sri Protush G.Marak	MeghSVC/340/15	Barengapara, West Garo Hills-794103, Meghalaya	BVSc&AH/AAU/2015	14.03.1993